



विषय.	श्लोक.	पृष्ठ.
सप्तमभावफल ...	३०	४३
अष्टमभावफल ...	३१	"
नवमभावफल ...	३२	"
दशमभावफल ...	३३	"
एकादशभावफल ...	३४	"
द्वयभावफल ...	३५	४४
शत्रुमित्रादिजन्यफल ...	३६	"
आधानलग्नसिजन्मलग्न ...	३८	"
कन्यापुत्रजन्म ...	४०	"
पंडाकृतिजन्म ...	४१	"
प्रमलजन्म ...	४२	४५
नादोत्पन्नसर्पनालवेष्टितादियोग ...	४३	"
पशुनपुंसकचतुष्पदादिजन्मयोग ...	४४	४६
विद्योनिजन्मयोग ...	४५	"
पशुजन्मयोग ...	४६	"
नपुंसकजन्मयोग ...	४७	"
६ नपुंसकयोग ...	४८	"
संस्कारहीनयोग ...	४९	४७
द्विद्वारगृहनीचगृहजन्मयोग ...	५०	"
गृहद्वारनिर्णय ...	५०	"
उपसूतिका ...	५१	"
उपसूतिकाकीजाति ...	५२	४८
सूतिकागृहमेंदीपविचार ...	५३	"
लग्नभाविचार ...	५४	"
देहसौख्ययोग ...	५५	४९
विश्वर्षयोग ...	५६	"
रोगीनिरोधीयोग ...	५७	"
दिग्दुर्बलादियोग ...	५८	"
उगत्वारभीतियोग ...	५९	"
शिरोत्रणीयोग ...	६०	५०
देहकृशत्वयोग ...	६१	"
शरीरस्थूलयोग ...	६२	५१
पिशाचबाधायोग ...	६३	"
संचलनयोग ...	६४	५२
परदेशमें भाषाद्ययोग ...	६५	"
स्वदेशमें भाषाद्ययोग ...	६६	"
बाल्यादिमरणान्तसुखयोग ...	६७	"
आदिमें सुखायोग ...	६८	"
मध्यावस्थासुखीयोग ...	६९	५३
श्रीपुत्रादिसुखमध्यांतावस्थासुख ...	७०	"
सत्कीर्तियोग ...	७१	"
दुःकीर्तियोग ...	७२	"

विषय	श्लोक.
पूर्वार्धपरार्धदुःखयोग ... ..	१०५
सद्भाग्यादियोग ... ..	१०६
ऐश्वर्यसहितदीर्घायुयोग ... ..	१०७
परमायुयोग ... ..	१०८
युगांतादिभाग्यु ... ..	१११
सुखमिलनेकीभवस्था ... ..	११४

## तृतीयोध्यायः ३.

धनभावमेंसुरआदिकाविचार ... ..	१
अस्थिभंगयोग ... ..	२
नेत्रनाशयोग ... ..	३
कुटुम्बरक्षकयोग ... ..	१३
सुरसेआजीवनाभावयोग ... ..	१६
राजयोग ... ..	१७
जनार्धाशयोग ... ..	१८
सुमुखयोग ... ..	२५
दुमुखयोग ... ..	२७
वाक्पट्टयोग ... ..	२८
मूक ( गूंगा ) योग ... ..	३०
वाचालयोग ... ..	३१
जडयोग ... ..	३४
ज्योतिषज्ञयोग ... ..	३५
गणितज्ञयोग ... ..	३६
न्यायशास्त्रज्ञयोग ... ..	४०
व्याकरणज्ञयोग ... ..	४१
वेदान्तज्ञयोग ... ..	४३
पट्टशास्त्रज्ञयोग ... ..	४५
उपहासकयोग ... ..	४७
वेदज्ञयोग ... ..	४८
धनलाभयोग ... ..	५०
बाल्यावस्थामेधनलाभयोग ... ..	५३
निधिभादिलाभयोग ... ..	५४
अपनेपराक्रमसेधनलाभ ... ..	५५
धनागमकीभवस्था ... ..	५७
भ्रातृधनयोग ... ..	५९
अनेकभकारधनलाभयोग ... ..	६१
माताभादिसेधनयोग ... ..	६३
पुत्रसेधनयोग ... ..	६५
पितासेधनयोग ... ..	६८
धननाशकेकारण ... ..	७०
राजदंडसेधनक्षय ... ..	७३
चौराग्निराजासेधननाशयोग ... ..	७७
धनहीनयोग ... ..	८०

विषय.	श्लोक.	पृष्ठ.
सर्वनाशयोग	८७	६८
सद्योपनीयोग	८९	"
धनसंख्या	९०	"
ऋणदातृयोग	१०७	७०
ऋणप्रस्तयोग	१०९	"
दंतपतनदंतयोग	११३	७१
प्रमाद ( पागल ) योग	११५	"
तालुरोगयोग	११६	"
नेत्रनाशयोग	११७	"
नेत्रानवधानयोग	११८	७२
कर्णविच्छेदयोग	१२०	"
सौम्यादिपात्रयोग	१२१	"
कञ्चोपदेनात्रयोग	१२९	७३
बहुतपोडाभोजनयोग	१३१	७४
सुखभोजीयोग	१३४	"
भ्रजदादयोग	१३५	"
रुचिभोगीयोग	१४०	७५
परात्रभ्राद्वाद्यादियोग	१४१	"
कुभोजीयोग	१४३	"
विरभोक्तादृष्ययोग	१४५	"
स्फोटाम्नेभीतियोग	१४६	"
रुधिररोगयोग	१४७	७६
कुत्तकीभययोग	१४८	"
कदन्नभोजीसपभययोग	१४९	"
निधिलाभवाञ्चलन	१५१	"
हकला ( वाक्चलन ) योग	१५२	"
ठगजहरआदियोग	१५३	७७

चतुर्थोऽध्यायः ४.

तीसरेभावमेविचारणीय	१	"
भ्रातृनाशयोग	२	"
भ्रातृलाभभ्रातृवृद्धियोग	१५	७९
भाइयोके सायराजुतामित्रताभादि	२४	८०
भाइवाहिनके योग	२५	"
भाइयोकी संख्या	२७	"
धीरपराक्रमीयोग	३०	८१
मुद्धमेपहिलेदृढ	३४	"
मुद्धमेअनभिज्ञ	३६	"
मुद्धमेप्रवीण	३८	८२
सात्विकवृद्धियोग	४०	"
कलहमवीणयोग	४१	"
बाहरदृढमनमेकातरयोग	४२	"
चतुष्पद्वसर्पादिभीतियोग	४३	८३



विषय.	श्लोक.	पृष्ठ.
विषभक्षणयोग ...	...	४५
सुपात्रभोक्तायोग ...	...	४६
कंठनेत्रकर्णरोगयोग ...	...	४७
कर्णभूषणयोग ...	...	५०
शुभाशुभकथाश्रवणयोग ...	...	५३
<b>अथचतुर्थभावफलाऽध्यायः ४.</b>		
भावसंबन्धिविचार ...	...	५४
गृहलाभयोग ..	...	५५
उत्तमगृहयोग ...	...	५६
गहनाशयोग ...	...	६३
बंधुपूज्ययोग ...	...	६४
बंधूपकारीयोग ...	...	६६
बंधुत्पक्तयोग ...	...	६८
बंधुभयकारीयोग ...	...	७०
बंधूपकारीयोग ...	...	७२
बंधुद्वेषीयोग ...	...	७३
बंधुपूज्ययोग ...	...	७४
बहुगृहयोग ...	...	७५
गृहस्थिरतायोग ...	...	७६
बहुक्षेत्रयोग ...	...	७९
भ्रातृक्षेत्रयोग ...	...	८३
स्वबलक्षेत्रप्राप्ति ...	...	८५
स्त्रीसे खेतीकी प्राप्ति ...	...	८६
शत्रुसे खेती ...	...	८७
बहुक्षेत्रयोग ...	...	८८
भूमिनाशयोग ...	...	९०
सुखीयोग ...	...	९७
गृहहीनदुःखीयोग ...	...	१०४
पापीयोग ...	...	१०५
पुण्यभोगीयोग ...	...	१०८
जलमग्नयोग ...	...	११०
पत्थरसे चोट ...	...	१११
मातृगामीयोग ...	...	११५
मातृतुल्यस्त्रीगमनयोग ...	...	११७
माताका जारिणीयोग ...	...	१२१
खारजातयोग ...	...	१२६
मातृदीर्घायुयोग ...	...	१३०
मातृमरणकाल ...	...	१३३
मनमं कपटयोग ...	...	१३९
त्रिष्कपटयोग ...	...	१४३
शुद्धचित्तयोग ...	...	१४६
अंतःकपटबाह्यशुद्धयोग ...	...	१४७

विषय.	खोरु	पृष्ठ.
मातृश्रेष्ठशत्रुतादियोग	१४८	०७
षाहनयोग	१५२	"
सिंहासनप्राप्तियोग	१५६	९८
षाहनेशयोग	१५८	"

पंचमोऽध्यायः ५.

पंचमभावमंविचारणीय	१	१०२
पितृधनपुत्रलाभयोग	३	"
पुत्रनाशयोग	१५	१०३
पुत्रसिद्धियोग	१९	१०४
वंशविच्छेदयोग	२२	"
पुत्रसुखहातियोग	२९	१०५
बढीउमरमेंपुत्रयोग	३०	"
तीव्रबुद्धियोग	३३	१०६
धारणपटुयोग	३९	१०७
परंगितवृत्तयोग	४२	"
बुद्धिनाशयोग	४५	"
विस्मृतियोग	४६	"
बुद्धिदातायोग	४९	१०८
राममन्त्रीयोग	५०	"
भविष्यज्ञयोग	५२	"
त्रिकाळज्ञयोग	५३	"
सुपुत्रजननयोग	५४	"
कन्यानपुंसकादियोग	५५	"
पुत्रसंमित्रताभादि...	५८	१०९
पितृसेवायोग	६३	"
भद्रदातायोग	६४	"
हृदयरोगयोग	६५	"

अथ षष्ठभावः ।

छत्रेभावमंविचारणीय	१	११०
व्रणयोग	३	"
रोगकेअम	४	"
कुष्ठादिरोगयोग	५	"
ज्वरगुल्मादिरोगयोग	९	१११
लिंगच्छेदपंढयोग	११	"
हस्तपादादिछेदनयोग	१५	११२
वामनयोग	२१	११३
दुर्मरणादियोग	२२	"
युद्धमेंमरणयोग	२६	"
सद्योमरणयोग	२९	११४
पित्तवातादिसंव्रणयो०	३२	"
विसपेक्षयादिरोगयोग	३६	"



विषय,

	श्लोक.	पृष्ठ.
अपनीसेछाकीउच्चजाति	६९	१२७
संबंधियोंसेमित्रतावशज्ञता	७३	१२८
सुगुणादुर्गुणास्त्रीयोग	७६	"
स्त्रीकेपुत्रयोग	७८	"
बंध्याभादिकुस्त्रीसंयोग	८०	१२९
स्थाननिरूपण	८३	"
पशुतुल्यमैथुनयोग	८७	"
भगवुम्भनयोग	८८	"
स्तनलक्षणयोग	९३	१३०
भगदीर्घह्रस्वादियोग	९६	"
सूपादिभोजीयोग	१०५	"
दुग्धादिपायीयोग	११०	१३३
मूत्रकृच्छ्रयोग	११२	"

सप्तमोध्यायः ७.

अष्टमभावमें विचारणीय	१	१३३
अल्पायुयोग	२	"
दीर्घायुयोग	३	"
अल्पायुवाअनपत्ययोग	१६	१३४
मध्यमायुयोग	२१	१३५
रणादिशस्त्रादिसेमरणयोग	२६	१३६
अजीर्णसेमरणयोग	२८	"
विषोर्बंधनसिद्धादिसेमरणयोग	३१	"
पितामाताकासहमरणयोग	३४	१३७
अपस्मारपिशाचादिसेमरणयोग	३५	"
मातुल मातापिताभादिकामरण	३९	"
बालकमरणभ्रातृमातुलमरणयोग	४०	१३८
भ्रातृनाशयोग	४३	"
बाळकमृत्युयोग	४४	"
कार्णांधयोग	४७	१३९
मातापितामरणयोग	४९	"
मातृदुग्धरहितयोग	५०	"
पुत्रसुखासुखयोग	५१	"
जन्ममें पिताकी दूरस्थमीपता	५४	१४०
पुत्रकेहाथसेदाहादिनहोना	५५	"
मातृधिपत्तियोग	५६	"
गुह्यरोगयोग	५७	"
स्थूलात्रमृद्वत्रयोग	५८	"
तिरस्कृतयोग	५९	"
दूरदेशमरणयोग	६०	"
गृह्णामिवामरणयोग	६१	१४१

विषय.	श्लोक.
नवमभावमंत्रिचारणीय	१
गुरुद्वारगामियोग	३
धर्ममददृष्टियोग	६
दंभसेधर्मयोग....	९
पापीयोग	११
पितृसौख्ययोग	१३
पितृदुःखयोग	१७
पितृसुखयोग	२०
श्रेष्ठता ऐश्वर्यादियोग	२८
भ्रातृपुत्रादिसेधनादियोग	३०
स्त्रीतयाशत्रुभादिसेऐश्वर्य	३३
भाग्यदीनयोग	३५
पुनर्भाग्ययोग	३७
जपध्यानसमाधियोग	४०
दानीयोग	४३
दानाधपक्षयोग	४९
दानप्रादीयोग	५२
गुरुभक्तियोग	५५

## अष्टमोध्यायः ८.

दशमभावमंत्रिचारणीय	१
कर्माधिकारयोग	३
यज्ञकारकयोग	३
कर्मनाशयोग	११
गंगास्नानयोग	१६
भद्रपधर्मशास्त्रायोग	८
जिनिर्द्धारकाद्ययोग	९
कृपाधिकारकयोग	१०
यज्ञयज्ञयोग	११
यज्ञमिषयज्ञयज्ञयोग	१३
भाषावर्णयोग	१५
परिर्तिमयोग	२०
अपकीर्तियोग	२५
दुःखयोग	२६
दुःखतपयोग	२७
मानदीनयोग	२८
भाषयोग	२९
दासशास्त्रीयोग	३०
दुर्बलज्ञानयोग	३३
दुर्बलज्ञानयोग	३३



विषय.	श्लो.	पृष्ठ.
कुलनाशकाल्पायुर्भिक्षुयोग	१६	१६६
अपवादीभिदाशनी	१७	"
अपस्मारियोग	१८	१६७
चाण्डालयोगधर्मच्युतयोग	२०	"
कुलत्रयोग	२२	"
नीचवृत्तियोग	२५	१६८
राजयोगभंग	२९	"
परप्रेष्ययोग	३१	१६९
बंधनयोग	३३	"
मन्दनेत्रबंधयोग	३३	"
जातिच्युतयोग	३५	"
कुट्टीयोग	३६	"
शुल्मादिरोग	३७	"
हृद्रोगयोग	४०	१७०
भार्यहीनयोग	४१	"
ज्ञानधनहीनयोग	४२	"
प्रात्ययोग	४३	"
घाहनभोक्तियोग	४४	"
विस्तारिकयोग	४५	१७१
घाटघातियोग	४७	"
मत्तप्रपत्तादियोग	"	"
मृगपक्षिहृत्योग	४९	"
मदरोधमेमृत्युयोग	५०	"
नेत्रनाशयोग	"	"
परमं कृकृत्वास्तभययोग	५१	"
मनुष्पांकापतिरय	५३	१७२
रजरयच्छायंपागमन	५५	"
हीनांगनामादिगमन	५५	"
गमनविहास्त्वान	५७	"
पश्चादिर्मृत्युयोग	५८	१७३
रगनक्षत्रयोग	६०	"
शोभादिपर	६१	"

## अथ द्वादशमाध्यायः १०.

भस्वरभाषेणमायु...	७	१७४
तानमत्रावशादमायु	४	"
नयतिशयुभिर्णव	१०	१७५
दशयमेमृत्युद्वयवि	११	"
शातिर्मपिगदागपियार	१६	"
मृत्युधर्मपरभायु	१८	१७६
मृत्युधर्मपरयोग	२०	"
मृत्युधर्मयु	२१	१७७
भाषाभाषित्युयोग	२४	"
तादवर्षमंमृत्युयोग	३३	१७८

विषय.	श्लोक.	पृष्ठ.
मासादिभाषुयोग	४०	१७९
शीघ्रमरणयोग	४१	"
सातपांचआदिवर्षमंमृ.	५६	१८१
ग्यारहवर्षमंमृत्युयोग	५८	"
सातवर्षतथा ३१४मं मृ०	५९	"
द्वादशादिवर्षमंरणयोग	६४	१८२
१८।१०आदिवर्षमंमृत्यु	७४	१८३
३० वर्षमंमृत्युयोग	८१	१८४
<b>अभारिष्टभंगाध्यायः ११</b>		
भरिष्टभंगयोगाः	१	१८५
<b>अथ मध्यदीर्घयोगाध्यायः १२</b>		
३३ वर्षायुयोग	३	१८९
३७।४२।४४ वर्षमृ०	५	१९०
४४ वर्षायुयोग	८	"
राजयोगसहित४८ वर्षायुयोग	११	१९१
यंदांतज्ञ० ५२ व० भा०	१३	"
५८ वर्षायु	१३	"
शास्त्र ६० व० भा.	१५	"
कुलाशकाग्निमरणयोग	१५	"
राजयोगसहित६०वर्षायु	१६	"
राजयोगसहित ६८व० आयु	२०	१९२
धनवान् ६६ वर्षायु	२१	"
तानियोग ६५ वर्षायु	२३	"
" " ७० वर्षायु	"	"
दीर्घायुयोगकथन	२५	१०३
७० से अधिकायु	"	"
८० वर्षायु	२८	"
४० वर्षवर्षतो राजपरसुग	३१	"
दीर्घसहितदीर्घायु	३०	१९४
राजतुल्यदीर्घायु	३६	"
नितन्द्रियदीर्घायु	३७	१०७
शतायुर्षांगाः	३८	"
परमायु १३० योग	४५	"
अमितायुर्षांग	७३	१९६
सहस्रायुर्षांग	७३	१९७
द्विसहस्रायुर्षांग	७५	"
इंद्रपदयोग	७७	"
सुगतायुर्षांग	७७	"
सहस्रवर्षयोग	६३	१०८
असंख्यायुर्षांग	६५	"
सहस्रवर्षयोग	६८	"
सुगतायुर्षांग	७१	१९९
असुतादिभाषुर्षांग	७५	"



विषय.	श्लोक.	पृष्ठ.
मुनितुल्ययोग ... ..	७७	१
देवतुल्ययोग ... ..	७८	"
असंख्याद्वययोग ... ..	८०	२००
मुनितुल्ययोग ... ..	८१	"

## अथ त्रयोदशोऽध्यायः १३.

दीप्तादिदशाकथन ... ..	१	२०१
दीप्तप्रहफल ... ..	५	"
स्वस्थ ... ..	७	"
मुदित ... ..	८	"
शांत ... ..	९	२०२
हीन ... ..	१०	"
भक्तिदुःखित ... ..	११	"
विकल ... ..	१२	"
खल ... ..	१३	"
कोपी ... ..	१४	"

## अथ दशाफलविचारः ।

तत्रादौरवेःपरमोच्चदशाफल ... ..	१	२०३
उच्चदशाफल ... ..	२	"
भारोद्दिशाफल .. ..	४	"
धवरोर्हादशाफल ... ..	५	"
नीचस्थितदशाफल ... ..	६	"
अत्यन्तनीचगतफल ... ..	७	"
मूलत्रिकोणगतद०फल ... ..	८	२०४
स्वक्षेत्रगतफल ... ..	९	"
अधिशत्रुगतफल ... ..	१०	"
शत्रुराशिगतफल ... ..	११	"
मित्रराशिगतफल ... ..	१२	"
स्वगृहगतफल ... ..	१३	"
समराशिगतफल .. ..	१४	२०५
उच्चगतप्रहयुक्तदशाफल ... ..	१५	"
नीचगतप्रहयुक्तदशाफल ... ..	१६	"
पापयुक्तदशाफल ... ..	१७	"
शुभयुक्तदशाफल ... ..	१८	"
शुभवीक्षितदशाफल ... ..	१९	"
पापवीक्षितदशाफल ... ..	२०	"
केन्द्रगतसूर्यदशाफल ... ..	२१	२०६
त्रिकोणगतद०फल ... ..	२२	"
दशांशगतद०फल ... ..	२३	"
नीचांशगतद०फल ... ..	२४	"
दशाभाष्यतादिक० ... ..	२५	"
षटस्थद०फल ... ..	२६	"
अष्टमस्थद०फल ... ..	२७	"
द्वादशगतद०फल ... ..	२८	२०७

विषय.	श्लो.	पृ.
धनगतद०फ० ...	३९	२०७
तृतापगतद०फ० ...	३०	"
चतुर्थगतद०फ० ...	३१	"
सप्तमगतद०फ० ...	३२	"
दशमगतद०फ० ...	३३	"
एकादशगतद०फ० ...	३४	२०८
स्थानबलीद०फ० ...	३५	"
स्थानबलीहीनद०फ० ...	३७	"
द्विर्घायद०फ० ....	३८	"
द्विषलहीनद०फ० ...	३९	"
निसर्गबलीद०फ० ...	४०	२०९
चेष्टाबलीद०फ० ..	४१	"
दृष्टिबलपुतद०फ० ...	४२	"
भ्रूणपटचंशगतद०फ० ...	४३	"
मृदंशादिगतद०फ० ...	४४	"
पारावताचंशगतद०फ० ...	४५	"
मथमांत्यकलविचार ...	४६	"
संश्लेषकाणगतद०फ० ...	४७	२१०
उच्चराशिनीचांशकगतद०फ० ...	४८	"
नीचराशिउच्चाराकफ० ...	४९	"
भयचंद्रस्वरमोच्चादि- गतदशाफलानि १ श्लोकसे ४५ पर्यंत	...	"

अथ चतुर्दशोध्यायः १४.

भौमस्वरमोच्चादिदशाफलानि श्लो० १ से ४८ पर्यंत ...	२१७
भयपुष्पस्वरमोच्चादिदशाफलानि श्लो० १ से ४८ पर्यंत ...	२२३

अथ पंचदशोध्यायः १५.

गुरोःपरमोच्चादिगतदशाफलानि श्लो० १ से ४७ पर्यंत ...	२३०
भय शुक्रस्य परमोच्चादिगतदशाफलानि ४४ श्लोकैः ...	२१६
भयशनिदशायांपरमोच्चादिगतदशाफलानि ४५ श्लोकैः ...	२४२

अथ षोडशोध्यायः १६.

राहुदशाफलानि २८ श्लोकैः ...	२४८
राहोपशानीयादि ...	"
राहोदशादिगतदशाफलानि ...	"
पेनुदशाफलानि १८ श्लोकैः ...	२५१
अपीतदशाफलानि ...	"
तत्राशुगुरुपयोनोत्तदशाफलानि १० श्लोकैः ...	२५३
गुरुपयोनोत्तदशा ३७ श्लोकैः ...	२५५
शुक्रान्तदशा ३४ श्लोकैः ...	...

विषय.	श्लोक.	पृष्ठ.
भौमान्तर्दशाफलं २१ श्लोकैः	...	२६२
राहोरन्तर्दशाफलं १९ श्लोकैः	...	२६४
जीवान्तर्दशाफलं २१ श्लोकैः	...	२६६
शनेरन्तर्दशाफलं १७ श्लोकैः	...	२६८
बुधान्तर्दशाफलं २० श्लोकैः	...	२७०
केत्वन्तर्दशाफलं २० श्लोकैः	...	२७२
शुकान्तर्दशाफलं २० श्लोकैः	...	२७४
<b>अथ प्रकीर्णाध्यायः १७.</b>		
जन्मनक्षत्रक्षयवृद्धिफल	...	१ २७६
क्षयादिरोगयोग...	...	३ २७७
स्त्रीनाशयोग	...	४ ११
मूर्खेन्द्रपीडादि	...	५ ११
भ्रूपायुयोग	...	६ ११
बाल्येमात्रादेर्दानिः	...	७ ११
अंगहानियोग	...	८ ११
सफलराजयोग	...	९ ११
राजयोग	...	१० ११
खगादिद्रेष्काणकथन	...	१२ २७८
ग्रहोंकीशुष्कार्द्रसंज्ञा	...	१३ ११
सजलनिर्जलराशिकथन	...	१४ ११
<b>उपसंहाराध्यायः १८.</b>		
ग्रहताराकथन	...	१ ११
बाधत्वकथन	...	२ २७९
कारकग्रहलग्नसे०	...	३ ११
कारकसूत्रकथन...	...	४ ११
भाषाकारश्लोकाः	...	५ ११

**इत्यनुक्रमणिका समाप्ता ।**



॥ श्रीः ॥


# सर्वार्थचिन्तामणिः ।

भाषाटीकासहितः ।



श्रीनाथं परदेवतां गणपतिं नत्वार्भकज्ञानदां  
सद्भाषाविवृतिं तनोति सरलां सर्वार्थचिन्तामणेः ॥  
टीहर्ष्या निवसन्महीधरधरादेवः स्वबुद्ध्याल्पया—  
ऽटीकत्वादाखिलोपयोगरहितत्वादेव गाढश्रमः ॥ १ ॥

टीकाकार ग्रन्थादिभेदं विप्रविषातार्थं प्रणामरूप मंगलाचरण करताहै कि, अपने गुरु श्रीनाथ एवं परम इष्ट देवता और गणेशको नमस्कार करके बालक अर्थात् इस शास्त्रके अर्थसे अनभिज्ञोंको इसका ज्ञान देनेवाली, टीका टिप्पणी न होनेके कारण सर्वसाधारणको लाभदायक न होनेसे टीहरी ( राजधानी ) निवासी महीधरशर्मा बड़े परिश्रमपूर्वक अपनी अल्प बुद्धिके अनुसार सर्वार्थचिन्तामणिनामक ग्रन्थकी सरलार्थ भाषाटीका करता है ॥ १ ॥



श्रीमच्छेषगिरेस्तटाधिनिलयं श्रीवेङ्कटेशं गुरुं  
नत्वा वेङ्कटनायकं त्वनुदिनं जातोहमार्यात्सुधीः ॥  
ज्योतिःशास्त्रमहाविधपारगमने वक्ष्यामि पोतात्मकं  
ज्योतिःशास्त्रविवेकपाकाविदुषां सर्वार्थचिन्तामणिम् ॥ १ ॥

ग्रन्थकर्ता व्यंकटशर्मा निर्विघ्नपूर्वक ग्रन्थसमाप्त्यर्थं मंगलाचरण करताहै कि, श्रीमान् शेषा-  
।द्रेके तटपर निवास करनेवाले श्रीवेंकटेश्वर भगवान्को तथा जिस श्रेष्ठ गुरुसे मैं व्यंकटशर्मा  
पण्डित भयाहूँ ऐसे वेंकटनायक गुरुको प्रतिदिन नमस्कार करके ज्योतिःशास्त्रविचारका  
परीषाक ( फल ) जाननेवाले विद्वानोंको ज्योतिःशास्त्ररूपी महासमुद्रके पार पहुँचनेके वास्ते  
इस सर्वार्थचिन्तामणि नाम ग्रंथको जहानरूप कहताहूँ ॥ १ ॥

नीलांबुजरुचिं देवं सकृद्यांति मनोरथम् ॥ देवाः प्रणम्य यं सर्वं  
तं नमामि गजाननम् ॥ २ ॥ वाग्बिभृतिप्रदा देवी या श्वेतांबुरु-  
हस्थिता ॥ गोक्षीरधवलाकारा स्वयं तिष्ठतु वाचि मे ॥ ३ ॥

पुनः गणेशजीको वन्दना एवं सरस्वतीसे मार्थना करताहै कि, जिस गणेशजीको प्रणाम करके देवता सहजहीमें अपने मनोरथोंको प्राप्त होजातेहैं ऐसे नील कमलके समान कांति-वाले गजाननको नमस्कार करताहू ॥ २ ॥ जो सरस्वती वाणीरूप ऐश्वर्य देतीहै, जो श्वेत कमलमें बैठीहै जो गोदुग्धके समान श्वेत आकारवती है वह स्वयं मेरी वाणीमेंबैठे ॥ ३ ॥

मेपादिराशयः सर्वे दिनेशप्रमुखा ग्रहाः ॥ ये च लोकोपकर्तारः  
पांतु मामिह ते सदा ॥ ४ ॥

संपूर्ण मेष आदि राशि, सूर्यादि ग्रह और जो संसारके उपकारक, तिथि नक्षत्रादियोंके देवता है वे सर्वदा यहां मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥

यज्जातके निगदितं भुवि मानवानां तत्प्राश्रिकेपि सकलं कथ-  
यंति तज्ज्ञाः ॥ प्रश्नोपि जन्मसदृशो भवति प्रभेदः प्रश्नस्य चात्र  
जननस्य न कश्चिदस्ति ॥ ५ ॥

संसारमें मनुष्योंके वास्ते जातक ( जन्मकाल ) में विचार कहाहै वही विचार मश्रमें भी जातकज्ञा कहतेहैं ऐसेही मश्रभी जातकके समान होताहै जातक तथा मश्रविचारमें कुछ भेद नहीं है ॥ ५ ॥

भौमाच्छविच्चन्द्ररविज्ञशुक्रवक्रेज्यमंदार्कसुतामरेज्याः ॥ मेपादि-  
भानामधिपाः क्रमेण तदंशकानामपि ते भवेयुः ॥ ६ ॥

अब सत्तामकरण कहते है. कि, मेपादि राशियोंके स्वामी क्रमसे मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि, बृहस्पति है अशोंके स्वामीभी वही होते है ॥ ६ ॥

मेपादिमूर्धा वदनं गलाधोहृत्कुक्षिवासोभृतवस्तिगुह्यम् ॥ ततोरु-  
जानुद्वयजंघमंघ्री पापान्वितं यत्तदुपैति नाशम् ॥ ७ ॥

राशियोंके अगविभाग कहतेहैं मेष शिर, वृष मुस, मिथुन स्तनमध्य, कर्क हृदय, सिंह लटर, कन्या कटि, तुला नाभिसे नीचे, वृश्चिक टिंग, धन उरु, मकर जंघा, कुम्भ घुटना, मीन पैर, इस प्रकार शरीरराशिचक्र है, पाटानुसार राशियोंके किरनेसे इसी राशिचक्रकी फालचक्र भी कहतेहैं ॥ ७ ॥

व्यत्यस्तमत्स्यद्वयमश्वजंघश्वापी मनुष्यः सगदं सवीणम् ॥ नृयु-  
ग्ममादाय करोमिसस्ये नौस्थावला मानधरो वणिक् च ॥ ८ ॥  
घटी जलादानग्रहीतुकामः शेपाः स्वनामानुगुणा भवन्ति ॥  
मेपस्तु मेपो वृषभः स एव कर्की कुलीरस्त्वथ वृश्चिकोलिः ॥ ९ ॥

राशियोंके स्वरूप कहते हैं. मीन. मछलीयोंका जोड़ा एकके मुख पर दूसरेकी पूंछ, घन. जंघा घोड़ेकेसे. और कटिसे ऊपर मनुष्याकार, मिथुन, स्त्री पुरुषका जोड़ा गदा और वीणा धारण करता, कन्या. नावमें बैठी एक हातमें अग्नि पात्र दूसरेमें धान, तुला. पुरुष तराजू हातमें लिये, कुम्भ कंधामें जळनेके लिये घड़ा धारण करता, अन्यराशि नामसदृश रूप रखते हैं जैसे मेष मेंढा, वृष बैल, कर्क केकड़ा, वृश्चिक बिन्दू है ॥ ९ ॥

राशिं त्रिधाकृत्य द्रकाणमाहुस्तदीशपुत्रेशशुभाधिनाथाः॥युजी-  
न्दुसूर्यौ भवने रवीन्दू नाथौ त्वयुग्मे भवनस्य चाद्धे ॥ १० ॥

द्रेष्काण ,राशिके तीसरेभागको कहतेहैं एक राशिके ३० अंश होतेहैं. प्रथम भाग१० अंश-पर्यंत उसी राशिके स्वामीका |द्वितीय भाग ११ अंशसे २० पर्यंत उस राशिसे पंचम राशिस्वामीका |तीसरे भाग २१ अंशसे ३० पर्यंत उस राशिसे नवम राशिस्वामीका, द्रेष्काण होताहै. होरा समराशिकेपूर्वाद्धे १५अंशपर्यंत चन्द्रमाकी, उत्तरार्धमें सूर्यकी, और विषम राशिके पूर्वाद्धेमें सूर्यकी, उत्तरार्द्धमें चन्द्रमाकी होतीहै ॥ १० ॥

चरंशकानामधिपास्तदंशाद्राशौ स्थिरे तन्नवमेश्वराद्याः ॥ द्विदेह-  
मेतत्सुतराशिनाथाद्ददंति शास्त्रार्थविदो महांतः ॥ ११ ॥

नवमांश कहतेहैं, चर राशि १ । ४ । ७ । १० में अपनी राशिसे स्थिर २ । ५ । ८ । ११ में राशिके नवमराशिसे द्विस्वभाव ३ । ६ । ९ । १२ में उसके पंचम राशिसे गिनना । ३० अंशके नवभाग ३ अंश २० कला होते हैं इसी क्रमसे गिनके नवमांश जानना ॥ ११ ॥

### होराचक्रम् ।

स्वा.	रा.	मे.	वृ.	मि.	क.	सि.	क.	तु.	वृ.	ध.	म	कुं.	मी.
देव	१५	सू ५	च ४	सू ५	चं ४	सू. ५	चं. ४	सू. ५	चं. ४	सू. ५	चं. ४	सू ५	चं. ४
वितर	१३	च ४	तू. ५	च. ४	सू. ५	च. ४	रा. ५	च. ४	न ५	च. ४	सू. ५	चं ५	स ४

### द्रेष्काणचक्रमिदम् ।

स्वा०	रा.	मे	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कुं	मी
नारद	अ १०	१०	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
अग.	२०	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४
दुर्गा.	३०	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८

( ४ )

सर्वार्थचिन्तामणिः ।

ग्रंथांतरे चतुर्थांशो यथा ॥ स्वर्क्षादिकेन्द्रपतयस्तुर्यांशेशाः

क्रियादितः ॥ सनकश्च सनन्दनश्च कुमारश्च सनातनः ॥

स्वा	अं.	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
सनक	७	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
सनन्दन	३०	मं	शु	बु	चं	सू	बु	शु	मं	बृ	श	श	बृ
कुमार	१५	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३
सनातन	०	चं.	सू	बृ	शु	मं	बु	श	श	बृ	मं	शु	बु
कुमार	२२	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६
सनातन	३०	शु	मं	बृ	श	श	बृ	मं	शु	बु	चं	सू	बु
कुमार	३०	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९
सनातन	०	श	श	बृ	मं	शु	बु	चं	सू	बृ	श	मं	बृ

सतांशचक्रम् ।

स्वा०	लग्न	मे	बृ	मि	क	तिं	क	तु	बृ	ध	म	कु	मी
क्षार	१७	१	८	३	१०	५	१२	७	२	९	४	११	६
क्षीर	३४	२	९	४	११	६	१	८	३	१०	५	१२	७
दधि	५१	३	१०	५	१२	७	२	९	४	११	६	१	८
भाज्य	६८	४	११	६	१	८	३	१०	५	१२	७	२	९
इक्षु	८५	५	१२	७	२	९	४	११	६	१	८	३	१०
मद्य	१०२	६	१	८	३	१०	५	१२	७	२	९	४	११
शुद्ध जल	१२०	७	२	९	४	११	६	१	८	३	१०	५	१२

# नवमांशचक्रम् ।

स्वा०	मे	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कुं	मी	अशाः
देव	१ म	१० श	७ शु	४ चं	१ मं	१० श	७ शु	४ चं	१ मं	१० श	७ शु	४ चं	३१२०
नृ	२ शु	११ श	८ मं	५ सू	२ शु	११ श	८ मं	५ सू	२ शु	११ श	८ म	५ सू	६१४०
राक्ष	३ वृ	१२ वृ	९ वृ	६ बु	३ वृ	१२ वृ	९ वृ	६ बु	३ वृ	१२ वृ	९ वृ	६ बु	१०१०
देव	४ चं	१ मं	१० श	७ शु	४ चं	१ म	१० श	७ शु	४ चं	१ मं	१० श	७ शु	१३२०
नृ	५ सू	२ शु	११ श	८ मं	५ सू	२ शु	११ श	८ मं	५ सू	२ शु	११ श	८ मं	१६१४०
राक्ष	६ बु	३ वृ	१२ वृ	९ वृ	६ बु	३ वृ	१२ वृ	९ वृ	६ बु	३ वृ	१२ वृ	९ वृ	२०१०
देव	७ शु	४ चं	१ मं	१० श	७ शु	४ चं	१ म	१० श	७ शु	४ चं	१ म	१० श	२३२०
नृ	८ मं	५ सू	२ शु	११ श	८ म	५ सू	२ शु	११ श	८ मं	५ सू	२ शु	११ श	२६१४०
राक्ष	९ वृ	६ बु	३ वृ	१२ वृ	९ वृ	६ बु	३ वृ	१२ वृ	९ वृ	६ बु	३ वृ	१२ वृ	३०१०

तत्क्षेत्रपा द्वादशभागनाथा लग्नस्य वर्गाधिपतिस्तदीशात् ॥  
 त्रिंशांशपाः भौमशनीज्यसौम्यशुक्रा भवंत्योजगृहे समे तु ॥१२॥  
 विलोमतः पंचशराष्टसप्तवाणाः क्रमादूचुरनेकशास्त्रैः ॥ सप्तांश-  
 पास्त्वोजगृहे तदीशाद्युग्मे गृहे सप्तमराशिपात्तु ॥ १३ ॥

द्वादशांश एक राशिके १२ भागका होताहै जो मत्येक २ राशि ३० अंशका होताहै जिस राशिका द्वादशांश देलना हो उसीसे गिना जाताहै। त्रिंशांशक विषमराशिमें ५ अंशपर्यंत मंगलका, १२ तक शनिका, २० तक गुरुका, २५ तक बुधका, ३० तक शुक्रका और समराशिमें विलोम जैसे ५ अंशतक शुक्रका, १० तक बुधका, १८ तक बृहस्पतिका, २५ तक शनिका, ३० तक मंगलका त्रिंशांश होना है—सप्तांशक एकराशि ३० अंशके सातवें भागका होता है विषम राशिमें अपनी राशिसे समराशिमें सप्तमराशिसे गिना जाताहै स्वटनाके टिपे इसका चक्र पहिले छितदिया द्वादशांश त्रिंशांशका आगे छितते हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥



## - द्वादशांशचक्रम् ।

स्वामिनः	अ	मे	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कु	मी
गणेशः	२ ३०	१ मं	३ शु	३ बु	४ चं	५ स	६ बु	७ शु	८ मं	९ वृ	१० श	११ श	१२ वृ
अश्विनी- कुमारः	५ ०	२ शु	३ बु	४ चं	५ स	६ बु	७ शु	८ मं	९ गु	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं
यमः	७ ३०	३ बु	४ चं	५ स	६ बु	७ शु	८ मं	९ गु	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु
अहिः	१० ०	४ चं	५ स	६ बु	७ शु	८ मं	९ वृ	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु	३ बु
गणेशः	१२ ३०	५ स	६ बु	७ शु	८ मं	९ गु	१० श	११ श	१२ गु	१ मं	२ शु	३ बु	४ चं
अश्विनी- कुमारः	१५ ०	६ बु	७ शु	८ मं	९ गु	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु	३ बु	४ चं	५ स
यमः	१७ ३०	७ शु	८ मं	९ गु	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु	३ बु	४ चं	५ स	६ बु
अहिः	२० ०	८ मं	९ वृ	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु	३ बु	४ चं	५ स	६ बु	७ शु
गणेशः	२२ ३०	९ गु	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु	३ बु	४ चं	५ स	६ गु	७ शु	८ मं
अश्विनी- कुमारः	२५ ०	१० श	११ श	१२ गु	१ मं	२ शु	३ बु	४ चं	५ स	६ बु	७ शु	८ मं	९ वृ
यमः	२७ ३०	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु	३ बु	४ चं	५ स	६ बु	७ शु	८ मं	९ वृ	१० श
अहिः	३० ०	१२ मं	१ शु	२ बु	३ चं	४ स	५ बु	६ शु	७ मं	८ वृ	९ श	१० श	११ श

## विषमत्रिंशांशचक्रम्.

स्वा.	अं	मे	मि	सि	तु	वृ	ध	कुं
वाहिः	५ ०	मं	मं	मं	मं	मं	मं	मं
वायुः	१० ०	श	श	श	श	श	श	श
इंद्रः	१८ ०	गु	गु	गु	गु	गु	गु	गु
धनदः	२५ ०	बु	बु	बु	बु	बु	बु	बु
जलदः	३० ०	शु	शु	शु	शु	शु	शु	शु

## समत्रिंशांशचक्रम्.

स्वा०	अं	वृ	क	क	वृ	..	मी
जलदः	५ ०	शु	शु	शु	शु	शु	शु
धनदः	१२ ०	बु	बु	बु	बु	बु	बु
शक्रः	२० ०	गु	गु	गु	गु	गु	गु
वायुः	२५ ०	श	श	श	श	श	श
वाहिः	३० ०	मं	मं	मं	मं	मं	मं

दशांशपानामधिपास्तदीशादोजे समे तत्रवमेऽधराद्याः॥ ओजे क-  
लानामधिपास्तदीशाश्चतुर्मुखो विष्णुहरौ दिनेशः ॥ १४ ॥ युग्मे  
क्रमाद्व्यत्ययमेव राशौ पष्ट्यंशपानामधिपास्त्वयुग्मे ॥ १५ ॥

एकराशि ३० अंशको दशम भाग ३ । ३ अंशका होता है इसे दशांश कहते हैं विषम  
राशिमें अपनी राशिसे सममें उसके नवम राशिसे गिनना इनके स्वामी इन्द्रादि दशदिग्पाल हैं  
॥ १४ ॥ षोडशांश राशिके सोलहवें भागको कहते हैं जो अं १ क. ५२ वि. ३० का होता है  
विषमराशिमें ब्रह्मा १ विष्णु २ हर ३ सूर्य ४ इस क्रमसे और समराशिमें विपरीत अर्थात्  
सूर्य १ हर २ विष्णु ३ ब्रह्मा ४ किसीका मत है कि बारह राशियोंके स्वामी लेकर ऊपर ४  
अंशके लिये सूर्यादि ४ हैं. सममें प्रथम ब्रह्मादि नव राशिस्वामी जानने. इसका स्पष्ट चक्रमें  
लिखते हैं. दशांशभी चक्रमें देखो ॥ १५ ॥

दशमांशचक्रम्.

विषममे म्वा०	मे	वृ	मि	रु	सि	क	तु	वृ	ध	म	कु	मी	समे स्वामिनः	
इंद्रः	३	१	१०	३	१२	५	२	७	४	९	६	११	८	अनंतः
भस्तिः	६	२	११	४	१	६	३	८	५	१०	७	११	९	ब्रह्मा
यमः	९	३	१२	५	२	७	४	९	६	११	८	१	१०	ईशानः
राश०	१२	४	१	६	३	८	५	१०	७	१२	९	३	११	कुबेरः
वदणः	१५	५	२	७	४	९	६	११	८	१	१०	३	१०	वापुः
वापुः	१८	६	३	८	५	१०	७	१२	९	३	११	४	१	वदणः
कुबेरः	२१	७	४	९	६	११	८	१	१०	३	१२	५	३	राशसः
ईशानः	२४	८	५	१०	७	१२	९	३	११	४	१	६	३	यमः
ब्रह्मा	२७	९	६	११	८	१	१०	३	१२	५	२	७	४	भस्तिः
अनंतः	३०	१०	७	१२	९	३	११	४	१	६	३	८	५	इंद्रः

## द्वादशांशचक्रम् ।

स्वामिनः	अ	मे	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कु	मी
गणेशः	२ ३०	१ मं	३ शु	३ वृ	४ चं	५ सु	६ वृ	७ शु	८ मं	९ वृ	१० श	११ श	१२ वृ
अश्विनी कुमारः	५ ०	२ शु	३ वृ	४ चं	५ सु	६ वृ	७ शु	८ मं	९ शु	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं
यमः	७ ३०	३ वृ	४ चं	५ सु	६ वृ	७ शु	८ मं	९ गु	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु
अहिः	१० ०	४ चं	५ सु	६ वृ	७ शु	८ मं	९ वृ	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु	३ वृ
गणेशः	१२ ३०	५ सु	६ वृ	७ शु	८ मं	९ शु	१० श	११ श	१२ गु	१ मं	२ शु	३ वृ	४ चं
अश्विनी कुमारः	१५ ०	६ वृ	७ शु	८ मं	९ शु	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु	३ वृ	४ चं	५ सु
यमः	१७ ३०	७ शु	८ मं	९ शु	१० श	११ श	१२ वृ	१ मं	२ शु	३ वृ	४ चं	५ सु	६ वृ
अहिः	२० ०	८ मं	९ शु	१० श	११ वृ	१२ मं	१ शु	२ वृ	३ मं	४ शु	५ वृ	६ चं	७ सु
गणेशः	७ ११	३ ७	४ ११	३ ७	४ ११	३ ७	४ ११	३ ७	४ ११	३ ७	४ ११	३ ७	४ ११
अहिः	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११
गणेशः	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७
अहिः	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११

अथ प्रसंगाद्द्विंशांशसिद्धांशभांशचत्वारिंशांशपंचवेदांशाः । तत्रा-  
दौ विंशांशः । अथ विंशतिभागानामधिपा ब्रह्मणोदिताः ॥  
क्रियाचरे स्थिरे चापान्मृगेंद्राद्विस्वभावके ॥ १ ॥ काली गौरी  
जया लक्ष्मीर्विजया विमला सती ॥ तारा ज्वालामुखी श्वेता  
ललिता वगलामुखी ॥ २ ॥ प्रत्यंगिरा शची रौद्री भवानी वरदा  
जया ॥ त्रिपुरा सुमुखी चेति विपमे परिचितयेत् ॥ ३ ॥ सम-  
राशौ दया मेधा छिन्नशीर्षा पिशाचिनी ॥ धूमावती च मातंगी  
वला भद्रारुणानला ॥ ४ ॥ पिंगला वृद्धका घोरा वाराही  
वेष्णवी सिता ॥ भुवनेशी भैरवी च मंगला ह्यपराजिता ॥ ५ ॥

इत विंशांश आदियोंकी टीका उदाहरणसहित चक्रोंमें दित्ता है ॥ ५ ॥



मर्योतकवृषध्वजाः ॥ गोविन्दो मदनो भीमः सिंहादौ विषमे क्रमा-  
 त् ॥ ७ ॥ कर्कादौ समभे भीमा विलोमेन विंचितयेत् ॥ ८ ॥ यथा-  
 लग्ने ३ । ८ । ४५ कर्कादिगणने मकरागतिः ॥ अथ भांशकम् ॥  
 नक्षत्रेशाः क्रमाद्दस्यमवह्निपितामहाः ॥ चन्द्रेशादितिजीवाहिपि-  
 तरो भगसंज्ञिताः ॥ ९ ॥ अर्यमार्कस्तृष्टमरुच्छक्राग्निमित्रवा-  
 सवाः ॥ निर्ऋत्युदकाविश्वेजगोविन्दवसवोबुधः ॥ १० ॥ ततो-  
 जपादाहिर्बुध्न्यः पूषा चैव प्रकीर्तितः ॥ नक्षत्रेशास्तु भांशेशाः  
 भांशसंख्याः स्वभात् क्रमात् ॥ ११ ॥ उदाहरणम्--यथा लग्नं  
 ३ । ८ । ४५ मकराद्गणनया सिंह आगत एवं सर्वत्र ज्ञेयम् ॥  
 अथ खवेदांशगणना ॥ चत्वारिंशद्विभागानामधिपा विषमे क्रि-  
 यात् ॥ विष्णुचन्द्रौ मरीचिश्च त्वष्टा घाता शिवो रविः ॥ १२ ॥ यमो  
 यक्षेशगंधर्वौ कालो वरुण एव च ॥ समभे तुलतो ज्ञेयाः स्वस्वा-  
 धिपसमन्विताः ॥ १३ ॥ उदाहरणम्--यथा लग्नम्. ३ । ८ । ४५  
 तुलादिगणनीयाः कन्या आगतः एवं सर्वत्र ज्ञेयम् ॥ अथाक्ष-  
 वेदांशम् ॥ तथाक्षवेदभागानामधिपाश्चरभे क्रियात् ॥ स्थिरे-  
 सिंहाद्विस्वभावे चापाद्ब्रह्मेशकेशवाः ॥ ईशाच्युतसुरेज्येष्टविष्णु-  
 केशाश्चरादिषु ॥ १४ ॥ उदाहरणम् । यथा लग्नम् ३ । ८ । ४५ ।  
 मेपाद्गणनया वृष आगतः एवं सर्वत्र ज्ञेयम् ॥

चतुर्विंशशचक्रम्.

स	वि० स्वा०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	स० स्वा०	अ व०	स
१	रुद्रः	५	४	५	४	५	४	५	४	५	४	५	४	भीम	११५	१
२	पशुधर	६	५	६	५	६	५	६	५	६	५	६	५	मदनः	२३०	२
३	अनल	७	६	७	६	७	६	७	६	७	६	७	६	गोविन्दः	३४५	३
४	विश्वरु.	८	७	८	७	८	७	८	७	८	७	८	७	वृषध्वज	५१०	४
५	भगः	९	८	९	८	९	८	९	८	९	८	९	८	अन्तरु	६२५	५
६	मित्रः	१०	९	१०	९	१०	९	१०	९	१०	९	१०	९	मयः	७३०	६
७	मयः	११	१०	११	१०	११	१०	११	१०	११	१०	११	१०	मित्र	८४५	७
८	अन्तरुः	१२	११	१२	११	१२	११	१२	११	१२	११	१२	११	भगः	१०१०	८
९	वृषध्वजः	१३	१२	१३	१२	१३	१२	१३	१२	१३	१२	१३	१२	विश्वरु.	११२५	९
१०	गोविन्दः	१४	१३	१४	१३	१४	१३	१४	१३	१४	१३	१४	१३	अनल.	१२३०	१०
११	मदनः	१५	१४	१५	१४	१५	१४	१५	१४	१५	१४	१५	१४	पशुधरः	१३४५	११
१२	भीमः	१६	१५	१६	१५	१६	१५	१६	१५	१६	१५	१६	१५	रुद्रः	१५१०	१२
१३	रुद्रः	१७	१६	१७	१६	१७	१६	१७	१६	१७	१६	१७	१६	भीमः	१६२५	१३
१४	पशुधरः	१८	१७	१८	१७	१८	१७	१८	१७	१८	१७	१८	१७	मदनः	१७३०	१४
१५	अनल.	१९	१८	१९	१८	१९	१८	१९	१८	१९	१८	१९	१८	गोविन्दः	१८४५	१५
१६	विश्वरु.	२०	१९	२०	१९	२०	१९	२०	१९	२०	१९	२०	१९	वृषध्वज	२००	१६
१७	भगः	२१	२०	२१	२०	२१	२०	२१	२०	२१	२०	२१	२०	अन्तरु	२११५	१७
१८	मित्रः	२२	२१	२२	२१	२२	२१	२२	२१	२२	२१	२२	२१	मय	२२३०	१८
१९	मयः	२३	२२	२३	२२	२३	२२	२३	२२	२३	२२	२३	२२	मित्र	२३४५	१९
२०	अन्तरुः	२४	२३	२४	२३	२४	२३	२४	२३	२४	२३	२४	२३	भग	२५१०	२०
२१	वृषध्वजः	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२५	२४	२५	२४	विश्वरु.	२६२५	२१
२२	गोविन्दः	२६	२५	२६	२५	२६	२५	२६	२५	२६	२५	२६	२५	अनल.	२७३०	२२
२३	मदनः	२७	२६	२७	२६	२७	२६	२७	२६	२७	२६	२७	२६	पशुधरः	२८४५	२३
२४	भीमः	२८	२७	२८	२७	२८	२७	२८	२७	२८	२७	२८	२७	रुद्रः	३०१०	२४

## भांशचक्रम् ॥

सं.	स्वामि	मे	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	घ	म	कुं	मी	भांशादि	सं.
१	दस्रः ...	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१६१४०	१
२	यमः ...	२	५	८	११	२	५	८	११	२	५	८	११	२१२३२०	२
३	भग्निः ...	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३२०१०	३
४	ब्रह्मा ...	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४२६१४०	४
५	शशिः ...	५	८	११	२	५	८	११	२	५	८	११	२	५३३३२०	५
६	शिवः ...	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६४०१०	६
७	अदितिः ...	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७५६१४०	७
८	जावः ...	८	११	२	५	८	११	२	५	८	११	२	५	८५३३२०	८
९	सर्पः ...	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९०१०१०	९
१०	पितरः ...	१०	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७	११६१४०	१०
११	भगः ...	११	२	५	८	११	२	५	८	११	२	५	८	१२१२३२०	११
१२	अयमा ...	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१३२०१०	१२
१३	रविः ...	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१४२६१४०	१३
१४	त्वष्ट्रः ...	२	५	८	११	२	५	८	११	२	५	८	११	१५३३३२०	१४
१५	वायु ...	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१२	१६४०१०	१५
१६	शक्राग्निः ...	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१	१७५६१४०	१६
१७	मित्रः ...	५	८	११	२	५	८	११	२	५	८	११	२	१८५३३२०	१७
१८	इन्द्रः ...	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३	२०१०१०	१८
१९	निर्ऋतिः ...	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४	२१६१४०	१९
२०	जलः ...	८	११	२	५	८	११	२	५	८	११	२	५	२२१२३२०	२०
२१	विश्वेदेवाः ...	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६	२३२०१०	२१
२२	विष्णुः ...	१०	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७	२४३६१४०	२२
२३	इन्द्रः ...	११	२	५	८	११	२	५	८	११	२	५	८	२५३३३२०	२३
२४	घरुणः ...	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९	२६४०१०	२४
२५	गजपात् ...	१	४	७	१०	१	४	७	१०	१	४	७	१०	२७५६१४०	२५
२६	अदिवुध्याः ...	२	५	८	११	२	५	८	११	२	५	८	११	२८५३३२०	२६
२७	पूषा ...	३	६	९	१२	३	६	९	१२	३	६	९	१२	२९०१०१०	२७







अक्षवेदांशचक्रमिदम्.

स्था०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०	स्वा०		
ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव		
शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु		
विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	विष्णु	ब्रह्मा	शिव	
स	मे	वृ	मि	क	खि	क	तु	वृ	ध	म	कु	मानि	अ	रु	
१	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९
२	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०
३	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११
४	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२
५	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१
६	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२
७	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३
८	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४
९	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५
१०	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६
११	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७
१२	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८
१३	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९
१४	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०
१५	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११
१६	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२
१७	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१
१८	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२
१९	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३
२०	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४
२१	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५
२२	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६
२३	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७
२४	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८

## अक्षवेदांशचक्रस्य पूर्तिः.

२५	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१६	४०
२६	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	१७	२०
२७	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	१८	०
२८	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	१८	४०
२९	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	१९	२०
३०	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	२०	०
३१	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	२०	४०
३२	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	२१	२०
३३	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	२२	०
३४	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	२२	४०
३५	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	२३	२०
३६	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	२४	०
३७	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	२४	४०
३८	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२५	२०
३९	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	२६	०
४०	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	२६	४०
४१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	२७	२०
४२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	६	१०	२	२८	०
४३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	७	११	३	२८	४०
४४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	८	१२	४	२९	२०
४५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	९	१	५	३०	०

अथ षष्ट्यंशः ॥ युग्मे क्रमाद्व्यत्ययमेव राशौ षष्ट्यंशकानामधिपा-  
स्त्वयुग्मे ॥ घोरांशको १।६० राक्षस २।५९ देवभागौ ३।५८  
कुवेर ४।५७ अक्षोगण ५।५६ किन्नरांशाः ६।५५ ॥ १५ ॥ अष्टः ७।५४  
कुलघ्नो ८।५३ गरला ९।५२ मिसंज्ञौ १०।५१ मायांशकः  
११।५० प्रेतपुरीशभागः १२।४९ ॥ अपां पतिः १३।४८  
देवगणेशभागः १४।४७ काला १५।४६ हिभागा-  
१६।४५ वमृतांशु १७।४४ चन्द्रौ १८।४३ ॥ १६ ॥ मृदंशकः  
१९।४२ कोमल २०।४१ पद्मभागौ २१।४० लक्ष्मीश २२।३९

वागीश २३।३८ दिगंबरंशाः २४।३७ ॥ देवा २५।३६ द्वैभागौ  
 २६।३५ कलिनाशभागः २७।३४क्षितीश्वरांशः २८।३३कमला-  
 करांशः २९।३२ ॥ १७ ॥ क्रमेण मंदात्मज ३०।३१ मृत्य ३१।३०  
 काल ३२।२९ दावाग्नि ३३।२८ घोरा ३४।२७ मय ३५।२६  
 कंटकाश्च ३६।२५ ॥ सुधा ३७।२४मृतांशौ ३८।२३ परिपूर्णचंद्र-  
 ३९।२२ विपप्रदग्धौ ४०।२१ कुलनाशमुख्यौ ४१।२०।४२।१९  
 ॥ १८ ॥ वंशक्षयो ४३।१८ त्पातक ४४।१७ कालरूपाः ४५।  
 १६ सौम्यश्च ४६।१५ मृदंश ४७।१४ सुशीतलांशौ ४८।१३ ॥  
 दंष्ट्राकराले ४९।१२न्दुमुख ५०।११ प्रवीणाः ५१।१० कालाग्नि-  
 ५२।९दाण्डायुध ५३।८ निर्मलांशाः ५४।७ ॥ १९ ॥ शुभा ५५।  
 ६ शुभांशा ५६-५ वतिशीतलांशः ५७।४ सुधापयोधि ५८।३  
 भ्रमणेंदु ५९।२ रेखाः ६०।१ ॥ ज्ञेयाः क्रमाद्द्रव्यत्ययमेव युग्मे  
 शुभान्वितांशो यदि शोभनासिः ॥ २० ॥

षष्ठ्यंश विपम राशिमें क्रमसे घोरांशकादि इन्दुरेखापर्यंत और समराशिमें विपरीत क्रमसे  
 इन्दुरेखासे घोरांशपर्यंत गिनना षष्ठ्यंशलानेका मकारग्रथांतरोंमें है यथा "राशीन्विहाय खेटस्य द्वि-  
 घ्नमंशाद्यमर्कद्वत् ॥ शेषं सैकं च तद्राशिनाथः षष्ठ्यंशपः स्मृतः ॥" अर्थात् राशियोंको छोड़के  
 अंशादि द्विगुण करना अंशस्थानमें १२ से नष्ट करना शेषमें १ जोड़के उसराशिका स्वामी  
 षष्ठ्यंश होताहै यह विपममें क्रमसे सममें व्युत्क्रमसे जानना जैसे लग्न ३।८।४५ सम है  
 अठारहवां उत्पातांश भाया सूर्यांशादि ४।२।१ द्विगुण ८।५६।२ जब अंशादि १२ से  
 अधिक हो तो १२ से, और कला ३० से अधिक हो तो ३० से, भाग लेकर लब्धि ऊपर  
 जोड़नी यहाँ कला ५६ तीससे भाग लेनेसे १पाया यही ऊपर जोड़दिया ८ शेषमें १ जोड़ना  
 है यहाँ शेष ९ सैक १० मिथुनसे गिनना है तुलामें सूर्य ७ अन्यंशमें है सममें ६० में  
 घटाना इत्यादि सर्वत्र जानना ॥ इसका तुलसे उदाहरण आगे चक्रमें देखना  
 इन ६० में २६ क्रूरांश १ मध्यम और ३३ देवभाग हैं यही देवभाग शुभ होतेहैं विशेष  
 विचार इनका आगे कहेंगे ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥

## पष्टयंशचक्रम्.

सं.	विषये	मे	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कु	मी	समे	अं.	कं.
१	घोरांग	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	इदुरेखा	०	३०
२	राक्षसः	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	भ्रमणः	१	०
३	देवाः	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	सुधायोगः	१	३०
४	कुबेरः	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	भक्तिशीतः	२	०
५	रक्षो गणः	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	अशुभः	२	३०
६	किन्नरः	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	शुभः	३	०
७	भ्रष्टः	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	निर्मलः	३	३०
८	कुल्लवः	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	दण्डायुधः	४	०
९	गरुडः	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	कालाग्निः	४	३०
१०	भग्निः	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	प्रवीणः	५	०
११	माया	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	इदुमुखः	५	३०
१२	यमः	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	दष्टाकरः	६	०
१३	वरुणः	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	शीतलः	६	३०
१४	इन्द्रः	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	मृदुः	७	०
१५	कालः	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	सौम्यः	७	३०
१६	अग्निः	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	कालरूपः	८	०
१७	अमृताशु	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	उत्पात	८	३०
१८	चन्द्रः	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	वशाक्षयः	९	०
१९	मरुः	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	मुह्यः	९	३०
२०	कौमलः	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	कुलनाशः	१०	०
२१	पद्मः	११	१२	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	विश्वप्रदिमा	१०	३०
२२	त्रिष्णुः	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	पूणचद्रः	११	०
२३	वागाज.	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	अमृत.	११	३०
२४	इदंगंबर	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	सुधा	१२	०
२५	दवः	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	वण्टकः	१३	३०
२६	आर्द्रः	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	मयः	१३	०
२७	कलिना०	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	घारः	१३	३०
२८	क्षितीशः	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	वादाग्निः	१४	०
२९	कमलाकरः	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	कालः	१४	३०
३०	मदः	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	मृगु	१५	०
३१	मृत्युः	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	मद.	१५	३०
३२	कालः	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	कमलाकरः	१६	०
३३	दावाग्निः	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	क्षिताशः	१६	३०
३४	घारः	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	वाल्मनाशः	१७	०

३५	मय	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	भाद्रं	१७	३०
३६	कण्टकः	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	द्वय	१८	०
३७	सुधा	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	विद्यार	१६	३०
३८	अमृत	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	वर्गीजा	१९	०
३९	पूर्णचन्द्र	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	विष्णु	१०	३०
४०	विषमदि०	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	पद्म	२०	०
४१	वृत्तनाश	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	दाशर	२०	१०
४२	मुख्य	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	शु	२१	०
४३	वृत्तक्षय	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	शु	२१	३०
४४	उत्पात	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	अमृताशु	२२	०
४५	कालरू०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	वार	२२	३०
४६	सौम्य	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	वार	२३	०
४७	मृदु	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	शु	२३	३०
४८	शीतल	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	वृषण	२४	०
४९	दृष्टाऽरा०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	रुम	२६	३०
५०	इष्टमुग	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	माया	२५	०
५१	प्रवर्ण	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	आश्र	२५	३०
५२	कांतान	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	गरुड	२६	०
५३	दद्यायुध	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	फलक	२६	३०
५४	नाम	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	शु	२७	०
५५	शुभ	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	वासर	२७	३०
५६	अशुभ	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	शु	२८	०
५७	आतर्गी	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	शु	२८	३०
५८	सुधापया	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	शु	२९	०
५९	अमण	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	शु	२९	३०
६०	इष्टुसरा	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	शु	३०	३०

क्रूरपृथ्वीशगाः सर्वे नाशयन्ति खचारिणः ॥ यदि पूर्णवलयुक्ताः  
 स्वोच्चमूलत्रिकोणगाः ॥ २१ ॥ स्वर्शकेन्द्रोत्तमांशस्था मित्रक्षे-  
 त्रत्रिकोणगाः ॥ सतवर्गोद्भवाः स्वांशाः स्वाधिभिर्वांशका-  
 न्विताः ॥ २२ ॥

## षष्ट्यंशचक्रम्.

सं.	विषये	मे	वृ	मि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कु	मी	समे	अं.	कं
१	घोरांश	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	इदुरेखा	०	३०
२	राक्षसः	१	३	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	भ्रमणः	१	०
३	देवाः	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	सुधायोगः	१	३०
४	कुबेरः	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	अतिशीतः	२	०
५	रक्षो गणः	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	अशुभः	२	३०
६	किन्नरः	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	शुभः	३	०
७	भ्रष्ट.	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	निर्मलः	३	३०
८	कुलम्नः	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	दण्डायुधः	४	०
९	गरलः	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	कालाग्निः	४	३०
१०	अग्नि.	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	प्रवीणः	५	०
११	माया	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	इदुमुखः	५	३०
१२	यमः	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	दद्याकराः	६	०
१३	वरुणः	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	शीतलः	६	३०
१४	इन्द्रः	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	मृदुः	७	०
१५	कालः	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	सौम्यः	७	३०
१६	अग्निः	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	कालरूपः	८	०
१७	अमृताशु	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	उपात	८	३०
१८	चन्द्रः	९	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	घणक्षयः	९	०
१९	मरुः	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	मुख्यः	९	३०
२०	कौमलः	१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	कुलनाशः	१०	०
२१	पद्मः	११	१२	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	विष्वप्रदिमा	१०	३०
२२	त्रिष्णुः	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	पूणचद्रः	११	०
२३	वामाश.	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	अमृतः	११	३०
२४	द्विग्वर	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	सुधा	१२	०
२५	दुवः	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	दण्डवः	१२	३०
२६	भाद्रः	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	मयः	१३	०
२७	कालिना०	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	घारः	१३	३०
२८	क्षितीशः	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	वादाग्निः	१४	०
२९	कमलाकरः	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	कालः	१४	३०
३०	मदः	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	मृषु.	१५	०
३१	मृषुः	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	मद.	१५	३०
३२	कालः	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	वमनाशः	१६	०
३३	दावाग्निः	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	क्षितीशः	१६	३०
३४	घारः	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	४	घारिनाशः	१७	०

जो ग्रह अपने उच्च मूलत्रिकोणमेंही पूर्णबलसे युक्त हों और क्रूरषट्चंशमें हो तो उत्तमबल-  
लोक शुभफलका नाश करते हैं ॥ २१ ॥ उत्तमादि भेद कहते हैं कि—जो ग्रह स्वराशिकेन्द्र  
उत्तमांश मित्रराशि त्रिकोणमें हो तथा सप्तवर्गमें स्वांशकस्थ हो अधिमित्रांशका हो वह उत्तम  
शक संज्ञक होता है इनका मयोजन कहते हैं कि ॥ २२ ॥

वर्गास्तु ये दश प्रोक्ताः पूर्वाचार्यैर्महर्षिभिः ॥ भवन्ति वर्गसंयोगे  
पारिजातादिसंज्ञकाः ॥ २३ ॥ दुःस्थारिनीचमूढस्था ग्रहा बल-  
विवर्जिताः ॥ मरणावस्थगाश्चेत्तु पारिजातादिनाशकाः ॥ २४ ॥

पूर्वाचार्य महर्षियोंने जो दशवर्ग कहे हैं उनमें जो ग्रह स्ववर्गमें हों उनको पारिजात  
संज्ञायें होती हैं शुभ फल पूर्ण देते हैं ॥ २३ ॥ जो ६ । ८ । १२ त्रिक स्थानोंमें अथवा शुक  
राशि नाचराशिमें यदा अस्तंगत बलरहित होते हैं यदा मरणावस्थामें प्राप्त होते हैं वे पारि-  
जातादि शुभ फल दायकोंका नाश करते हैं ॥ २४ ॥

उत्तमं तु त्रिवर्गैक्यं चतुर्वर्गं तु गोपुरम् ॥ वर्गपंचकसंयोगे  
सिंहासनमिहोच्यते ॥ २५ ॥ वर्गद्वयं पारिजातं पण्णां पारावतां-  
शकम् ॥ सप्तमं देवलोकं स्यादष्टमं चामरं भवेत् ॥ २६ ॥ ऐरावतं  
तु नवमं फलं तेषां पृथक्पृथक् ॥ दशवर्गस्य संयोगे विदुर्वैशे-  
पिकांशकान् ॥ २७ ॥

दशवर्गोंमें दोवाला पारिजातकसंज्ञक, तीन वर्गवाला ग्रह उत्तमांशसंज्ञक, चार वर्गवाला  
गोपुरसंज्ञक, पांच वाला सिंहासनसंज्ञक, छः पारावतांश, सात वाला देवलोक, आठ वाला अमर,  
नौ वाला ऐरावतसंज्ञक होता है और दशम स्वांशकीय वैशेषिकांशक संज्ञकसे होता है इनके  
फल अलग अलग आगे कहेंगे ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

ऐरावते सार्वभौमः सर्वैश्वर्यसमन्वितः ॥ देवलोके महादानकर्ता  
राजा क्षितीश्वरः ॥ २८ ॥ पारावते माण्डलिकः सर्वशास्त्रविशा-  
रदः ॥ सिंहासने भवेद्भूमिपतिः सर्वैः स्तुतो महान् ॥ २९ ॥  
गोपुरे धनवान्नित्यं सर्वविद्याविशारदः ॥ उत्तमे सकला संपत्  
पारिजाते धनान्वितः ॥ ३० ॥ स्वांशे यशस्वी मतिमान् सर्व-  
सौख्यसमन्वितः ॥ ३१ ॥

दशवर्गगत ग्रहोंमें फल कहते हैं ऐरावतांशवाला पञ्चवर्नी राजा होकर समस्त ऐश्वर्यसे  
परिपूर्ण रहता है, देवलोकान्शवाला महादान देनेवाला संसारमें राजा होता है ॥ २८ ॥



पारावतांशवाला समस्त शास्त्र जाननेवाला राजा, सिंहासनमें समस्त लोकोंसे स्तुत्य राजा ॥ २९ ॥  
गोपुतांशवाला धनवान् तथा संपूर्ण विद्या जाननेवाला, उत्तमांशवाला संपूर्ण संपत्तियोंसे युक्त, पारि-  
जातांशवाला धनवान् होता है ॥ ३० ॥ यदि स्वांशमें ग्रह होवे तो यशस्वी, बुद्धिमान् और  
संपूर्ण सुखयुक्त होता है ॥ ३१ ॥

लग्नं क्रमात्सार्द्धघटीद्वयं स्यान्मेपादिनेशस्थितकोणभानाम् ॥  
राशीश्वरात्प्राणपदं क्रमेण घटीचतुर्थांशमुशांति तज्ज्ञाः ॥ ३२ ॥  
चापाद्विपर्येति रविस्तु सार्द्धं घटीद्वयं रात्रिकरोपि तस्मात् ॥  
क्रमेण सार्द्धद्वयनाडिकालः कुजो वृषाद्व्यत्ययनाडिमात्रम् ॥ ३३ ॥  
चापाद्बुधो व्यत्ययनाडिमात्रं मीनादधः पंचघटीन्द्रपूज्यः ॥ क्रमेण  
युग्माद्गुणन्दनस्तु घटीप्रमाणो दिननाथपुत्रः ॥ ३४ ॥ व्यत्या-  
समार्गेण घटीप्रमाणो मेपादगुः सार्द्धघटीयुगं स्यात् ॥ मीना-  
च्छिखी तन्मदगो विलोमाच्छास्त्रांतरे तत्फलमाहुरार्याः ॥ ३५ ॥

अब क्षणिक ग्रह कहते हैं-यहां क्षण पदसे टाई घटी २ । ३० का ममाण है लग्न मेपादि  
क्रमसे घटी तीन पल तीस ३० मत्येक होता है जिससे एक आवृत्ति दिनमें दूसरी रात्रीमें होती  
है और जिस राशिमें सूर्य है उससे नवम राशिस्वामीसे एक घटीके चतुर्थांश १५ पलका  
क्रमसे प्राणपद होता है ॥ ३२ ॥ धनसे उलटे २ घटी ३० पल सूर्य, जेसही धनसे घटी  
२ । ३५ चंद्रमा, मंगल वृषसे विपरीत घटी, १ पल १० पर्यंत, ॥ ३३ ॥ बुध धनसे विप-  
रीत क्रम करके घटी १ । ०, बृहस्पति मीनसे उलटे पांचघटी पर्यंत शुक्र मिथुनसे क्रम करके  
१ घटी शनि ॥ ३४ ॥ मेपसे विपरीत क्रम करके १ घटी, राहु मीनसे उलटे क्रम बढ़ाई  
२ । ३० घटी होता है और केतु राहुसे विलोम सभममें होता है । इनके फलें शास्त्रान्तरेमें श्रेष्ठ  
भाषाव्योंने कहे हैं ॥ ३५ ॥

वालाद्यवस्थाः क्रमशो ग्रहाणामेजे समे तद्विपरीतमाहुः ॥वालः  
कुमारोथ युवा च वृद्धो मृतो लवानामृतुभिः क्रमेण ॥ ३६ ॥  
वालाद्यवस्थानुगुणं व्रजंति तत्पाककाले दिननाथमुख्याः ॥ ३७ ॥

अवस्था कहते हैं विषम राशिमें क्रमसे सममें प्लुतक्रमसे मत्येक राशिसे ६ । ६ अंशकी  
बाद १ कुमार २ युवा ३ वृद्ध ४ मृत्यु ५ अवस्था होती हैं ॥ ३६ ॥ सूर्यादि ग्रह फल  
देनेके समय बालादि अवस्थाओंके अनुक्रमताको मान होने हैं ॥ ३७ ॥

मेपाजवस्तं प्रथमं क्रियश्च वृषोत्तगोतावुरिशुक्रमं च ॥ ३८ ॥  
चौधं नृयुगं जितुमं तृतीयं चांद्रं कुलीरं तु चतुर्थराशिम ॥

स्य कंठीरवलेप्रसंज्ञा पाथोनषष्ठी त्ववला च तन्वी ॥ ३९ ॥ जूको  
वणिकसप्तमतौलिसंज्ञः कौप्योष्टमं कौजमलेस्तु संज्ञाः ॥ जैवं  
धनुस्तौक्षिकचापसंज्ञं त्वाकेकरं स्याद्दशमं च चक्रम् ॥ ४० ॥  
हृद्रोगकुम्भौ घटराशिसंज्ञे मीनो झषश्चांतिमरिष्फसंज्ञः ॥ ४१ ॥

राशियोंकी संज्ञा कहतेहैं अज, वस्त, प्रथम, क्रिय, मेपकी संज्ञ । वृष, उक्षा, गो, ताबुरि  
शुक्रभ, वृषकी ॥ ३८ ॥ बौध, नृपुग्म, जितुम, तृतीय, मिथुनकी । चांद्र कुलीर चतुर्थ  
कर्ककी । कंठीख, छेप, सिंहकी । पाथोन, षष्ठी, अवला, तन्वी, कन्याकी ॥ ३९ ॥ जूक, वणिक  
सप्तम, तौलि, तुलाकी । कौप्य, अष्टम, कौज, अलि, वृश्चिककी । जैवं, धनु, तीक्षिक, चाप,  
धनकी । ओकेकर, दशम, चक्र, मकरकी ॥ ४० ॥ हृद्रोग, कुम्भ, घट, कुम्भकी ।  
रिष्फ, मीन, झष, अंतिम, मीनराशिकी संज्ञाये हैं ॥ ४१ ॥

होरा तनुर्मूर्त्युदयं शिरश्च वाग्वित्तकौटुम्बमथाक्षिसंज्ञम् ॥ सहो-  
त्थदुश्चिक्यगलं तृतीयं शौर्यं च कर्णं सुखमंबु बन्धुः ॥ ४२ ॥  
रसातलं वै हिवुकं च वेश्म पातालहृद्राहनमातृसंज्ञाः ॥ बुद्धिप्रभा-  
वात्मजमंत्रसंज्ञं विवेकशक्ती उदरप्रदेशः ॥ ४३ ॥ रोगक्षतारिव्य-  
सनं तु चोरस्थानं भवेद्विघ्नमिहाहुरार्याः ॥ चित्तोत्थकामो मद-  
नश्च भर्तृस्थानं कलत्रं दधिसूपसंज्ञम् ॥ ४४ ॥ क्षीरं गुडं सूत्रककृ-  
च्छनाम गुह्यं च रंभ्रं मरणांतकायुः ॥ धर्मो दया पैत्रिकभाग्यभं तु  
गुरुस्तपोलाभशुभार्जितानि ॥ ४५ ॥ आज्ञा च मानं दशमं च  
कर्म तदास्पदं खं धनलाभमायम् ॥ व्ययौत्यभं रिष्फविनाशसंज्ञं  
लग्नांत्यखण्डः कथितो मुनींद्रैः ॥ ४६ ॥

भावोंकी संज्ञायें कहतेहैं—छत्रकी संज्ञायें होरा, तनु, मूर्ति, उदय शिर ॥ द्वितीयकी  
बाक, वित्त, कुटुब, अक्षि ॥ तृतीयकी सहोत्थ, दुश्चिक्य, गल ॥ चतुर्थकी शौर्य, कर्ण  
सुख, अंबु, बंधु, रसातल, हिवुक, वेदम, पाताल, हृद, वाहन, मातृ ॥ पंचमकी बुद्धि,  
मभाव, आत्मज, मंत्र, विवेक, शक्ति, उदर ॥ छठेकी रोग, क्षत, अरि, व्यसन, चोरस्थान,  
विघ्न ॥ सप्तमकी चित्तोत्थ, काम, मदन, स्त्रियोंका भर्तृस्थान और फलत्र, दधि, सूप ॥  
अष्टमकी क्षीर, गुह, सूत्र, कृच्छ्र, गुह्य, रंभ्र, मरण, अंतक, आयु ॥ नवमकी धर्म, दया,  
भाग्य, गुरु, तप, लाभ, शुभ, अर्जित ॥ दशमकी आज्ञा, मान, दशम, कर्म  
परिपूर्ण २६०।

आस्पद, ख ॥ ग्यारहवेकी लाभ, आय, ॥ बारहवेकी व्यय, अत्य, रिष्क विनाश और लघात्य खडभी पूर्वाचार्य मुनीद्रोनें कहे है ॥ ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ ॥

दुःस्थाश्च नाशप्रभवा भवन्ति पष्टाष्टरिष्कानुगतास्तथैव ॥ उद्यन्ति पृष्टेन वृषाजचापकुलीरनका बलिनः सयुग्माः ॥ ४७ ॥ ते रात्रि-कालेन्हि बलास्तु शेपाः शीर्षोदया मीनमुदेत्युभाभ्याम् ॥ ४८ ॥

दुष्टस्थानस्थित ग्रह तथा ६ । ८ । १२ भावगत नष्टप्रभव होते हैं ॥ वृष, मेष, धन, कर्क, मकर और मिथुन पृष्टोदय तथा रात्रिबली होते हैं शेष ५ । ६ । ७ । ८ । ११ । १२ दिवाबली और शीर्षोदयी हैं परतु इनमें मीन राशि उभयतोदयी है ॥ ४७ । ४८ ॥

धूमोर्को विश्वभागश्रुतिभवत्तद्युतो मण्डलाच्छोधितोसौ पातः पंड्राशियुक्तः परिधिरथ भसंगोधितश्चापनामा ॥ शैलाशाभाग-युक्तं धनुरथ च शिखी पंच ते त्वप्रकाशाः प्रादुर्भावे च तेषां फल-मिह कथितं जातकप्रश्नयोः स्यात् ॥ ४९ ॥ इति प्रकाशग्रहाः ॥

सूय १३ अश पर धूम ४ राशि युक्त कर अर्थात् ४ राशि १३ अश पर धूमसंज्ञक--१२ से तष्ट करके पात ६ राशि जोडनेमे परिधि २७ से शोधन करके चापनामक १०७ वां भाग जोडनेसे धनुष. पांचसे शिखी संज्ञक तत्वप्रकाश होते हैं । इन तत्वोंके प्रादुर्भावमें फल नन्म तथा प्रश्नमें होते हैं ॥ ४९ ॥

व्योमास्तपातालविलग्नभानां वदन्ति नामानि मुनीन्द्रजालाः ॥

तत्कटकं केन्द्रचतुष्टयं च वर्गोत्तमास्तत्स्वनवांशकास्तु ॥ ५० ॥

मुनीद्र १० । ७ । ४ । १ भावोंकी सज्ञा कटक केन्द्र चतुष्टय कहतेहैं, जो राशि वही नवाशक होनेमें वर्गोत्तम कहाताहै ॥ ५० ॥

जलचरपशुनरकीटा वंधौ माने तनौ मदे चापि ॥ क्रमशो भवन्ति वीर्या विगतवलास्तत्सप्तमे वापि ॥ ५१ ॥

बल कहतेहैं--जलचर राशि ( मकर ) उत्तरार्द्ध और ११ । १२ । चतुर्थस्थानमें पशुराशि ( १ । २ । ५ मकर पूर्वार्द्ध धनका उत्तरार्द्ध ) दशम भावमें नर राशि ३ । ६ । ७ धन पूर्वार्द्ध लग्नभावमे और कीट ४ । ८ सप्तम स्थानमें बली होतेहैं अपने सप्तममें बल-हीन होते हैं बीचमे अनुपातसे अक्र जानने ॥ ५१ ॥

मेघोक्षन्कांगनकर्किमीनतुलाधराः स्युर्दिनपात्स्वतुंगाः ॥ अत्यु-च्चभागैर्नयनागदारमत्यामनासारनरैः क्रमेण ॥ ५२ ॥ सिंहोक्षव-

स्तांगनचापतौलिकुंभा भवंत्युच्चसमानभावाः ॥ मूलत्रिकोणानि  
भवन्ति तानि किंचिद्विहीनानि बलानि सूर्यात् ॥ ५३ ॥

उच्चराशि सूर्यकी मेष, चंद्रमाकी वृष, मंगलकी मकर, बुधकी कन्या, बृहस्पतिकी कर्क, शुककी मीन, शनिकी तुला हैं । परम उच्चंशक सूर्यके मेषके १० अंश ० । १०, चंद्रमा १ । ३, मंगल ९ । २८, बुध ५ । १५, बृहस्पति ३ । ५, शुक ११ । २७, शनि ६ । २० हैं ॥ ५२ ॥ सूर्यका सिंह, चंद्रमाका वृष, मंगलका मेष, बुधका कन्या, बृहस्पतिका धनु, शुकका तुला, शनिका कुंभ, उच्चके समान हैं । इनको मूलत्रिकोण कहते हैं बलमें उच्चसे थोड़ेही कम होतेहैं ॥ ५३ ॥

दिवाबला मानुपराशयः स्यू रात्रौ बलाढ्याः पशवश्च कीटाः ॥

संध्याद्वये भ्रातृभवास्पदानां सपष्टभानां तु चयेति संज्ञा ॥ ५४ ॥

मनुष्यराशि दिवाबली, पशुराशि रात्रिबली और कीटराशि दोनों संध्यासमयोंमें बलवान् होतीहैं और ३ । ११ । १० । ६ भावोंकी चय ( उपचय ) संज्ञा है ॥ ५४ ॥

रक्तः श्वेतः श्यामकांतिश्च रक्तो धूम्रश्चित्रः कृष्णकांतिः सुवर्णः ॥

स्वर्णाभः स्यात्कर्बुरो बभ्रुवर्णः स्वच्छो वर्णो वर्णितो बुद्धिमाद्भिः ५५ ॥

राशियोंके रंग कहते हैं-मेष रक्त, वृष श्वेत, मिथुन श्याम ( हरित ), कर्क रक्त, सिंह धूम्र, कन्या विचित्र, तुला कृष्ण, वृश्चिक सुवर्णरंग, धन पीत, मकर कर्बुर, कुंभ विडाल सद्दश, मीन श्वेतवर्ण बुद्धिमानोंने कहेहैं ॥ ५५ ॥

वेशिस्थानं सूर्ययुक्ताद्वितीयं चक्रार्द्धेस्मिन्मानमाहुर्मुनीन्द्राः ॥

वेदघ्नं स्याद्घ्राणसंख्याधिकं तु वैलोभ्याद्वा जूकराशेः क्रमेण ॥ ५६ ॥

जिस स्थानमें सूर्य है उसके दूसरे स्थानकी संज्ञा वेशिस्थान है । बारह राशियोंका चक्र है, इसके पूर्वार्द्ध परार्द्ध दो भाग हैं । मेषसे कन्यापर्यंत पूर्वार्द्ध, तुलासे मीनपर्यंत उत्तरार्द्ध । अथवा विलोम गणनासे भी तुलादि मेषादि मान मुनीन्द्र कहते हैं, अथवा लग्नसे छठे ६ पर्यंत, ७ सातसे १२ पर्यंत, चक्रार्द्ध पूर्व पर हैं अथवा ४ । ४ करके जानना जैसे ४ पर्यंत, ४से ७ तक, ७ से १० तक, १० से १ तक चतुर्गुण हुये पाचसे विलोम जानना १२ से ४ और ४ से १० एवं लग्नसे ७ सातसे लग्नचक्रार्द्ध विचारमें काम आतेहैं ॥ ५६ ॥

दिनेशचंद्रौ नरपालमुख्यौ सेना कुजः सोमसुतः कुमारः ॥ शुक्रे-

ज्यपूज्यौ सचिवौ शनिश्च प्रेष्यस्तु तद्भृत्तिमुपैति जातः ॥ ५७ ॥

सूर्य चंद्रमा राजा, मंगल सेनापति, बुध युवराज, शुक बृहस्पति मंत्री और शनि, शूष ॥ ( प्यादा ) है जिसका जो ग्रह पठवान् वा फारक है उसरो उसीके अनु-धर्म, दया, दशम, कर्म होता है ॥ ५७ ॥

आत्मा रविः शीतकरो मनस्तु सत्त्वं कुजो भापणमब्जसूनुः ॥  
वाचांपतिर्ज्ञानसुखे मदश्च शुक्रो भवेदर्कसुतस्तु दुःखम् ॥ ५८ ॥

सूय शरीर, चंद्रमा मन, बल मगल, बुध वाणी, गुरु ज्ञान एवं सुख, शुक्र कामदेव,  
शनि दुःख, ऐसा ग्रहमय शरीर है ॥ ५८ ॥

सूर्यो हेलिर्भानुमान्दीप्तरश्मिश्चण्डांशुः स्याद्भास्करोहस्करश्च ॥

अब्जः सोमश्चंद्रमाः शीतरश्मिः शीतांशुः स्याद् ग्लौर्मृगांकः क-

लेशः ॥ ५९ ॥ आरो वक्रश्चावनेयः कुजः स्याद्भौमः क्रूरो लोहितां-

गोथ पापी ॥ विज्जः सौम्यो बोधनश्चंद्रपुत्रश्चांद्रिः शांतः श्या-

मगात्रोतिदीर्घः ॥ ६० ॥ जीवोंगिरा देवगुरुः प्रशांतो वाचांपती-

ज्यत्रि दिवेशवंध्याः ॥ भृगूशनोभार्गवसूनवोच्छकाणौः कविदैत्य-

गुरुः सितश्च ॥ ६१ ॥ छायात्मजः पंगुयमार्कपुत्राः कोणोसितः

सौरिशनी च नीलः ॥ क्रूरः कृशांगः कपिलाक्षदीर्घौ तमोसुरश्चे-

त्यगुसैहिकेयौ ॥ ६२ ॥ राहुस्तु स्वर्भानुविधुन्तुदौ स्यात्केतुः

शिखी स्याद्ध्वजनामधेयः ॥ शनेः सुतः स्याद्धूलिकोथ मांदिर्य-

मात्मजः प्राणहरोतिपापी ॥ ६३ ॥ प्राणस्त्वसुः प्राणपदस्य नाम

पर्यायमन्यत्प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ ६४ ॥

ग्रहोंके पर्याय नाम कहते हैं-सूर्य, हेलि, भानुमान, दीप्तरश्मि, चंडांशु, भास्कर, अह-

स्कर, ये सूर्यके नाम हैं । अब सोम, चंद्रमा, शीतरश्मि, शीतांशु, ग्लौ, मृगांक, कलेश,

चंद्रमाके ॥ ५९ ॥ आर, वक्र, आवनेय, कुज, भौम, क्रूर, लोहितांग, पापी, मगलके ।

विव, श, सौम्य, बोधन, चंद्रपुत्र, चांद्रि, शांत, श्यामगात्र, अतिदीर्घ, बुधके ॥ ६० ॥

जीव, अगिरा, देवगुरु, प्रशांत, वाचांपति, इज्य, त्रिदिवेशवध, वृहस्पतिके । भृगु, उशना,

भार्गवसूनु, अच्छ, काण, कवि, दैत्यगुरु, सित शुक्रके ॥ ६१ ॥ छायात्मज, पंगु, यम,

अर्कपुत्र, कोण, असित, सौरि, शनि, नील, क्रूर, कृशांग, कपिलाक्ष, दीर्घ, शनिके । तम,

असुर, अगु, सैहिकेय, ॥ ६२ ॥ राहु, स्वर्भानु, विधुतुद राहुके । केतु, शिखी, ध्वज,

हीन हेतु भूनिःसुत, गुलिक, मादि, यमात्मज, प्राणहर, अतिपापी ये भी केतुके नाम हैं, गुण शनि-

के तुल्यही हैं ॥ ६३ ॥ प्राण, असु प्राणपदके नाम हैं, उक्त ग्रहोंके पर्याय नाम और

चर्माके ज्योतिषी कहते हैं ॥ ६४ ॥

भानुर्युगात्प्रांकितदेहरक्तश्यामान्वितः पिंगलनेत्रकांतिः ॥ पित्ता-  
 त्मकोयं समगात्रयष्टिः प्रतापयुक् सत्त्वगुणोल्परामा ॥ ६५ ॥  
 संचारयुक्संकुचितार्थवाक्यः स्वल्पप्रदो दैविकबुद्धियुक्तः ॥ चंद्रः  
 सितांगः समगात्रयष्टिर्वाग्मी परिध्यंगविवेकयुक्तः ॥ ६६ ॥  
 क्वचित्कृशः शीतलवाक्ययुक्तः सत्त्वाश्रयो वातकफानिलात्मा ॥  
 कोपाग्निनेत्रः सितरक्तगात्रः पित्तात्मकश्चंचलबुद्धियुक्तः ॥ ६७ ॥  
 कृशांगयुक्तामसबुद्धियुक्तो भौमः प्रतापी रतिकेलिलोलः ॥ दूर्वाद-  
 लामः शशिशोतिविद्वान् रजोगुणः सूनृतवाक्यजालः ॥ ६८ ॥  
 हास्यप्रियः पित्तकफानिलात्मा सद्यःप्रतापी ननु पुंश्चलश्च ॥  
 बृहस्पतिस्तुंदिलगात्रयष्टिः कफात्मकः श्रेष्ठमतिः सुविद्वान् ॥  
 ॥ ७९ ॥ सत्त्वाश्रयः सर्वगुणाभिरामः पिंगाक्षमूर्द्धन्यकचाभि-  
 रामः ॥ सुलोचनश्चास्फुजिदात्तकामः सुखी बली सुंदरकांति-  
 पूणः ॥ ७० ॥ आनीलवर्णांकितरोमयुक्तो रजोगुणः सर्वगुणाभि-  
 रामः ॥ जालमस्तु मंदः कृशदीर्घगात्रः पिंगेक्षणः क्रूरकचाभिरामः ॥  
 ॥ ७१ ॥ स्थूलद्विजस्तामसबुद्धियुक्तो वातात्मको वाक्काठिन-  
 स्तु निद्यः ॥ वलेन निश्चित्य वदेद्ब्रह्मणां तत्प्राश्रिके जन्मनि  
 तद्गुणांस्तु ॥ ७२ ॥

अब ग्रहोंके वर्णाकारादि कहते हैं ।

जो ग्रह बलवान् है उसके अनुरूप गुण आकारादि जन्म तथा प्रश्नों को ज्ञाते हैं। सूर्य-  
 चतुरस्रशरीर, रक्तश्याम रंग, नेत्रकांति पीली, पित्तप्रकृति, समशरीर, प्रतापी, सत्त्वगुणमवान्,  
 अल्पकेश ॥ ६५ ॥ फिरनेवाला, वाक्यका अर्थ-संकोचयुक्त कहे, थोड़ा देनेवाला और दैवी  
 बुद्धि होवे । चंद्रमा--श्वेतरंग, समशरीर, बोलनेमें चतुर, गोलाकार अंग, विवेकी, ॥ ६६ ॥  
 कहीं कृश कहीं स्थूल, डंडे वाक्य बोले, सत्त्वगुणी, कफवायुप्रकृति, । मंगल-कोपसे ललनेत्र,  
 श्वेतरक्त ( पाटल ) रंग शरीर, पित्तप्रकृति, चंचल बुद्धिसे युक्त ॥ ६७ ॥ कृश अंग, तमो-  
 गुणी बुद्धि, प्रतापवान्, और कामके लिये अतिचंचल, । बुध-दूर्वारंग समान, श्यामरंग,  
 अतिविद्वान्, रजोगुणी, सत्यवादी ॥ ६८ ॥ हास्यप्रिय, पित्त कफवायु प्रकृति, तत्कालप्रतापवाला  
 और व्यभिचारी । बृहस्पति-बडापेटवाला, कफप्रकृति, श्रेष्ठबुद्धि, अच्छा विद्वान्, ॥ ६९ ॥

सत्त्वगुणी, संपूर्ण गुणोंका जाननेवाला, शिरके केश नेत्र पीले, पसन्न । शुक्र-सुहावने नेत्र पूर्ण-  
काम, सुखी, बलवान्, सुंदरकांति, ॥ ७० ॥ समृद्धिसे पूर्ण नीलेरंगसे चिह्नित, बहुत रोम, रजोगुणी  
संपूर्ण गुणजाननेवाला । शनि—दुष्टस्वभाव, झूट फरेववाला, क्रुश, लंबा शरीर, पीले नेत्र,  
क्रूर स्वभाव, केशशृंगारी ॥ ७१ ॥ मोठे दांत, तमोगुणमधान वातमृत्ति, कठोरवाणी  
निंदाके योग्य । ग्रहोंके बलका निश्चय करके जो बलाधिक हो उसके गुण, मश तथा जन्ममें  
बहने ॥ ७२ ॥

विप्रौ भवेतां गुरुदानवेज्यौ दिनेशभौमौ नरपालमुख्यौ ॥ सोम-  
श्च विद्वैश्यकुलप्रसूतो दिनेशपुत्रस्तु चतुर्थवर्णः ॥ ७३ ॥ चाण्डा-  
लजातिस्त्वथ सैहिकेयः केतुश्च जात्यंतरमंत्र मांदिः ॥ ७४ ॥

ग्रहोंके वर्ण कहते हैं बृहस्पति शुक्र ब्राह्मण, सूर्य मंगल राजा, चंद्रमा बुध वैश्य, शनि  
शूद्रजाति, और राहु चांडाल जाति, मांदि ( केतु ) इन जातियोंसे अन्य है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

रक्तः श्वेतोतिरक्तो हरितकनकरुक्चित्रनीलास्तु नाथा वृहच्चंभ-  
स्त्वग्निजातो हरिसुरगणराडिन्द्रभार्याब्जजाताः ॥ भानुः काव्यो  
धराभूरगुशानिशंशिनः सोमपुत्रामरेज्या ज्ञेयास्त्वन्द्रादिनाथाः  
क्रियवृषमिथुना राशयस्ते सचान्द्राः ॥ ७५ ॥

सूर्य रक्तवर्ण, चंद्रमा श्वेत, मंगल रक्त, बुध हरित, बृहस्पति पीत, शुक्र चित्र, शनि  
नीलवर्ण है । सूर्यका देवता अग्नि, चंद्रमाका जल, मंगलका अग्नि, बुधका विष्णु, बृहस्पतिका  
इन्द्र, शुक्रकी इद्राणी, शनिका स्वामी ब्रह्मा है । पूर्वादि दिशाओंके स्वामी क्रमसे पू० सूर्य  
अ० शुक्र, द० मंगल, नै० राहु, प० शनि, वा० चंद्रमा, उ० बुध, ई० बृहस्पति हैं ।  
मेष वृष मिथुन कर्क क्रमसे पूर्वादि ४ दिशाओंमें रहती हैं पुनः सिंहादि पुनः धन आदि  
भी ४ । ४ क्रमसे दिशानिवासी होती है ॥ ७५ ॥

क्षीणेंदुभूसूनुदिनेशमंदाः पापा बुधस्तत्सहितस्तु पापः ॥ नपुंसकौ  
सौम्यदिनेशपुत्रौ शशांकशुक्रौ युवती च शेपाः ॥ ७६ ॥ नरग्रहा  
भानुकुजामरेज्याः सूतौ बलात्तत्प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ भौमस्य मज्जापि  
वसा गुरोस्तु शुक्रं भृगोस्त्वक्छशिनंदनस्य ॥ ७७ ॥ चंद्रस्य रक्तं  
दिनपस्य चास्थि स्नायुः शनेर्धातुवशादुपाधिः ॥ तद्घातुकोपान्म-  
रणं प्रयाति रंध्रस्थितानामिह खेचराणाम् ॥ ७८ ॥

क्षीण चंद्रमा, मंगल, सूर्य, शनि और पापयुक्त बुध, पापग्रह हैं, अन्य ग्रह तथा निष्पाप बुध अक्षीण चन्द्र शुभग्रह है। बुध शनि नपुंसक चंद्रमा शुक्र स्त्रीग्रह ॥ ७६ ॥ शेषसूर्य मंगल वृहस्पति पुरुष ग्रह हैं जन्ममें बलवान ग्रहके तुल्य फल ज्योतिषज्ञ कहते हैं। भौमका धातु चर्बी, वृहस्पतिकाभी चर्बी, शुक्रका वीर्य, बुधका त्वचा ॥ ७७ ॥ चंद्रमाका रुधिर, सूर्यका हड्डी, शनिका नशी, है, रोगादि उपाधि ग्रह अपने धातुके अनुसार करते हैं जो ग्रह अष्टम है वा मृत्युकारक है उसके धातुके कोपसे मरण होता है ॥ ७८ ॥

देवस्थानं भास्करस्यांबुवासं चंद्रस्याग्निस्थानमंगारकस्य ॥  
 क्रीडास्थानं सोमपुत्रस्य कोशस्थानं जीवस्येवमाहुर्भृगोस्तु ॥  
 सुप्तिस्थानं भानुजस्योत्करं तु सर्पस्थानं सैहिकेयस्य चैवम् ॥७९॥जीर्ण शनेर्वासरनायकस्य स्थूलं गुरोर्मध्यमकं कवेश्च ८० ॥  
 काठिन्यमवजस्य तु नूतनं वित् क्लिन्नं कुजस्याग्निहतं च वस्त्रम् ॥  
 कंथा फणींद्रस्य तु चित्ररूपा केतोर्महाछिद्रयुता विशेषात् ॥ ८१ ॥

सूर्यादियोंके स्थान तथा वस्त्र कहते हैं, सूर्यका देवस्थान, चंद्रमाका जलस्थान, मंगलका अग्निस्थान, बुधका विहारस्थान, वृहस्पतिका खजाना वा भण्डार, शुक्रका शयनस्थान, शनिका पुंज, पृथ्वीका चपटोला आदि, राहुका सर्पस्थान, ( बांवी आदि ) केतुकाभी वही स्थान है शनिका घर वा वस्त्र जीर्ण, सूर्यका मोटा, वृहस्पति शुक्रका मध्यम, चंद्रमाका कठोर, बुधका नवीन, मंगलका टूटा फटा और आग्निदग्ध, राहुकी गुदही रंगवर्णकी और केतुका बड़ेबड़े छिद्रोंसे संयुक्त होता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥

ताम्रं दिनेशस्य निशाकरस्य मणिर्हिरण्यं तु धरासुतस्य ॥ शुक्ति-  
 विंदो देवगुरोस्तु रौप्यं मुक्ता भृगोरायसमर्कसूनोः ॥ ८२ ॥  
 राहोस्तु शीशं शिखिनस्तु नैल्यं धरामणिस्तत्कथयंति तज्ज्ञाः ॥  
 पीतांबरं देवगुरोर्भृगोस्तु क्षौमांबरं भास्करमिन्द्रगोपम् ॥ ८३ ॥  
 शुक्लं क्षामं रात्रिनाथस्य चाद्रेः श्यामं क्षामं रक्तचित्रं कुजस्य ॥  
 वस्त्रं चित्रं पट्टवस्त्रं शनेस्तु नीलं राहोर्जीर्णचित्रान्वितं च ८४ ॥  
 रूपान्वितं तद्रसनं च केतोर्वलान्वितानां तु वदेद्ब्रह्मिणाम् ॥ ८५ ॥

सूर्यका धातु ताम्र, चंद्रमाका मणि(बुन्नी), मंगलका सुवर्ण, बुधका शीप, वृहस्पतिका चांदी, शुक्रका मोती, शनिका लोह ॥ ८२ ॥ राहुका शीशा, केतुका नीलम ये पार्थिव धातु ग्रहोंके ज्योतिषी कहते हैं। वृहस्पतिका पीतांबर, शुक्रका पशमीना, सूर्यका धीरवहूटीके रंगका,



रेसम ॥ ८३ ॥ चंद्रमाका श्वेत पसमीना, बुधका हरित ऊनी, मंगलका रक्तवर्ण विचित्र, शनिका विचित्र रेशमी वस्त्र, राहुका नीला रंग और चित्र विचित्रभी ॥ ८४ ॥ केतुका विचित्ररूप वस्त्र है । बलवान् ग्रहके लक्ष धातु वस्त्रादि जन्मप्रश्नादिमें कहना ॥ ८५ ॥

भृगोर्वसंतः क्षितिसूनुभान्वोर्ग्रीष्मः शशांकस्य ऋतुः प्रवर्षः ॥  
विदः शरद्देवगुरोस्तु हैम्नो ऋतुः शनेः स्याच्छिशिरस्तु-  
कालः ॥ ८६ ॥

ग्रहोंकी ऋतुकी शुक्रकी वसंत, मंगलसूर्यकी ग्रीष्म, चंद्रमाकी वर्षा, बुधकी शरत्, बृहस्पतिकी हेमन्त, शनिकी शिशिर ऋतु है ॥ ८६ ॥

द्रेष्काणपैस्तद्गतवस्तु वाच्यं प्रश्ने प्रसूतावपि नष्टसंज्ञे ॥ भानोः  
कटुर्भूमिसुतस्य तित्तं सोमस्य तावल्लवणं विदस्तु ॥ ८७ ॥  
मिश्रीकृतं वस्तु सुरेज्यभृग्वोर्माधुर्यमम्लं च शनेः कषायः ॥ ऋतु-  
त्रयं वासरनायकस्य क्षणं शशांकस्य दिनं कुजस्य ॥ ८८ ॥ विदो  
ऋतुर्देवगुरोस्तु मासः पक्षो भृगोर्वत्सरमर्कसूनोः ॥ अष्टौ तु मासा-  
स्तुहिनांशुशत्रोः केतोस्तु मासत्रयमेव कालः ॥ ८९ ॥

मश्र जन्म तथा नष्ट वस्तु विचारमें द्रेष्काणेशके अनुसार वस्तु बतलानी, अब ग्रहोंके रस कहते हैं सूर्यका कटुभा, मंगलका तीता, चंद्रमाका लवण, बुधका मिश्रित, बृहस्पतिका मीठा शुक्रका खट्टा, शनिका काथ है फलपाकमें समय संख्या है कि सूर्यके छः महीना चंद्रमाका मूर्हत मंगलका दिन ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ बुधके दो महीना, बृहस्पतिका एक मास, शुक्रका एक पक्ष, शनिका एक वर्ष, राहुका आठ महीना, केतुका तीन महीना, पाककाल है ॥ ८९ ॥

धातुग्रहा राहुशनीन्दुभौमा मूलग्रहौ शुक्रदिनाधिनाथौ ॥ जीवग्रहौ  
जीवशशांकसूनू मेपादि दस्तादि यथाक्रमेण ॥ ९० ॥

राहु शनि चंद्रमा मंगल धातुवस्तुके, सूर्य शुक्र मूलवस्तुके और बृहस्पति बुध जीववस्तुके स्वामी हैं और मेपादिराशिक्रमसे धातुमूल जीवसंज्ञक हैं ऐसेही अदिवन्यादि नक्षत्र भी क्रमसे धातुमूल और जीवसंज्ञक हैं ॥ ९० ॥

अथोर्ध्वदृष्टी दिननाथभौमौ दृष्टिः कटाक्षेण कर्वांदुसून्वौः ॥ शशांक-  
कगुर्वोः समभागदृष्टिस्त्वधोक्षिपातस्त्वहिनाथशन्योः ॥ ९१ ॥

सूर्य मंगल ऊर्ध्वदृष्टि, शुक्र बुध तिर्छी दृष्टि, चंद्रमा बृहस्पतिसम दृष्टिवाले हैं, राहु शनिकी अधोदृष्टि है ॥ ९१ ॥

पश्यत्यसौ भानुसुतस्तृतीयं मानं च पूर्णं चतुरस्रमारः ॥ जीव-  
स्त्रिकोणं मदनं च सर्वे पश्यन्ति दृष्ट्या चरणप्रवृद्ध्या ॥ ९२ ॥

दृष्टि कहते है शनि ३ । १० भावमें पूर्ण देखता है मंगल ४ । ८ में बृहस्पति ५ । ९ में अन्यग्रह सप्तम भावमें पूर्ण देखते हैं पूर्णदृष्टिके स्थानसे दाहिने बायें क्रमसे चरणदृष्टि होती है ॥ ९२ ॥

भानोस्तु मित्राणि कुजेंदुजीवाः समो बुधः शुक्रशनी विपक्षौ ॥  
इष्टौ शशांकस्य दिनेशसौम्यौ शेषाः समा भूमिसुतस्य मित्रम् ॥  
॥ ९३ ॥ रवीन्दुजीवाश्च बुधश्च शत्रुः समौ दिनेशात्मजदानवे-  
ज्यौ ॥ सौम्यस्य मित्रे दिननाथशुक्रौ शेषाः समा रात्रिकरः  
सपत्नः ॥ ९४ ॥ शुक्रेंदुजौ देवगुरोः सपत्नौ मित्राणि सर्वे रवि-  
जस्तु मध्यः ॥ शनीन्दुजाविष्टकरौ भृगोस्तु शेषाः सपत्नाश्च  
समौ कुजेज्यौ ॥ ९५ ॥ सौरस्य मित्रे भृगुपुत्रसौम्यौ समो गुरु-  
स्ते निखिलाः सपत्नाः ॥ राहोस्तु मित्राणि कवीज्यमंदाः केतो-  
स्तथैवात्र वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ९६ ॥

मित्रामित्र कहते हैं सूर्यके मंगल चंद्रमा बृहस्पति मित्र, बुध सम, शुक्र शनि शत्रु हैं । चंद्रमाके सूर्य बुध मित्र, अन्यसम हैं शत्रुकोई नहीं । मंगलके सूर्य चंद्रमा बृहस्पति मित्र, बुध शत्रु, शनि शुक्र सम हैं । बुधके सूर्य शुक्र मित्र, चंद्रमा शत्रु, अन्य सम, हैं । बृहस्पतिके शुक्र बुध शत्रु, शनि सम, और सब मित्र हैं । शुक्रके शनि बुध मित्र, मंगल बृहस्पति सम, अन्य शत्रु हैं । शनिके शुक्र बुध मित्र, बृहस्पति सम, अन्य शत्रु है । राहुकेतुके शुक्र बृहस्पति शनि मित्र, अन्य शत्रु, ज्योतिषज्ञ कहते हैं ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

भवंति तात्कालिकमित्रभूताः सर्वे च वाक्सोदरबंधयुक्ताः ॥  
स्वात्स्वात्कमाद्भ्युत्क्रमतस्तथैवमन्यस्थितास्तत्समयारिभूताः ॥  
॥ ९७ ॥ तत्कालमित्रं तु निसर्गमित्रं द्वयं भवेत्तत्त्वधिमित्रसं-  
ज्ञम् ॥ तथैव शत्रोरधिशत्रुसंज्ञमेकत्र शत्रुः समतामुपैति ॥ ९८ ॥

तत्कालमें अपने स्थानसे पंचम तृतीय चतुर्थ स्थानगत ग्रह मित्र, क्रम एवं व्युत्क्रमसे होतेहै अन्य राशियोंमें तात्कालिक शत्रु होते हैं ॥ ९७ ॥ एक तत्काल मैत्री दूसरी नैसर्गिक मैत्री ( पूर्वोक्त ) हैं । दो प्रकार मित्र होनेमें अधिमित्र, दो प्रकार शत्रु होनेमें अधि-  
शत्रु होता है । जो एक प्रकार मित्र दूसरेप्रकार शत्रु है वह सम गिनाजाता है ॥ ९८ ॥

स्वोच्चे सुहृद्भे स्वनवांशेकपि स्वर्क्षे दृकाणे द्विरसांशकेपि ॥  
 कलांशकाद्यंशयुतेपि चैवमुपैति तत्स्थानबलं ग्रहेन्द्रः ॥ ९९ ॥  
 लग्ने बुधेज्यौ वलिनौ तु पूर्वं वीर्यं यमे तदर्शमेकभौमौ ॥ कामेर्क-  
 सुनुर्वलवाञ्जलेशे वंधौ निशानाथकवी कुबेरे ॥ १०० ॥  
 तत्सप्तमे दिग्बलशून्यंमाहुस्तदंतरे चेत्वनुपात एव ॥ स्वमास-  
 होरादिनवत्सरेषु वीर्यान्विता भानुमुखा ग्रहेन्द्राः ॥ १०१ ॥

पदबल कहते हैं-अपने उच्चराशि मित्रराशि, अपने नवांशक अपने राशि अपने द्रेष्काण अपने दादशांश पोहशांश आदिमें ग्रह स्थानबली होता है इनसे विपरीत नीच आदिमें बल-  
 शून्य वाचम अनुपातसे स्थानबल जानना ॥ ९९ ॥ बुध वृहस्पति लग्ने तथा पूर्वमें सूर्य  
 मंगल दक्षिण दशममें, शनि सप्तम पश्चिम और चंद्रमा शुक्र चतुर्थ उत्तरमें दिग्बली होतेहैं  
 अपनेसे सप्तममें शून्य वीचमें अनुपात करना अपने महीना अपनी कालहोरा स्वदिन अपने  
 वर्षमें ग्रहकालबली होते हैं । १०० ॥ १०१ ॥

रात्रौ वलाढ्या शनिचंद्रभौमास्त्रयो ग्रहाश्चाह्नि रवीज्यशुक्राः ॥  
 सदा बली वित्सितकृष्णपक्षे सौम्यास्तदन्ये वलिनः क्रमेण ॥  
 ॥ १०२ ॥ शुभेक्षिताः पूर्णबलान्वितास्तु दृष्टेर्बलं पापखगेर-  
 दृष्टः ॥ सौम्यायने त्वतिबली दिवसाधिनाथश्चन्द्रस्तदन्यसमये  
 बलपूर्णयुक्तः ॥ १०३ ॥ मंदारसौम्यगुरुशुक्रशशांकसूर्या नैस-  
 र्गिकाख्यवलिनः खचराः क्रमेण ॥ १०४ ॥ वक्रान्विताः क्षिति-  
 सुतप्रमुखाः समस्ता युद्धे जयी जलपादिग्गतकांतियुक्तः ॥ १०५ ॥

शनि चन्द्रमा मंगल रात्रिमें, सूर्य वृहस्पति शुक्र दिनमें और बुध सर्वदा काल बली होता  
 है शुक्रपक्षमें शुभग्रह कृष्णपक्षमें पापग्रह बली होते हैं ॥ १०२ ॥ शुभग्रहोंसे दृष्ट ग्रह जो पापदृष्ट  
 न हों तो पूर्णबली होते हैं सूर्य उत्तरायणमें चंद्रमा दक्षिणायनमें ॥ १०३ ॥ भौमादि ग्रह  
 बक्रहोनेमें अथवा ग्रहयुद्धमें विजयी निस्को कीर्ति तेज हो और पश्चिम ग्रहों, वृहस्पति बली  
 होता है ॥ १०४ ॥ शनि, मंगल, वृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, इस क्रमसे एकसे अधिक  
 दूसरा नैसर्गिक बली होता है ॥ १०५ ॥

लग्नस्य वीर्यमधिपस्य बलं तु सर्वं मुख्यं वदंति खलु पद्भिविधवी-  
 र्यमेवम् ॥ १०६ ॥ लग्नं नृभं चेद्बलमत्र रूपमाञ्जं चतुष्पाद्-

जैसे सूर्य २ । ४ । २८ । १ द्विस्वभाव राशिमें है तो ३ । ७ । ११ इस त्रिकोणमें चर तुला है इसीसे गिना ३ । ४ प्राणपद आया सूर्यांग ४ और लग्नांगकी एकता आवै तब लग आता है यहां उदाहरणार्थ सूर्य कहा है, ऐसेही चंद्रादि जानना । गुलिक लग्नसे वा चंद्रमासे त्रिकोण शुद्ध किये बिना अशुद्ध प्राणपद स्थावरुका होता है, उक्त दोनोंमेंसे जो बलवान हो उससे प्राणपद साधन करना दोनों निर्बल हों तो उसके सम अथवा उसके अंशके समसे गिनना उसमें वा उसके त्रिकोणमें जन्मलग्न कहना यह मनुष्यके लिये मश्र वा जन्मसे कहा. पशुओंका २ । १० । ६ । ३ । ७ । ११ से पक्षियोंका भी इन्हीसे और शेषस्थानोंसे कीट सर्प जउचर जीवोंका जानना ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७ ॥

लग्ने बले मांदिशशाद्विलग्नं चंद्रे बले चंद्रवशाद्विलग्नम् ॥

ओजे तदंशे पुरुषस्य जन्म लग्ने स्त्रियस्तद्विपरीतभांशे ॥११८॥

लग्न बलवान हो तो गुलिक मांदिशसे उपरोक्त त्रिकोण गोप करके लग्न जानना यदि चंद्रमा बलवान हो तो चंद्रमासे जानना विपरीत भांशमें पुरुष, जन्म, सम राशि हो तो उसके विपरीत भांशमें जन्म जानना ॥ ११८ ॥

क्रमाद्ग्रहः पाचकबोधकश्च सकारको वेधकसंज्ञकश्च ॥ मंदारजी-  
वानरशत्रुपूज्याः नृकारसूर्यात्मजजापरेशाः ॥ ११९ ॥ रवीन्द्रु-  
सूर्यात्मजचन्द्रपुत्राः शशांकजीवाच्छधरासुताश्च ॥ सूर्यात्मजा-  
रेंदुदिनाधिनाथाः सौम्येन्दुपुत्रार्कदिनेशपुत्राः ॥ १२० ॥ शुकेन्दु-  
देवेज्यधरासुताश्च भवंति तत्पाकसुखा ग्रहेन्द्राः ॥ १२१ ॥

ग्रह क्रमसे, पाचक १ बोधक २ कारक ३, वेधक ४ संज्ञक होता है । शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र ॥ १ ॥ शुक्र मंगल, शनि, सूर्य ॥ २ ॥ १२९ ॥ सू० चं० शं० बु० ॥ ३ ॥ चं० चू० शु० मं० ॥ ४ ॥ शं० मं० बु० सू० ॥ ५ ॥ बु० वृ० सू० शं० ॥ ६ ॥ १२० ॥ शु० चं० वृ० मं० ॥ ७ ॥ इसक्रमसे ग्रह पांच बोधक कारक वेधक होते हैं ॥ १२१ ॥

स्थानानि वक्ष्ये क्रमशो ग्रहाणां पदसप्तधर्मायगताः क्रमेण ॥  
भानोः शशांकान्मदभाग्यलाभयुक्तास्तृतीयेन धरासुताच्च १२२ ॥  
धनारिलाभांत्यगताब्जसूनोर्द्वितीयबंध्वात्मजसोदराश्च ॥ गुरो-  
स्तु पष्ठात्मजकामरिप्फाः शुक्राद्धनारिव्ययबंधुयुक्ताः ॥ १२३ ॥  
तृतीयलाभारिकलत्रगास्तु दिनेशसूनोः प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ १२४ ॥

क्रमसे सूर्यादि ग्रहोंके स्थान कहते हैं, सूर्यसे १ । ७ । ९ । ११, चंद्रमासे ७ । ९ । ११ । ३, मंगलसे २ । ६ । ११ । १२, बुधसे ३ । ५ । ५ । ३, बृहस्पतिसे ६ । ५

७ । १२, शुक्रसे, २ । ६ । १२ । ४; शनिसे ३ । ११ । ६ । ७, स्थानोंमें पूर्वोक्तसंज्ञा वाले ज्योतिषज्ञ कहते हैं ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

शत्रुर्दिनेशस्य तु पाचकः स्यान्मित्राणि शेषाः शशिनस्तु वैरी ॥

व्यये तु भौमस्य च वेधकश्च शत्रुर्बुधस्यांतकरो गुरोस्तु ॥ १२५ ॥

पाकग्रहो वेधकसंज्ञकश्च शत्रुर्भवेदास्फुजितश्च वैरी ॥ सकारको

वेधकसंज्ञकश्च शनेस्तु तत्कारकखेचरोरिः ॥ १२६ ॥

सूर्यका पाचक शत्रु, अन्य मित्र होते हैं । चंद्रमाका व्ययगत ग्रह वैरी, मंगलका वेधक शत्रु, बुधका वेधक, वृहस्पतिकी पाचक ग्रह, शुकका वेधक ग्रह, शनिका कारक ग्रह शत्रु, अन्य मित्र होते हैं ॥ १२५ ॥ १२६ ॥

मिष्टान्नपानांबरभूषणातिं राज्यार्थभूलाभमतीत्र सौख्यम् ॥ धैर्यं

महोत्साहंमतीव शक्तिं कुर्याद्रहः पाचकसंज्ञकोयम् ॥ १२७ ॥

मित्रे यथान्यायफलं तदन्ये ग्रहे तदन्यत्फलमातनोति ॥ समग्र-

भाग्यं बहुराजपूज्यं विद्यां विनोदांकितराजगोष्ठीम् ॥ १२८ ॥

पाचक संज्ञक ग्रह मित्र संज्ञक हो तो मिष्टान्न, मिष्टपान, श्रेष्ठवस्त्र भूषणकी प्राप्ति, राज्य-  
लाभ, धनलाभ, अतिसौख्य, धैर्य, मनमे उत्साह, बड़ी सामर्थ्य करता है ॥ १२७ ॥  
यदि वही पाचकग्रह शत्रुसंज्ञक हो तो उक्त फल विपरीत करता है । और भाग्योदय करना  
राज्यपूज्यत्व विद्या आनंदसहित सभामें प्रवेशकरना यह इसका स्वाभाविक गुण है परंतु  
मित्रसंज्ञक होनेमें यथायोग्य फल और शत्रुसंज्ञक होनेमें विपरीत करता है बड़ी हो तो विपरीत  
तो नहीं परन्तु उक्तफल कम करता है ॥ १२८ ॥

दयातपःप्राप्तमचिन्त्यभाग्यं कुर्यात्फलं बोधकसंज्ञकश्च ॥ ग्रहे

तु तस्मिन् फलमातनोति समग्रपर्याप्तफलं तदन्ये ॥ १२९ ॥

बोधक संज्ञक ग्रह मित्रसंज्ञक हो तो दया तपसे प्राप्त अविचारित भाग्य करता है, मित्र-  
संज्ञक होनेमें उक्त फल पूर्ण और शत्रुसंज्ञक होनेमें अन्यथा करता है ॥ १२९ ॥

भाग्यं क्वचित्क्षीणफलं क्वचिच्च दारार्थबंध्वात्मजरोगपीडा ॥ चो-

राग्निपीडा कलही जनैस्तु सकारको मित्रसमो यदि स्यात् ॥ १३० ॥

सकारको वैरिसमो न तत्तु वदंति व्यत्यासफलं विशेषात् ॥

चोराग्निबंधुक्षितिपालसंधैरतीव दुःखं स्वपदच्युतं च ॥ १३१ ॥

कारक ग्रह मित्रसम हो तो कभी भाग्यवृद्धि, कभी भाग्यहानि, कभी स्त्री, धन, बंधु, पुत्रोंको रोगपीड़ा, चौरभय, अग्निपीडा, एवं अग्निपीडा लोगोंसे कलह करताहै ॥ १३० ॥ वही सकारक शत्रुसम हो तो औरोंके तरह विपरीत फल नहीं करता विशेषतः चौरभय, अग्निभय, बंधुभय, राजाओंसे अतिदुःख और अपने पदकी भी च्युति करता है ॥ १३१ ॥

**विदेशयानं धननाशनं च वेधग्रहस्तत्फलमन्यथान्यः ॥ १३२ ॥**

वेधसंज्ञक ग्रह मित्रसम हो तो विदेशगमन धननाश करता है शत्रुसम हो तो उक्तफल अन्यथा करता है ॥ १३२ ॥

**तरुखरजयनृपतनुखनिनाडयो भास्करादिवारेषु ॥ दिनमानघटीगुणिता नागहता गुलिकनाडिकाः स्पष्टाः ॥ १३३ ॥ स्फुटगुलिकनाडिकाभिस्तत्कालार्केण सायनेनापि ॥ लग्नवदानेतव्यो राश्यंशकलादिरूपको गुलिकः ॥ १३४ ॥**

रविवारमें २६ चंद्रमें २२ मंगलमें १८ बुधमें १४ गुरुमें १० शुक्रमें ६ शनिमें २ अंक दिनमान घटिकासे गुणाकर ३० से भाग देनेसे गुलिक घटी होती है स्पष्ट गुलिक घटियों करके तत्काल सूर्य तथा सायनसूर्यसे भी लग्नस्पष्टकी रीतिसे राशि अंश कलादि गुलिक लग्न स्पष्ट होता है ॥ १३४ ॥

**चंद्ररुद्रजयवैद्यनृपातोनाखुनाडिनिहितादिनमानात् ॥ नागलब्धमितमादिघटी स्याल्लग्नवत्स्फुटमिहानयनं हि ॥ १३५ ॥**

मांघ कहतेहैं रविवारमें २६ चंद्रमें २२ भौममें १८ बुधमें १४ वृहस्पतिमें १० शुक्रमें ६ शनिमें २ से दिनमान गुणाकर ३० से भाग लेकर मांघ घटी होतीहैं तब लग्न स्फुटकी रीतिसे राश्यादि वनायके मांघलग्न स्पष्ट होता है गुलिक जन्म कालिके लग्न निश्चयार्थ ग्रंथांतरमें इसप्रकार है कि " रविवारादि शन्यन्तं गुलिकादि निरूप्यते ॥ दिवसानपथा कृत्वा वारेशाद्गणयेत्कमात् ॥ १ ॥ अष्टमांशो निरीशः स्याच्छन्यंशो गुलिकः स्मृतः ॥ रात्रिरप्यपथा भक्त्वा वारेशात्पंचमादितः ॥ २ ॥ गणयेदष्टमं संहो निष्पत्तिः परिकीर्तिता ॥ शन्यंशो गुलिकः शोको गुर्वंशे यमघंटकः ॥ ३ ॥ भौमांशो मृत्युरादिहो रव्यंशे कालसंज्ञकः ॥ सौम्यां शोर्द्धमहरकः स्पष्टकर्मदेशकः ॥ ४ ॥ " सूर्यादिञ्चारोंमें दिनमानके ८ भाग करके तद्दिनारेण प्रथम सण्डाधिपति तदनंतर उस ग्रहसे आगे क्रमसे संदेश जानने अष्टमखंड निरीश होता है सातही चारोंमें शन्यंश गुलिक होता है जैसे रविवारमें सप्तमसंदेश शनिका गुलिक, चंद्रमें छटा, मंगलमें पंचम, बुधमें चतुर्थ, गुरुमें तीसरा, शुक्रमें दूसरा, शनिवारमें प्रथम संड, रात्रिकेवास्ते रात्रिमानके ८ भाग करके तदारेणसे पंचवा आदिसंडाधिपति होनेहैं अष्टमखंड यदां भी निरीश होताहै

गुलिक जैसे रविरात्रिमें तीसरा, चंद्रमें दूसरा, भौममें प्रथम, बुधमें सप्तम, गुरुमें छठा, शुकमें पंचम, शनिमें चतुर्थखंड गुलिक होता है। ऐसेही दिनरातमें गुरुखंड, यमघंट, बुधखंड, अर्द्ध-याम, सूर्याश कालसंज्ञक, भौमांश मृत्युनामा होता है उदाहरण-

**गुलिकगुणकध्रुवांकाः**

दिनमान ३३ । १४ अष्टमांश ४ । ९ । १५ बुधवारका जन्म है इसके गुणक ४ से गुण १६ । ३७ गुलिकेष्ट हुआ। लग्नस्पष्टकी रीतिसे गुलिक लग्न ५ । ६ स्पष्ट हुआ ॥ १३५ ॥

सु.	च.	म.	बु.	बृ.	शु.	श.	ग्र.
७	६	५	४	३	२	१	दि.
३	२	१	७	६	५	४	रा.

पाकेशाद्रसुभांत्यशत्रुभवने युक्तोपहारे श्वरस्तच्छत्रुर्भवतीह लाभ-धनभे सोत्थात्मजे बंधुभे ॥ भाग्ये वा दशमे समन्वितग्रहस्तच्छोभनाख्यस्ततस्तत्कामान्वितखेचरस्त्वशुभदः प्रोक्तो ग्रहाणां क्रमः ॥ १३६ ॥

फल देनेवाला ग्रह पाकेशसे ८ । १२ । ६ स्थानोंमें शत्रु होता है । ११ । २ । ५ । ४ । ९ । १० । ३ । १ शुभ ( मित्र ) संज्ञक होता है और सप्तम ७ स्थानगत ग्रह अशुभ देनेवाला होता है यह ग्रहोंका क्रम है ॥ १३६ ॥

पापग्रहादिसहितो द्युचरस्तु शत्रुः स्यात्स्थानतोपि शुभदस्त्व-तिशोभनाख्यः ॥ स्थानानुरूपफलमेव विचिंत्य मार्गं ज्ञात्वा वदन्ति मुनयो जगतां सुसिद्धयै ॥ १३७ ॥

ग्रह पापग्रहादिसे युक्त शत्रुसंज्ञक होता है जो शुभयुत है और शुभस्थानमें भी है वह अतिशुभ होता है इसप्रकार स्थानके अनुसार फलको मार्ग विचारके शुभाशुभत्व जानके मुनि लोक जगत्के सिद्धिके लिये कहते हैं ॥ १३७ ॥

संज्ञाध्यायो वर्णितः सर्वशास्त्रात्सारं बुद्ध्या सर्वलोकोपकारम् ॥

यद्यत्सर्वं वैकटेशेन बुद्ध्या तत्तत्पाके योजयेत्तत्फलानि ॥ १३८ ॥

इति सर्वार्थचिन्तामणौ संज्ञानिरूपणो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

वैकटेशनामा ग्रंथकर्ता आचार्यने सब शास्त्रोंसे सार जानके सर्वलोकोपकारार्थ यह संज्ञा-ध्याय कहा है जो जो इसमें कहा गया है उनउन ग्रहोंका फल पाकसमयमें योजित करना ॥ १३८ ॥ इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ महीधरकृतायां भाषाटीकायां संज्ञाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

## द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ लग्नफलविचाराध्यायः ।

भावोद्भवानि विविधान्युचितानि यस्माच्छास्त्रांतरादृषिगणा  
दृढबुद्ध्यस्तु ॥ यान्येव तानि खगयोगवशाद्भ्रंति बुद्ध्या समी-  
क्ष्य विदुषां तु मुदे करोमि ॥ १ ॥

ग्रहकर्ताकी उक्ति है कि दृढबुद्धि ऋषिजनोंने शास्त्रांतरसे जो नानामकर भावफल कहे हैं वही पक्वबुद्धि ऋषिगण ग्रहयोगोंके अनुसार जो फल कहते हैं वन्हीको अपनी बुद्धिसे विचारके में भावफलाध्याय विद्वानोंके मसनतार्थ करताहूँ ॥ १ ॥

भावाः सर्वे शुभपतियुता वीक्षिता वा शुभेशैस्तत्तद्भावाः सकल-  
फलदाः पापदृग्योगहीनाः ॥ पापाः सर्वे भवनपतयश्चेदिहाहुस्त-  
थैव खेटैः सर्वैः शुभमपि फलं निम्नमूढारिहीनैः ॥ २ ॥

समस्तभाव शुभग्रह स्वनाथ युक्त वा दृष्ट, पापग्रह योग दृष्टि हीन, संपूर्ण फल देते हैं । पापयुक्त, पापपति, पापदृष्ट, नीचगत, अस्तंगत, हीनबल, शुभफलको छोड़के अशुभफल करते हैं ॥ २ ॥

लग्नादिभावाद्रिपुरंध्ररिष्फे पापग्रहास्तद्भवनादिनाथाः ॥सौम्या-  
स्तु नात्यंतफलप्रदास्तद्भावादिकानां फलमेवमाहुः ॥ ३ ॥

लग्नादि सभी भावोंसे भावेग ६ । ८ । १२ में तथा पापग्रह इन भावोंमें अशुभ फल देते हैं, शुभग्रह शुभफल नहीं देते परंतु अशुभफल भी नहीं करते, मत्येक भावोंके फल ऐसेही कहतेहैं ॥ ३ ॥

यद्भावनाथो रिपुरंध्ररिष्फे दुःस्थानपो यद्भवनस्थितो वा ॥

तद्भावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः शुभेक्षिते तद्भवनस्य सौख्यम् ॥ ४ ॥

जिस भावका स्वामी ६ । ८ । १२ में हो तथा दुष्टस्थानाधीश जिस भावमें हो तो उसभावका उक्तफलनाश ज्योतिषज्ञ कहते हैं । शुभग्रहको दृष्टि उस भावपर होनेसे उस भावसंबंधी सुख होता है ॥ ४ ॥

तत्तद्भावात्रिकोणे स्वसुखमदनभे चास्पदे सौम्ययुक्ते पापानां  
दृष्टिहीने भवनपसाहिते पापखेटैर्युक्ते ॥ भावानां पुष्टिमाहुः



सकलग्रुभकरीमन्यथात्वे प्रणाशं मिश्रं मिश्रग्रहेन्द्रैः सकलग्रु  
तथा मूर्तिभावादिकानाम् ॥ ५ ॥

जिस जिस भावसे त्रिकोणादि ५ । ९ । २ । ४ । ७ । १० भावोंमें शुभग्रह हों  
न हों अथवा भावेशयुक्त हों पापयुक्त न हों तो उसउस भावकी पुष्टि कहते हैं संपूर्ण  
पुष्टि होती है । इससे विपरीत होनेमें उस भावका नाश मिश्रित होनेमें फलभी तर्द-  
होता है । यह विचार लग्नादि सभी भावोंका है ॥ ५ ॥

नाशस्थानगतो दिवाकरकरैर्लुप्तस्तु यद्वाशिपो नीचार  
वा यदि भवेत्सौम्यैरयुक्तेक्षितः ॥ तद्भावस्य विनाशनं सुनि-  
शंसन्ति खेटैर्धुतश्चेदत्रापि फलप्रदो न हि तदा मूर्त्यादि-  
क्रमः ॥ ६ ॥

जो ग्रह नाशस्थान ( ८ ) गत है, जो अस्तंगत है, जिस भावका स्वामी न  
राशिमें हो, शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट न हो उस उस भावका नाश मुनिगण कहते  
ग्रहयुक्त भी है वह भी उत्कमकार होनेमें शुभफल देनेवाला नहीं होता है यह ल-  
भावोंका क्रम है ॥ ६ ॥

अर्थात्ति कथयेद्विलग्रशशिनोः प्राबल्यतः खेचरैर्मानस्थैः  
मातृशत्रुससुहृद्भ्रात्रादिभिः स्याद्धनम् ॥ भृत्याद्वा दिनन  
ग्रशशिनानां मध्ये बलीयांस्ततः कर्मेशस्थनवांशराशिवशतौ  
जगुस्तद्विदाः ॥ ७ ॥

कर्माजीविका कहते हैं—लग्नचंद्रमामेंसे जो विशेष बली हो उससे दशममें सूर्य  
वा पितृवृत्तिसे, चंद्रमा हो तो मातासे, मंगल हो तो शत्रुसे, बुध हो तो मित्रसे  
हो तो भाईसे, शुक्र हो तो स्त्रीसे, शनि हो तो भृत्य आदिसे धन मिले । जब दर्श-  
ग्रह लग्नचंद्रमामेंसे न हो तो सूर्य चंद्रमा लग्नमेंसे जो बलवान् हो उसके दशमभाग  
जिसके नवांशकमें हो उसके उत्कर्मसे आजीवन ज्योतिषी कहते हैं ॥ ७ ॥

भैषज्यचामीकरतोययानपण्येन मुक्तामणिविप्रलंभात् ॥ ३  
न्यदूतागमवृत्तिमार्गाजीवत्यसौ वासरनायकांशे ॥ ८ ॥

... ग्नेश्वरसवादेविनोदमार्गैर्वृत्तिं जगुः सकलशास्त्रपराणम् ॥  
छाभेश, सूर्य, प्राथिभिः क्षितिपालपूज्यो जीवत्यसौ क्षितितलेपठे  
मिळती है ॥ ३४ ॥  
॥ ९ ॥

धीम पापग्रह होवै तो वह शनि मंगल सूर्यके अंतर्दशामें धननाश करता है जः ५५  
 ५५युक्त हो तो वही फल करताहै ॥ २० ॥ यदि धनेश पापग्रह हो वहभी पापरा-  
 वै तो रानकोपसे धननाश होवै तथा अनेक प्रकार अर्थनाश, स्यानभ्रंग, इष्टजनोंसे  
 भोगे मना ॥ २१ ॥

भावोद्गमपहारकाले पापग्रहस्यैव दशासु काले ॥ भुक्तय-  
 दृढबुद्धमजसोदराणां नाशं समायाति शुभैर्न दोषः ॥ २२ ॥

शुभे शोभनखेचरेशे तत्पाककाले धनलाभमेति ॥

ग्रंथकदाणामपहारकाले तथाभवेदात्मजवाग्बिलासः ॥ २३ ॥

वही पकवाः दशाकालमे पापग्रहोंका अनिष्ट फलकारक समय ( अंतर्दशादि ) में भोजन,  
 रके में भावतान, भाइयोंका नाश होताहै शुभग्रहोंका दोष नहीं है पाप शुभमिश्रितमें मिश्र  
 भावाः ॥ २२ ॥ धनभवामें शुभग्रह हो भावेश शुभग्रह हो तो उसकी दशांतर्दशा

फलदा होता है शुभग्रहोंके योगकारकादि परिपाक कालमें पुत्रसुख वाग्बिलास

थैव स्वैः विक्रमभावनाथे पापान्विते पापवियच्चरणाम् ॥ अंत-  
 समस्त पापयुक्त, मनलास्रचोरैर्दुःखं समायाति शुभप्रदेपि ॥ २४ ॥ कलि-

करते हैं ॥ पलचौरभूपैर्दुःखं मनोजाड्यमतीव कष्टम् ॥ सोत्थेश-  
 लग्रामि शिष्यान् ह्ये शुभेक्षिते तादृशमत्र नास्ति ॥ २५ ॥

स्तु नैवेद्ये ग्रह हो तृतीयमें पाप ग्रह हों तो उन पापग्रहोंकी दशांतर्दशामें अग्नि

लग्रामि (स), शुभफलप्रद ग्रह हो तो भी होतेहैं ॥ २४ ॥ तृतीयेण पापग्रह दशामें  
 देते हैं, शु अग्नि, चौर, रानासे दुःख, मनो जडता, अतिरुष्ट होतेहैं. उसपर शुभग्रहकी  
 कहतेहैं ॥ नेष्टफल नहीं होताहै ॥ २५ ॥

यद्वावशावाधिपदायकाले सौम्येतराणामपहारकाले ॥ नाशं

तद्वावशहोदराणां भवेद्विरोधः सहजैर्विशेषात् ॥ २६ ॥

निष्ठ अदशा समयमें पापग्रहोंका अपहारकाल होनेमें भाइयोंका नाश तथा विगे-  
 उसभावका विरोध होताहै ॥ २६ ॥

भावसंबंधी स्वैव शुभेतरस्य पापग्रहाणामपहारकाले ॥ स्थानच्युतिं  
 तत्तद्भाशमेति नीचास्तगानामपहारकेपि ॥ २७ ॥

हाष्टिपाग्रह हों तो पापग्रहोंके अपहारकाल अंतर्दशादिसमयमें पापानां  
 है जो ग्रह नीचराशिमें हों अथवा अस्तगत हों उनमेंभी वसाही फलना, पाष्टिमाहुः

बुद्धिभ्रमं कृत्सितभोजनं च पापग्रहाणां हि सुतेशकाले ॥

अतर्दशायां प्रवदेन्नराणां शुभग्रहश्चेन्न तथा भवेत्तु ॥ २८ ॥

पचमेश पापग्रह हो उसकी दशादिमें पापग्रहान्तरादि हो तो बुद्धिभ्रम कोट्टवादि कदन्न भोजन मिले शुभग्रह हो तो उक्त अनिष्ट फल नहीं होता ॥ २८ ॥

राजाग्निचैरैर्व्यसनं व्रणेशदशाविपाके तु शुभेतराणाम् ॥ अंतर्द-  
शयामपि कष्टमेति प्रमेहगुल्मक्षयपित्तगैः ॥ २९ ॥

पष्ठेश पापग्रहकी दशा अतर्दशमेंभी राजा, अग्नि, चोरोसे क्लेश मिलताहै पापदशा  
॥ पातरमेंभी प्रमेह, गुल्मरोग, क्षयरोग, पित्तरोगसे कष्टको प्राप्त होताहै ॥ २९ ॥

दारेशपापग्रहदायकाले स्त्रिया विरोधो मरणं च तस्याः ॥ विदेश-  
यानं च पुरीषमूत्रकृच्छ्रं भवेद्भूपतिकोपएव ॥ ३० ॥

सप्तमेश पापग्रह दशासमयमें स्त्रीमरण, स्त्रीसे विरोध तन्मृति फल होतेहै तथा विदेशगमन,  
लरेण, मूत्रकृच्छ्र और राजकोप होताहै ॥ ३० ॥

रंधेशकाले फणिनाथभौमशनैश्वराणामपहारकाले ॥ आयुष्य-  
शोवित्तविनाशनं च दारात्मवंधिवृष्टसहोदराणाम् ॥ ३१ ॥

अष्टमेशकी दशामें मगल, शनि, राहु के अतर्दशादिमें आयु, यश, और वित्त कानाश  
या स्त्री, अपना शरीर बधुवर्ग, सगे भाइयोंकी हानि होतीहै ॥ ३१ ॥

स्थानच्युतिर्बन्धुविरोधिता च विदेशयानं सहजैर्विरोधः ॥ भवे-  
च्छुभेशस्य दशाविपाके शनैश्वराराहिदिनाधिपानाम् ॥ ३२ ॥

नवमेश शनि, मगल, राहु सूर्यकी दशादिमें स्थानहानि, बधु जनोंमें विरोध, परदेशगमन,  
सगडा होताहै ॥ शुभग्रह नवमस्वामी हो तो शुभातरादिमें शुभही होता है ॥ ३२ ॥

काराग्रहप्राप्तिरनेकदुःखं दुःस्वप्नैर्भ्रातृकानलदग्धदहम् ॥ अशु-  
स्योत्तरभुक्तिकाले पापग्रहाणामपकीर्तिमेति ॥ ३३ ॥

दशमेश पापग्रहके दशादिमें कैदसानेकी वास अनेकप्रकार केग, दुष्ट स्वप्न, शोकरूप अग्निसे  
दहसताप और अपयश मिलतेहैं शत्रुके दुःख जानना ॥ ३३ ॥

दशाविशेषे त्वथ लाभस्य भुक्तयन्तरे द्रव्यविनाशनं च ॥ गव्या-  
रभोगांश्शनैश्वराणां कार्यार्थकृच्छ्रं क्षितिपालकोपात् ॥ ३४ ॥

छामेश, सूर्य, मगल, राहु, शनिकी दशामें धननाश, कार्यार्थमें कठिनता राजकोपसे  
मिलती है ॥ ३४ ॥

धीश पापग्रह होवै तो वह शनि मंगल सूर्यके अंतर्दशामें धननाश करता है जः ५ ।  
 पयुक्त हो तो वही फल करताहै ॥ २० ॥ यदि धनेश पापग्रह हो वहभी पापग्र-  
 है तो रातकोपसे धननाश होवै तथा अनेक प्रकार अर्थनाश, स्थानभ्रम, इष्टजनोसे  
 गोपे करना ॥ २१ ॥

शौम्यपहारकाले पापग्रहस्यैव दशासु काले ॥ भुक्तय-  
 भावोऽमजसोदराणां नाशं समायाति शुभैर्न दोषः ॥ २२ ॥

शुभे शोभनखेचरेशे तत्पाककाले धनलाभमेति ॥  
 शौम्यपहारकाले तथा भवेदात्मजवाग्विलासः ॥ २३ ॥

शुभे दशाकालमें पापग्रहोंका अनिष्ट फलकारक समय ( अतर्दशादि ) में भोजन,  
 वही पचतान, भाइयोंका नाश होताहै शुभग्रहोंका दोष नहीं है पाप शुभमिश्रितमें मिश्र  
 रके में ॥ २२ ॥ धनभत्रामें शुभग्रह हो भावेश शुभग्रह हो तो उसकी दशांतर्दशा  
 भावभ होता है शुभग्रहोंके योगकारकादि परिपाक कालमें पुत्रसुख वाग्विलास  
 फल ॥

थैव विक्रमभावनाथे पापान्विते पापवियञ्चराणाम् ॥ अंत-  
 सभनलालचौरैर्दुःखं समायाति शुभप्रदेपि ॥ २४ ॥ कलि-

पापयुक्तानलचौरभूपैर्दुःखं मनोजाड्यमतीव कष्टम् ॥ सोत्थेश-  
 करते शिष्य ॥ काले शुभेक्षिते तादृशमत्र नास्ति ॥ २५ ॥

ल अनुष्ठान, ग्रह हो तृतीयमें पाप ग्रह हो तो उन पापग्रहोंकी दशांतर्दशामें अग्नि  
 स्तुति, शुभफलप्रद ग्रह हो तो भी होतेहैं ॥ २४ ॥ तृतीयेश पापग्रह दशामें  
 ल अग्नि, चोर, राजासे दुःख, मनो जडता, अतिकष्ट होतेहैं. उसपर शुभग्रहकी  
 देते है नेष्टफल नहीं होताहै ॥ २५ ॥

कहतेहैं भावाधिपदायकाले सौम्येतराणामपहारकाले ॥ नाशं  
 यत्सहोदराणां भवेन्निष्पन्नं तत्सर्वं युक्तं ॥ २६ ॥

तं गदशा कालक दोषोपु एवं धन लक्ष्यसे युक्त है भात ॥ २६ ॥  
 धर्मार्थपत्रेषु निपेकलगादृष्टेषु भौम्ये भाइयोंका नाश तथा विशेष-  
 निपेककाले पुंजन्म वालाजननं वि  
 आपानलतासे १।२।५ भावों पर शुभग्रह अपवापु १५५ १५५ का दृष्ट हो अपना त  
 गपमें पुरुषांशक होवै तो पुनजन्म पहना इसके निपरीत उन भावों ५।१।२ पर विप  
 खांमह दृष्टि हो ना तत्राल समराज्यश-  
 नन्याजन्म पहना ॥ ४० ॥  
 वा यदि पापदृष्टः ॥ पिंड  
 ॥ ४१ ॥

बुद्धिभ्रमं कृत्सितभोजनं च पापग्रहाणां हि सुतेशकाले ॥

अतर्दशायां प्रवदेन्नराणां शुभग्रहश्चेन्न तथा भवेत्तु ॥ २८ ॥

पचमेश पापग्रह हो उसकी दशादिमें पापग्रहान्तरादि हो तो बुद्धिभ्रम कौटुंबादि कदन्न भोजन मिले शुभग्रह हो तो उक्त अनिष्ट फल नहीं होता ॥ २८ ॥

राजाग्निचौरैर्व्यसनं व्रणेशदशाविपाके तु शुभेनराणाम् ॥ अंतर्द-  
शयामपि कष्टमेति प्रमेहगुल्मक्षयपित्तगैः ॥ २९ ॥

षष्ठेश पापग्रहकी दशा अतर्दशामेंभी राजा, अग्नि, चोरोसे क्लेश मिलताहै पापदशा पातरमेंभी प्रमेह, गुल्मरोग, क्षयरोग, पित्तरोगसे कष्टको प्राप्त होताहै ॥ २९ ॥

दारेशपापग्रहदायकाले स्त्रिया विरोधो मरणं च तस्याः ॥ विदेश-  
यानं च पुरीषमूत्रकृच्छ्रं भवेद्भूपतिकोपएव ॥ ३० ॥

सप्तमेश पापग्रह दशासमयमे स्त्रीमरण, स्त्रीसे विरोध तन्मृति फल होतैहै तथा विदेशगमन, ल्हरोग, मूत्रकृच्छ्र और राजकोप होताहै ॥ ३० ॥

रंध्रेशकाले फ़णिनाथभौमशनैश्वराणामपहारकाले ॥ आयुष्य-  
शोवित्तविनाशनं च दारात्मबंध्विष्टसहोदराणाम् ॥ ३१ ॥

अष्टमेशकी दशामे मंगल, शनि, राहु के अतर्दशादिमें आयु, यश, और वित्त कानाश पा स्त्री, अपना शरीर बधुवर्ग, सगे भाइयोंकी हानि होतीहै ॥ ३१ ॥

स्थानच्युतिर्वन्धुविरोधिता च विदेशयानं सहजैर्विरोधः ॥ भवे-  
च्छुभेशस्य दशाविपाके शनैश्वराराहिदिनाधिपानाम् ॥ ३२ ॥

नवमेश शनि, मंगल, राहु सूर्यकी दशादिमें स्थानहानि, बधु जनोंमें विरोध, परदेशगमन, गडा होताहै ॥ शुभग्रह नवमस्वामी हो तो शुभातरादिमें शुभही होता है ॥ ३२ ॥

काराग्रहप्राप्तिरनेकदुःखं दुःस्वप्नैश्च विजाभ्यां सहितेथ वात्र ॥ पापग्र-  
स्योत्तरभुक्तिकाले पापग्रहाणारो नालनिवेष्टितांगः ॥ ४७ ॥ कूरां-

दशमेश पापग्रहके दशादिमें कैदखानेका पिल्लतहै शर्मोंके वासरनाथदृष्टे ॥ लग्ने शनौ भूमि-  
सुतेन दृष्टे जातो नरो नालनिवेष्टितांगः ॥ ४८ ॥

लग्नमें पापग्रह हो बहुत पापग्रहोंसे दृष्ट हो अथवा राहु वा केतुसे युक्त हो अपना लग्नमें पापग्रह राशि हो तो बालक नाटकसे वेष्टित भग होवै ॥ ४७ ॥ लग्न पापग्रहोंके बीच हो लग्नमें राहु हो अथवा लग्नमें मंगल सूर्य दृष्टहो अथवा लग्नमें शनि मंगलसे दृष्ट हो तो राश्यशमान गानमें वेष्टित होवै ॥ ४८ ॥

परस्परक्षेत्रसमाश्रितौ वा देहांबुधौ जन्म वदेत्तदानीम् ॥ लग्नेश्वरे  
वा हिवुकेश्वरे वा ध्वजाहियुक्ते जननं पशोस्तु ॥ ४९ ॥ पापा  
बलाढ्या विबलास्तु-सौम्या नपुंसकौ केंद्रगतौ तदानीम् ॥ दृष्टि-  
स्तथोर्वाथ वियोनिलग्ने चतुष्पदां जन्म वदंति तज्ज्ञाः ॥ ५० ॥  
पापा बलाढ्याः स्वग्रहं प्रपन्नाः सौम्याः स्वगेहेतरराशियुक्ताः ॥  
चतुष्पदां जन्मतनौ वियोनौ वदंति शास्त्रांतरपारगम्याः ॥ ५१ ॥

लग्नेश और चतुर्थेश परस्पर राशियोंमें होवै अथवा लग्नेश वा चतुर्थेश राहु वा केतुसे युक्त हो तो पशुका जन्म होवै ॥ ४९ ॥ पापग्रह बलवान् शुभग्रह निर्बल हों और नपुंसक ग्रह बु० अ० केंद्रमें हो अथवा उनकी दृष्टि हो वियोनि लग्न हो तो ज्योतिषज्ञ पशुका जन्म कहतेहैं ॥ ५० ॥ जो पापग्रह बलवान् हों तथा अपनी राशियोंमें हों शुभग्रह गुरुराशि आदिमें हों और लग्ने चतुष्पदराशि होवै तो शास्त्रांतर पारग लोक वियोनिका जन्म कहतेहैं ॥ ५१ ॥

पक्षी दृक्काणे तु विलग्नभूते बलान्त्रितेनैव ब्रहेण दृष्टे ॥ राशौ  
चरे वा यदि तन्नवांशे वियोनिजन्मेति बुधांशके वा ॥ ५२ ॥

लग्नमें पक्षी द्रेक्काण हो उसे बलवान् ग्रह देखे अथवा चरराशि वा चरनवांशक हो अथवा बुधका अंशकहो तो वियोनिजन्म जानना ॥ ५२ ॥

शुक्रेक्षिते गोजननं महिष्याः सूर्यात्मजेनापियुतः स दृष्टः ॥ राहु-  
ध्वजाभ्यां सहितोथ दृष्टो भेषस्तु जातो न्यपशुन्तधान्यः ॥ ५३ ॥

पूर्वोक्त योग शुक्रसे दृष्ट हो तो गोक जन्म, ६ निसे युक्त वा दृष्ट हो तो महिषी, राहु केतुसे युक्त वा दृष्ट हो तो भेष ( मेढा ) का जन्म, अन्यग्रहसे अन्यपशुओंका जन्म कहना ॥ ५३ ॥

लग्ने बुधक्षेत्रगतेरिनाथे लग्नेश्वरे सोमसुतर्क्षसंस्थे ॥ जातस्तु  
सस्त्रीकनपुंसकस्याच्छन्यारयोगात्पुरुषस्तु पंडः ॥ ५४ ॥

पद्मेश लग्नमें बुधकी राशिका हो और लग्नेश बुधकी राशिमें होय तो स्त्रीसहित पुग्प नपुं-  
शरु होवै उक्तयोगमें शनि मंगल भी सामिल होवै तो पुरुषही नपुंसक होगा ॥ ५४ ॥

अन्योन्यदृष्टी शशिवासरेशौ युग्मौ च गाविंदुजभानुपुत्रौ ॥  
ओजर्क्षगो भानुसुतो दिनेशं पश्यत्यसौ युग्मगतस्तथैव ॥ ५५ ॥

ओजे तु लग्ने कुमुदात्मबंधुस्तत्र स्थितौ युग्मगभौमदृष्टः ॥  
युग्मौजगाविन्दुसुतौ कुजेन दृष्टो विलग्नश्च निशाकरश्च ॥ ५६ ॥

पट्ट क्लीवयोगाः पुरुषांशयुक्ताः प्रोक्ता महद्भिर्बहुशास्त्रविद्भिः ॥  
लग्नेश्वरश्चंद्रसुतेन युक्तः पंडो भवेत्सौम्यखगेन युक्तः ॥ ५७ ॥

सूर्य चंद्रगात्री परस्पर दृष्टि हो १, बुध गनि द्विस्वभाव राशियोंमें हो २, विषम राशियोंमें बैठा शनि सूर्यको देखे अथवा युग्म राशियोंमें हो ३, अथवा विषम लग्नमें चंद्रमा हो उसके साथ मंगल हो अथवा युग्मराशिगत मंगल उसे देखे ४, तथा सम विषम राशियोंमें चंद्रमा बुध हों उन्हें मंगल देखे ५, लग्नेश बुधसे युक्त हो पुरुषाशकमें शुक्र लग्न चंद्रमा हो ६, ये छः नपुंसकयोग बहुशास्त्रज्ञ बड़े आचार्य कहते हैं ॥ ५५ । ५६ । ५७ ॥

दुःस्थानगो कर्मशुभाधिनाथो बली विलग्राधिपतिस्तदानीम् ॥  
सीमंतकर्मादिं विनैव जातो भवेन्नरः प्राथमिकोपि तत्र ॥ ५८ ॥

नवमेश दशमेश दुष्टस्थानोंमें हों और लग्नेश बलवान् होवे तो वह बालक सीमंत जात कर्मादि संस्कारोंसे रहित ब्राह्मणपुत्र हानेपरभी रहै ॥ ५८ ॥

लाभे सपापे त्वथ तद्गृहे वा जातो नरः प्राथमिकोपि तत्र ॥  
सिंहोदये द्वारयुगं गृहं तत्कन्योदये नीचगृहेपि जन्म ॥ ५९ ॥  
नवांशपुत्राधिपतिः मराशेर्द्वारं जगुर्लग्नदृक्काणराशेः ॥ द्वारं विल-  
ग्राधिपतिः सराशेः केन्द्रस्थितैर्वीर्यसमन्वितैर्वा ॥ ६० ॥

लाभस्थानमें पापग्रह वा पापराशि होनेमें भी वही पूर्वोक्त फल है । अब सूतिका गृह-  
दार कहते हैं कि सिंह लग्न हो तो उस घरमें दो द्वार होंगे, कन्यालग्न हो तो नीचके  
घर वा नीच कर्मोपयोगी घरमें जन्म होगा ॥ ५९ ॥ नवांशेश तथा पंचमेशकी राशिके  
दिशामें द्वार अथवा बलवान् ग्रहकी दिशामें यद्वा केन्द्रगत ग्रहकी दिशामें द्वार कहना  
अथवा लग्नमें जो द्रेष्काण है उस राशिकी दिशा वा लग्नेशकी दिशा में कहना इतने विक-  
ल्पोंमें मुख्य विचार बटका है उक्तोंमें अधिकबलीकी दिशा कहनी ॥ ६० ॥

ग्रहैर्धनान्त्यास्पदवेश्मगैर्वा वाच्यास्तदानीमुपसूतिकास्तु ॥ तत्र  
स्थिते भानुसुते तु शूद्रा रवौ स्थिते क्षत्रियभामिनी सा ॥ ६१ ॥  
राहुध्वजाभ्यामथ जातिहीना त्वन्यैर्ग्रहैर्जातिसमा प्रदिष्टा ॥ धनां-  
न्यबंधुस्थितखेचरेन्द्रैर्वाच्यास्तदानीमुपसूतिकाश्च ॥ ६२ ॥

जो ग्रह २ । १२ । १० स्थानमें हो उसके अनुसार उपसूतिका ( जो बालकको जना-  
तीहै ) कहनी तहां गनि हो तो वह स्त्री शूद्रा, सूर्य हो तो क्षत्रिया ॥ ६१ ॥ राहु केतु  
हों तो हीनजातिकी और अन्यग्रहोंसे समान जातिकी कहनी और २ । १२ । ४

स्थानोंमें जैसे और जितने ग्रह हों वैसी तथा उतनी अन्य उपसूतिका उस सूतिकाग्रहमें कहनी ॥ ६२ ॥

तत्स्थानपैः संयुतखेचरैर्द्रैः किञ्चिद्दन्त्यत्र सहस्थितैश्च ॥ जीवै-  
दुपुत्रासुरदेवपूज्यैस्तत्र स्थितैर्ब्रह्मकुलाभिरामाः ॥ ६३ ॥ एतेषु  
पापांशकसंयुतेषु तासां तु वैधव्यमुदाहरन्ति ॥ राहुध्वजाभ्यां  
सहितेषु तेषु शुभास्त्रियस्तत्र शनेस्तु योगात् ॥ ६४ ॥ कृष्णा च  
कुब्जा विधवा भवेत्सा योगाद्ब्रह्मणां प्रवेदञ्च संख्याम् ॥ वहिःप्र-  
देशे ग्रहमध्यभागे दृश्यार्द्धभागस्थितखेचरेन्द्रैः ॥ ६५ ॥ संख्या  
वदेत्तत्र तदन्ययुक्तैस्त्वेकैर्क्षैस्तत्र बहुत्वमाहुः ॥ ६६ ॥

उक्त भावशोंके अनुसार अथवा उनके स्थानगत बली ग्रहोंके अनुसार उपसूतिकाका वर्णा-  
कारादि कहने । बृहस्पति, बुध, शुक्र, वहां हों तो उपसूतिका ब्राह्मणी होगी ॥ ६३ ॥ ये  
ग्रह पापांशकोंमें हों तो वह ब्राह्मणी विधवा होगी इन भावोंमें राहु केतु हों तो भी विधवा  
और सुंदर स्त्री होगी, शनिके संयोगसे कृष्णा कुबड़ी विधवा आदि होगी जितने ग्रहोंका योग  
हो उतनी संख्या स्त्रियोंकी कहनी दृश्यार्द्धभागमें जितने ग्रह हों उतनी स्त्री घरके बाहर  
जितने ग्रह दृश्योत्तरार्द्धमें हों उतनी स्त्री घरके भीतर कहनी, बहुत ग्रह एकस्थानमें हों  
तो बहुत स्त्री होंगी इनमें भी कोई ग्रह स्वोच्च स्वगृहादिमें हों तो भी बहुत होंगी ॥ ६४ ।  
॥ ६५ । ६६ ॥

दीपस्य चांचल्यमुदाहरन्ति चरे स्थिरे तद्वृद्धमत्र काले ॥ विदेह-  
राशौ सधृतः करेण तत्संयुतैर्व्योमचरैस्तु संख्याम् ॥ ६७ ॥ तैलं  
वदेत्तत्र निशाकरेण वर्तिर्विलग्न्यादिति केचिदाहुः ॥ ६८ ॥

चलम हो तो दीप चंचल, हातमें चलता फिरता होगा स्थिर हो तो दीप स्थिर और  
दृक्त्वभाव हो तो हाथहीमें होगा: लग्नमें जितने ग्रह हों उतने दीप होनेभी बलवान् होनेमें संभव  
होतेहैं, दीपकमें तेल चंद्रमाके अनुरूप क्षीण, पूर्ण सपाप जैसा हो वैसा, और ऐसीही लग्नके  
अनुरूप बत्ती कहनी ६७ । ६८ ॥ इति जन्मफलम् ॥

अथ तनुभावः ।

लग्नेशे स्वोच्चमित्रांशे स्वनवांशगतेपि वा ॥ शुभग्रहयुते दृष्टे देह-  
सौख्यं विनिर्दिशेत् ॥ ६९ ॥ लग्नेशे बलसंयुक्ते केन्द्रकोणगते  
शुभे ॥ पापग्रहैरसंहृष्टे देहसौख्यं वदेद्बुधः ॥ ७० ॥



लग्नेश अपने उच्च, मित्र, अपने नवाशभसे किसीमें होवै और शुभग्रहसे युक्त वा दृष्ट होवै तो सर्वदा देहसौख्य कहना ॥ ६९ ॥ लग्नेश बलयुक्त होकर केंद्र कोणमें हो तो शुभग्रह हो वा शुभयुक्त हो पापग्रह उसे न देखें तों पंडित उस मनुष्यका सर्वदा देहसौख्य कहें ॥ ७० ॥

देवलोकांशगे सूर्ये लग्नेशे बलसंयुते ॥ भाग्येशे स्वोच्चराशिस्थे बहुसद्भाग्यकीर्तिमान् ॥ ७१ ॥

सूर्य देवलोकांशकमें हो लग्नेश बलवान् हो भाग्येश अपनी उच्च राशिमें हो तो बहुत और अच्छा भाग्यमान् कीर्तिमान् होवै ॥ ७१ ॥

लग्नाधिपोतिबलवान्शुभवर्गयुक्तः स्वोच्चे सुहृद्ब्रह्मेयुतः स्वनवांशके वा ॥ लग्नाधिनाथसहिते यदि केंद्रनाथे सद्भाग्यकीर्तिधनधान्यचिरायुरेति ॥ ७२ ॥

लग्नेश अतिबलवान् शुभवर्गसे युक्त हो अपने उच्चमें वा स्वनवांशकमें हो शुभग्रहयुक्त हो केन्द्रेश लग्नेशके साथ हां तो, उत्तम भाग्य ( ऐश्वर्य ), कीर्ति, धन और अन्नसमृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ७२ ॥

लग्नेश्वरः क्रूरसमन्वितश्चेद्देहस्य सौख्यादिविनाशमाहुः ॥ तादृक्फलं नाशगतोपि तस्य शुभेक्षितश्चेत्फलमन्यथा स्यात् ७३ ॥

दुःस्थानपेनापियुते विलग्ननाथे विलग्नै सति रोगभाक्स्यात् ॥ वलैर्विहीने सति लग्ननाथेकेन्द्रत्रिकोणे न तु रोगभाक्स्यात् ७४ ॥

लग्नेश्वराधिष्ठितराशिनाथो दुःस्थानगो दुर्बलदेहभाक्स्यात् ॥ लग्नादिभावेश्वरराशिनाथैर्दुःस्थैर्विलग्नैदिविनाशमाहुः ॥ ७५ ॥

लग्नेश क्रूरग्रहसे युक्त होवै तो शरीरके सौख्यादि नष्ट होनावें । लग्नेश अष्टम होनेमें भी वही फल कहते हैं, परंतु उसपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो वैसा फल नहीं होता कुछ शुभभी होता है ॥ ७३ ॥ लग्नेश दुष्ट स्थान (त्रिकमारक) के स्वामीसे युक्त होवै, तथा दुष्ट स्थानेश लग्नमें होवै तो मनुष्य रोगी होवै; यदि लग्नेश बलहीन हो तोभी वही फल है लग्नेश केंद्र त्रिकोणमें होवै तो मनुष्य रोगी न होवै सुखी होवै ॥ ७४ ॥ जिसभावमें लग्नेश है उसका स्वामी दुष्ट स्थानमें होवै तो देह दुर्बल रहे, ऐसेही लग्नादि जिस भावका स्वामी दुष्ट स्थानमें होवै तो उस भावका विनाश कहते हैं ॥ ७५ ॥

पापैर्विलग्नै गुलिके त्रिकोणे लग्नेऽहिनाथे गुलिकेन युक्ते ॥ लग्नेश्वरे पापयुतेऽथ लग्ने राहौ यदा वंचनचोरभीतिः ॥ ७६ ॥ शनेस्तु

योगात्प्रविलोकनाद्वा भीतिर्भुवा वंचनचोरभूपैः ॥ राहौ विलम्बे  
सकुजेर्कपुत्रे राहौ बृहद्बीजमिहाहुरार्याः ॥ ७७ ॥ लग्नेश्वरे मृत्यु-  
गते सराहौ रंभ्रे समादौ तु तथैव वाच्यः ॥ लग्ने सराहौ गुलिके  
त्रिकोणे रंभ्रे कुजे मांदियुते तथैव ॥ ७८ ॥

पापग्रह लग्नमें हो गुलिक त्रिकोणमें लग्नमें, राहु गुलिकसे युक्त हो अथवा लग्नेश पापयुक्त हो, लग्नमें राहु होवै तो ठग चोरोसे भय होवै ॥ ७६ ॥ लग्नेश शनिसे युक्त वा दृष्ट होवै तो निश्चय ठग, चोर तथा राजासे भय होवै । जो राहु लग्नमें शनि मंगल सहित होवै तोभी वही फल है "शनि मंगल युक्त राहुको श्रेष्ठ आचार्य बृहद्बीज कहते हैं" ॥७७॥ लग्नेश अष्टम स्थानमें राहुयुक्त अथवा अष्टममें लग्नेश केतुयुक्त हो तो भी वही फल कहना जो लग्नमें राहु, त्रिकोणमें गुलिक और अष्टममें कुज केतुयुक्त हो तो भी वही फल कहना ॥ ७८ ॥

लग्नेश्वराक्रांततदंशनाथो राह्वारमांघ्यादिभिरन्वितश्चेत् ॥ तस्मिन्  
बृहद्बीजमिहाष्टमेशसंयुक्तराशयंशपतिः सराहुः ॥ ७९ ॥

लग्नेश जिस राशिके जिस अंशमें है उसका स्वामी यदि राहु, मंगल, केतु, शनिसे युक्त होवै अथवा उसमें बृहद्बीज हो अथवा अष्टमेशस्थित रादयशेश राहुयुक्त हो तो वही फल होगा ॥७९॥

लग्नेश्वरे भूमिसुते तनुस्थे पापान्विते पापविलोकिते वा ॥ शिला-  
प्रहारैर्व्रणमुत्तमांगे खडगादिभिर्वा कथयंति तज्ज्ञाः ॥ ८० ॥ शनि  
स्तथा चेद्भ्रणमुत्तमांगे वाताग्निशस्त्रैः पतनेन वापि ॥ यदा भवे-  
त्पंचघटीविलम्बे तदा बृहत्को न तदर्द्धलग्ने ॥ ८१ ॥

लग्नेश मंगल लग्नमें पापयुक्त वा पापदृष्ट होवै तो पत्थरकी चोटसे शिरपर घ्रण (खोट) होवै अथवा प्योतिषज सङ्ग आदिसे घ्रण कहते हैं ॥ ८० ॥ ऐसेही शनि होवै तो आग्निशस्त्र अथवा गिरनेके चोटसे शिरमें घ्रण होवै, जब पाच घटीवाला लग्न हो तो बड़ाशिरवाला होता है उसके आधे लग्नमें नहीं ॥ ८१ ॥

आहुर्वृहत्कं मुनयस्तदूनलग्ने शिरः संकुचितं तु तज्ज्ञाः ॥ शुष्के  
खगे लग्नगते विलम्बे शुष्के यदा देहकृशत्वमाहुः ॥ ८२ ॥ लग्ने-  
श्वरे शुष्कयुते तथैव शुष्कग्रहाणां भवनस्थिते वा ॥ लग्नाधिपे  
नाशगते तु शुष्कराशौ तनौ शुष्कमतीव कष्टम् ॥ ८३ ॥ लग्ना-  
धिपस्थांशपराशिनाथः शुष्कग्रहस्थस्तनुशुष्कमाहुः ॥ शुष्के  
विलम्बेवहुपापयुक्ते तत्रापि देहस्य कृशत्वमाहुः ॥ ८४ ॥

पंच घट्यात्मक लग्नमें बड़ाशिर उसके आधा लग्नमें छोटा शिर कहा, जो लग्न मध्यम है उनमें संकुचित गोल और छोटा शिर ज्योतिषज्ञ कहते हैं निर्वल ग्रहलग्नमें तथा लग्न निर्वल होवै तो देह कृश ( माडा ) कहते हैं यहां शुष्कपदसे जलचरसे अतिरिक्त राशिग्रहोंकाभी बोध होताहै ॥ ८२ ॥ लग्नेश निर्वलग्नहोंसे युक्त, तथा निर्वलग्नग्रहके घरमें हो तो भीवही फल, और लग्नेश अष्टम निर्वल तथा लग्नमें निर्वल राशि होवै तो शरीर कृश तथा अतिकष्टयुत होवै ॥ ८३ ॥ लग्नेश जिस ग्रहके राशि अंशक में है वह निर्वलराशिमें हो वा स्वयं निर्वल हो तो शरीर सूखासा रहे निर्वल लग्न बहुत पापोंसे युक्त हो तो भी शरीरमें कृशता कहते हैं ॥ ८४ ॥

लग्ने जलक्षे शुभखेचरेन्द्रेयुक्ते तनुस्थौल्यमुदाहरंति ॥ लग्नाधि-  
पस्तोयखगो बलाढ्यः सौम्यान्वितश्चेत्तनुपुष्टिमाहुः ॥ ८५ ॥ ल-  
ग्नाधिपश्चेजलराशिसंस्थः शुभान्वितस्तोयखगेन दृष्टः ॥ लग्ने  
शुभक्षेत्रगतेपि चैवं लग्नेश्वरस्यांशपतौ जलक्षे ॥ ८६ ॥

लग्नमें जलराशि हो उसमें शुभग्रह हों तो शरीर स्थूल होवै ऐसा कहतेहैं, तथा लग्नेश जल-  
ग्रह बलवान् हो शुभग्रहयुक्त भी होवै तो शरीर पुष्ट कहते हैं ॥ ८५ ॥ लग्नाधिप यदि जल  
राशिमें शुभग्रह युक्त हो जलग्रह वसे देखे तो शरीर स्थूल होवै लग्नमें शुभग्रह राशि होनेमें  
तथा लग्नेश जिस राशि अंशकमें हो उसका स्वामी जलराशिमें हो तो भी वही फल  
मानना ॥ ८६ ॥

पापग्रहाणां च दशा विहीने लग्ने शुभक्षेत्रंगतेपि चैवम् ॥ लग्ने  
गुरौ तेन निरीक्षिते वा जलक्षेगणापि जले विलग्न्ये ॥ ८७ ॥  
सौम्यान्विते शोभनखेचरेन्द्रेदृष्टे त्वतिस्थौल्यमुदाहरंति ॥ लग्ने  
शनौ राहुयुतेथ वा स्यात्पिशाचबाधा प्रवदंति संतः ॥ ८८ ॥

लग्न शुभग्रहकी राशि हो उस पर पापग्रहकी दृष्टि न हो तो भी वही फल कहना लग्नमें  
बृहस्पति हो अथवा लग्नको बृहस्पति देखे, अथवा जलराशि लग्नको जलराशिगत बृहस्पति  
देखे तो भी वही फल कहना ॥ ८७ ॥ लग्नमें शुभग्रह हो शुभग्रहोंकी दृष्टि भी हो तो अति-  
स्थूल देह कहतेहैं, लग्नमें शनि राहुयुक्त होवै तो पिशाचकी पीडा, यों विद्वान् कहते हैं ॥ ८८ ॥

लग्ने रविभूमिसुतेन दृष्टः श्वासं क्षयं विद्रधिगुल्मभाजम् ॥ भौमे  
विलग्न्ये शनिसूर्यदृष्टे खङ्गादिभिः पीडितदेहभाक्स्यात् ॥ ८९ ॥

लग्नके सूर्यको मंगल देखताहो तो श्वासरोग, क्षयरोग, विद्रधिरोग, भोगनेवाला होवै, लग्नके  
मंगलको सूर्य शनि देखते हों तो तलवार आदिसे पीडित शरीरवाला होवै ॥ ८९ ॥ ..

केतौ विलग्रे बहुपापदृष्टे पिशाचचैरैर्भवति ध्रुवं भीः ॥ लग्ने चरे  
तद्भवनेश्वरे वा चरस्थिते संचरति प्रजातः ॥ ९० ॥

लग्नमें केतु बहुत पापग्रहोंसे दृष्ट होवै तो निश्चय पिशाच तथा चौरोंसे भय होवै लग्नमें  
चरराशि हो अथवा लग्नेश चरराशिमें हो तो मनुष्य चलनेमें तत्पर रहे ॥ ९० ॥

संचारशीलश्वरभे विलग्रे लग्नांशके चैवमुदाहरन्ति ॥ विदेश-  
भाग्यं चरभे विलग्रे चरे तदीशे चरखेटदृष्टे ॥ ९१ ॥

जैसा चरराशि लग्नमें होनेसे चलने फिरनेमें तत्पर कहाहै ऐसेही चरांशकमें भी कहते हैं  
चर लग्न लग्नेश चर राशिमें चर ग्रहसे दृष्ट होवै तो परदेशमें ऐश्वर्य होगा ॥ ९१ ॥

स्थिरे स्वदेशे बहुभाग्ययुक्तः स्थिरग्रहैर्भूरिधनान्वितः स्यात् ॥  
मिश्रग्रहैः संयुतभाग्यकीर्तिर्नानाप्रदेशे प्रचरन्कुमार्गी ॥ ९२ ॥  
लग्नेश्वरे वीर्ययुते स्वतुंगे गंभीरगामी पुरुषोन्यथा स्यात् ॥ हीने  
तदीशे स जडः शुभैस्तु दृष्टे युते वा न तथाविधे तत् ॥ ९३ ॥

स्थिर लग्न स्थिर ग्रहयुक्त हो लग्नेश स्थिरराशिमें होवै तो अपनेही देशमें बहुत ऐश्वर्य  
युक्त होवै स्थिर ग्रहभी इस योगके कर्ता हों तो बहुत धनसे युक्त होवै, चर स्थिरग्रह मिल  
कर योगकारक हों तो ऐश्वर्य तथा कीर्तिसे युक्त होकर अनेक देशोंमें फिरता रहै और  
कुमार्गी भी होवै ॥ ९२ ॥ लग्नेश बलवान् हो अपने उच्चमें हो तो पुरुष गंभीरतासे चलने  
वाला होवै इसके विपरीत फलभी विपरीत होताहै, लग्नेश हीनबल नीचास्तंगतादि हो तो जड  
( मूर्ख ) होवै परंतु उसपर शुभग्रहोंकी दृष्टि युक्त हो तो वैसा फल न होगा ॥ ९३ ॥

लग्ने शुभे शोभनदृष्टियुक्ते बाल्यात्सुखं तन्नहि पापयोगात् ॥  
दुःखी भवेत्पापबहुत्वयोगे लग्ने तु बाल्यान्मरणांतकालम् ॥ ९४ ॥  
वर्गोत्तमांशे यदि लग्ननाथे स्वोच्चांशके वा स्वसुहृदकाणे ॥ शुभा-  
न्विते वा शुभदृष्टिपाते नरो भवेदामरणांतसौख्यः ॥ ९५ ॥

लग्नमें शुभ ग्रह हों तथा शुभ ग्रह लग्नको देखें तो बाल्यावस्थाहीसे सुख पावै पापग्रहोंसे  
सुख नहीं होता ऐसे योग दृष्टि आदिपापोंकी होवै तो बाल्यावस्थासे मरणरुमय पर्थत दुःखी  
होवै ॥ ९४ ॥ लग्नेश वर्गोत्तमांशमें अथवा उच्चांशकमें वा मित्रदेष्याणमें शुभग्रहसे युक्त वा  
दृष्ट होवै तो मनुष्य मरणपर्यंत सुखी रहे ॥ ९५ ॥

लग्नांत्यलाभे शुभखेचरेद्रे लग्नेश्वरे केन्द्रगते वलाढये ॥ सिंहास-  
नांशे यदि देवपूज्ये जातो भवेदादिममध्यसौख्यः ॥ ९६ ॥

लग्नार्थसोत्थे शुभदृष्टियोगे लग्नेश्वरे शोभनखेचरेंद्रे ॥ पारावतांश  
यदि दानवेज्ये जातो भवेदादिममध्यसौख्यः ॥ ९७ ॥

लग्न, बारहवें, ग्यारहवें में शुभ ग्रह हो लग्नेश बलवान् होकर केंद्रमें हो और बृहस्पति  
सिंहासनांशमें होवै तो मध्य और मध्य अवस्थामें सौख्य मिले ॥ ९६ ॥ १।२।३ भावमें  
शुभ ग्रह हों वा इनको शुभग्रह देखें लग्नेश शुभग्रह हो. और शुक्र पारावतांशमें होवै तो मध्य  
और मध्यम अवस्थामें सुख मिले ॥ ९७ ॥

बाल्ये सुखी स्यात्त्रिदशेंद्रपूज्ये केन्द्रे यदा लग्नपतिर्वलाढ्यः ॥  
पारावतांशे यदि लग्ननाथे स्त्रीपुत्रमित्रार्थसुखान्वितोयम् ॥ ९८ ॥  
देवलोकांशगे शुके लग्नेशे गोपुरांशके ॥ लग्ने शुभग्रहैर्दृष्टे मध्याति  
सुखमाप्नुयात् ॥ ९९ ॥ लग्ने शुभे धने पापे केंद्रे पापसमन्विते ॥  
लग्नेश्वरे तूत्तमांशे आदौ दुःखं ततः सुखम् ॥ १०० ॥

यदि बृहस्पति केन्द्रमें हो लग्नेश बलवान् होकर पारावतांशमें होवै तो स्त्री, पुत्र, मित्र और  
इनके सुखसे युक्त रहे ॥ ९८ ॥ शुक्र देवलोकांशमें लग्नेश गोपुरांशकमें हो और लग्नमें  
शुभ ग्रहोंकी दृष्टि होवै तो मध्य और अंत्य अवस्थामें सुख पावै ॥ ९९ ॥ लग्नमें शुभ  
ग्रह धन स्थानमें पापग्रह केंद्रोंमेंभी पापग्रह हो और लग्नेश उत्तमांशकमें होवै तो मध्य दुःख  
भीष्ट सुख मिले ॥ १०० ॥

लग्ने पापे धने सौम्ये भाग्ये कश्चिच्छुभग्रहः ॥ लग्नेशे देवलोकस्थे  
बाल्ये सौख्यमतो न्यथा ॥ १०१ ॥

लग्नमें पापग्रह, धन स्थानमें शुभग्रह तथा नवम स्थानमें कोई शुभग्रह हो और लग्नेश  
देवलोकंशकमें हो तो बाल्यावस्थामें सुख मिले अन्यथा नहीं मिले ॥ १०१ ॥

लग्नेश्वरे कर्मगते दिनेशे लग्नान्विते शोभनखेचरेंद्रैः ॥ योगे  
प्रदिष्टे तनुपे स्वतुंगे सत्कीर्तिमाहुर्मुनयोत्र तज्ज्ञाः ॥ १०२ ॥

लग्नेश दशम, सूर्य लग्नमें शुभ ग्रहों सहित हो ऐसे योगमें लग्नेश उच्चका होवै तो  
सत्कीर्तियुक्त होवै ऐसा ज्योतिषज्ञ मुनिजन कहतेहैं ॥ १०२ ॥

पापे विलग्नशपतौ सराहौ केंद्रस्थिते कर्मणि पापखेटे ॥ नीचग्रहे  
लग्नगतेर्कदृष्टे दुष्कीर्तियुक्तः स भवेत्तदानीम् ॥ १०३ ॥

लग्नमें पापग्रह, अंशेश राहुयुक्त केंद्रमें, पापग्रह दशम स्थानमें और नीचग्रह लग्नमें  
सूर्यसे दृष्ट होवै तो मनुष्य दुष्कीर्तियुक्त अर्थात् दुष्टकर्मसे ख्यात होवै ॥ १०३ ॥

भी युक्त होवै तो तीस ३० वर्षसे ऊपर सुख मिले ॥ ११५ ॥ लग्नेश शुभ ग्रहकी राशिम हो उसे शुभ ग्रह देखे अथवा गोपुराशमें होवै तो सोलह १६ वर्षसे ऊपर सुख होवै ॥ ११६ ॥ ग्रहयोगेक्षणाम्भ्यां तु बलाबलवशादपि ॥ लग्नस्यैवं फलं प्रोक्तं श्रीमद्भ्यं कटशर्मणा ॥ ११७ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ लग्नफलवर्णनो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥  
ग्रहयोग दृष्टिके तथा बल निर्बलके भी अनुसार लग्नका इसप्रकार फल श्रीमान् वैकट-  
शर्मणे कहा है ॥ ११७ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ महोदरभाषायां लग्नफलाध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥

## तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ धनभावफलाध्यायः ।

कौटुंबाद्भर्त्तव्यान्मुखं च वाग्दक्षिणाक्षिपूर्वार्थान् ॥

विद्याभुक्तिविशेषान् दासान्मित्राणि च प्रवदेत् ॥ १ ॥

दूसरे स्थानसे निजपालनीय कुटुंबी मनुष्य, मुख, वाणी, दाहिना नेत्रादि, धन, विद्या, भोग-  
विशेष, दास, मित्र इतनोंका विचार करना ॥ १ ॥

लग्नेश्वरेण सहिते यदि वित्तनाथे दुःस्थेऽस्थिनाशनमथास्फुजि-  
दिन्दुयुक्ते ॥ नेत्रेश्वरे तनुगते यदि नैशिकांधः स्वोच्चे शुभग्रह-  
युते न तथा वदंति ॥ २ ॥ भान्वच्छलग्नपतिभिः सहिते तदीशे  
जात्यंधको भवति रंध्रव्रणांत्यगेपि ॥ रिप्फे धरासुतगते नयनं  
हि वामं नाशं तदा व्रजति सूर्यसुते तदन्यत् ॥ ३ ॥

द्वितीयेन लग्नेशसहित दुष्ट स्थानमें होवै तो हड्डी टूटे । शुक चंद्रमा सहित द्वितीयेन लग्नेमें  
होवै तो रात्र्यंध होवै यदि उच्च राशिमें हो यदा शुभग्रहसे युक्त होवै तो वह फल नहीं होवै  
॥ २ ॥ द्वितीयेन, सूर्य, शुभ और लग्नेश सहित होवै तो जन्मांध होवै तथा ८।६।१२  
में हो तो भी यही फल है वारहमां मंगल होवै तो वामनेत्र शनि होवै तो दाहिना नेत्र  
नष्ट होवै ॥ ३ ॥

चंद्रार्कसंयुक्तहरो विलग्रे शन्यारदृष्टेभिविनाशमाहुः ॥ शुभा-  
शुभैर्बुद्बुदलोचनः स्याच्छुभैर्न दोषः सहितेक्षणाभ्याम् ॥ ४ ॥

सिंह लग्नेरु सूर्य, चंद्रमा, मंगल शनिसे दृष्ट हों तो नेत्रनाश कहतेहैं यदि योग एवं दृष्टि-कर्त्ता ग्रह शुभ अशुभ मिश्रित हों तो ( बुद्धबुदाक्ष ) अधीरनयन होवे शुभ ग्रहोंके योगदृष्टिसे उक्त दोष नहीं होता ॥ ४ ॥

निमीलिताक्षश्च धनेशपापे तदीश्वरे शोभनदृष्टियुक्ते ॥ लग्ना-  
धिपे पापबहुत्वयोगे यमेन दृष्टे स तु रोगिनेत्रः ॥५॥ नेत्रे शुभे  
तद्भवनेश्वरे वा सौम्यान्विते कारकखेचरेन्द्रे ॥ लग्नेश्वरेणापि युते-  
थ दृष्टे विशालदृष्टिः स नरो विशेषात् ॥ ६ ॥

धनस्थानमें पापग्रह धनेशपर शुभग्रहकी दृष्टि होवै तो नेत्र मीचेसे रहे । लग्नेश बहुत पापग्रहो सहित होवै उस पर शनिकी दृष्टिभी होवै तो नेत्रोंमें रोग रहे ॥ ५ ॥ नेत्रस्थानमें शुभग्रह हो द्वितीयेश शुभयुक्त हो तथा कारक ग्रह शुभयुक्त हो लग्नेशसे भी युक्त वा दृष्ट हो-वै तो वह मनुष्य विशेषतासे बड़ी दृष्टिवाला होवै ॥ ६ ॥

शन्यारयोगे गुलिकेन युक्ते नेत्रेश्वरे तत्र तु नेत्ररोगः ॥ नेत्रे यदा  
पापबहुत्वयोगे यमेन दृष्टे सति रुग्णनेत्रः ॥७॥ नेत्रेश्वरस्यांश-  
पतौ सपापे पापग्रहक्षेत्रगते तथैव ॥ नेत्राधिपे वासरनायके तु  
धरासुते वा गुलिकार्कदृष्टे ॥ ८ ॥

द्वितीयेश शनि मंगलसे युक्त तथा गुलिकसे भी युक्त होवै तो नेत्ररोग होवै द्वितीय स्थानमें बहुत पाप हों शनिकी दृष्टि होवै तो नेत्ररोगी होवै ॥ ७ ॥ द्वितीयेश जिसके अंशकमें है वह पापयुक्त हो तथा पापग्रहके राशिमें हो अथवा द्वितीयेश सूर्य वा मंगल हो गुलिक पर सूर्यकी दृष्टि होवे ॥ ८ ॥

लृष्णोद्भवेनाप्यथ पित्तकासैर्नेत्रस्य रोगो भवति प्रमादैः ॥ अव्या-  
जरोगैर्नयनस्य रोगस्तत्स्थानपे दुःस्थगते ससौम्ये ॥९॥ सहो-  
दरात्मोद्भवशत्रुगेहे कलत्रमित्रादि लभेत्तथैव ॥ रव्यारयुक्ते सति  
नेत्रनाथे दृष्टे तु ताभ्यां नयनांतरक्तः ॥ १० ॥

तो गर्भासे अथवा पित्त कफसे प्रमादोंसे नेत्ररोग होवै द्वितीयेश दुष्टस्थानमें शुभयुक्त होवै तो बिना प्रमादसे नेत्ररोग होवै ॥ ९ ॥ ऐसेही भ्रातृस्थानसे भाईको पुत्रस्थानसे पुत्रको शत्रु-स्थानसे शत्रुको सप्तम स्थानसे स्त्रीको नेत्ररोग कहना द्वितीयेश सूर्य मंगलसे युक्त वा दृष्ट होवै तो नेत्रोंके किनारे रक्तवर्ण रहे ॥ १० ॥

आरोहवीर्यं तु विलग्ननाथे भाग्याधिपे तादृशवीर्ययुक्ते ॥ विख्या-  
तकीर्तिः प्रभवो नरस्तु शुभग्रहेणापि समन्विते स्यात् ॥ १०४ ॥

लग्न आरोहवीर्यसे युक्त हो नवमेशभी ऐसाही हो और शुभग्रहसे युक्त भी होवै तो मनुष्य  
विख्यात कीर्तिवाला होवै ॥ १०४ ॥

आदौ वयसि पूर्वार्द्धे सौख्यं लग्ने भृगोः सुते ॥ दुःखं तु परभागे  
च बंधौ पापे सुते तथा ॥ १०५ ॥

लग्नमें शुक होवे तो उमरके पूर्वार्द्धमें सुख मिले, चतुर्थ वा पंचममें पापग्रह होवै तो  
उत्तरार्द्ध उमरमें दुःख होवै ॥ १०५ ॥

लग्नाधिपे शुभयुते यदि तुंगभागे केंद्रत्रिकोणसहिते शुभदृष्टि-  
युक्ते ॥ कर्माधिपेन सहिते यदि वा स्वगेहे सद्भाग्यकीर्ति-  
धनधान्यचिरायुरेति ॥ १०६ ॥

यदि लग्नेश शुभग्रह युक्त उच्च राशिका केंद्र त्रिकोणमें शुभग्रहोंसे दृष्ट हो अथ वा  
दशमेशसे युक्त हो यद्वा अपनी राशिमें होवै तो उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम कीर्ति, धन, अन्नयुक्त  
और दीर्घायु होवै ॥ १०६ ॥

लग्नाधिपोतिबलवानशुभैरदृष्टः केंद्रस्थितः शुभखगैरवलो-  
क्यमानः ॥ मृत्युं विभूय विदधाति सुदीर्घमायुःसार्द्धं गुणैर्बहुभि-  
रूर्जितया च लक्ष्म्या ॥ १०७ ॥

लग्नेश अतिबलवान् हो, पापग्रह उसे न देखें, केंद्रमें हो, शुभ ग्रह उसे देखते हों  
तो मृत्युयोगको हटायके दीर्घायु, बहुत गुण, तथा श्रेष्ठ लक्ष्मीसहित करे ॥ १०७ ॥

केंद्रत्रिकोणानिधनेषु न यस्य पापा लग्नाधिपः सुरगुरुश्च चतु-  
ष्टयस्थौ ॥ भुक्त्वा सुखानि विविधानि सुपुण्यकर्मा जीवेच्च वत्स-  
रशतं स विमुक्तरोगः ॥ १०८ ॥

जिसके केंद्र १।४।७।१० त्रिकोण ५।९ अष्टम ८ स्थानोंमें पापग्रह न हों और लग्नेश  
तथा बृहस्पति केंद्रमें हों तो अनेक सुखभोग करके बहुपुण्यकर्मा निरोग रहकर सौ वर्ष जीवै १०८

लग्नेश्वरादतिबली निधेनश्वरोसौ केन्द्रस्थितैर्निधनरिप्पगतैश्च  
गणैः ॥ तस्यायुरल्पमथ वा यदि मध्यमायुरुत्साहसंकटवशा-  
त्परमायुरेति ॥ १०९ ॥



अष्टमेश लग्नेशसे अधिक बली हो केंद्र अष्टम छटे स्थानगत पाप होवैं तो अल्पायु अथवा मध्यमायु होवैं अथवा अनेक सकट क्लेश भोगके अनेक उत्साहोंसे परमायु होवैं ॥ १०९ ॥

एकांशकस्था बुधशुक्रमन्दा धर्म स्थिता लग्नमुपागता वा ॥

पष्ठाष्टमे वा हिमगुश्च यस्य सहस्रवर्षद्वयमस्य जन्तोः ॥ ११० ॥

नवम स्थानमें बुध, शुक्र, शनि एकही अंशकमें होवैं अथवा एकांशकहीमें लग्नस्य होवैं छटे वा आठवे मे चंद्रमा होवे तो दो हजार वर्ष आयु होवैं ॥ ११० ॥

जीवांशकस्थाः सकला ग्रहेंद्राःकेंद्राश्रिता धर्मधनाश्रिता वा ॥

जातो नरः प्रव्रजितः स बाल्ये युगांतमाहुर्वहुशास्त्रकर्ता ॥ १११ ॥

मंदांशकस्था रविभौमजीवाः कर्माश्रिता धर्मयुता बलाढ्याः ॥

राशेः समाप्तौ हिमगौ विलग्न्ये युगांतमायुः श्रियमादधाति ॥ ११२ ॥

धर्मेश्वरे धर्मगते च यस्य भौमांशकस्थे हिमगौ च दृष्टे ॥ मुनी-

श्वरोयं मुनियोगजातः शास्त्रार्थकर्ता युगमादधाति ॥ ११३ ॥

सभी ग्रह बृहस्पतिके अंशकमें केंद्र अथवा नवम वा द्वितीय भावमें हों तो मनुष्य बाल्यावस्था हीसे योगी होकर युगांतपर्यंत जीवै और बहुत शास्त्र बनानेवाला होवै ॥ १११ ॥ सूर्य मंगल बृहस्पति शनिके अंशकमें हों नवम वा दशम स्थानमें स्थित हों बलवान् भी हों और राशिके अंत्य नवांशकका चंद्रमा लग्नमें होवै तो लक्ष्मीसहित रहे युगांत आयु हावै ॥ ११२ ॥ जिसका नवमेश नवममें हो उसे मंगलके अंशकमें स्थित चंद्रमा देखे तो इस मुनियोगमें जन्मवाला मनुष्य मुनीश्वर होकर शास्त्रकर्ता और युगांतजीवी होगा ॥ ११३ ॥

लग्नेशे धनराशिस्थे लग्नेशस्थांशपेपि वा ॥ तथा स्थिते लाभ-

नाथे त्रिंशद्वर्षात्परं सुखम् ॥ ११४ ॥ लग्नेशस्थांशनाथे तु

केंद्रकोणोच्चसंयुते ॥ लाभेशे वा तथा युक्ते त्रिंशद्वर्षात्परं सुखम् ॥

॥ ११५ ॥ लग्नेशे शुभराशिस्थे शुभग्रहानिरीक्षिते ॥ गोपुरांश-

गते वापि षोडशाब्दात्परं सुखम् ॥ ११६ ॥

लग्नेश अथवा जिस अंशकमें लग्नेश है उसका स्वामी दूसरे भावमें हो तथा ऐसेही लाभभावेश होवै तो बीस २० वर्षसे ऊपर सुख मिले ॥ ११४ ॥ लग्नेश जिस नवांशकमें है उसका स्वामी केन्द्र त्रिकोण अथवा उच्च राशिमें हो तैसेही लाभेश

सौम्यग्रहौ कारकभावनाथौ स्यातां शुभा दृष्टिरसौम्यता तु ॥  
पापग्रहैर्वाक्षणयोगतश्च पित्रादिकानां फलमेवमाहुः ॥ ११ ॥

कारक भावेश दो शुभ ग्रह हों शुभग्रह उन्हें न देखें पापग्रह देखें तो क्रूरदृष्टि होव ऐसे ही योगमें पापग्रहोंके योग एवं दृष्टिके जिस स्थानसंबंधी वह कारक ग्रह हैं उसके अनुसार पिता आदियोंको वह फल कहते हैं ॥ ११ ॥

कुटुंबराशेरधिपे ससौम्ये केंद्रस्थिते स्वोच्चसुहृद्गृहे वा ॥ सौम्यक्ष-  
युक्ते यदि जातपुण्यः कुटुंबसंरक्षणवाग्विलासः ॥ १२ ॥

द्वितीयेश शुभग्रह सहित केंद्रमें हो अथवा अपने उच्चमें वा मित्रराशिमें हो शुभराशिमें होवै तो वह पुण्यवान् कुटुंबका रक्षक होवै वाणीमें विलास उत्तमता होवै ॥ १२ ॥

स्वोच्चस्थिते शोभनखेचरेन्द्रे कुटुंबराशौ शुभवीक्षिते वा ॥ अने-  
कसंरक्षणजातपुण्यो लग्नेश्वरे वीर्ययुते स्वतुंगे ॥ १३ ॥ गुरौ कुटुं-  
बे स्वपतौ यदि स्याद्भृगौ बुधे तादृशभावनाथे ॥ स्वोच्चे सुहृत्क्षे-  
त्रगतेथ वंधौ परोपकारी जनरक्षकः स्यात् ॥ १४ ॥

द्वितीयभावमें शुभग्रह दृष्ट शुभग्रह अपने उच्चमें हो तो अनेकोंकी रक्षा करनेसे पुण्यवान् होवै, लग्नेश बलवान् हो अपने उच्चमें हो तो भी वही फल जानना, द्वितीय गृहस्पति द्वितीय स्थानमें हो अथवा ऐसे ही द्वितीयेश द्वितीयमें शुक्र वा बुध हो अथवा अपने उच्चमें वा मित्रराशिमें चौथे स्थानमें हो तो पराया उपकार करनेवाला लोगोंकी रक्षा करनेवाला होवै ॥ १३ ॥ १४ ॥

पापे तु तद्राशिपतौ तदानीं पापेक्षिते पापयुते स्वतुंगे ॥ लग्ने-  
श्वरे हीनबले सपापे स्वजीवनोपायसहायको न ॥ १५ ॥ पापे  
बहुत्वे स्वकुटुंबराशौ पापेक्षिते हीनबले तदशौ ॥ दुःस्थे विलग्रा-  
धिपतौ सपापे स्वजीवनं नास्ति सुखेन तस्य ॥ १६ ॥

द्वितीयेश पापग्रह पापयुत दृष्ट हो और अपने उच्चमें हो लग्नेश पापयुक्त हीनबल होवै तो अपने आजीवनके उपायमें दूसरा सहायक न होवै अर्थात् अपने गुनरक्षा उपाय आपसी करे ॥ १५ ॥ द्वितीय स्थानमें बहुत पापग्रह हो द्वितीयेश हीनबल पापग्रहसे दृष्ट हो लग्नेश पापयुक्त दृष्ट स्थानमें होवै तो उसका जीवन मुक्तपूर्वक न होवै ॥ १६ ॥

पत्यौ कुटुंबस्य तृतीयराशौ स्थिते यदा पुंग्रहसौम्यदृष्टे ॥ शुभ-  
स्थिते खेचरनायके स्यात्स्वतुंगे सर्वजनावनीशः ॥ १७ ॥

द्वितीयभावेश तीसरे शुभग्रह तथा पुरुषग्रह सू० मं० वृ० से दृष्ट हो शुभग्रहकी राशिमें वा अपने उच्चराशिमें होवै तो सब मनुष्योंका एवं पृथ्वीका राजा होवै ॥ १७ ॥

तत्राथे गोपुरांशस्थे कुटुंबेशांशपे शुभे ॥ सिंहासनांशके वापि पंचाशज्जनरक्षकः ॥ १८ ॥

द्वितीयेश गोपुरांशक्रमें हो अथवा द्वितीयेश जिस ग्रहके अंशक्रमें हो वह शुभग्रह हो और सिंहासनांशक्रमें होवै तो पचास मनुष्योंकी रक्षा करनेवाला होवै ॥ १८ ॥

स्वोच्चत्रिकोणायगते कुटुम्बराशेः पतौ लग्नपतेबलाढ्ये ॥ कुटुम्बनाथस्थितराशिनाथे केंद्रस्थिते सर्वजनावनीशः ॥ १९ ॥

द्वितीयेश अपने उच्च वा मूलत्रिकोणके ग्यारहवें भावमें यद्वा उच्च वा त्रिकोण लाभ स्थित ५।९।११ में हो लग्नेश बलवान् हो तथा निसराशिमें द्वितीयेश है उसका स्वामी केंद्रमें होवै तो सर्व मनुष्योंका राजा होवै ॥ १९ ॥

द्वितीये पापसंयुक्ते कुटुंबेशे तथा स्थिते ॥ पापग्रहेण संदृष्टे दुर्घटे भावनं लभेत् ॥ २० ॥ आविंशते रक्षकः स्यात्कुटुंबेशे शुभैर्युते ॥ पारावतांशके तस्मिन् धने चंद्रसमन्विते ॥ २१ ॥

द्वितीय स्थानमें पापग्रह हो तथा द्वितीयेश पाप वा पापयुक्त दृष्ट होवे तो आजीविका कठिनतासे होवै ॥ २० ॥ यदि द्वितीयेश शुभग्रह युक्त होकर पारावतांशमें हो द्वितीय स्थानमें चंद्रमा होवै तो बीस मनुष्योंका पालन करे ॥ २१ ॥

स्वोच्चे सहस्रे स्वगृहे तदीशे सिंहासने तद्भवनेश्वरे वा ॥ पारावतांशे गुरुदृष्टियुक्ते शतत्रयं शास्ति चजातपुण्यः ॥ २२ ॥ कुटुम्बनाथे परमोच्चयुक्ते देवेंद्रपूज्येन समीक्षिते वा ॥ तथाविधे तद्भवनेपि जातः सहस्ररक्षो भवति प्रतापैः ॥ २३ ॥

द्वितीयेश अपने उच्चमें, मित्रराशिमें अपने राशिमें सिंहासनांश वा पारावतांशमें, हो उसपर गुरुदृष्टि होवे तो वह पुण्यवान् तीन शत मनुष्योंके ऊपर द्रव्यमत्त चलावे ॥ २२ ॥ द्वितीयेश परम उच्चमें गुरुसे दृष्ट हो अथवा द्वितीय स्थानमें सिंहासनांश वा पारावतांशमें होवै तो अपने मतापोंसे एक सहस्र मनुष्योंका स्वामी होवै ॥ २३ ॥

सिंहासनांशे त्रिदशेशपूज्ये शुक्रे पुनर्गोपुरसंयुते तु ॥ पारावतांशे धनपे बलाढ्ये जातस्त्वसंख्यातनूरक्षकः स्यात् ॥ २४ ॥

शुद्धराशि सिंहासनांशमें और शुक्र गोपुरांशक्रमें तथा बलवान् द्वितीयभावेश पारावतांशमें होवे तो अक्षरय मनुष्योंका स्वामी होवै ॥ २४ ॥

मुखेशे केंद्रभावस्थे शुभग्रहनिरीक्षिते ॥ मुखे सौम्ययुते वापि  
सुमुखः स नरो भवेत् ॥ २५ ॥ प्रफुल्लवदनः श्रीमान्केंद्रे मुखपतौ  
यदा ॥ स्वोच्चमित्रस्ववर्गस्थे तन्नाथे गोपुरांशके ॥ २६ ॥

द्वितीयेश केन्द्रमें शुभ ग्रहोंसे दृष्ट हो और द्वितीय भावमें शुभ ग्रह होवे वह मनुष्य  
सुमुख ( सुवाणी ) वाला होवे ॥ २५ ॥ द्वितीयेश केन्द्रमें अपने उच्च वा मित्रराशि वा  
अपने वंशकमें हो अथवा द्वितीयेश गोपुरांशमें होवे तो प्रफुल्लमुख श्रीयुक्त होवे ॥ २६ ॥

पापैर्युते सुखस्थाने तन्नाथे पापसंयुते ॥ नीचराशिघाते वापि  
दुर्मुखः पापवीक्षिते ॥ २७ ॥ क्रोधयुक्स नरः पापी तदीशे गुलिका-  
न्विते ॥ पापयोगबहुत्वोस्मिन्नीचशत्रुवशं गतः ॥ २८ ॥

द्वितीय भाव पापयुक्त उसका स्वामी भी पापयुक्त हो-अथवा नीच राशिमें पापग्रह उसे  
देखे तो ( दुर्मुख ) दुर्वाणीवाला होवे ॥ २७ ॥ द्वितीयेश गुलिकसे युक्त हो बहुत पाप  
द्वितीय स्थानमें हों तो वह मनुष्य पापी और क्रोधयुक्त होवे ॥ २८ ॥

वाक्स्थानपे सौम्ययुते त्रिकोणे केन्द्रस्थिते तुंगसमन्विते वा ॥  
शुभेक्षिते पुंग्रहयोगयुक्ते वाग्मी भवेद्युक्तिसमन्वितोसौ ॥ २९ ॥

द्वितीयेश त्रिकोण वा केन्द्रमें शुभग्रहयुक्त हो अथवा उच्चराशिमें हो शुभग्रह उसे देखेंपुरुष  
ग्रहसे युक्त हो तो चतुर युक्तियुक्त बात कहनेवाला होवे ॥ २९ ॥

वाक्स्थानपे देवपुरोहितेन युक्ते यदा नाशगतेत्र मूकः ॥ पित्रा-  
दिकानामियमेव रीतिरुक्ता मुनींद्रैर्वहुशास्त्रविद्भिः ॥ ३० ॥

द्वितीयेश बृहस्पतिसे युक्त अष्टम स्थानमें होवे तो गूंगा होवे ऐसेही पित्रादि भावोंका  
स्वामी होवे तो पित्रादियोंको मूकता (गूंगापन) बहुत शास्त्र जाननेवाले कहते हैं ॥ ३० ॥

वाचालकः केन्द्रगते तदीशे पारावतांशे परमोच्चभागे ॥ सिंहासने  
देवगुरौ भृगौ वा वर्गोत्तमे सोमसुतेन युक्ते ॥ ३१ ॥ वागीश-  
स्यांशपे सौम्ये स्वोच्चे शुभसमन्विते ॥ गोपुरांशगते वापि वाग्मी-  
पटुतरो भवेत् ॥ ३२ ॥

द्वितीयेश केन्द्रमें पारावतांशक और परम उच्चांशकमें हो बृहस्पति अथवा शुक्र सिंहासनांशमें  
हो वा वर्गोत्तमांशमें हो बुधसे युक्त होवे तो वाचाल ( बहुत बोलनेवाला ) होवे ॥ ३१ ॥  
द्वितीयेश जिसके नवांशकमें हो वह शुभग्रह हो, अपने उच्चमें शुभग्रह युक्त हो अथवा गोपु-  
रांशकमें हो तो बोलनेमें चतुर मुनियुक्त बात करनेवाला होवे ॥ ३२ ॥

वागीशोपि बलान्वितः शुभयुतो वर्गोत्तमांशोपि वा वाज्जमी स्या-  
द्भवनेश्वरो गुरुयुतः पारावतांशोपि वा॥तन्नाथो भृगुणा बुधेन सहि-  
तस्त्वैरावतांशे तथा स्वोच्चे स्वे सुहृदां गृहे धनपतौ वाक्स्थान-  
कोलाहलः ॥ ३३ ॥

वागीश ( द्वितीयेश ) बलवान् शुभग्रहयुक्त वर्गोत्तमांशस्थित हो तो बोलनेमें चतुर होवै  
द्वितीयेश बृहस्पति युक्त हो अथवा पारावतांशमें हो, उस स्थानका स्वामी शुक वा बुधसे  
सहित यद्वा ऐरावतांशमें हो, तथा धनेश उच्च वा मित्रकी राशिमें होवै तो बहुत बोलने-  
वाला होवै ॥ ३३ ॥

सभाजडो वागधिपः सपापः कर्मस्थितो नीचगतोर्कयुक्तः ॥  
मांघ्रान्विते वाग्भवनेर्कयुक्ते पापैस्तु दृष्टे स जडोत्र जातः॥३४॥

द्वितीयेश पापयुक्त कर्मस्थित, नीचराशिगत, अस्तगत हो द्वितीय स्थानमें केतु हो अथवा  
सूर्य हो पापग्रह उसे देखें तो वह मनुष्य सभाजड ( मूख ) होवै ॥ ३४ ॥

केन्द्रे बुधे वागधिपे बलाद्ब्ये शुक्रे धनभ्रातृगते ससौम्ये ॥ स्वोच्चे  
धने दानवपूजिते वा ज्योतिर्विदां श्रेष्ठतमो नरः स्यात् ॥ ३५ ॥

बुध केन्द्रमें हो द्वितीयेश बलवान् हो शुक शुभयुक्त दूसरे वा तीसरे भावमें होवै अथवा  
शुक अपने उच्चका दूसरे भावमें होवै तो मनुष्य ज्योतिषियोंमें श्रेष्ठ होवै ॥ ३५ ॥

गणितज्ञो भवेज्जातो वाग्भावे भूमिनन्दने ॥ ससोमे बुधसंहृष्टे  
केन्द्रे वा सोमनन्दने ॥ ३६ ॥ वाग्भावपे बुधे स्वोच्चे लग्ने देवेंद्र-

पूजिते ॥ शनावष्टमसंयुक्ते गणितज्ञो भवेन्नरः ॥ ३७ ॥ केंद्रत्रि-

कोणगे जीवे शुक्रे स्वोच्चगते सति ॥ वाग्भावपेंदुपुत्रे वा गणितज्ञो  
भवेन्नरः ॥ ३८ ॥ वाग्भावपे रवौ भौमे गुरुशुक्रानिरीक्षिते ॥  
पारावतांशगे सौम्ये तत्तद्युक्तिपरायणः ॥ ३९ ॥

द्वितीय स्थानमें मंगल चंद्रमासहित हो उसे बुध देखे वा बुध केन्द्रमें होवै तो मनुष्य  
गणित जाननेवाला होवै ॥ ३६ ॥ द्वितीयेश बुध अपने उच्चमें हो लग्नमें बृहस्पति और  
भ्रममें शनि होवै तो मनुष्य गणित विद्या जाननेवाला होवै ॥ ३७ ॥ बृहस्पति केन्द्र वा  
त्रिकोणमें हो शुक भौमका हो अथवा बुध वा द्वितीयेश अपने उच्चका होवै तो मनुष्य गणित  
विद्या जाननेवाला होवै ॥ ३८ ॥ द्वितीयेश सूर्य वा मंगल गुरु शुकसे दृष्ट हो बुध पाराव-  
स्तु होवै तो मनुष्य ज्योतिषकी युक्ति जाननेमें तत्पर होवै ॥ ३९ ॥

गुरुशुक्रौ धनेशौ चेद्रविभौमनिरीक्षितौ ॥ मूलत्रिकोणतुंगे वा तर्क-  
शास्त्रविदां वरः ॥ ४० ॥ संपूर्णबलसंयुक्ते गुरौ तद्भवनेश्वरे ॥  
दिनेशभृगुसंहृष्टे शाब्दिकोयं नरो भवेत् ॥ ४१ ॥

द्वितीय भावेश बृहस्पति वा शुक्र हो उस सूर्य मंगल देखे और मूल त्रिकोण वा उच्चमें होवै तो न्यायशास्त्र जाननेवालोंमें श्रेष्ठ होवै ॥ ४० ॥ द्वितीयेश बृहस्पति संपूर्ण बल्युक्त होवै उसको सूर्य शुक्र देखें तो वह मनुष्य वैयाकरण होवै ॥ ४१ ॥

वाग्भावपे बुधे स्रोचे गोपुरांशगते शनौ ॥ सिंहासने गुरौ वापि  
वेदांतज्ञो भवेन्नरः ॥ ४२ ॥ वेदांतपारिशीलः स्यात्केंद्रकोणे गुरौ  
सति ॥ बुधेन गुरुणा दृष्टे शनौ पारावतांशके ॥ ४३ ॥ उत्तमांशे  
भृगौ लग्ने केन्द्रे वा तद्विधे भृगौ ॥ देवलोकगते चंद्रे वेदांत-  
ज्ञानपारगः ॥ ४४ ॥ पट्टशास्त्रवल्लभः केन्द्रे जीवे दानवपूजिते ॥  
सिंहासने गोपुरांशे वाग्भावस्थांशके बुधे ॥ ४५ ॥

द्वितीयेश बुध अपने उच्चमें शनि गोपुरांशमें हो अथवा बृहस्पति सिंहासनांशमें होवै तो मनुष्य वेदांत शास्त्र जाननेवाला होवै ॥ ४२ ॥ केन्द्र अथवा त्रिकोणमें बृहस्पति होवै और शनि पारावतांशकमें बुध बृहस्पतिसे दृष्ट होवै तो वेदांतशास्त्रमें अत्यन्त अभ्यासी होवै ॥ ४३ ॥ लग्नगत शुक्र उत्तमांशमें हो अथवा उत्तमांशका शुक्र केंद्रमें हो चंद्रमा देवलोकांशकमें होवै तो वेदांतज्ञानमें पारंगत होवै ॥ ४४ ॥ बृहस्पति केंद्रमें शुक्र सिंहासनांशमें और द्वितीयभावगतांशकेश बुध गोपुरांशकमें होवै तो छत्रों शास्त्रोंका जाननेवाला होवै ॥ ४५ ॥

विप्रलंभो धनेशस्य राशीशस्थ्यांशपे शनौ ॥ सपापे केंद्रकोणे वा  
भौमेष्येवं विनिर्दिशेत् ॥ ४६ ॥ परिहासकरो नित्यं भानुस्थित-  
नवांशपे ॥ वाग्भावस्थे बलाच्चै तु तस्मिन्वैशेषिकांशके ॥ ४७ ॥

धनभावेशकी राशिमें स्वामांके स्थित नवांशका स्वामी शनि पापयुक्त होकर केंद्र का कोणमें होवै तो अंगीकार करके प्रतिवाद करनेवाला होवै ऐसाही मंगल हो तो भी वही फल जानना ॥ ४६ ॥ सूर्य मिसराशिनवांशमें हो उसका स्वामी द्वितीय स्थानमें बज्रान् तथा वैशेषिकांशमें होवै तो ठगरी करनेवाला (सुश मसकर) होवै ॥ ४७ ॥

गुरौ बलाच्चै धनराशियुक्ते तदीश्वराक्रांतनवांशनाथे ॥ केंद्रवि-  
कोणे शुभवीक्षिते वा क्रमान्तविच्छास्त्रपरायणश्च ॥ ४८ ॥

बलवान् बृहस्पति द्वितीय स्थानमे हो द्वितीयेश जिस नवांशमें हो उसका स्वामी केंद्र वा त्रिकोणमें शुभ ग्रहसे दृष्ट होवै तो कर्मांत वेद तथा ६ शास्त्रोंमें निपुणभी होवै ॥ ४८ ॥

लग्नेश्वरे धनस्थे लग्ने वा सौम्यसंयुते तुंगे ॥ पारावते तदीशे जातो निगमांतविद्वच्ये शुके ॥ ४९ ॥

लग्नेश धनस्थानमे अथवा लग्नहीमें हो परंतु शुभयुक्त एवं अपने उच्चमे हो उसका स्वामी पारावतांशमें होवै और शुक्र बारहवै होवै तो मनुष्य वेद वेदांत शास्त्रपारग होवै ॥ ४९ ॥

लग्नेश्वरस्यांशपतिस्थराशिनाथस्थितांशाधिपतौ बलाढ्ये वैशोपिकांशे शुभदृष्टियुक्ते योगे बहुत्वे धनलाभमाहुः ॥ ५० ॥

वित्तेश्वरेण सहिते भवराशिनाथे कर्माधिपस्थनवभावपददृष्टियुक्ते ॥ वैशोपिकांशकयुते परमोच्चभागे योगे बहुत्वधनलाभमिहाहुरार्याः ॥ ५१ ॥

लग्नेश जिस ग्रहके नवांशमे हो वह जिसकी राशिमे हो वह जिसके नवांशमे हो वह बलवान् तथा वैशोपिकांशगत और शुभग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त होवै तो बहुत धनलाभ होवै ॥ ५० ॥ ग्यारहवें भावका स्वामी धनशसे युक्त हो उसे कर्मस्थित नवांशेश देखे वैशोपिकांशमें हो, परमोच्चांशकमे होवै तो बहुत धनलाभ होवै ऐसा फल श्रेष्ठ आचार्य कहते है ॥ ५१ ॥

धर्माधिपेन सहिते धनराशिनाथे लग्नेश्वरस्थितनवांशपतीश्वरेण ॥ दृष्टे चतुष्टयगते शुभदृष्टियोगे जातस्तु भूरिधनलाभमुपैति वाल्ये ॥ ५२ ॥

द्वितीयेश नवमेशसे युक्त हो, लग्नेशके नवांशसे दृष्ट हो, केंद्रमें हो, शुभग्रह उसे रेखे तो बाल्यावस्थाहीमे बहुत धन पावै ॥ ५२ ॥

लग्नार्थलाभभवने शुभखेचरेंद्रे स्वोच्चे सुहृद्गतेत्र विशेषितांशे ॥ तुंगांशके धनपतिस्थनवांशनाथदृष्टेऽथ भूरि धनलाभमुपैति वाल्ये ॥ ५३ ॥

लग्न द्वितीय और लाभ भावोंमें शुभ ग्रह उच्च मित्र राशियोंमें तथा वैशोपिकांशमें हों अथवा उच्चांशकमें हों तथा द्वितीयेशस्थितनवांशसे दृष्ट हों तो बाल्यही में बहुत धन पावै ॥ ५३ ॥

लग्नेशे धनराशिस्थे धनेशे लाभराशिगे ॥ लाभेशे वापि लग्नस्थे बहुनिध्यादिकं भवेत् ॥ ५४ ॥

लग्नेश धनस्थानमें धनेश लाभ स्थानमें हो अथवा लाभेश लग्नमें होवै तो बहुत वस्तु आदि होवै ॥ ५४ ॥

सर्वग्रहादतिवली यदि लग्ननाथः केंद्रे स्थितस्त्रिदशपूजितसंयु-  
तश्च ॥ वैशेषिकांशकयुते धनराशिनाथे वित्तं स्ववीर्यबलतो-  
र्जितमाहुरार्याः ॥ ५५ ॥ लग्नेशसंयुतनवांशपतिस्थराशिनाथो  
बलेन सहितो धनपस्य मित्रम् ॥ केंद्रत्रिकोणसहितः स्वगृहेथ  
यद्वा जातः स्ववीर्यधनमेति बहुप्रकारैः ॥ ५६ ॥

लग्नेश सभी ग्रहोंसे बलवान् होकर बृहस्पतिसे दृष्ट केंद्रमें हो द्वितीयेश वैशेषिकांशकगत  
होवै तो अपने बल पराक्रमसे कमाया धन होवै ऐसा श्रेष्ठ आचार्य कहतेहैं ॥ ५५ ॥ लग्नेश  
जिस नवांशमें है उसका स्वामी जिस राशिमें है उसका स्वामी बलवान् हो तथा धनभावे-  
शका मित्र होवै केंद्र वा त्रिकोणमें हो अथवा स्वराशिमें होवे तो अपने बल पराक्रमसे बहुत  
प्रकारका धन पावै ॥ ५६ ॥

वित्तेश्वरो लाभविलग्नपाभ्यां युक्तास्त्रिकोणे यदि केंद्रराशौ ॥  
शुभेक्षितः कालवलान्वितश्च जातः स्ववीर्याद्धनमेति मध्ये ॥  
॥५७॥ अंते धनं याति धनेशयुक्तराशौ विलग्नशयुते ससौम्ये ॥  
तदीश्वरे लग्नगते बलाढ्ये लाभेश्वरादेवमुदाहरंति ॥ ५८ ॥

धनभावका स्वामी लाभेश और लग्नेशसे युक्त त्रिकोण ५१९ अथवा केन्द्र १।४।७।१०  
में हो शुभ ग्रह उसे देखें तथा फालबलसे युक्त होवें तो मनुष्य मध्यावस्थामें अपने पराक्रमसे  
धन पावै ॥ ५७ ॥ जिस राशिमें द्वितीयेश है उसीमें लग्नेश और बुध भी होवें उस भावका  
स्वामी लग्नेसे बलयुक्त होवै तो पिछली अवस्थामें धन पावे लाभेशसे भी यह योग होता है  
अर्थात् जैसे धनेशके साथ बहा वैसाही लाभेशसे भी जानना ॥ ५८ ॥

तृतीयराशौ धनलग्ननाथौ बलान्वितौ पुंग्रहद्वष्टियुक्तौ ॥ तदीश्व-  
रेणापि युतौ प्रदष्टौ भ्रातुर्द्धनं याति विशेषित्वांशे ॥ ५९ ॥ तृतीयभा-  
वाधिपतौ धनस्थे तत्र स्थिते कारकस्वेचरेन्द्रे ॥ दृष्टे युते वा  
तनुपेन जातो भ्रातुर्द्धनं याति विशेषित्वांशे ॥ ६० ॥

धनेश तथा लग्नेश तीसरे भावमें बलवान् और पुंग्रहग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट हों तृतीयेशसेभी युक्त  
वा दृष्ट होवें और वैशेषिकांशकमें हो तो भाईसे धन पावै ॥ ५९ ॥ तृतीयेश धनराममें हो, और तहाँ  
कारकग्रहभी होवें, लग्नेशसे युक्त वा दृष्ट हो वैशेषिकांशकमेंभी होवै तो भाईसे धन पावै ॥ ६० ॥

परस्परं वित्तपलग्ननाथौ निरीक्षितौ केंद्रयुतौ शुभांशे ॥ निरी-  
क्षितौ लग्नशुभेश्वराभ्यां जातो धनं याति बहुप्रकारः ॥ ६१ ॥



वित्तेश्वरं पश्यति लग्ननाथे युते स्ववीर्याद्धनमेति मर्त्यः ॥ तृती-  
यभावाधिपकारकाभ्यां दृष्टे युते तादृशमेति वित्तम् ॥ ६२ ॥

लग्नेश धनेश केंद्रोंमें तथा शुभाशकोंमें बैठे आपसमें देखते हो लग्नेश नवमेश  
उन्हे देखें तो बहुत प्रकारसे धन पावै ॥ ६१ ॥ लग्नेश धनेशको देखे अथवा एक भावमें  
दोनहूँ होवै तो मनुष्य अपने बलसे धन पावै तथा तृतीयभावेश और कारक ग्रहोंसे दृष्ट वा  
युक्त हो तो वही फल होगा ॥ ६२ ॥

दृष्टे युते वित्तपतौ बलाढ्ये सुखेश्वरेणापि धनं जनन्याः ॥  
बंधोः सकाशादथ वा कूपेश्च धनं प्रयात्यत्र विशोपितांशे ॥ ६३ ॥  
दृष्टे युते वित्तपतौ धनस्थे तत्र स्थिते कारकखेचरेंद्रे ॥ दृष्टे युते  
वा तनुपेन जातो भ्रातुर्धनं याति विशोपितांशे ॥ ६४ ॥

धनेश चतुर्थेशसे युक्त वा दृष्ट हो बलवान् भी होवै तो मातासे धन पावै, वैशेषिकांशकर्म  
भी होवै तो बंधु ( ज्ञाति ) से अथवा कूपिकर्मसे धन पावै ॥ ६३ ॥ धनेश धनभावमें  
तृतीयेशसे युक्त वा दृष्ट हो तहां कारक ग्रहभी होवै, अथवा लग्नेशसे दृष्ट वा युक्त होवै  
वैशेषिकांशकमे भी होवै तो भाईसे धन पावै ॥ ६४ ॥

पुत्रेशतत्कारकखेचराभ्यां तथाविधे वित्तपतौ बलाढ्ये ॥ दृष्टे  
युते लग्नपतौ बलाढ्ये वैशेषिकांशे सुततो धनं स्यात् ॥ ६५ ॥  
वैशेषिकांशे यदि लग्ननाथे जातः स्वपुत्रार्जितमेव वित्तम् ॥  
षष्ठेशतत्कारकखेचराभ्यां तथाविधे वित्तपतौ बलाढ्ये ॥ ६६ ॥  
शत्रोः सकाशात्तु धनं प्रयाति वैशेषिके लग्नपतौ बलाढ्ये ॥  
कलत्रतत्कारकयोस्तथैव वित्तं कलत्राल्लभते हि जातः ॥ ६७ ॥

पञ्चमेश और पुत्रकारक ग्रहसे युक्त वा दृष्ट बलवान् धनश बलवान् लग्नेशसे युक्त वा दृष्ट  
होवै वैशेषिकांशमें होवै तो अपने पुत्रका कमाया धन पावै ॥ ६५ ॥ लग्नेशभी वैशेषिका-  
शकमें होवै तो भी वही फल होगा वैसाही धनेश षष्ठेश और शत्रु कारक ग्रहसे युक्त वा दृष्ट  
होवै ॥ ६६ ॥ और लग्नेश बलवान् वैशेषिकांशमें होवै तो शत्रुसे धन पावै उक्त प्रकार  
वाला धनेश सप्तमेश तथा स्त्रीकारक ग्रहसे युक्त वा दृष्ट होवै तो स्त्रीसे धन पावै ॥ ६७ ॥

पितुर्धनं कारकभावपाभ्यां गुरोः सकाशादपि धर्ममूलात् ॥ कर्म-  
शतत्कारकदृष्टियोगाद्धनं स्वदानग्रहणात्स्वकीर्त्या ॥ ६८ ॥  
लाभेशतत्कारकदृष्टियोगादेवं वदंत्यत्र धने बहुत्वम् ॥ ६९ ॥

वैसाही धनेश दशमेश, एवं तत्कारक ग्रहसे युक्त दृष्ट होवै तो पितासे तथा उपलक्षणसे राजासे धन पावै और यहाँ लक्षणसे धर्ममूल धनमाप्ति, धर्मेश तत्कारक दृष्टि योगसे जानना कर्मभावेश राज्यकारक ग्रहसे युक्त वा दृष्ट होनेमेंभी धन अपने देने लेनेसे तथा अपने कीर्तिसे होवै. ॥ ६८ ॥ एवंविध धनेश लाभेश तथा लाभभावकारकग्रह युक्त दृष्ट होनेमें बहुत प्रकार धनकी माप्ति कहतेहैं ॥ ६९ ॥

**धने पापग्रहाः प्रोक्ता बलाढ्यास्ते तथा भवेत् ॥ नीचारिमूढ-  
भावस्थैर्दृग्योगात्खेचरैरपि ॥ ७० ॥ तत्तद्भावाधिपैर्वित्तनाश-  
स्तन्मुखतो भवेत् ॥ सहोत्थवंधुपुत्रारिकलत्रादेरयं क्रमः ॥ ७१ ॥**

धन भावमें पापग्रहभी बलवान् होवै तो धनवान् करतेहैं जो ग्रह धन भावमें नीच, शत्रु भाव, अस्तंगत हों उनसे भी लग्नेशादि वैशेषिकांशगत बलवान् ग्रहोंके योग वा दृष्टिसे धन होताहै ॥ ७० ॥ जैसे धन भावमें भाई, बंधु, पुत्र, शत्रु, फलत्र आदि भावेशोंके शुभ संबंध तथा उनके बलवान् होनेसे उनके द्वारा वा उनसे धनमाप्ति कही है वैसेही उन धन भावोंके स्वामियोंके निर्वल कूरांशादिगत संबंध होनेसे उनके द्वारा धननाश भी होताहै ७१ ।

**लग्नाधिपे हीनबले सपापे रिप्फे धनेशे दिननाथयुक्ते ॥ नीच-  
स्थिते वा शुभदृष्टियुक्ते जातस्य वित्तं हरति क्षितीशः ॥ ७२ ॥ व्यये-  
शे धनभावस्थे रिप्फस्थे लाभनायके ॥ दुःस्थे धनेशे नीचे वा  
राजदंडाद्धनक्षयः ॥ ७३ ॥ धनेशे नाशराशिस्थे सपापे नीच-  
राशिगे ॥ राजकारकसंयुक्ते राजदंडाद्धनक्षयः ॥ ७४ ॥**

लग्नेश हीनबल पापयुक्त होवै, धन भावेश छटे भावमें सूर्ययुक्त होवै अथवा नीचराशिमें होवै उसे पापग्रह देखें तो मनुष्यका धन राजा हरलेवै ॥ ७२ ॥ व्ययेश धनभावमें लाभेश चारहवें धनेश रिप्फस्थानमें हो अथवा नीच राशिमें होवै तो राजदण्डसे धनक्षय होवै ॥ ७३ ॥ धनेश अष्टम राशिमें हो पापयुक्त नीचका होवै उसके साथ राजकारक ग्रहसे युक्त होवै तो राजदण्डसे धनक्षय होवै ॥ ७४ ॥

**धनव्ययेशो व्ययवित्तसंस्थो लग्नेश्वरेणापि निरीक्षितो चेत् ॥ लग्ना-  
धिपे नाशगते सपापे राज्ञां प्रकोपाद्धननाशमाहुः ॥ ७५ ॥ कर्म-  
श्वरे लाभगते विलग्ननाथेन युक्ते यमकंटकांशे ॥ दंष्ट्राकरालांश-  
गतेथ वापि राज्ञां प्रकोपाद्धननाशमाहुः ॥ ७६ ॥**

धनेश व्ययेश धन व्यय स्थानोंमें परस्पर अर्थात् धनेश व्ययमें व्ययेश धनमें लमेश न्हें देखे और लमेश पापयुक्त अष्टम स्थानमें होवै तो राजाओंके कोपसे धननाश कहतेहैं ७५ ॥ दशमेश लाभ स्थानमें लमेशसे युक्त यमचंत्कांश अथवा दंष्ट्राकरालांशमें होवै तो ही पूर्वोक्त फल राजाओंके कोपसे धननाश कहते हैं ॥ ७६ ॥

धनायपौ भूमिजदृष्टियुक्तौ क्रूरांशगौ हीनबलौ सपापौ ॥ चौरादि-  
भावाधिपदृष्टियुक्तौ चौराग्निभूपैर्द्धननाशमेति ॥ ७७ ॥ कर्मेश्वरे  
नाशगते सपापे क्रूरादिपष्टचंशगते विशेषात् ॥ धनायपाभ्यां  
सहिते तदानीं लोकापवादाद्धननाशमाहुः ॥ ७८ ॥ वित्तेश-  
संयुक्तनवांशनाथयुक्तांशकस्थानपतौ सपापे ॥ दुःस्थे विलम्बे-  
श्वरदृष्टियुक्ते चौराग्निभूपैर्द्धननाशमेति ॥ ७९ ॥

धनेश लाभेश मंगलसे दृष्ट, क्रूरांशगत, हीनबल, पापयुक्त और अष्टमेशादि ( त्रिकेश ) युक्त होवै तो चौर अग्नि अथवा राजासे धननाश पावै ॥ ७७ ॥ दशमेश पापयुक्त अष्टम स्थानमें. विशेष करके क्रूर आदि षष्टचंशकर्म होवै, धनेश लाभेशसे युक्त होवै तब लोकापवाद ( झूठेकलंक ) से धननाश कहते हैं ॥ ७८ ॥ धनेश जिस नवांशकर्म हो उसके स्वामीका नवांशनाथ सपाप त्रिकस्थ हो लमेश उसे देखे तो चौर अग्नि राजासे धननाश पावै ॥ ७९ ॥

धनेशस्थनवांशस्य नाथो दुस्थोथ पापयुक् ॥ क्रूरांशकगतो  
वापि निर्धनोयं भवेन्नरः ॥ ८० ॥ धने क्रूरादिसंयुक्ते तदीशे पाप-  
संयुते ॥ तथैव लाभराशीशे धनहीनो भवेन्नरः ॥ ८१ ॥

धनेश जिस नवांशकर्म है उसका स्वामी दुष्ट स्थानमें तथा पापयुक्त होवै अथवा क्रूरांशकर्म होवै तो मनुष्य निर्द्धन होवै ॥ ८० ॥ धन स्थानमें क्रूरग्रह धनेश पापयुक्त होवै ऐसा ही लाभेशभी पापयुक्त होवै तो नर धनहीन रहे ॥ ८१ ॥

व्ययेशसंयुक्तनवांशनाथो युक्तो धनेशेन निरीक्षितो वा ॥ नीचा-  
र्कगो हीनबलः सपापः केंद्रस्थितश्चेदपि निर्द्धनः स्यात् ॥ ८२ ॥

व्ययभावेश जिस नवांशकर्म हो उसका स्वामी धन भावेशसे युक्त, अथवा दृष्ट हो, नीच अथवा अस्तंगत हो, बलहीन, पापयुक्त तथा केंद्रमें होवै तो मनुष्य धनहीन होवै ॥ ८२ ॥

धनेशाश्रितराशीशसंयुक्तांशपतिर्यदि ॥ कालदण्डाद्यंशयुक्ते नि-  
र्धनोयं भवेन्नरः ॥ ८३ ॥ यत्किञ्चिद्धनसंयुक्तो धनेशे केंद्रको-  
णगे ॥ क्रूरपष्टचंशसंयुक्ते नीचस्थेर्कयुतेपिवा ॥ ८४ ॥ यत्किञ्चि-

चिद्विक्तमायाति लाभेशस्थांशराशिपे ॥ गुरुणा भृगुणा दृष्टे क्रूर-  
षष्ट्यंशसंयुते ॥ ८६ ॥

धनेश जिस राशिमें है उसके स्वामीके स्थित नवांशका स्वामी यदि कालदंडादि अंशक युक्त होवै तो यह मनुष्य निर्धन होवै ॥ ८३ ॥ -धनेश केंद्र वा त्रिकोणमें क्रूरषष्ट्यंशयुक्त होवै तथा नीच राशिमें अथवा अस्तंगत होवै तो थोड़े धनसे युक्त रहे ॥ ८४ ॥ लाभेश जिस नवांशकमें है उसका स्वामी बृहस्पति शुक्रसे दृष्ट होवै और क्रूरषष्ट्यंशमें होवै तो थोड़ा धनलाभ होवै ॥ ८५ ॥

लाभलग्नधनेशानां युक्तांशाः क्रूरसंज्ञकाः ॥ केंद्रत्रिकोणयुक्ता-  
नासुत्पन्नो धनिको भवेत् ॥ ८६ ॥ वैशेषिकांशे धनपे स्वोच्चमू-  
लत्रिकोणगे ॥ क्रूरषष्ट्यंशसंयुक्ते लाभेशे सर्वनाशभाक् ॥ ८७ ॥  
उत्पन्नो धनिको लग्ने नाशे वैशेषिकांशके ॥ धनेशे क्रूरषष्ट्यंशे  
चोक्तौ केंद्रगतौ तथा ॥ ८८ ॥ सद्यो धनी धनेशेन कर्मनाथो यतो  
यदि ॥ कर्मेशस्थांशपतिना लाभनाथस्तथा विदुः ॥ ८९ ॥

लाभ, लग्न, धन भावोंके स्वामी जिन २ नवांशकमें होवें क्रूरसंज्ञक होवें परंतु वे ग्रह केंद्र कोणमें होवें तो मनुष्य धनवान् होवै ॥ ८६ ॥ धनेश वैशेषिकांशमें अपने उच्च वा मूल-त्रिकोणका हो तथा लाभेश क्रूरषष्ट्यंशमें होवै तो सर्वनाश होवै ॥ ८७ ॥ लग्नमें विनाश वा वैशेषिकांश होवै धनेश क्रूरषष्ट्यंशमें होवै ये दोनों केंद्रमें होवै तो मनुष्य धनवान् होवै ॥ ८८ ॥ धनेशसे दशमेश युक्त होवै तथा दशमेशस्थित नवांशसे लाभेश युक्त होवै तो तत्काल धनी होवै यह दो योग हैं ॥ ८९ ॥

लग्नेशे धनराशिस्थे लाभेशे कर्मसंयुते ॥ धनेशस्यांशपे सौम्ये  
धनिको नामतो भवेत् ॥ ९० ॥ सहस्रनिष्कभर्ता स्याद्विधेशस्थ-  
नवांशपे ॥ धनेशस्यांशपे सौम्ये गुरुणा वा निरीक्षिते ॥ ९१ ॥  
लग्नेशे धनराशिस्थे लाभेशे कर्मसंयुते ॥ लाभाधिपेन संदृष्टे  
गुरुणा वा निरीक्षिते ॥ ९२ ॥ सहस्रनिष्कभर्ता स्याद्विधेशस्थ-  
नवांशपे ॥ गोपुरांशगते कर्मनाथेन सति वीक्षिते ॥ ९३ ॥

लग्नेश दूसरे, लाभेश दशममें होवै और धनेश शुभग्रहके अंशकमें होवै तो नाम उसका सेट होवै धन पास न रहे ॥ ९० ॥ लग्नेश तथा धनेश शुभग्रहोंके अंशकमें होवै अथवा बृहस्पति उनको देखे तो एक हजार रुपयाका स्वामी होवै ॥ ९१ ॥ लग्नेश दूसरे

लाभेश दशमें होवै तथा लग्नेशको लाभेश यदा बृहस्पति देखे तो एक हजारका स्वामी होवै तथा जिस नवांशकमें लग्नेश है उसका स्वामी गोपुरांशकमें हो उसे दशमेश देखे तो भी वही फल होगा ॥ ९२ ॥ ९३ ॥

कर्मेशसंयुक्तनवांशनाथसंयुक्तसप्तांशपतौ बलाढये ॥ शुक्रेण देवेन्द्रपुरोहितेन दृष्टे सहस्रद्रयनिष्कभर्ता ॥ ९४ ॥ सौम्यपष्टयं-शसंयुक्ते धनलाभे बलान्विते ॥ तदीशेपि तथा युक्ते सहस्रत्रय-निष्कयुक् ॥ ९५ ॥ वैशेषिकांशगे वित्तनाथे गुर्विदुभास्करे ॥ तथा विधो भवेशोपि बलवाँश्चेत्तथा धनी ॥ ९६ ॥ धनेशस्थदृ-काणेशसंयुक्तनवभागपः ॥ सर्वोत्तमवलोपेतस्त्वष्टसाहस्रनिष्क-युक् ॥ ९७ ॥

दशमेश जिस ग्रहके नवांशकमें है वह भी जिस ग्रहके सप्तांशकमें है वह बलवान् होवै शुक्रसे बृहस्पतिसे दृष्ट होवै तो दो हजारका स्वामी होवै ॥ ९४ ॥ वही उक्त ग्रह सौम्य पष्टयंगमें २ । ११ भावमें हो बलवान् होवै जिसके राशिमें बैठाहै वहभी सौम्यपष्टयंगयुक्त होवै तो तीन हजारका स्वामी होवै ॥ ९५ ॥ धनेश, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्यमेसे कोई वैशेषिकांशकमें हो ऐसाही लाभेशभी बलवान् होवै तो वैसाही धनवान् होवै ॥ ९६ ॥ धन-भावेश जिस द्रेष्काणमें हो उसका स्वामी नवांशक सहित तथा समस्त उत्तम बलयुक्त होवै तो आठ हजार मुद्राका स्वामी होवै ॥ ९७ ॥

लग्नेशस्थदृकाणेशसंयुक्तमुनिभागपः ॥ वैशेषिकांशकगतस्त्वयुतं धनमाप्नुयात् ॥ ९८ ॥ व्यये शुक्रे धने जीवे स्वांशे वैशेषिकां-शके ॥ लग्नेशोपि तथा युक्ते तदूर्ध्वमुपयाति सः ॥ ९९ ॥

लग्नेश जिसके द्रेष्काणमें हो उसके साथ सप्तांशक हो और वैशेषिकांशकमें होवे तो दशहजार धन पवि ॥ ९८ ॥ बारहवां शुक्र दूसरा बृहस्पति अपने वा वैशेषिकांशकमें हो लग्नेशभी ऐसाही होवै तो उससेभी अधिक धन पवि ॥ ९९ ॥

गुरौ लग्नेशसंयुक्ते धने वैशेषिकांशके ॥ केन्द्रत्रिकोणगे वापि तदूर्ध्वं वित्तमश्नुते ॥ १०० ॥ कर्मेशस्थदृकाणस्य नाथसंयुक्तस-प्तपः ॥ ऐरावतांशसंयुक्तो धनलक्षं समश्नुते ॥ १०१ ॥ लक्ष-द्वयं धनं याति चतुर्केद्रे शुभान्विते ॥ सिंहासने धनेशोपि सति पारावतांशके ॥ १०२ ॥

बृहस्पति लग्नेशसे युक्त धन भावमें वैशेषिकांशकगत होवै अथवा केन्द्र त्रिकोणमे होवै तो दश हजारसे भी अधिक धन पावै ॥ १०० ॥ समांशेश दशमेगगतद्रेष्णापेशके साथ होवै तथा ऐरावतांशयुक्त होवै तो एक लक्ष धन भोगता है ॥ १०१ ॥ जिसके चारों केन्द्रोंमें शुभ ग्रह होवै धनेश सिंहासनांशमें वा पारावतांशमें होवै तो दो लक्ष धन पावै ॥ १०२ ॥

लक्षत्रयाधिकारी स्याल्लाभलग्नधनाधिपे ॥ वैशेषिकांशकगते  
मृदंशाद्वियुतेथ वा ॥ १०३ ॥ तदूर्ध्वं वित्तपः स्यात्तु धनलाभ-  
पती यदा ॥ वृद्धिकेंद्रगतौ तौ चेद्बलिनी भाग्यपस्तथा ॥ १०४ ॥  
केंद्रत्रिकोणभे वीर्यस्त्वथ वा भवनाथयुक् ॥ वैशेषिकांशगश्चेत्तु  
धनलक्षं समश्नुते ॥ १०५ ॥

लाभेश लग्नेश धनेशसे कोही वैशेषिकांशमें अथवा मृदंगकमें होवै तो तीन लक्षका स्वामी होवै ॥ १०३ ॥ यदि धनेश लाभेश उदयी यद्वा आरोही हों केन्द्रमें हों बलवान् होवै तो लक्षसे ऊपर धन पावै, ऐसेही भाग्येश हो तो वही फल जानना ॥ १०४ ॥ भाग्येश केन्द्र त्रिकोणमें बलसहित होवै अथवा लाभेश युक्त होवै और वैशेषिकांशमें होवै तो एक लक्ष पावै ॥ १०५ ॥

लग्नांशनाथभाग्येशाः परमोच्चांशसंयुताः ॥ वैशेषिकांशे लाभेश  
तदा कोटीश्वरो भवेत् ॥ १०६ ॥ ऋणप्रदो विलग्नेशसंयुक्तनव-  
भागपः ॥ दृष्टो देवेन्द्रगुरुणा मृदंशादिसमन्वितः ॥ १०७ ॥ वित्त-  
लाभसंयुक्तस्त्वयंशकेशनवांशपः ॥ वैशेषिकः केन्द्रकोणे ऋणदाता  
भवेन्नरः ॥ १०८ ॥

लग्नका अंशेश तथा नवमेश परम उच्चांशकमें होवै और लाभेश वैशेषिकांशकमें होवै तो एक करोड़ धनका स्वामी होवै ॥ १०६ ॥ जिसके नवांशकमें लग्नेश है उसे बृहस्पति देखें तथा मृदंशा आदि शुभांशकमें होवै तो ऋण देनेवाला (साहूकार) होवै ॥ १०७ ॥ धनेश लाभेश जिस द्रेष्णाणमें हों उनके स्वामी जिस २ नवांशकमें हों उस २ के स्वामी वैशेषिकांशमें केन्द्रगत होवै तो ऋणदाता होवै ॥ १०८ ॥

ऋणग्रस्तो धने पापे लग्नेशे व्ययसंयुते ॥ कर्मेशे लाभनाथेन  
युते दृष्टे विशेषतः ॥ १०९ ॥ दिनेशकरलुप्तस्तु धनेशो नीचरा-  
शिगः ॥ पापान्विते धने रंभे ऋणग्रस्तो भवेन्नरः ॥ ११० ॥

धन स्थानमें पापग्रह हो लग्नेश बारहवां हो विगेष करके नवेश लाभेशसे दृष्ट वा युक्त होवै तो मनुष्य ऋण ( कर्जा ) से ग्रस्त रहे ॥ १०९ ॥ धनेश अस्तंगत नीचराशिगत होवै धनाष्टम भाव पापयुक्त होवै तो मनुष्य ऋणग्रस्त रहे ॥ ११० ॥

धनेशे नीचराशिस्थे क्रूरषष्ठ्यंशसंयुते ॥ लाभेशेपि तथा युक्ते  
ऋणग्रस्तो भवेन्नरः ॥ १११ ॥ लाभेशस्थितभांशेशनाथे दुःस्थे  
शुभान्विते ॥ क्रूरषष्ठ्यंशसंयुक्ते ऋणग्रस्तो भवेन्नरः ॥ ११२ ॥

धनेश नीचराशिमें क्रूरषष्ठ्यंशयुक्त होवै, लाभेश भी ऐसाही होवै तो मनुष्य ऋणसे दवारहे ॥ १११ ॥ लाभेश जिसकी राशि नवांशकमें है उसका स्वामी दुष्टभावमें पापयुक्त होवै तथा क्रूर षष्ठ्यंशमें होवै तो मनुष्य ऋणग्रस्त होवै ॥ ११२ ॥

वाक्स्थानपे षष्ठ्यगते सराहौ राहुस्थितर्क्षाधिपसंयुते वा ॥ दंतस्य  
रोगं पतनं च तेषां भुक्तौ तयोर्वा प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ ११३ ॥  
वाक्स्थानपेनापि युतोरिनाथस्तद्भावपस्थांशपयुक्तनाथः ॥ षष्ठे-  
श्वरेणापियुतः स्वभुक्तौ दंतादिरोगः पतनं च तेषाम् ॥ ११४ ॥

द्वितीयेश राहुयुक्त छठे भावमें हो अथवा राहु जिस राशिमें है उसके स्वामीसे युक्त होवै तो उनकी दशा अंतर्दशामें दांतोंका रोग होवै और दांत गिरजावे ऐसा फल ज्योतिषज्ञ कहते हैं ॥ ११३ ॥ षष्ठेश द्वितीयेशसे युक्त होवै तथा जिस भावमें है उसका स्वामी जिसके नवांशकमें है वह षष्ठेशसे युक्त होवै तो दंतादिरोग होवै तथा दांत गिरजावै ये फल उक्त योग कर्त्ताओंके दशादिमें होते हैं ॥ ११४ ॥

वाक्स्थानपेनापि युतोर्कपुत्रः पापैर्युतो वातभयात्प्रमादः ॥  
सूर्यस्तु कोपाद्भवति प्रमादो राज्ञां कुजे चोष्णभयात्प्रमादः ११५ ॥

शनिेश्वर द्वितीयेशसे तथा पापग्रहोंसे युक्त होवै तो वातरोगसे प्रमाद अनवधानता एक प्रकार उन्मत्तता होवै, ऐसा सूर्य होवै तो राजाके कोपसे, मंगल होवै तो गर्मियोंके भयसे प्रमाद होवै ॥ ११५ ॥

तदीश्वरेणापि युतेंदुपुत्रे सराहुकेतावारिभावयुक्ते ॥ राहुस्थितर्क्षा-  
धिपसंयुते वा भुक्तौ तदा तालुभवः स रोगः ॥ ११६ ॥

द्वितीयेशसे युक्त बुध राहु वा केतु सहित छठे भावमें होवै अथवा जिस राशिमें राहु है उसके स्वामीसे युक्त होवै तो तालुस्थानमें रोग द्वितीयेशकी दशामें होवै ॥ ११६ ॥

राजारिनाथौ तनुभावयुक्तौ साच्छाक्षिपौ भूमिपतेः प्रकोपात् ॥  
उत्पाटनं नेत्रमुशंति तज्ज्ञा नीचांशगौ पापयुतौ तथैव ॥ ११७ ॥

राजारिनाथ और तनुभावयुक्त साच्छाक्षिपू भूमिपतेः प्रकोपात् ॥ उत्पाटनं नेत्रमुशंति तज्ज्ञा नीचांशगौ पापयुतौ तथैव ॥ ११७ ॥

राजारिनाथस्थितभांशकेशौ दुःस्थौ विलग्नशयुतौ तथैव ॥  
साच्छाक्षिपौ नाशगतौ तथैव शुभैर्न दृष्टौ नयनप्रमादः ॥११८॥

दशम तथा छठे भावके स्वामी लग्नमें शुक्र और धन व्ययेशसे युक्त होवै तो राजाके कोपसे नेत्र उखाड़े जावैं ऐसा ज्योतिषज्ञ कहते हैं वही १०।६ भावोंके स्वामी नीवांशक स्थित तथा पापयुत हों तो भी वही फल जानना ॥ ११७ ॥ दशमारिभावेश निन ग्रहोंके नवांशकमें होवैं यदि दुष्ट स्थानोंमें होवैं तथा लग्नेशसे युक्त होवैं तथा शुक्र और २।१२ भावेशसे युक्त होकर द्वादश स्थानमें होवैं, शुभ ग्रह उन्हें न देखें तो नेत्र अनवधान रहें ११८

तद्भावपाभ्यामथ कारकाभ्यां पित्रादिकानां फलमेवमाहुः ॥

॥ ११९ ॥ कर्णस्य विच्छेदनमाहुरार्याः सौरे सभौमे धनपे विलग्नै ॥ रोगाधिपे वित्तपतौ विलग्नै नाशस्थिते मंदसुतारयुक्ते ॥

॥१२०॥पित्रादिकानां फलमेवमूह्यं तत्स्थाननाथग्रहकारकेभ्यः ॥

भुक्तीश्वरे ह्यच्छनिशाकराभ्यां केंद्रे युते राजतमत्र पात्रम् ॥१२१॥

जैसा विचार उक्त २ भावोंका कहा बैसाही पिता, भ्राता, पुत्र, स्त्री आदि भावेशोंसे भी विचार करना जिस भावमें उक्त योग मिले उसीको अर्थात् पित्रादिको धनलाभ, कृणी, दंतरोष्मशिना रोग आदि कहना ॥ १९ ॥ शनैश्वर मंगल सहित होवै धनेश लग्नमें होवै तथा षष्ठेश और धनेश लग्नमें, शनि मंगल द्वादश भावमें होवै तो कान कटे वा फूट जावैं. ये दो योग हैं ॥ १२० ॥ ऐसेही विचार पित्रादि भावोंका भी करना उन भावेश एवं उन उन भावों के कारक ग्रहोंके साथ उक्त योग होनेमें पित्रादियोंका कर्णविच्छेद फल कहना अब पात्र कहते हैं धनेश शुक्र चंद्रमा युक्त केंद्रमें होवै तो चांदीके पात्र उसके घरमें होवै ॥ १२१ ॥

सचंद्रपुत्रामरनाथपूज्ये केंद्रस्थिते स्वर्णमयं हि पात्रम् ॥ तदीश्वरे

कोणचतुष्टये वा वैशेषिकांशे यदि तादृशं तत् ॥ १२२ ॥ मृद्वं-

शके वा परमोच्चभांशे स्थिते तदीशे यदि तादृशं तत् ॥ स्वांशा-

दिकानां परमोच्चराशौ शशांकजीवाच्छविदां यदंशे ॥ १२३ ॥

वीर्यान्वितो भुक्तिपतिस्तदंशे भुक्तेस्तु पात्रं सदृशं हिरण्यम् ॥१२४॥

बुध सहित बृहस्पति केंद्रमें होवै तो स्वर्णपात्र होवैं, धनेश त्रिकोण केंद्रमें अथवा वैशेषिकांशकमें होवै तो सुवर्णपात्र होवैं ॥ १२२ ॥ ऐसेही धनेश मृद्वंशकमें अथवा परमोच्च



राश्यंशकमें होवै तो वैसाही फल होगा । अपने अंशोंमें यद्रा परमोच्च राद्यंशकमें चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुधके जिन अंशोंमें बलवान् धनेश होवै, उसके अनुसार सुवर्णादि पात्र होंगे ऐसा कहना ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

मृदंशके भुक्तिपतौ विशेषात्पारावतादौ बलपूर्णयुक्ते ॥ केन्द्र-  
स्थिते मित्रशुभेक्षिते स्याच्छंसंति पात्रं बहु भुक्तिकाले ॥ १२५ ॥  
विचित्रपात्रं प्रवदंति तज्ज्ञा भुक्तीश्वरे केंद्रगते बलाढ्ये ॥ शुक्रा-  
मरेज्येंदुसुता बलाढ्यास्तैरेव युक्तेत्र विशेषितांशे ॥ १२६ ॥

भुक्तीश्वर मृदंशकमें विशेषतः पारावतादि अंशकमें पूर्ण बलयुक्त होवै, केन्द्रमें हो, मित्र एतं शुभग्रहोंसे दृष्ट होवैं तो भोजन कालमें बहुत पात्र होवै ॥ १२५ ॥ भुक्तीश्वर केंद्रमें बलवान् हो तथा शुक्र बृहस्पति बुध बलवान् होवैं इनसे भुक्तीश युक्त होवै वैशेषिकांशमें होवै तो ज्योतिषज्ञ भोजनकालमें अनेक प्रकारके पात्र होवैं ऐसा कइते है ॥ १२६ ॥

लग्नेश्वरेण सहितौ यदि भुक्तिनाथौ पृष्ठस्थितौ यदि तदा प्रवदंति  
लौहम् ॥ पात्रं तदीश्वरयुतौ यदि वा विनाशस्थानर्क्षगौ सुदृढ-  
मत्र सुलोहपात्रम् ॥ <sup>हस्तके</sup> कांस्यं वदंति किल भुक्तिपतौ  
बलाढ्ये वैशेषिकांशसंस्थिते यदि सौम्यदृष्टे ॥ भुक्तीश्वरस्थितन-  
वांशपतिर्यदंशे तद्राशिपः शुभयुताति तथवमाहुः ॥ १२७ ॥

दशांशदशांतरेश यदि लग्नेशसहित छटे भावमें होवैं तो लोहेके पात्र मिलें यदि वह तीनों पृष्ठेश सहित द्वादश स्थानमें होवै तो वही लोहपात्र दृढ और सुंदर मिले ॥ १२७ ॥ दशेश बलवान् होवै वैशेषिकांशकमें शुभग्रह दृष्ट होवै तो कांशीके पात्र विशेष होवै, जिसके नवांशकमें दशेश बैठता है वह जिसके अंशके नवांशकमें है वह शुभ ग्रहयुक्त हो तोभी वही फल कहते हैं ॥ १२८ ॥

पापग्रहेण सहिते यदि भुक्तिराशौ तद्राशिनाथयुतभागपतौ तदंशे ॥  
तद्राशिपे गतवले च शुभैरदृष्टे भुक्तौ कृतौ समदृढं कथयंति  
तज्ज्ञाः ॥ १२९ ॥

भुक्तिराशि ( धनस्थानराशि ) पापग्रहसहित होवै उसके स्वामीसे युक्त जो नवांश है उसका स्वामी भुक्तिराशीके अंशमें होवै, भुक्तिराशीश हीनबल शुभग्रहोंसे अदृष्ट होवै तो भोजन समयमें, अदृष्ट ( कच्चे ) पात्र होवैं ॥ १२९ ॥

धातुद्रययुतं पात्रं भुक्तयंशे नाथराशिगे ॥ पापग्रहेण संदृष्टे काल-  
के बलवर्जिते ॥ १३० ॥

राजारिनाथस्थितभांशकेशौ दुःस्थौ विलग्नेशयुतौ तथैव ॥

साच्छाक्षिपौ नाशगतौ तथैव शुभैर्न दृष्टौ नयनप्रमादः ॥११८॥

दशम तथा छठे भावके स्वामी लग्नमें शुक्र और धन व्ययेशसे युक्त होवै तो राजाके कोपसे नेत्र उखाड़े जावै ऐसा ज्योतिषज्ञ कहते हैं वही १०।६ भावके स्वामी नीचांशक स्थित तथा पापयुत हों तो भी वही फल जानना ॥ ११७ ॥ दशमादिभावेश जिन ग्रहके नवाशक्तोंमें होवै यदि दुष्ट स्थानोंमें होवै तथा लग्नेशसे युक्त होवै तथा शुक्र और २।१२ भावेशोमें युक्त होकर द्वादश स्थानमें होवै, शुभ ग्रह उन्हें न देखें तो नेत्र अनवधान रहै ११८

तद्भावपाभ्यामथ कारकाभ्यां पित्रादिकानां फलमेवमाहुः ॥

॥ ११९ ॥ कर्णस्य विच्छेदनमाहुरार्याः सौरे समौमे धनपे

विलग्ने ॥ रोगाधिपे वित्तपतौ विलग्ने नाशस्थिते मंदसुतारयुक्ते ॥

॥१२०॥पित्रादिकानां फलमेवमूह्यं तत्स्थाननाथग्रहकारकेभ्यः ॥

भुक्तीश्वरे ह्यच्छनिशाकराभ्यांकेन्द्रे धुते राजतमत्र पात्रम् ॥१२१॥

जैसा विचार उक्त २ अर्थाका कहा बैसाही पिता, माता, पुत्र, स्त्री आदि भावेशोंसे भी विचार करना जिस तन्त्रमें उक्त योग मिले उसीको अर्थात् पित्रादिको धनलाभ, ऋणी, दुर्तरो, मुर्खा, शिथिलवान् होवै कारकांश वा विशेषांशमें हंगल सहित होवै धनेश लग्नमें भोजन करे ॥ १३४ ॥

कालोचिताशनी भुक्तिनाथे देहेशवाक्षिते ॥ पापग्रहेण वा दृष्टे

नीचांशादियुते न तु ॥ १३५ ॥ अन्नप्रदो द्वितीयेशे गुरुसौम्य-

युतेक्षिते ॥ वैशेषिकांशकयुते मृदंशादियुतेपि वा ॥ १३६ ॥

गुरुशुक्रयुते भुक्तौ नाथे सौम्यनिरीक्षिते ॥ वैशेषिकांशकयुते

अन्नदाता नरो भवेत् ॥ १३७ ॥ भुक्तिराशिपतौ वीर्ये केन्द्रे तूप-

चयेपि वा ॥ बलयुक्तैः शुभैर्दृष्टे त्वन्नदाता भवेन्नरः ॥ १३८ ॥

सौम्ये स्वोच्चगते भुक्तौ मित्रसौम्यनिरीक्षिते ॥ नाथे वैशेषिकांशे-

वा सुखभुक्तिप्रदो भवेत् ॥ १३९ ॥

भुक्तीश्वर लग्नेशकी दृष्टि होवै तो जिस समयमें जो उचित है वही भोजन करे, अथवा पापग्रहसे दृष्ट नीचांशादियुक्त होवै तो वह फल विपरीत जानना ॥ १३५ ॥ द्वितीय भाव भावांश गुरुधने युक्त वा दृष्ट होवै वैशेषिकांश अथवा मृदशादि युक्त होवै तो मनुष्य अन्न

राश्यंशकमे होवै तो वैसाही फल होगा । अपने अंशमें यदा परमोच्च राश्यंशकोंमें चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुधके जिन अंशोंमें बलवान् धनेश होवै, उसके अनुसार सुवर्णादि पात्र होंगे ऐसा कहना ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

मृदंशके भुक्तिपतौ विशेषात्पारावतादौ बलपूर्णयुक्ते ॥ केन्द्र-  
स्थिते मित्रशुभेक्षिते स्याच्छंसंति पात्रं बहु भुक्तिकाले ॥ १२५ ॥  
विचित्रपात्रं प्रवदंति तज्ज्ञा भुक्तीश्वरे केंद्रगते बलाढ्ये ॥ शुक्रा-  
मरेज्येदुसुता बलाढ्यास्तैरेव युक्तेत्र विशेषितांशे ॥ १२६ ॥

भुक्तीश्वर मृदंशकमे विशेषतः पारावतादि अंशोंमें पूर्ण बलयुक्त होवै, केन्द्रमें हो, मित्र एवं शुभग्रहोंसे दृष्ट होवै तो भोजन कालमें बहुत पात्र होवै ॥ १२५ ॥ भुक्तीश्वर केंद्रमें बलवान् हो तदा शुक्र बृहस्पति बुध बलवान् होवै इनसे भुक्तीश्वर युक्त होवै वैशेषिकांशमे होवै तो ज्योतिषज्ञ भोजनकालमें अनेक प्रकारके पात्र होवै ऐसा कहते हैं ॥ १२६ ॥

लग्नेश्वरेण सहितौ यदि भुक्तिनाथौ पृथस्थितौ यदि तदा प्रवदंति  
लौहम् ॥ पात्रं तदीश्वरयुतौ यदि वा विनाशस्थानक्षंगौ सुदृढ-  
मत्र सुलोहपात्रम् ॥ १२७ ॥ कांस्यं वदंति किल भुक्तिपतौ  
बलाढ्ये वैशेषिकांशस्ये यदि सौम्यदृष्टे ॥ भुक्तीश्वरस्थितन-  
वांशपतिर्यदंशे तद्गुणान्यारगुलिकान्वेत ॥ १२८ ॥

राशिं शुभदृष्टिविवर्जिते ॥ १२३ ॥ तदीशे शुभसंयुक्ते शीघ्र-  
भुग्बलसंयुते ॥ द्वितीये शुभराशौ वा शुभखेचरसंयुते ॥ १२४ ॥  
तदीशे चरराशौ वा भुक्तौ वा तादृशे ग्रहे ॥ तादृशे पापसंबंधे  
चिरभोक्ता तु दूपकः ॥ १२५ ॥

भुक्तिभावेश शनि मंगल वा गुलिकसे युक्त, नीच, शत्रु और यमांजादिमें हो शुभग्रह उसे न देखें तो कुभोजन करनेवाला होवै ॥ १२३ ॥ भुक्तीश्वर शुभग्रहसे युक्त बलवान् होवै तो शीघ्र भोजन करनेवाला होवै, दूसरे भावमें शुभग्रहकी राशि शुभ ग्रहयुक्त होवै तो भी शीघ्र भोजन करे ॥ १२४ ॥ भुक्तीश्वर चर राशिमें अथवा चरग्रह भुक्तिस्थानमें होवै उसी प्रकार जैसा पहिले शुभग्रह संबंध कहा है वैसा पाप ग्रह संबंध होवै तो बड़ी देरीतक भोजन करे और भोजनमें दूपणभी लगावै ॥ १२५ ॥

विलग्नसप्ताष्टमवित्तराशौ दिनेशयुक्ते क्षितिसूनुदृष्टे ॥ भौमेथ वा  
वासरनाथदृष्टे स्फोटाग्निभीतिं प्रवेदेत्त्वलाद्रा ॥ १२६ ॥ लग्नां-

भुक्ति स्थानमें जो अंश है वही भुक्त्यंश राशि होवै अर्थात् भुक्त्यंश वर्गोत्तमांशमें होवै उसे पाप ग्रह देखे कालसंज्ञक अंशमें. तथा बलरहित होवै तो दो धातुके पात्र होवें ॥ १३० ॥

बह्वाशनं भुक्तिपतौ सपापे दावाग्निदंडायुधकालभागे ॥ नीचांशके पापनिरीक्षिते वा शुभैर्न दोषः सहितेक्षणाभ्याम् ॥ १३१ ॥

भुक्तिपति पापयुक्त दण्डायुध वा दावाग्नि अथवा कालसंज्ञकमें होवै तो बहुत भोजन करे अथवा नीचांशकमें पापदृष्ट होवै तो भी वही फल होगा शुभग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त यह योग होवै तो वह बह्वाशी फल नहीं होगा ॥ १३१ ॥

भुक्तिस्थाने शुभयुते तदीशे शुभसंयुते ॥ शुभग्रहेण संदृष्टे सुखभुक्स नरो भवेत् ॥ १३२ ॥ भुक्तिसौख्ययुतः श्रीमांस्तदीशे बलसंयुते ॥ विशेषितांशके वापि गुरुशुक्रनिरीक्षिते ॥ १३३ ॥

भुक्तौ स्वोच्चे त्रिकोणे वा तदीशेपि बलान्विते ॥ कारकेपि विशेषांशे शुभदृष्टे सुखाशानी ॥ १३४ ॥

भुक्तिस्थानमें शुभग्रह भुक्तीश शुभग्रहोंसे युक्त भुक्ति मर्त्यः ॥ १४९ ॥

करनेवाला होवै ॥ १३३ ॥ अथवा अष्टम स्थानमें होवै धनभावेश मंगलसे युक्त वा दृष्ट होवै तो दृष्ट होवै तो समरोग निश्चय होता है ऐसा ज्योतिषज्ञ कहते हैं ॥ १४८ ॥ धन स्थानमें पापदृष्ट स्थानमें पापयुक्त भी होवै तो कुत्तेसे भय होवै, द्वितीयेशके साथ शनि होवै अथवा धनेशको शनि देखे तो मनुष्यको कुत्तेके काटनेका भय होवै ॥ १४९ ॥

राहौ द्वितीये गुलिकेन दृष्टे युक्तेथ वा सर्पभयं वदन्ति ॥ कदन्नभुग्भूमिसुतेन युक्ते पित्रादिकानां फलमेवमाहुः ॥ १५० ॥ लग्नेश्वरे शोभनखेचरेन्द्रे निध्यादिलाभं धनभावयुक्ते ॥ सौम्ये द्वितीये यदि सत्त्वहीने पापेक्षिते वाक्चलनं तदाहुः ॥ १५१ ॥

धन स्थानमें राहु गुलिकसे दृष्ट वा युक्त होवै तो सर्पकी भय कहते हैं वही राहु मंगलसे युक्त होवै तो कदन्न (कोदो वानरा आदि) खानेवाला होवै पित्रादिभावोंमें ऐसा योग होवै तो उनको भी वही फल कहते हैं ॥ १५० ॥ लग्नेश शुभग्रह धनभावमें होवै तो निधि (उत्तम वस्तु) आदिका लाभ होता है, यदि बुध धनस्थानमें निर्बल तथा पापदृष्ट होवै तो चंचल बोलना (हेकलाआदि) होवै ॥ १५१ ॥

वाक्स्थानपेद्रौ यदि सत्त्वहीनौ क्रूरांशगौ वाक्पवनादितः स्यात् ॥ वाक्स्थानपे धीरतया विहीने पापेक्षिते वाक्चलनं

दाता होवै ॥ १३६ ॥ भुक्ति स्थानमें गुरु शुक्र होवें भावका स्वामी शुभ ग्रहोंसे दृष्ट होवै, वैशेषिकांशमें होवै तो मनुष्य अन्नदाता होवै ॥ १३७ ॥ भुक्ति राशिका स्वामी बलवान् होवै, केंद्र वा उपचयमे होवै, बलवान् शुभग्रहोंसे दृष्ट होवै तो मनुष्य अन्न देनेवाला होवै ॥ १३८ ॥ उच्चका बुध धनभावमें मित्र एवं शुभ ग्रहोंसे दृष्ट होवै अथवा भावेश वैशेषिकांशमें होवै तो सुखपूर्वक भोजन देनेवाला होवै ॥ १३९ ॥

अल्पाशी रुचिकामः स्याद्भुक्तिनाथे शुभग्रहे ॥ स्वोच्चे वा शुभ-  
संहष्टे मृदंशादिसमन्विते ॥ १४० ॥ परान्नभुक्तदीशे तु क्रूरपष्ट्यं-  
शसंयुते ॥ नीचखेचरसंहष्टे तद्दूषणपरो नरः ॥ १४१ ॥ भुक्ति-  
स्थानाधिपे मंदे तदीशे मन्दसंयुते ॥ नीचेर्कसूनुना दृष्टे श्राद्ध-  
भुक्सततं नरः ॥ १४२ ॥

भुक्तिभावका स्वामी शुभग्रह उच्चका वा शुभग्रहोंसे दृष्ट और मृदंशादि युक्त होवै  
दृष्टानकूल पदार्थोंका कर ॥ १४० ॥ द्वितीयेश क्रूरपष्ट्यंशमें  
तृतीयाऽध्यायः चिन्तितग्रहसे दृष्ट होवै तो भोजनके दूषणोंमें  
इस प्रकारके योग मित्र आदि भावेशोंसे मित्रादिधा-  
बलाबलके अनुसार कहना ॥ १५४ ॥ अव्ययके पुत्र वेकटेशने सर्वसाधारण  
अर्थको प्रकट करनेवाला धनभावफलाध्याय वर्णन किया ॥ १५५ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ महाधरकृताया माहीधरभाषायां धनभावफला-  
ध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ तृतीयचतुर्थभावफलविचाराध्यायः ।

सहजेन सहजविक्रमौषधसहायान्गलोरस्थानम् ॥  
विद्यादक्षिणकर्णं भक्ष्यविशोपांश्च मूलादीन् ॥ १ ॥

तीसरे भावसे भाई, पराक्रम, औषधि, सहाय, कंठ हृदय, स्थान, दाहिना कान, कद, मूल आदि खानेके पदार्थोंका विचार होता है, सोई आगे प्रत्येक योगवश कहते हैं ॥ १ ॥

नाशास्थितौ सोदरनाथभौमौ पापक्षितौ सोदरनाशमाहुः ॥ पाप-  
क्षगौ पापसमागमौ वा भातृन् समासाद्य विनाशहेतुः ॥ २ ॥

तृतीयेश और मंगळ पापदृष्ट बारहवें भावमें हों तो भाइयोंका नाश कहते हैं, अथवा वे दोनों पापग्रहराशिमें पापग्रहोंके साथ हों तो भाइयोंको पैदा करके उसके नाशका कारण होवै ॥ २ ॥

नीचर्शगौ सोदरकारकाख्यौ नीचांशगौ पापसमागमौ वा ॥ क्रूर-  
दिपष्ट्यंशयुतौ तदानीं भ्रातृन्समासाद्य विनाशमाहुः ॥ ३ ॥

तृतीयेश और भ्रातृकारक ग्रह नीच राशिमें नीचांशकमें अथवा पापयुक्त हों तथा क्रूर आदि षष्ट्यंशमें हों तो हुये भाइयोंका नाश कहते हैं ॥ ३ ॥

पापग्रहे सोदरभावयुक्ते सोत्थेथ वा पापनिरीक्षिते स्यात् ॥ तदी-  
श्वरे पापखगांतरस्थे सहोदराणां कथयन्ति नाशम् ॥ ४ ॥ पापां-  
तरे पापनिरीक्षिते वा पापान्विते नीचगृहान्विते वा ॥ तृतीयभावे  
शुभखेचरेंद्रैर्न वीक्षिते सोदरनाशमाहुः ॥ ५ ॥

पापग्रह तीसरे हों अथवा तृतीयभावको पापग्रह देखें उसका स्वामी पापग्रहोंके बीचमें होवै तो भाइयोंका नाश कहते हैं ॥ ४ ॥ तीसरा भाव पापग्रहोंके बीच पापदृष्ट वा पापयुक्त होवै शुभग्रहोंसे न देखा जावै तो भ्रातृनाश कहते हैं ॥ ५ ॥

भ्रातृस्थानाधिपस्यांशराशीशे नाशराशिगे ॥ नीचारातिगते मूढे  
त्वाहुः सोदरनाशनम् ॥ ६ ॥ शनिमांदिसमायुक्ते पापखे-  
चरवीक्षिते ॥ तदीशे नीचराशिस्थे सोदराणां विनाशनम् ॥ ७ ॥  
पापांतरे तदीशे तु कारके वा तथाविधे ॥ तथैव तद्भावनाथे  
सोदराणां विनाशनम् ॥ ८ ॥

भ्रातृस्थानेश जिस ग्रहके अंशकमें है वह बारहवें स्थानमें होवै नीचराशि शत्रुराशिमें हो अथवा अस्तंगत होवै तो भ्रातृनाश कहते हैं ॥ ६ ॥ शनि मांदिसमें पापग्रहसे दृष्ट होवै तृतीयेश नीच राशिमें होवै तो भाइयोंका विनाश होवै ॥ ७ ॥ तृतीयेश पापग्रहोंके बीच हो भ्रातृकारक ग्रहभी वैसाही होवै और जिस भावमें वह है उसका स्वामी भी वैसाही होवै तो भाइयोंका विनाश होवै ॥ ८ ॥

पापैर्हि वीक्षिते भावे भावेशे भावसंस्थिते ॥ क्रूरषष्ट्यंशके वापि  
सोदराणां विनाशनम् ॥ ९ ॥ भ्रातृस्थानाधिपस्थांशराशीशो  
यन्नवांशके ॥ तन्नाथे नीचमूढारिभावे सोदरनाशनम् ॥ १० ॥  
भ्रातृस्थानाधिपे दुःस्थे कारके वा तथाविधे ॥ पापेक्षिते पाप-

युते स्वोच्चे वा सोदरक्षयः ॥ ११ ॥ सोत्थेशयुक्तराश्यंशनाथे  
यत्र नवांशके ॥ तत्राथे नीचमृढारिभावे सोदरनाशनम् ॥ १२ ॥  
अतिक्रूरसमायुक्ते भावे वा कारकेपि वा ॥ तद्भावनायके वापि  
बाल्ये सोदरनाशनम् ॥ १३ ॥

तृतीयेश तृतीयमें पापदृष्ट होवै अथवा क्रूरषट्चंशमें होवै तो भाइयोंका नाश होवै ॥ ९ ॥  
जिसके नवांशकमें तृतीयेश है वह जिसके नवांशकमें हो वह नीच, शत्रु, अस्तंगत होवै तो  
भ्रातृनाश होवै ॥ १० ॥ तृतीयेश दुष्टस्थानमें अथवा कारक ग्रह दुष्टस्थानमें पापदृष्ट पाप-  
युक्त होवै तो अपने उच्चमें भी हो तो भी भ्रातृक्षय होवै ॥ ११ ॥ तृतीयेश जिसके नवां-  
शकमें है वहभी जिस ग्रहके अंशमें है, वह नीच, अस्तु, शत्रुराशिमें होवै तो भ्रातृनाश होवै  
॥ १२ ॥ तृतीय भाव वा तत्कारक अत्यंत क्रूर युक्त होवै तृतीयेश भी ऐसाही होवे तो बाल्या-  
वस्थामें भ्रातृनाश होवै ॥ १३ ॥

यकिंचित्क्रूरसंयोगे तन्नाशश्चिरकालतः ॥ बलहीनवशादेवं सोद-  
रक्षयचितनम् ॥ १४ ॥ भ्रातृस्थाने शुभैर्युक्तेशोभनग्रहवीक्षिते ॥  
भावनाथे बलाढ्ये तु भ्रातृलाभमुदीरयेत् ॥ १५ ॥ भ्रातृपे कारके  
वापि शुभयोगनिरीक्षिते ॥ भावे वा बलसंपूर्णे भ्रातृणां वर्धनं भ-  
वेत् ॥ १६ ॥ केंद्रत्रिकोणगे वापि स्वोच्चमित्रस्ववर्गगे ॥ नाथे  
वा कारके वापि भ्रातृलाभमुदीरयेत् ॥ १७ ॥

जो कुछ तीसरे भावसंबंधी क्रूरसंयोग है उसका नाश बहुत समयमें होताहै भाव भावेशके  
हीनबलके षशसे भाइयोंका क्षय विचारना ॥ १४ ॥ तृतीय भाव शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट होवै  
तृतीयेश बलवान् होवै तो भ्रातृलाभ कहना ॥ १५ ॥ तृतीयस्थान वा तद्भावकारक शुभग्रहोंसे  
युक्त दृष्ट होवै भावपूर्ण बली होवै तो भाइयोंकी वृद्धि होवै ॥ १६ ॥ तृतीयेश वा तद्भाव  
कारक केंद्र कोणमें वा उच्च मित्र अपने राश्यंशकादिमें होवै तो भ्रातृलाभ कहना ॥ १७ ॥

सौम्यग्रहान्विते वापि सौम्यानामंशके यदि ॥ नाथे वा कारके  
वापि भावे सोदरवर्द्धनम् ॥ १८ ॥

तृतीयेश शुभग्रहयुक्त शुभग्रहोंके अंशकमें होवै अथवा इस प्रकार कारक ग्रह होवै तो  
भ्रातृवृद्धि होवै ॥ १८ ॥

सोत्थेश्वरे गोपुरभागयुक्ते सिंहासने कारकखेचरेन्द्रे ॥ सौम्यग्रहे  
तद्भवनाधिपे स्याद्भ्रात्रादिलाभं कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ १९ ॥ पारा-

वतांशे यदि केंद्रराशौ भावेश्वरे शोभनखेटयुक्ते ॥ सौम्यांशके  
सौम्यग्रहे तदीशे सोत्थादिबाहुल्यमुदीरयन्ति ॥ २० ॥

तृतीयेश गोपुरांशमें सिंहासनांशमें कारक ग्रह और तृतीयेश शुभ ग्रह होवै तो ज्योति-  
षज्ञ भ्रात्रादिलाभ कहते हैं ॥ १९ ॥ तृतीयेश शुभ ग्रह युक्त हो, पारावतांशमें केंद्रस्थित  
हो जिस राक्षिमें तृतीयेश है उसका स्वामी शुभ राशि शुभांशकमें होवै तो भाई आदियोंकी  
बहुतायस कहते हैं ॥ २० ॥

भ्रातृभावे स्वतुंगे वा स्वर्क्षे मूलत्रिकोणगे ॥ बलाढ्ये भावनाथे  
तु सोदरोत्पत्तिमादिशेत् ॥ २१ ॥ मृदंशादिसमायुक्ते भाव-  
नाथे शुभैर्युते ॥ शुभेक्षिते वा भावेशे सोदरोत्पत्तिमादिशेत् ॥  
॥ २२ ॥ वैशेषिकांशे भावेशे ह्यथवा शुभवीक्षिते ॥ मृदंशादि-  
युते वापि भ्रातृवर्द्धनमेव तु ॥ २३ ॥ लग्ननाथस्तु सोत्थेशामित्र-  
श्चेन्मित्रता भवेत् ॥ भ्राता शत्रुर्भवेच्छत्रावेवं सर्वत्र युज्यते ॥ २४ ॥

तृतीयेश तीसरा वा उन्नमें वा मूलत्रिकोणमें बलवान् होवै तो उसके पीछे भाई होवै  
ऐसा कहना ॥ २१ ॥ तृतीयेश मृदंशादियुक्त शुभग्रहसे दृष्ट युक्त होवै तो वही फल कहना  
॥ २२ ॥ तृतीयेश वैशेषिकांशमें हो अथवा शुभदृष्ट वा मृदंशादिमें होवै तो भाइयोंकी  
वृद्धि होवै ॥ २३ ॥ लग्नेश तृतीयेशका मित्र होवै तो भाइयोंके साथ मित्रता रहे, शत्रु होवै  
तो शत्रुता रहे ऐसा विचार पित्रादि भावोंमें भी होता है ॥ २४ ॥

अयुग्मभांशे यदि कारकेशौ गुर्वर्कभूसूनुनिरीक्षितौ चेत् ॥ ओजे  
गृहे स्युर्यदि विक्रमाख्ये पुंभ्रातरस्तस्य वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २५ ॥  
युग्मांशके युग्मगृहे तदीशे भावे तथा कारकखेचरेन्द्रे ॥ सहो-  
दरीलाभमिहाहुरार्या नपुंसकांशे किल तत्तथैव ॥ २६ ॥

तृतीयेश तथा तृतीयभावकारक ग्रह गुरु, सूर्य, मंगलसे दृष्ट विषम राक्षिमें वा तृतीय  
भावमें होवै तो सहोदर पुरुष ( भाई ) होवै ऐसा ज्योतिषज्ञ कहते हैं ॥ २५ ॥ तृतीयेश  
तथा कारक ग्रह समराशि समांशकमें समभावमें होवै स्त्रीग्रह उ-हे देखै तो बहिन उत्पन्न  
होवै, तृतीयेश तथा कारक नपुंसकांशमें नपुंसक ग्रहोंसे युक्त दृष्ट होवै तो भाई नपुंसक  
पैदा होगा ॥ २६ ॥

भ्रातृराश्यंशकवशाद्भ्रातृसंख्यां विनिर्दिशेत् ॥ नाथकारकसंयु-  
क्तराश्यंशाद्वा भवेत् तथा ॥ २७ ॥ भ्रातृराशिसमायुक्तखेचरस्यां-



शकाद्भवेत् ॥ सोत्थेशयुक्तराश्यंशात्कारकान्वितभावतः ॥२८॥  
तयोः संयुक्तखेटस्य राश्यंशाद्वा तथा भवेत् ॥ एतयो रश्मिमा-  
नाद्वा पापयोगाद्दिनाशनम् ॥ २९ ॥ संवादे विविधे प्राप्ते तत्क-  
र्मबलतो भवेत् ॥ कारकाद्विक्रमेशाद्वा विक्रांतस्य विनिर्दिशेत् ३० ॥

तृतीय स्थानकी राशि अंशकके वशसे भाइयोंकी संख्या कहनी, अथवा तृतीयेश तृतीय-  
भावकारकयुक्त राशि अंशकके तुल्य संख्या होती है ॥ २७ ॥ तृतीयमें जो ग्रह है उसके  
अंशकसे अथवा तृतीयेश युक्त राशिसे कारकयुक्तभावसे संख्या कहनी ॥ २८ ॥ अथवा  
तृतीयेश तृतीयभावकारक ग्रहके साथ जो ग्रह है उसके राशि अंशकके तुल्य संख्या होती है,  
इनमें जो अधिक बली उत्तमांगगत हो उसका फल होता है । अथवा उन दोनोंके रश्मिके  
प्रमाणसे कहना. ऐसेही पापयुक्त कालांशादिगत ग्रहोंसे हानिकी संख्या जाननी ॥ २९ ॥  
जब बहुत प्रकारके योग हो तो उसका कर्म बलकारक ग्रहसे तृतीयभावेशसे जो अधिक  
बली पारावतांशादिमें हो उसीसे संख्या कहनी ॥ ३० ॥

शौर्याधिपे तुंगयुते बलाढ्ये केंद्रत्रिकोणे यदि सौम्यदृष्टे ॥ मूल-  
त्रिकोणे स्वगृहेष्टगेहे वैशेषिकांशे पुरुषः स धीरः ॥ ३१ ॥ धीरो  
भवेद्विक्रमराशिनाथे सौम्ये गृहांशे शुभखेटयुक्ते ॥ तथैव तत्कार-  
कखेचरेंद्रे सौम्यग्रहाणां भवने तु शूरः ॥ ३२ ॥

तृतीयेश उच्चका बलवान् केन्द्र त्रिकोणमें शुभ ग्रहोंसे दृष्ट होवै यदा अपने मूलत्रिको-  
णमें अपनी राशिमें मित्त राशिमें वैशेषिकांशमें होवै तो वह पुरुष धैर्यवान् पंडित होवै  
॥ ३१ ॥ तृतीयेश शुभ ग्रहके नवांशमें शुभग्रह युक्त होवै तो धीर ( पंडित ) होवै.  
तृतीय भावकारक ग्रहभी ऐसेही शुभ ग्रहके राश्यंशमें होवै तो पुरुष पराक्रमी होवै ॥ ३२ ॥

धैर्यान्वितो विक्रमराशिनाथसंयुक्तराश्यंशपतौ यदंशे ॥ तदंशना-  
थे स्वगृहादिवर्गे युद्धे विदग्धः कलहप्रवीणः ॥ ३३ ॥

तृतीयेश जिसके राश्यंशमें है वह ग्रह अपने राश्यादिवर्गमें होवै तो धैर्यवान् युद्धमें चतुर  
और कलहमें प्रवीण होवै ॥ ३३ ॥

विक्रमाधिपतौ स्वोच्चे नाशस्थे पापसंयुते ॥ चरभे चरराश्यंशे  
युद्धात्पूर्वं दृढो भवेत् ॥ ३४ ॥ पापग्रहाणां भवने विक्रमे पाप-  
संयुते ॥ तथाविधे तदीशेपि युद्धात्पूर्वं दृढो भवेत् ॥ ३५ ॥  
क्रूरपष्टचंशगे वापि तदीशे नीचराशिगे ॥ पापयुक्तेथ वा दृष्टे युद्ध-

(८२)

सर्वार्थचिन्तामणिः ।

जाड्यो भवेन्नरः ॥३६॥ युद्धे पराजितः स्वोच्चे विक्रमेशे विनाशभे ॥  
कारके बलहीने वा क्रूरषष्ट्यंशसंयुते ॥ ३७ ॥

तृतीयेश अपने उच्चका पापयुक्त नारहवें भावमें चरराशि चरांशकर्म होवे तो युद्धसे पहिले दृष्ट ( मनुबूत ) रहे युद्ध छिड़नेपर कातर होजावे ॥ ३४ ॥ तीसरे भावमें पापराशि पाप युक्त होवे तृतीयेशभी पाप राशिमें पापयुक्त होवे तौभी वही फल जानना ॥ ३५ ॥ तृतीयेश क्रूरषष्ट्यंशमें अथवा नीचराशिमें पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट होवे तो युद्धकर्ममें अनाना होवे ॥ ३६ ॥ तृतीयेश उच्चराशिका व्ययस्थानमें और भावकारक ग्रह बलहीन क्रूरषष्ट्यंशमें होवे तो युद्धमें मनुष्य पराजय ( हार ) पावे ॥ ३७ ॥

सिंहासनांशे यदि विक्रमेशे  
वा शुभदृष्टियोगे चित्तोत्सवो भूरावते गोपुरभागयुक्ते ॥ मृदंशके  
युद्धाभिलाषी समरप्रवीणो वीर्येश्वर सद्भविशारदः स्यात् ॥ ३८ ॥

कांशे बलपूर्णयुक्ते मृदंशगे वा विपरीतमन्यतु ॥ ३९ ॥  
तृतीयेश सिंहासनांश, पारावतांश, गोपुरांश युक्त अथवा मृदंशयुक्त युद्धमें चतुर होवे ॥ ३८ ॥ तृतीयेश बुधयुक्त अथवा शुभदृष्टियोगे चित्तोत्सवो भूरावते गोपुरभागयुक्त अथवा युद्धाभिलाषी समरप्रवीणो वीर्येश्वर सद्भविशारदः स्यात् ॥ ३९ ॥ तृतीयेश विपरीतमन्यतु अथवा युद्धाभिलाषी समरप्रवीणो वीर्येश्वर सद्भविशारदः स्यात् ॥ ३९ ॥ तृतीयेश विपरीतमन्यतु अथवा युद्धाभिलाषी समरप्रवीणो वीर्येश्वर सद्भविशारदः स्यात् ॥ ३९ ॥

शौर्याधिपे भानुयुतेत्र धीरश्चन्द्रान्विते मानसधैर्ययुक्तः ॥ कृष्णो  
जडो भौमयुते प्रकोपी सौम्यान्विते सात्त्विकबुद्धियुक्तः ॥ ४० ॥  
जीवान्विते धीरतया समेतः सर्वार्थशास्त्रार्थविशारदः स्यात् ॥  
कामातुरस्त्वास्फुजिदन्विते स्यात्तन्मूलकोपात्कलहप्रवीणः ४१ ॥

तृतीयेश सूर्यसे युक्त होवे तो धैर्यवान्, चंद्रयुक्तसे मनके धैर्ययुक्त, मंगलयुक्तसे कृष्ण और मूर्ख गुस्तावाला, बुधसे सात्त्विकबुद्धियुक्त, ॥ ४० ॥ गुरुसे धीरतायुक्त सब अर्थ शास्त्रार्थ जाननेवाला, शुकसे कामातुर तथा काम देवसंबंधी कोपसे कलह करनेमें बड़ा चतुर होवे ॥ ४१ ॥

जडो भवेद्भासरनाथपुत्रयुक्ते फणीनामधिपेन युक्ते ॥ वहिर्दंडो  
हृद्गतजाड्ययुक्तः केत्वन्विते मांदियुते तथैत्र ॥ ४२ ॥

तृतीयेश शनियुक्त होवे तो मूर्ख होवे, राहुसे युक्त होवे तो बाहरसे तो दृष्ट रहे परन्तु हृदयमें जडता रहे, केतुसे युक्त होव तथा मांघशसे युक्त होवे तौ भी वही फल होगा ॥ ४२ ॥

लग्ने गुरौ विक्रमनाथयुक्ते चतुष्पदानां प्रवदन्ति भीतिम् ॥ गर्वा  
भयं वा जलराशिलग्न्ये जलप्रमादो ब्रुवते ध्रुवं स्यात् ॥ ४३ ॥  
वीर्याधिपे राहुसमेतराशीनाथान्विते राहुयुते विलग्न्ये ॥ सर्पाद्रयं  
विक्रमराशिनाथे बुधेन युक्ते गलरोगमत्र ॥ ४४ ॥

तृतीयेशयुक्त बृहस्पति लग्नमें होवै तो चौपैया पशुकी भय होवै, लग्नमें जलराशिके वैर  
होवै तो गोसे भय होवै तथा जलसंबंधीममाद निश्चय होगा ऐसा कहते हैं ॥ ४३ ॥ जिस राशिमें  
राहु है उसके स्वामीके सहित तृतीयेश लग्नमें राहुयुक्त होवै तो सर्पसे भय होवै तृतीयेश  
बुधयुक्त होवै तो यहां कंडरोग होगा ऐसा कहना ॥ ४४ ॥

नीचे तृतीयेरिगृहे त्रिमूढे पापेक्षिते तद्गलप्रमादः ॥ विषप्रयो-  
गाद्विषभक्षणाद्वा तेषामभावेत्र विनिश्चयार्थः ॥ ४५ ॥ शुके ब-  
लाढ्ये यदि वा शशांके सौम्येक्षिते शोभनखेटयुक्ते ॥ सोत्थ-  
स्थिते स्वोच्चसुमित्रवर्गे सुपात्रभोक्ता सुखभुक्तिभाक्स्यात् ॥ ४६ ॥

तीसरे भावमें कोही ग्रह नीचे, शत्रुराशिका, अस्तंगत, पापदृष्ट होवै तो विषप्रयोग  
( विपकी क्रिया ) से अथवा विषभक्षणसे जहरका ममाद होवै उक्तयोगके अभावमें विषर,  
हितता जाननी ॥ ४५ ॥ तीसरे भावमें बलवान् शुक्र अथवा चंद्रमा शुभ ग्रहसे युक्त दृष्ट  
उच्चमें यदा मित्रराशिमें होवै तो मनुष्य उत्तम पात्रमें सुखपूर्वक भोजन करनेवाला होवै ४६ ॥

पापे तृतीये गलरोगमत्र वदन्ति मांघादियुते विशेषात् ॥ भौमा-  
न्विते प्रेतपुरीशभागे तृतीयराशौ यदि कर्णरोगम् ॥ ४७ ॥ सोत्थे  
शनौ मांघादियुते तथैव वाताद्रयं सौम्यदृशा विहीने ॥ तृतीयनाथ-  
स्थितराशिनाथसंयुक्तराश्यंशपतौ च केन्द्रे ॥ ४८ ॥

तीसरे भावमें पापग्रह होवै विशेषतः मांघशादि युक्त होवै तो कंडरोग होवै मंगल तीसरे  
यमांशमें होवै तो कानोंमें रोग होवै ॥ ४७ ॥ तीसरा शनि मांघशमें शुभदृष्टि रहित होवै  
तो वातरोगसे भय होवै तृतीयेश जिसकी राशिमें होवै वहभी जिसके राश्यंशमें है वह  
केन्द्रमें होवै ॥ ४८ ॥

पापान्विते पापनिरीक्षिते वा वदन्ति कर्णोद्भवरोगमत्र ॥ क्रूरादि-  
पष्टयंशयुते तदीशे कर्णस्य रोगं कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ ४९ ॥

पाप युक्त दृष्ट होवै तो कानका रोग कहते हैं तृतीयेश क्रूरादिपष्टयंशमें होवै तो भी ज्योतिषी  
कानका रोग कहते हैं ॥ ४९ ॥

जाडयो भवेन्नरः ॥३६॥ युद्धे पराजितः स्वोच्चे विक्रमेशे विनाशमे ॥  
कारके बलहीने वा क्रूरपट्यंशसंयुते ॥ ३७ ॥

तृतीयेऽश अपने उच्चका पापयुक्त चारहवें भावमे चरराशि चरांशकर्म होवे तो युद्धसे पहिले दृढ ( मनबूत ) रहे युद्ध छिडनेपर कातर होजावे ॥ ३४ ॥ तीसरे भावमें पापराशि पाप युक्त होवे तृतीयेऽशी पाप राशिमें पापयुक्त होवे तौभी वही फल जानना ॥ ३५ ॥ तृतीयेऽश क्रूरपट्यंशमें अथवा नीचराशिमें पापग्रहसे युक्त वा दृष्ट होवे तो युद्धकर्ममें अनान होवे ॥ ३६ ॥ तृतीयेऽश उच्चराशिका व्ययस्थानमे और भावकारक ग्रह बलहीन क्रूरपट्यंशमें होवे तो युद्धमे मनुष्य पराजय ( हार ) पावे ॥ ३७ ॥

सिंहासनांशे यदि विक्रमेशे पारावते गोपुरभागयुक्ते ॥ मृदंशके  
वा शुभदृष्टियोगे चित्तोत्सवो युद्धविशारदः स्यात् ॥ ३८ ॥  
युद्धाभिलाषी समरप्रवीणो वीर्येश्वर सौम्ययुते स्वतुंगे ॥ वैशेषि-  
कांशे बलपूर्णयुक्ते मृदंशगे वा विपरीतमन्यत् ॥ ३९ ॥

तृतीयेऽश सिंहासनांश, पारावतांश, गोपुरांश युक्त अथवा मृदंशयुक्त कुम्भग्रह दृष्टयुक्त होवे तो मानसी उत्सव सहित अर्थात् सहर्ष युद्धमें चतुर होवे ॥ ३८ ॥ तृतीयेऽश बुधयुक्त उच्च राशिमें वैशेषिकांशमें पूर्णबली अथवा मृदंशकर्म होवे तो युद्धकी अभिलाषा करे लड़ाईमें प्रवीण ( अभिज्ञ ) होवे, विपरीत स्थानादिमें तृतीयेऽश होवे तो फलभी विपरीत जानना ॥ ३९ ॥

शौर्याधिपे भानुयुतेऽथ धीरश्चन्द्रान्विते मानसधैर्ययुक्तः ॥ कृष्णो  
जडो भौमयुते प्रकोपी सौम्यान्विते सात्त्विकबुद्धियुक्तः ॥ ४० ॥  
जीवान्विते धीरतया समेतः सर्वार्थशास्त्रार्थविशारदः स्यात् ॥  
कामातुरस्त्वास्फुजिदन्विते स्यात्तन्मूलकोपात्कलहप्रवीणः ४१ ॥

तृतीयेऽश सूर्यसे युक्त होवे तो धैर्यवान्, चंद्रयुक्तसे मनके धैर्ययुक्त, मंगलयुक्तसे कृष्ण और मूर्य गुस्सावाला, बुधसे सात्त्विकबुद्धियुक्त, ॥ ४० ॥ ग्रहसे धीरतायुक्त सब अर्थ शास्त्रार्थ जाननेवाला, शुकसे कामातुर तथा काम देवसंबंधी कोपसे कलह करनेमें बड़ा चतुर होवे ॥ ४१ ॥

जडो भवेद्भासरनाथपुत्रयुक्ते फणीनामधिपेन युक्ते ॥ बहिर्दंडो  
द्वद्गतजाडययुक्तः केत्वन्विते मांदियुते तथैव ॥ ४२ ॥

तृतीयेऽश शनियुक्त होवे तो मूर्ख होवे, राहुसे युक्त होवे तो बाहरसे तो दृढ रहे परन्तु हृदयमें जडता रहे, केतुसे युक्त होव तथा मांद्यगणसे युक्त होवे तो भी वही फल होगा ॥ ४२ ॥

लग्नेश लग्ने चतुर्थभावेशयुक्त होवै तो गृहलाभ होवै शुभग्रहोसे युक्त दृष्ट भी होवै यद्वा अपने उच्चराशि मित्र राशीमे बलवान् होवै तो विनाही मयत्र गृहलाभ होवै ॥ ५५ ॥ चतुर्थेश केद्रमे बलसहित शुभग्रहदृष्ट होवै तो घरका लाभ कहतेहैं । यदि चतुर्थेश वैशेषिकांशमे परमोच्चांशमें होवै तो भी गृहलाभ कहतेहैं ॥ ५६ ॥

गृहस्थानाधिपस्यांशनाथसंयुक्तराशिपः ॥ तदंशाधिपतौ केंद्रे  
गृहलाभमुदीरयेत् ॥ ५७ ॥ भाग्येशे केंद्रभावस्थे गृहेशे स्वो-  
च्चमित्रगे ॥ गृहराशिगते खेट स्वोच्च बहुविचित्रकम् ॥ ५८ ॥  
तृतीये सौम्यसंयुक्ते गृहेशे स्वबलान्विते ॥ तदीशे बलमंपूर्णे  
हर्म्यप्राकारमंडितम् ॥ ५९ ॥

चतुर्थेश जिसके नवाशमें है वह जिसकी राशिमें है उसके स्थित अशाधीश केन्द्रमें होवै तो गृहलाभ कहना ॥ ५७ ॥ नवमेश केद्रमे चतुर्थेश मित्रराशिमें और चतुर्थभावमे उच्चका ग्रह होवै तो चित्रविचित्र घर मिले ॥ ५८ ॥ तीसरेमे शुभग्रह होवै चतुर्थेश अपने बलसे पूर्ण होवै तृतीयेशभी बलपूर्ण होवै तो अट्टालिकासे शोभित उत्तम घर मिले ॥ ५९ ॥

सिंहासनांशके वापि गृहेशे गोपुरांशके ॥ मृदंशादियुते वापि  
तद्ब्रह्मं सौधमण्डितम् ॥ ६० ॥ पारावतांशके गेहनाथे गुर्विन्दु-  
वीक्षिते ॥ गोपुराद्यंशके वापि दैविकं हर्म्यमादिशेत् ॥ ६१ ॥  
विचित्रसौधप्राकारमण्डितं गृहमादिशेत् ॥ कर्माधिपेन सहिते  
नाथे केन्द्रेर्कसूनुना ॥ ६२ ॥

चतुर्थेश सिंहासनांशमे अथवा गोपुराशकमें यद्वा मृदशादिमे होवै तो उसका घर चूनेसे शोभित होवै ॥ ६० ॥ चतुर्थेश पारावतांशकमे बृहस्पति चद्रमासे दृष्ट होवै अथवा गोपुरादि अशकमे हाव तो उसका महल देवताओंकासा यद्वा देवतायुक्त होवै ॥ ६१ ॥ चतुर्थेश दशमेश शनि युक्त केद्रमें होवै तो रंग विरग चूना आदिसे तथा अटारियों सहित घर कहना ॥ ६२ ॥

गेहाधिपे नाशगते यदि स्यात्पापेक्षिते तद्ब्रह्मनाशमत्र ॥ गेहेश-  
संयुक्तनवांशनाथे नाशस्थिते स्यादपि गेहनाशः ॥ ६३ ॥

चतुर्थेश बारहवें पापयुक्त होवै तो उसके घरका नाश होवै चतुर्थेश जिसके नवाशकमें हो वह बारहवें होवै तोभी मकानका नाश होवै ॥ ६३ ॥

सौम्ययुक्ते तृतीये वा सौम्यखेचरवीक्षिते ॥ तदीशे शुभसंयुक्ते  
कर्णयोर्भूषणं वदेत् ॥५०॥ शुके तृतीये यदि मौक्तिकं तु जैवेऽतुलं  
त्वाभरणं वदन्ति ॥ भानोस्तु संबंधयुक्ते तृतीये सद्रत्नमानीलमयं  
हि मांथे ॥ ५१ ॥

तीसरे स्थानमें शुभग्रह हो अथवा शुभ ग्रह देसे तृतीयेश शुभयुक्त होवै तो कानोंमें भूषण होवै ऐसा कहना ॥ ५० ॥ उक्तलक्षण संपन्न शुक्र तीसरे होवै तो कानोंमें मोनियोंके भूषण होवें बृहस्पति होवै तो सर्वोत्तम आभरण कहते हैं, तृतीयमें सूर्यका संबंध होवै तो उत्तम रत्नोंके, और शनिका संबंध होवै तो नीलमके भूषण होवें ॥ ५१ ॥

चंद्रे बहु त्वाभरणं तु सौम्ये श्यामं भवेत्तत्क्षितिसूनुराशौ ॥ विचि-  
त्रमार्गाभरणं तथैव पापेक्षिते तल्लयमाहुरार्याः ॥ ५२ ॥ शुभग्र-  
हाणां भवने तु तस्मिंस्तृतीयराशौ श्रवणं कथानाम् ॥ पुण्यादि-  
कानां यदि पापराशौ क्रूरश्च तत्कर्णकुठारमाहुः ॥ ५३ ॥

इति तृतीयभावः ॥

ऐसा चंद्रमा होवै तो बहुतसे भूषण होवें शुध होवै तो वह पत्राके होवै मंगलकी राशिका होवै तो अनेक रंगके भूषण होवें यदि तृतीयभाव वा उक्तयोग पापदृष्ट होवै तो उक्त फलका नाश आचार्य कहते हैं ॥ ५२ ॥ तीसरे भावकी राशि शुभ ग्रहकी होवै तो उत्तम कथापुण्य आदिकी सुननेमें आवें पापराशि पापयुक्त होवै तो दुष्टकथा कर्णनाशक कहते हैं ॥ ५३ ॥ इति तृतीयभावविचारः ॥

अथ चतुर्थभावविचारः ।

बंधुभवने बंधून्गृहमातृजलात्मवृद्धिभोज्यादीन् ॥ वाहनहृदय-  
स्कंधासनशयनसुखान्यधो जलं ब्रूयात् ॥ ५४ ॥

चतुर्थ भवनसे बंधु ( ज्ञाति ), घर, माता, जल, अपनी वृद्धि, भोग्यपदार्थादि, वाहन, हृदयस्थान, स्कंधा, आसन, शयन, सुख, पाताल कूपका विचार कहना, सोई आगे कहते हैं ॥ ५४ ॥

लग्नेश्वरे लग्नगते सुखांगनाथेन युक्ते यदि गेहलाभः ॥ अयन्नतः  
स्याच्छुभदृष्टियोगात्स्वोच्चे स्वामित्रे स्वगृहे बलाढ्ये ॥५५॥ गेहा-  
धिपे केंद्रगते बलाढ्ये सौम्येक्षिते मंदिरलाभमाहुः ॥ वैशेषि-  
कांशे परमोच्चभागे गेहेश्वरे मंदिरलाभमाहुः ॥ ५६ ॥

लग्नेश लग्नेमें चतुर्थभावशयुक्त होवै तो गृहलाभ हेतु शुभग्रहसे युक्त दृष्ट भी होवै यद्वा अपने उच्चराशि मित्र राशीमें बलवान् होवै तो विनाही मयत्र गृहलाभ होवै ॥ ५५ ॥ चतुर्थेश केन्द्रमें बद्धसहित शुभग्रहदृष्ट होवै तो घरका लाभ कहतेहैं । यदि चतुर्थेश वैशेषिकांशमें परमोच्चांशमें होवै तो भी गृहलाभ कहतेहैं ॥ ५६ ॥

गृहस्थानाधिपस्यांशनाथसंयुक्तराशिपः ॥ तदंशाधिपतौ केंद्रे गृहलाभमुदीरयेत् ॥ ५७ ॥ भाग्येशे केंद्रभावस्थे गृहेशे स्वोच्चमित्रगे ॥ गृहराशिगते खेटे स्वोच्चे बहुविचित्रकम् ॥ ५८ ॥ तृतीये सौम्यसंयुक्ते गृहेशे स्वबलान्विते ॥ तदीशे बलसंपूर्णे हर्म्यप्राकारमंडितम् ॥ ५९ ॥

चतुर्थेश जिसके नवांशमें है वह जिसकी राशिमें है उसके स्थित अंशाधीश केन्द्रमें होवै तो गृहलाभ कहना ॥ ५७ ॥ नवमेश केद्रमें चतुर्थेश मित्रराशिमें और चतुर्थभावमें उच्चका ग्रह होवै तो चित्रविचित्र घर मिले ॥ ५८ ॥ तीसरेमें शुभग्रह होवै चतुर्थेश अपने बलसे पूर्ण होवै तृतीयेशभी बलपूर्ण होवै तो अट्टालिकासे शोभित उत्तम घर मिले ॥ ५९ ॥

सिंहासनांशके वापि गृहेशे गोपुरांशके ॥ मृदंशादियुते वापि तद्गृहं सौधमण्डितम् ॥ ६० ॥ पारावतांशके गेहनाथे गुर्विन्दुवीक्षिते ॥ गोपुराद्यंशके वापि दैविकं हर्म्यमादिशेत् ॥ ६१ ॥ विचित्रसौधप्राकारमण्डितं गृहमादिशेत् ॥ कर्माधिपेन सहिते नाथे केन्द्रेर्कसूनुना ॥ ६२ ॥

चतुर्थेश सिंहासनांशमें अथवा गोपुरांशकमें यद्वा मृदंशादिमें होवै तो उसका घर चूनेसे शोभित होवै ॥ ६० ॥ चतुर्थेश पारावतांशकमें बृहस्पति नन्दमासे दृष्ट होवै अथवा गोपुरादि अंशकमें हाथ तो उसका महल देवताओंकासा यद्वा देवतायुक्त होवै ॥ ६१ ॥ चतुर्थेश दशमेश शक्ति युक्त केन्द्रमें होवै तो रंग विरंग चूना आदिसे तथा अटारियों सहित घर कहना ॥ ६२ ॥

गेहाधिपे नाशगते यदि स्यात्पापेक्षिते तद्गृहनाशमत्र ॥ गेहेशसंयुक्तनवांशनाथे नाशस्थिते स्यादपि गेहनाशः ॥ ६३ ॥

चतुर्थेश बारहवें पापयुक्त होवै तो उसके घरका नाश होवै चतुर्थेश जिसके नवांशकमें हो वह बारहवें होवै तोभी मकानका नाश होवै ॥ ६३ ॥

बन्धुस्थानस्थिते सौम्ये सौम्यग्रहनिरीक्षिते ॥ तत्कारकबलाब्धे  
वा बन्धुपूज्यो भवेन्नरः ॥ ६४ ॥ बन्धुस्थानगते जीवे तदीश  
शुभसंयुते ॥ गुरुदृष्टिसमायुक्ते बंधुश्रेष्ठो भवेन्नरः ॥ ६५ ॥

चतुर्थ स्थानमें शुभग्रह शुभग्रहसे दृष्ट होवै तथा चतुर्थभावकारक ग्रह बलवान् होवे तो मनुष्य बन्धुवर्गका पूज्य ( माननीय ) होवै ॥ ६४ ॥ चौथे बृहस्पति चतुर्थेश शुभ ग्रहसे युक्त बृहस्पतिसे दृष्ट होवै तो मनुष्य बांधवोंमें श्रेष्ठ होवै ॥ ६५ ॥

बंधूपकर्ता तन्नाथे केंद्रे कोणथ संयुते ॥ वैशोपिकांशसंयुक्ते पाप-  
दृग्योगवर्जिते ॥ ६६ ॥ बन्धूनामुपकारी स्याद्बन्धौ गुर्वच्छ-  
सोमजाः ॥ तेषां गृहे वा तैर्दृष्टे मृदंशादिसमन्विते ॥ ६७ ॥

चतुर्थेश केन्द्र त्रिकोणमें शुभ ग्रहयुक्त, वैशोपिकांशकमें पाप ग्रहोंके योग दृष्टिस रहित होवै तो बन्धुवर्गका उपकार करनेकाला होवै ॥ ६६ ॥ चतुर्थ स्थानमें गुरु, शुक, बुध होवे अथवा इनकी राशि इनसे दृष्ट होवे मृदंशादि शुभांशकोंसे युक्त होवे तो बन्धु जनका उपकार करने वाला होवे ॥ ६७ ॥

बन्धुभिस्त्यक्तपुरुषस्तदीशे पापसंयुते ॥ क्रूरपष्टचंशके वापि  
नीचारातिगृहेपि वा ॥ ६८ ॥ बहुपापसमायुक्ते बन्धौ नाथे  
तथैव हि ॥ तत्कारके तथैवात्र बन्धूनां कुत्सितं वदेत् ॥ ६९ ॥

चतुर्थेश पापयुक्त अथवा क्रूरपष्टचंशमे यद्वा नीच शत्रुराशिमें होवै तो वह पुरुष बन्धु-  
जनोंसे त्यागा होवै ॥ ६८ ॥ चतुर्थ स्थानमें बहुत पाप हों चतुर्थेश भी पापयुक्त होवै तथा चतुर्थभावकारकभी पापयुक्त होवे तो बन्धुवर्गमें निन्द्य होवै ॥ ६९ ॥

नाथकारकसंयुक्तनवांशेशांशनायकः ॥ नीचराशिगतो मूढो  
बन्धूनां भयकर्मकृत् ॥ ७० ॥ बन्धूपभोगीकेन्द्रस्थे तदीशे शुभ-  
वीक्षिते ॥ गोपुराद्यंशके वापि मृदंशादिसमन्विते ॥ ७१ ॥  
धने लाभे त्रिकोणस्थे तन्नाथे शुभवीरि <sup>नेनाम</sup> <sub>कारक</sub> सौम्यग्रहाणामंशे  
वा बन्धूनामुपकारकृत् ॥ ७२ ॥ बन्धुद्वेष <sup>वैरि</sup> <sub>वैरित्यं</sub> पापाक्रांति  
ग्रहे यदा ॥ नीचास्तखेटसंयुक्ते शुभदृग्योगवर्जिते ॥ ७३ ॥

चतुर्थभावेश, तथा चतुर्थभावकारक जिसके नवांशकमें हों वह भी जिसके नवांशकमें हो वह नीच राशिमें अस्तंगत होवै तो बन्धुवर्गके वास्ते भयके काम करे ॥ ७० ॥ चतुर्थेश



केन्द्रमें शुभग्रहदृष्ट और गोपुरादि अथवा मृदंशादिसे युक्त होवे तो बन्धुजनका सुख भोगकरे ॥ ७१ ॥ चतुर्थेश दूसरे ग्यारहवें यदा त्रिकोणमें शुभग्रहदृष्ट होवै अथवा शुभग्रहोंके अंशकर्म होवै तो बन्धुजनका उपकार करे ॥ ७२ ॥ चतुर्थेश पापोंका दवायाहो, नीचगत, अस्तंगत ग्रहसे युक्त होवै शुभ दृष्टि योग रहित होवै तो बन्धुवर्गका द्वेषी होवे ॥ ७३ ॥

कस्मिंश्चित्स्वेचरेन्द्रे वा वन्धौ स्वेच्चे स्वमित्रभे ॥ गुरुणा दृष्टिसं-  
पाते बन्धुपूज्यो भवेन्नरः ॥ ७४ ॥ गृहस्थाने चरे लग्ने तदीशे  
चरराशिगे ॥ तथैव तत्कारकेपि बहुस्थाने गृहं भवेत् ॥ ७५ ॥

चतुर्थ स्थानमें कोई ग्रह अपने उच्च वा मित्रराशिमें होवै बृहस्पति उसे देखे तो मनुष्य बन्धुवर्गका पूज्य होवै ॥ ७४ ॥ चतुर्थ भावमें चरराशि हो उसका स्वामी भी चरराशिमें हो वैसाही चतुर्थकारक ग्रहभी चरराशिमें होवै तो एक जगे छोडकर दूसरे दूसरेसे तीसरे इत्यादि कितनेही जगे घर होवै ॥ ७५ ॥

स्थिरे गृहे स्थिरगृहं नाथकारकयोरपि ॥ षष्ठ्यंशे शुभभागे वा  
तदीशे स्थैर्यतां व्रजेत् ॥ ७६ ॥ अर्थव्ययगृहेशैस्तैर्यावंतः पाप-  
संयुताः ॥ तावद्ग्रेहादिनाशः स्याच्छुभदृष्टा न दोषदाः ॥ ७७ ॥  
अर्थव्ययगृहेशास्तु केन्द्रकोणादिसंयुताः ॥ तावद्ग्रेहालयं सर्वं  
शोभनं तत्र निर्दिशेत् ॥ ७८ ॥

चतुर्थेश चतुर्थकारक स्थिर राशियोंमें होवै तो एकही घरमें स्थिरता रहे, चतुर्थेश शुभ-  
षष्ठ्यंश शुभांशकर्म होवै तो घरमें स्थिरता होवै ॥ ७६ ॥ वह चतुर्थेश चतुर्थभावकारक  
घन व्यय भावेशयुक्त नितने पापोंसे युक्त होवै उतने घर आदि नष्ट होवै उनपर शुभग्रहोंकी  
दृष्टिभी होवै तो दोष नहीं देते ॥ ७७ ॥ द्वितीयभावेश तथा व्ययभावेश केन्द्र कोण  
आदिमें होवै तो नितने शुभग्रहोंसे युक्त हो उतने घरद्वार अच्छे होंगे ऐसा कहना ॥ ७८ ॥

गृहेशे कर्मराशिस्थे कर्मेशे गेहमागते ॥ बलयुक्ते धरासूनौ  
बहुक्षेत्रं विनिर्दिशेत् ॥ ७९ ॥ बलाढ्ये कर्मराशीशे बन्धुस्थाना-  
दिभ्यस्तथा ॥ तयोर्मैत्री यदा तस्य बहुक्षेत्रं विनिर्दिशेत् ॥ ८० ॥  
क्षेत्रस्थाने शुभैर्युक्ते तदीशे शुभसंयुते ॥ तत्कारके तथा प्राप्ते  
बहुक्षेत्रघनैर्षुतः ॥ ८१ ॥ क्षेत्राधिपे पञ्चमस्थे गोपुरांशादिसं-  
युते ॥ मृदंशादिगते वापि बहुक्षेत्रसमन्वितः ॥ ८२ ॥

चतुर्थेश दशम, दशमेश चतुर्थ और मंगल बलवान् होवै तो बहुत खेती ( जमीन ) होवै ऐसा कहना ॥ ७९ ॥ दशमेश बलवान् होवै तथा चतुर्थेशभी घटी होवै उनकी आपस-में मित्रना होवै तो बहुत खेती होवै ॥ ८० ॥ चौथे शुभ ग्रह चतुर्थेश शुभयुक्त चतुर्थकारकभी वैसाही होवै तो बहुत खेती धन उसके होवै ॥ ८१ ॥ चतुर्थेश पंचममें गोपुरांश-दियुक्त अथवा मृदंशादियुक्त होवै तो बहुत खेतीवाला होवै ॥ ८२ ॥

भ्रातृकारकसंयुक्ते भ्रातृनाथेन संयुते ॥ क्षेत्रे तदीश्वरे वापि भ्रातृ-

क्षेत्रं विनिर्दिशेत् ॥ ८३ ॥

चतुर्थमें तृतीयकारक ग्रह तृतीयेश अथवा चतुर्थेश भी उसमें होवै तो भाईकी खेती पावै ऐसा कहना ॥ ८३ ॥

क्षेत्रेशसंयुक्तनवांशनाथे केंद्रस्थिते मित्रनिरीक्षिते वा ॥ भौमा-  
न्विते भौमदशा समेते भ्रातुर्द्धनं क्षेत्रमुदाहरन्ति ॥ ८४ ॥ लग्ने-  
श्वरे क्षेत्रगते बलाढ्ये लग्ने बलिष्ठे यदि क्षेत्रनाथे ॥ शुभग्रहैर्द-  
ष्टसमागमे वा क्षेत्रं स्वकीयेन बलेन याति ॥ ८५ ॥

चतुर्थेश निसके नवांशमे हो वह केद्रमें हो अथवा उसे उसका मित्र देखे मंगलसे युक्त वा दृष्ट होवै तो भाईकी खेती धन मिलना कहतेहैं ॥ ८४ ॥ लग्नेश-चतुर्थस्थानमें बलवान् होवै लग्नमें बलवान् चतुर्थेश होवै शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट होवै तो अपने बल ( पुरुषार्थ ) से खेती धन कमावै ॥ ८५ ॥

कलत्रकारके क्षेत्रे तदीशे वा कलत्रगे ॥ तदीशयोस्तथा मैत्र्यां

कलत्रात्क्षेत्रमादिशेत् ॥ ८६ ॥

चतुर्थ स्थानमे स्त्रीकारक ग्रह अथवा चतुर्थेश सप्तम स्थानमें होवै चतुर्थेश सप्तमेशकी मैत्री होवै तो स्त्रीसे खेती पावै ॥ ८६ ॥

पष्टेश्वरे क्षेत्रगते बलाढ्ये पष्टस्थिते वा गृहभावनाथे ॥ पष्टेश्वरा-  
त्क्षेत्रगते बलाढ्ये शत्रोः सकाशात्स धरामुर्धत ॥ ८७ ॥

पारावतांशे स्वगृहे बलाढ्ये क्षेत्रेश्वरे चोपचयं गते वा ॥ आरो-  
हभागे शुभदृष्टियुक्ते क्षेत्रस्यवाहुल्यमुदाहरन्ति ॥ ८८ ॥ धनेशला-  
भेशसमन्विते वा क्षेत्रे तदीशेप्यथ कारके वा ॥ वैशेषिकांशे शुभ-

वह्वर्थरूपं गृहमाहुरार्याः ॥ ८९ ॥

पट्टेश बळवान् चौथे होवै अथवा चतुर्थेश छठे होवै पट्टेशसे चतुर्थेश बळवान् ग्रह होवै तो शत्रुसे खेती मिळे ॥ ८७ ॥ चतुर्थेश पारावतांशमे अपनी राशिका बळवान् होवै अथवा उपचय ३।६।११।१० स्थानमे होवै उच्चाभिलाषी होवै शुभ ग्रह उसे देखे तो बहुत खेती होवै ऐसा कहते हैं ॥ ८८ ॥ धनेश लाभेशसे युक्त चौथे भावमें हो अथवा चतुर्थेश वा चतुर्थे भावकारक ग्रह वैशेषिकांशकमे होवै शुभदृष्टि युक्त होवै तो बहुत प्रकारके बहुत घर होवै ऐसा श्रेष्ठ ज्योतिषी कहते हैं ॥ ८९ ॥

क्षेत्रेश्वरे नीचगते विमूढे पापांतरे पापनिरीक्षिते वा ॥ पापग्रहक्षेत्रगतेरिगेहे क्षेत्रादिनाशं कथयंति तज्ज्ञाः ॥ ९० ॥ पापांतरस्थे यदि भूमिपुत्रे पापान्विते पापनिरीक्षिते वा ॥ पापग्रहक्षेत्रगतेथ वा स्यात्क्रूरांशके भूमिविनाशमाहुः ॥ ९१ ॥

चतुर्थेश नीच वा अस्तंगत पापग्रहोंके बीच, अथवा पापदृष्ट, पापग्रहके राशिमें, शत्रुराशिमे होवै तो ज्योतिषज्ञ खेती आदिका नाश कहतेहैं ॥ ९० ॥ मंगळ यदि पापग्रहोंके बीच हो अथवा पापयुक्त पापदृष्ट हो वा पाप ग्रहके राशिमे हो, क्रूरांशकमें होवै तो भूमिका नाश कहते हैं ॥ ९१ ॥

क्रूरादिपट्टचंशगते तदीशे क्षेत्रे सपापे यदि नीचभे वा ॥ दुःस्थेरिगेहे त्वतिभीषणांशे क्षेत्रादिनाशं कथयंति तज्ज्ञाः ॥ ९२ ॥ क्षेत्रेश्वरे पापयुते धनस्थे नीचारिभे क्षेत्रविनाशमेति ॥ स्वोच्चस्थिते तद्भवनेश्वरे तु पापान्विते विक्रयमेति भूमेः ॥ ९३ ॥

चतुर्थेश क्रूरादि पट्टचंशकमें हो, चतुर्थमे पापग्रह हो अथवा भावेश दृष्ट स्थानमें शत्रुराशिमे अथवा भयानक अंशकमें होवै तो खेती आदिका नाश ज्योतिषज्ञ कहते हैं ॥ ९२ ॥ चतुर्थेश पापयुक्त धनस्थानमे नीच वा शत्रु राशिका होवै तो खेती नष्ट होवै यदि चतुर्थेश अपने उच्चमे शत्रुयुक्त होवै तो भूमि विक्र जावै ॥ ९३ ॥

आज्ञाक्षयात्क्षेत्रविनाशमाहुराज्येश्वरे क्षेत्रगते सपापे ॥ क्रूरांशके मृत्युयमादिभागे कर्मेश्वरेणापि युते तथैव ॥ ९४ ॥ आज्ञाक्षयाद्भूमिविनाशमेति राज्येशतत्कारकभूमिनाथे ॥ क्रूरांशके वा त्ववरोहभागे नाशस्थिते मृत्युयमादिभागे ॥ ९५ ॥

राज्येश चतुर्थमें पापयुक्त होवै मृत्यु यम आदि क्रूरांशकमे होवै तो आज्ञाक्षय ( नियमादिभग ) से भूमिनाश होवै ॥ ९४ ॥ राजभावेश, राजकारक और चतुर्थेश, क्रूरांशकमें अथवा अवरोहभागमें, व्यय स्थानमें, मृत्यु यम आदि अंशकमें होवै तो आज्ञाक्षयसे भूमिनाश होवै ॥ ९५ ॥

राजाज्ञया क्षेत्रविनाशमेति भानौ तदीशेन युतेपि निम्ने ॥ धनेश-  
संयुक्तनवांशनाथयुक्तांशपेनापि युते सपापे ॥ ९६ ॥ जीवेन  
दृष्टे यदि वा तदीशे रम्ये गुरौ शोभनखेचरे वा ॥ सौम्यांतरे  
तद्भवने ससौम्ये सुखी भवेत्सर्वजनेषु मुख्यः ॥ ९७ ॥

चतुर्थेश युक्त सूर्य नीचमें होवै धनेश जिसके नवांशकमें है वहभी जिसके नवांशमें है  
उससे युक्त सपाप होवै तो भी राजाकी आज्ञासे खेतोफा विनाश होवै ॥ ९६ ॥ चतुर्थेश  
यदि बृहस्पतिसे दृष्ट होवै बलवान् बृहस्पति अथवा शुभ ग्रह शुभग्रहोंके मध्यमें हो चतुर्थ  
शुभयुक्त होवै तो मनुष्य सुखी और सब जनोंमें श्रेष्ठ होवै ॥ ९७ ॥

जीवे बलाढ्ये सुखराशिनाथयुक्ते ससौम्ये तु चतुष्टये वा ॥  
जीवेन दृष्टे यदि वा तदीशे मृदंशके वा सुखभाङ्गरः स्यात् ॥ ९८ ॥  
सुखे गुरौ शोभनखेचरे वा सौम्यांतरे तद्भवने ससौम्ये ॥ जीवे  
बलाढ्ये यदि लग्ननाथात्सुखी भवेत्सर्वजनेषु मुख्यः ॥ ९९ ॥

बलवान् बृहस्पति चतुर्थेशसे युक्त शुभग्रहयुक्त होवै अथवा केद्रमें होवै यदा चतुर्थेश  
बृहस्पतिसे दृष्ट होवै वा मृदंशकमें होवै तो मनुष्य सुख भोगनेवाला होवै ॥ ९८ ॥  
चतुर्थ भावमें बृहस्पति अथवा शुभग्रह होवै चतुर्थ भाव शुभग्रहयुक्त शुभग्रहोंके बीचमें होवै  
बृहस्पति लग्नेशसे बलवान् होवै तो मनुष्य सुखी तथा सबसे श्रेष्ठ होवै ॥ ९९ ॥

गोपुराद्यंशके वापि सुखपे देवपूजिते ॥ धनायवृद्धिभावेषु तस्मि-  
न् खेटे सुखी भवेत् ॥ १०० ॥ सौम्यतरान्विते सौख्ये बल-  
हीने गुरावपि ॥ सपापे दुर्बले नाथे दुःखी स्यादर्थसंयुतः ॥  
॥ १०१ ॥ पुत्रार्थबन्धुयुक्तश्चेद्दुःखी स्यान्न्रीचखेचरे ॥ सुखी  
तदीशे पापेन युक्ते क्रूरांशसंयुते ॥ १०२ ॥

सुरेश बृहस्पति गोपुरादि अंशकमें द्वितीय छाम और वृद्धिभावमें होवै तो मनुष्य  
सुखी होवै ॥ १०० ॥ चतुर्थ भावमें पाप ग्रह होवै बृहस्पति बलहीन होवै चतुर्थेश  
पापयुक्त निर्वल होवै तो धनसहित भी दुःखी होवै ॥ १०१ ॥ चतुर्थेश पापयुक्त चतुर्थमें  
नीचका ग्रह होवै तो पुत्र, धन, बंधु सहित सुखीभी दुःखी होवै ॥ १०२ ॥

रव्यारयुक्ते सुखभावनाथे क्रूरांशके सौम्यदृशा विहीने ॥  
आरोहभागेतरभागयुक्ते जातो नरो दुःखित एव नित्यम् ॥ १०३ ॥

नीचारिभागे रविभूमिपुत्रे सुखस्थिते पापदशा समेते ॥ क्रूरांशके  
तद्भवनाधिनाथे गृहार्थहीनो भवति प्रमादात् ॥ १०४ ॥

चतुर्थ राशिका स्वामी सूर्य मंगल युक्त होवै क्रूरांशमें शुभदृष्टि रहित होवै अवरोही अंश-  
कमें होवै ऐसे योगमें जिसका जन्म होवै वह सर्वदा दुःखित रहे ॥ १०३ ॥ सूर्य मंगल  
नीच शत्रु अंशकमें सुख भावमें पापदृष्ट होवै चतुर्थे अंश क्रूरांशकमें होवै तो अपने प्रमादसे घर  
तथा धनसे हीन होताहै ॥ १०४ ॥

पापान्विते पापनिरीक्षिते वा पापांतरे वा सुखभे तदीशे ॥  
क्रूराहिपष्टयंशसमन्विते वा पापी नरः स्याच्छुभदृष्टियुक्ते ॥  
॥ १०५ ॥ पापाधिकत्वे सुखराशियुक्ते तदीश्वरे चारिविमूढ्याते ॥  
पापान्विते वा यमसूनुयुक्ते जातो बहुत्वं समुपैति पापम् ॥ १०६ ॥

चतुर्थ भाव पापयुक्त पापदृष्ट यद्वा पापांतःस्थ होवै वा उसका स्वामी क्रूरआदि पष्टयं-  
शमें होवै और शुभदृष्टि युक्त होवै तो मनुष्य पापी होवै ॥ १०५ ॥ चतुर्थ राशिमें बहुत  
पाप होवै उसका स्वामी शत्रुराशिमें वा अस्तंगत होवै पापान्वित वा शनियुत होवै तो मनुष्य  
बहुत पापोंको प्राप्त होताहै ॥ १०६ ॥

शुक्रेन्दुविदेवपुरोहितानां क्षेत्रे सुखे पूर्णबलान्वितानाम् ॥  
शुभान्विते शोभनदृष्टिपाते जातो नरोऽयं भुवि भुक्तिभाक्स्या-  
त् ॥ १०७ ॥ बुधदृष्टे सिते सौख्ये सौम्यमध्यगतेपि वा ॥ गो-  
पुराद्यंशगे वापि पुण्यभाक्स नरो भवेत् ॥ १०८ ॥

चतुर्थमें पूर्णबली शुक, चंद्रमा, बुध, बृहस्पतिकी राशि होवै शुभ ग्रहास युक्त दृष्ट होवै तो  
ऐसे योगमें जन्मवाला मनुष्य पृथ्वीमें भुक्तिभागी होताहै ॥ १०७ ॥ चतुर्थ स्थानमें बुधसे  
दृष्ट शुक होवै, अथवा शुभ ग्रहोंके बीच होवै, यद्वा गोपुरादि अंशकमें होवै तो वह मनुष्य  
पुण्यभागी होताहै ॥ १०८ ॥

नीचान्विते मौढ्ययुते सुखस्थ सपत्नभे वा जलराशिसंज्ञे ॥  
तदीश्वरे हीनबले तदानीं पतत्यसौ कूपतटांबुराशौ ॥ १०९ ॥  
लग्नेश्वरे हीनबले सुखस्थे नीचेर्कयुक्ते यदि वा सपापे ॥ जलग्र-  
हेणापि युते सुखेशे बलेन हीने जलराशिमग्नः ॥ ११० ॥

चतुर्थे अंश नीचका, अस्तका, चतुर्थभावमें, शत्रुराशिका जलराशिका होवै चतुर्थे अंश हीनबली  
होवै तो वह मनुष्य कूपके किनारे जलसमूहमें गिरताहै ॥ १०९ ॥ लग्नेश हीनबल चौथे

भावमें नीचराशिका सूर्यसे यद्वा पापग्रहसे युक्त तथा जलचराधिप ग्रहसे युक्त होवै चतुर्थ  
बलहीन होवै तो जलपुंजमें दूबे ॥ ११० ॥

सरित्स्थानाधिपे लग्ननाथेन सहिते सुखे ॥ कर्माधिपेन संदृष्टे  
नदीकूपतटादिषु ॥ १११ ॥ पतनं कूपनद्यादौ सुखेशस्थानरा-  
शिपः ॥ सरित्स्थानेशसंदृष्टे यदि वा सुखपेन युक्त ॥ ११२ ॥

चतुर्थेश लग्नेशके साथ चतुर्थ स्थानमें दशमेशसे दृष्ट होवै तो नदी कुआं आदिके तीरमें फल  
॥ १११ ॥ सुखेश जिसकी राशिमें है वह सुखेशसे दृष्ट अथवा युक्त होवै तो कुआ नदी  
आदिमें पतन होवै ॥ ११२ ॥

शिलाप्रहारस्तस्य स्याद्रविभौमान्विते सुखे ॥ दृष्टे युते कर्मपेन  
सरित्स्थानाधिपेन वा ॥ ११३ ॥ सुखेशे राहुमंदाभ्यां सहिते  
कुंजवीक्षिते ॥ शुभदृष्टिविहीने तु शिलाभिः पीडितो नरः ॥ ११४ ॥

सूर्य मंगल चौथे दशमेशसे युक्त वा दृष्ट हों अथवा सुसुरेशसे दृष्ट युक्त हों तो उसकी  
पत्थरकी चोट लगे ॥ ११३ ॥ चतुर्थेश राहु शनिसे युक्त मंगलसे दृष्ट हो उसे शुभ ग्रह  
न देसे तो मनुष्य पत्थरसे पीडित होवै ॥ ११४ ॥

केन्द्रस्थिते रात्रिकरे भृगौ वा पापान्विते पापनिरीक्षिते वा ॥  
क्रूरांशके वा त्ववरोहभागे सोऽयं जनन्या सह संगमेति ॥ ११५ ॥  
पापेक्षिते पापयुते शशांके दिवाकरे वा यदि केन्द्रराशौ ॥ क्रूरे सुखे  
वा यदि पापदृष्टे जातो नरः स्यादिह मातृगामी ॥ ११६ ॥

चंद्रमा अथवा शुक्र केंद्रमें पापयुक्त वा पापदृष्ट हों तथा क्रूरांशकमें अवरोही हों तो यह  
मनुष्य माताका संग करता है ॥ ११५ ॥ चंद्रमा पापयुक्त दृष्ट हो सूर्य केंद्रमें क्रूर ग्रह  
पापदृष्ट सुखस्थानमें होवै तो इस योगमें भी मनुष्य मातृगामी होता है ॥ ११६ ॥

पापेक्षिते वा सुखभावनाथे पापान्विते सौम्यदृशा विहीने ॥  
दारेश्वराच्छग्रपतौ विहीने जातो नरो मातृसमानगामी ॥ ११७ ॥  
सहोदरी संगममाहुरन्ये दारेश्वरे क्रूरयुते सुखस्थे ॥ पापेक्षिते  
पापसमानमेव क्रूरादिपष्टचंशसमन्विते वा ॥ ११८ ॥

चतुर्थेश पापयुक्त वा पापदृष्ट हो शुभदृष्टि उसपर न होवै सप्तमेशसे लग्नेश होनजलहोवै तो  
ऐसे योगवाला मनुष्य मातृतुल्य स्त्रीका गमन करनेवाला होवै ॥ ११७ ॥ सप्तमेश पापयुक्त

वा दृष्ट चतुर्थ स्थानमें होवै अथवा क्रूर आदि षष्ट्यंशयुक्त होवै तो मातृगमन समान पाप पावै ऐसे योगमें कोई बहिनके साथ संगम होना फल कहते हैं ॥ ११८ ॥

सुखेशनौ पापनिरीक्षिते वा पापान्विते तादृशपापयुक्तः ॥ पापग्रहाणां भवने सुखे तु क्रूरादिषष्ट्यंशयुते तथैव ॥ ११९ ॥ षष्टेशभून्दनसंयुतेञ्जे सुखस्थिते पापनिरीक्षिते वा ॥ चंद्रांशसंयुक्तनवांशनाथे तथाविधे मातरि दोषमाहुः ॥ १२० ॥

चौथा शनि पापदृष्ट युक्त होवै तो वैसेही पापसे युक्त होवै चतुर्थमें पापराशि क्रूरादि षष्ट्यंश युक्त होवै तो वैसेही फल है ॥ ११९ ॥ छठे भावका स्वामी मंगलसे युक्त चंद्रमा-सुख स्थानमें हो अथवा पापदृष्ट हो और चंद्रमा जिसके नवांशमें है वह भी ऐसाही होवै तो मातामें वही दोष कहतेहैं ॥ १२० ॥

सुखेश्वरे राहुयुते सपापे शनैश्वरेणापि दिवाकरेण ॥ मातान्यसक्ता सुखराशिनाथसंयुक्तभागाधिपतौ तथैव ॥ १२१ ॥ सुखेश्वरे लग्नगते बलाढ्ये गुर्विन्दुसौम्यास्फुजिदर्कदृष्टे ॥ वैशेषिकांशे शुभदृष्टियुक्ते पतिव्रता तस्य भवेत्सवित्री ॥ १२२ ॥

चतुर्थेश पापयुक्त तथा राहुयुक्त शनि तथा सूर्यसे भी युक्त वा दृष्ट होवै तो उसकी माता अन्य पुरुषमें आसक्त होवै चतुर्थेश जिसके नवांशकमें है वह भी ऐसा होवै तोभी वह फल होगा ॥ १२१ ॥ चतुर्थेश बलवान् लग्नमें गुरु, चंद्रमा, बुध, शुक्र और सूर्यसे दृष्ट होवै वैशेषिकांशमें हो शुभ ग्रह दृष्टियुक्त होवै तो उसकी मा पतिव्रता होवै ॥ १२२ ॥

तथाविधे शीतकरे सराहुकेतौ सवित्री यदि नीचसक्ता ॥ मंदेन युक्ते सति शूद्रसक्ता वैश्येन सक्ता शशिसूनुयुक्ते ॥ १२३ ॥ रव्यन्विते क्षत्रियजातिशक्ता शुक्रेज्ययुक्ते द्विजपुंगवैश्च ॥ धरासुतेनापि तथाविधेन वक्तुं फलं तादृशमेव सत्यम् ॥ १२४ ॥

ऐसाही चंद्रमा चतुर्थेश होकर राहु वा केतुसे युक्त पापयुक्त होवै तो उसकी माता नीच जातिके पुरुषमें आसक्त होवै, यदि वह चंद्रमा शनियुक्त होवै तो शूद्रमें, बुधसे युक्त होवै तो वैश्यमें आसक्त होवै ॥ १२३ ॥ सूर्यसे युक्त होवै तो क्षत्रियमें, शुक्र बृहस्पतिसे युक्त होवै तो श्रेष्ठ ब्राह्मणमें तैसेही मंगलसे युक्त होवै तो वैसेही फल कहना सत्य होताहै ॥ १२४ ॥

षष्टेश्वरेण सहिते सुखराशिनाथे भाग्यस्थिते जनकमत्रविशं करोति ॥ भाग्याधिपेन सहिते यदि मातृनाथे सौख्यस्थिते

जनकमत्र विशं करोति ॥ १२५ ॥ लग्नेशभाग्येशमुखेशयुक्ते  
पष्ठाधिपे स्यात्परजात एव ॥ तदंशनाथेन युते तदीशे पापे-  
क्षितः स्यात्परजात एव ॥ १२६ ॥

चतुर्थेश पष्टेश युक्त नवम स्थानमें होवै तो उसकी उत्पत्ति वैश्यसे होगी यदि चतुर्थेश  
भाग्येशसे युक्त सुखस्थानमें होवै तोभी वही फल जानना ॥ १२५ ॥ लग्नेश भाग्येश सुखे-  
शसे पष्टेश युक्त होवै तो दूसरेसे उत्पन्न होगा पष्टेश जिसके नवाशमें है उसीसे युक्त भी हो  
पापदृष्ट होवै तोभी परजात ( जारज ) करताहै ॥ १२६ ॥

पापांतरे मातृगृहे तदीशे तत्कारके वा शुभदृष्टियुक्ते ॥ लग्नेश्वरा-  
द्धीनबले शुभेशे जातस्तदानीं परजात एव ॥ १२७ ॥ न  
वीक्ष्यते तद्गुरुणा विलम्बं निशाकरो वा गुरुणा न दृष्टः ॥ दिवा-  
करेणापि युते शशांके सपापचन्द्रे रविणा तथैव ॥ १२८ ॥

चतुर्थभाव पापांतर, चतुर्थेश अथवा चतुर्थभावकारक शुभग्रहसे दृष्ट वा युक्त होवै, चतु-  
र्थेश लग्नेशसे हीनबल होवै तो वह मनुष्य दूसरेसे उत्पन्न है ॥ १२७ ॥ लग्नको बृहस्पति  
न देखे अथवा चन्द्रमाको बृहस्पति न देखे चन्द्रमा सूर्यसे युक्त होवै अथवा चन्द्रमा पापयुक्त  
होवै तोभी वही फल होगा ॥ १२८ ॥

पापे शुभे मातृगृहे सपापे लग्नेश्वरे हीनबले सपापे ॥ परांशकादौ  
सुखभे तदानीं जातो नरः स्यात्परजात एव ॥ १२९ ॥ मातृ-  
स्थाने शुभयते कारके शुभसंयुते ॥ सद्भावपे बलाढ्ये वा मातुरा-  
युष्यमादिशेत् ॥ १३० ॥

नवम भावमें पापग्रह, चतुर्थ भाव सपाप, लग्नेश हीनबल सपाप तथा चतुर्थमें शत्रुके  
अशकमें होवै तो मनुष्य दूसरेसेही उत्पन्न जानना ॥ १२९ ॥ चतुर्थ स्थानमें शुभ ग्रह  
चतुर्थभावकारक शुभयुक्त वा नवमेश बलवान् यदा चतुर्थेश बलवान् शुभ ग्रह होवै तो माता  
दीर्घजीविनी होवै ॥ १३० ॥

चंद्रे बलिष्ठे यदि वा भृगौ वा सौम्येक्षिते शोभनभागयुक्ते ॥  
चतुष्टये मातृगृहे शुभाग्ने मातुश्च दीर्घायुरुदाहरन्ति ॥ १३१ ॥  
भावेशसंयुक्तनत्रांशनाथयुक्तांशपे केन्द्रयुते बलाढ्ये ॥ तस्मिच्छ-  
शांकाद्यदि केन्द्रयुक्ते मातुश्च दीर्घायुरुदाहरन्ति ॥ १३२ ॥



चंद्रमा वा शुक्र बलवान् शुभग्रहदृष्ट शुभग्रहोंके अशकमें चतुर्थस्थानमें होवै, चतुर्थमें शुभ-  
ग्रह होवै, अथवा ( मातृगृहाच्छुभाढ्ये ) ऐसाभी पाठ है अर्थात् चतुर्थसे केंद्र शुभयुक्त होवै तो  
माताको दीर्घायु कहतेहै ॥ १३१ ॥ चतुर्थेश जिसके नवाशकमें है वह भी जिस ग्रहके नवा-  
शकमें है वह केंद्रमें बलवान् होवै और चंद्रमासे भी केन्द्रमें होवै तोभी माताको दीर्घायु  
कहतेहै ॥ १३२ ॥

पापांतरे पापयुते शशांके पापेक्षिते मातृगृहे विनाशः ॥ शुक्रा-  
त्तथैवं प्रवदंति संतस्तत्स्थानपाद्वा कथयन्ति शेषम् ॥ १३३ ॥

निशाकरात्पापयुते स्मरे वा भृगोस्तथैवं जननीविनाशम् ॥ सुखे  
शनौ मातृविनाशमेति पापेक्षिते चेदचिरेण नाशः ॥ १३४ ॥

चंद्रमा पापोंके बीच, पापयुक्त पापदृष्ट चौथे होवै तो माताका विनाश होवे ऐसेही ज्योतिषज्ञ  
शुक्रसे और चतुर्थेशसे भी फल कहतेहैं ॥ १३३ ॥ चंद्रमासे सप्तममें पापयुक्त शुक्र होवै तो  
वैसेही मातृनाश फल होगा, चतुर्थमें शनि होवै तो मातृनाश होवै वह शनि पापदृष्ट भी होवै  
तो मातृनाश शीघ्रही होवै ॥ १३४ ॥ *मृदापरकैः*

शुभेक्षितश्चेच्चिरकालमृत्युमुदः ॥ वा महानुभावाः ॥ पापग्रहाणां  
भवने शनौ तु पापान्विते मापादिफलं ॥ १३५ ॥ *मातृविनाश*

पूर्वोंके चौथे शनि शुभग्रहदृष्ट होवै तो यही बड़े मतापी ज्योतिषी माताकी मृत्यु बहुत  
दिनोंमें होगी ऐसा कहतेहैं, वही शनि पाप ग्रहोंके राशिमें पापयुक्त होवै तो मातृनाश कुछही  
दिनमें होवै ॥ १३५ ॥

मातृस्थानाधिपस्यांशराशीशो यन्नवांशके ॥ तदंशनाथकिरणा-  
न्मातृकालं विनिर्दिशेत् ॥ १३६ ॥ नाथकारकराशीनां मध्ये यो  
बलवान्भवेत् ॥ यावानंशस्तदंशे स्यान्मेपादौ तत्र मृत्युदः १३७ ॥  
वक्रे तु द्विगुणं प्रोक्तं त्रिगुणं त्वतिवक्रगे ॥ चतुर्गुणं शुभैर्दृष्टे  
कालमेवं विनिर्दिशेत् ॥ १३८ ॥

चतुर्थेश जिसके नवांशकमें है वहभी जिसके नवांशकमें हो उसके राशियोंके अनुसार  
माताका जीवनसमय कहना ॥ १३६ ॥ भावेश भावकारक भावराशिमें से जो अधिक  
बलवान् हो वह जितने अंशमें है उसके अंशनाथसे मेपादि गणनासे नितनी संख्या हो उतने  
कालमें माताकी मृत्यु होतीहै यहाँ स्मरण चाहिये कि १२ राशियोंके १०८ नवाश होतेहैं  
वह काल १०८ वर्षके भीतर आताहै ॥ १३७ ॥ जो वह ग्रह वक्र होवै तो द्विगुण, अति  
वक्रमें त्रिगुण शुभग्रहोंसे दृष्टभी होवै तो चतुर्गुण समय कहना ॥ १३८ ॥

हृदये पापसंयुक्ते पापदृष्टे तदीश्वरे ॥ पापांतरे वा हृदये हृत्काप-  
ट्यं विनिर्दिशेत् ॥ १३९ ॥ शन्यारराहुसंयुक्ते हृदये शुभवर्जिते ॥  
तथैव तद्भावनाथे हृत्कापट्यं विनिर्दिशेत् ॥ १४० ॥ पापे कर्म-  
श्वरे सौख्ये कपटी पापवीक्षिते ॥ सपापे रंभ्रपे सौख्ये कापट्यं  
पापसंयुते ॥ १४१ ॥ भानुना क्षीणचंद्रेण सहिते हृदये यदा ॥  
कपटी क्षणमात्रं तु निष्कापट्यं तदूर्ध्वतः ॥ १४२ ॥

चतुर्थभाव ( हृदयस्थान ) पापयुक्त चतुर्थेश पापदृष्ट वा पापोंके बीचमें हो यदा चतुर्थ-  
भाव पापांतःस्थ होवै तो मनुष्यके हृदयमें कपट कहना ॥ १३९ ॥ चौथे शनि मगळ राहु  
होवै शुभग्रह न होवै ऐसाही भावेशभी पापयुक्त हो शुभयुक्त न होवै तो हृदयमें कपट होगा  
ऐसा कहना ॥ १४० ॥ दशमेश पापग्रह सुखस्थानमें पापदृष्ट वा युक्त हो तो मनुष्य  
कपटी होगा, अष्टमेश पापसहित चतुर्थ स्थानमें होवै तो मनुष्य कपटी होवै ॥ १४१ ॥  
चतुर्थ सूर्य वा क्षीणचंद्रमासे सहित होवै तो क्षणमात्र तो कपटी होवै उपरान्त निष्कपट  
रहे ॥ १४२ ॥

हृदये शुभसंयुक्ते स्वोच्चमि<sup>उत्प</sup>त्रे<sup>चंद्रमा</sup> सूर्ये ॥ शुभग्रहाणां क्षेत्रे वा नि-  
ष्कापट्यं विनिर्दिशेत् ॥ १४३ ॥ विशुद्धहृदयः शांतो हृदयेशे  
वलान्विते ॥ गोपुराद्यंशके वापि मृदंशादियुते तथा ॥ १४४ ॥

चतुर्थ स्थानमें शुभग्रह अपने उच्चमें वा मित्रके घरमें अथवा शुभग्रहकी राशिमें होवे  
तो निष्कपटता कहनी ॥ १४३ ॥ चतुर्थेश बलवान् होवै अथवा गोपुरादि अंशकमें मृदशादिमें  
होवै तो निष्कपट शुद्धहृदय और शांत होवै ॥ १४४ ॥

लग्नेश्वरे हृद्गते वा शुभयुक्तेशितेपि वा ॥ पारावतादिभागस्थे नि-  
ष्कापट्यं विनिर्दिशेत् ॥ १४५ ॥

लग्नेश चतुर्थ भागमें अथवा शुभग्रहयुक्त दृष्ट पारावतादि अंशकमें होवै तो मनुष्य निष्क-  
पट होवै ॥ १४५ ॥

लग्ने गुरौ दानवपूजितेन युक्ते यदा तस्य विशुद्धचित्तम् ॥ पापे  
सुखे तद्भावनाधिनाथे पापान्विते तस्य विरुद्धचित्तम् ॥ १४६ ॥  
राहौ सुखे पापदृशा समेते वहिर्विशुद्धस्त्विति तत्र भाति ॥  
अंतर्गतं तत्कपटं वदंति पापाधिकत्वे सुखराशियुक्ते ॥ १४७ ॥

लग्नमें बृहस्पति शुक्रयुक्त होवे तो शुद्ध ( निष्कपट ) चित्त होवै, चतुर्थमें पाप चतुर्थश पापयुक्त होवै तो चित्त विरुद्ध ( सकपट ) होवै ॥ १४६ ॥ चौथे राहु पापदृष्ट होवै तथा चौथे पापग्रह भावेश पापयुक्त होवै तो बाहरसेनिष्कपट और भीतरकपट होवै ॥ १४७ ॥

यदा लग्नसुखेशौ वा मित्रभूतौ परस्परम् ॥ शुभेक्षितौ शुभैर्युक्तौ  
मातृस्नेहं विनिर्दिशेत् ॥ १४८ ॥ लग्नेश्वरेण संदृष्टे मातृनाथे  
चतुष्टये ॥ शुभग्रहान्विते दृष्टे मातृस्नेहं विनिर्दिशेत् ॥ १४९ ॥  
शत्रुश्चेल्लग्ननाथस्य मातृलाभाधिपौ यदि ॥ पापेक्षिते पापयुते  
तच्छत्रुत्वं विनिर्दिशेत् ॥ १५० ॥

यदि लग्नेश चतुर्थश परस्पर मित्र होवै शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट होवै तो माताका विशेष स्नेह कहना ॥ १४८ ॥ चतुर्थश चंद्रमें लग्नेशसे दृष्ट शुभग्रह युक्त वा दृष्ट होवै तोभी मातृस्नेह कहना ॥ १४९ ॥ यदि चतुर्थश लग्नेश लग्नेशके शत्रु होवै पाप योग दृष्टिभी होवै तो माता और धेटकी शत्रुता रहे ऐसा कहना ॥ १५० ॥

लग्नेशान्नाशराशिस्ये मातृस्थानाधिपे यदि ॥ तथैव लग्नभावाद्वा  
तच्छत्रुत्वं विनिर्दिशेत् ॥ १५१ ॥ वाहनेशे वलयुते वाहने शुभ-  
संयुते ॥ शुभग्रहेण संदृष्टे वाहनादिफलं भवेत् ॥ १५२ ॥

चतुर्थश लग्नेशसे बारहवें होवै अथवा लग्नसे द्वादशवें होवै तो माताके साथ शत्रुता कहनी। ॥ १५१ ॥ वाहनेश बलयान् चतुर्थ स्थानमें शुभयुक्त शुभदृष्ट होवै तो वाहनादि फल मिलेगे ॥ १५२ ॥

सुवर्णवस्त्राभरणादियानं शुक्राद्भेदत्तसुखराशितो वा ॥ संदौ च-  
तुर्थाधिपतौ विलग्नै लग्नेश्वरेणापि युतेश्वलाभः ॥ १५३ ॥ शुक्रे-  
ण युक्ते यदि वाहनेशे देहान्विते वा नरवाहनादि ॥ देवेन्द्रपूज्येन  
युतेत्र लग्ने वदंति संतश्चतुरंगयानम् ॥ १५४ ॥

सुवर्ण वस्त्र भूषण सवारी शुक्रसे अथवा चतुर्थ राशिसे बलाबलानुसार कहने, चतुर्थश चंद्र-  
मा सहित लग्नमें लग्नेशसे भी युक्त होवे तो घोड़ेका लाभ होवे ॥ १५३ ॥ चतुर्थश शुक्रसे  
युक्त लग्नमें होवै तो नरवाहनादि पालकी नालकी आदि सवारी मिलें, यदि यहां लग्न बृह-  
स्पतिसे भी युक्त होवे तो घोड़े हाथी रथ मनुष्य चारों प्रकारकी सवारियां मिलें ॥ १५४ ॥

चन्द्रामरेज्यामरशत्रुपूज्यैर्युक्ते तनौ वा यदि वाहनेशे ॥ प्रोक्तं  
त्रयं वाहनमाहुरार्या नीचारिमूढादिविहीनखेटैः ॥ १५५ ॥ भाग्ये-

शलघ्नेशचतुर्थनाथाः कर्मस्थिता नीचविमूढहीनाः ॥ कर्मेश्वरे-  
णापि युते विलघ्ने सिंहासनप्राप्तिमुदाहरन्ति ॥ १५६ ॥

चंद्रमा, गुरु, शुक्रसे युक्त लग्न वा वाहनेन होवे परंतु नीच, शत्रु, अस्त आदिमें न होवे तो तीन प्रकारके वाहन रहें ॥ १५५ ॥ नवमेश, लग्नेश, चतुर्थेश दशमे होवें नीच अस्तंगत न होवें, अथवा दशमेश सहित लग्नेमें होवें तो सिंहासन मिले ऐसा कहतेहैं ॥ १५६ ॥

भाग्यस्थिते वाहनराशिनाथे सशुक्रजीवे सुखराशियुक्ते ॥ भा-  
ग्याधिपे कोणचतुष्टये वा बह्वर्थदेशाभरणार्थयानम् ॥ १५७ ॥  
भाग्याधिपेन सहिते यदि वाहनेशे जीवेक्षिते तनुगते बलपूर्ण-  
युक्ते ॥ स्वक्षेत्रतुंगसहिते यदि वा त्रिकोणे भूनाथमानववशाद्धन-  
वाहनादि ॥ १५८ ॥

चतुर्थेश नवम शुक्र बृहस्पति चतुर्थे वा नवमेश केंद्रमें होवे तो बहुत देशोंके भूषण, धन-  
सवारी मिले ॥ १५७ ॥ यदि चतुर्थेश नवमेशसे युक्त बृहस्पतिसे दृष्ट लग्नेमें पूर्ण बल  
युक्त स्वराशि वा उच्चका अथवा त्रिकोणमें होवे तो राजसे धन वाहन आदि मिलें ॥ १५८

भाग्येश्वरेणापि युते सुखेशे यत्र स्थिते पश्यति वा निजर्क्षम् ॥  
वैशेषिकांशे यदि वा बलाढ्ये सर्वार्थभाग्यान्वितवाहनः स्यात् ॥

॥ १५९ ॥ दुःस्थे विमूढे यदि वाहनेशे भाग्येश्वरेणापि समीक्षि-  
ते वा ॥ दुर्वाहिनी चंचलवाहिनी वा लाभाधिपेनापि समीक्षिते  
वा ॥ १६० ॥ सौर्याधिपे शोभनखेचरेण भाग्येश्वरेणापि  
युतेथ वा स्यात् ॥ सेनावहुत्वं समुपैति जातो बहुत्वदेशाभरणा-  
नि यानम् ॥ १६१ ॥

चतुर्थेश नवमेशसे युक्त किसी स्थानमें अपने गृहको देखे वैशेषिकांशमें अथवा बलवान्  
होवे तो संपूर्ण प्रकारके धन ऐश्वर्य सहित वाहन होवे ॥ १५९ ॥ यदि चतुर्थेश दृष्ट म्यानमें  
अस्तंगत हो और उसे भाग्येशभी देखे अथवा लाभेशसे दृष्ट होवे तो दृष्टसेना अथवा चंचल  
सेना ( पुच्छि ) आदि मिले ॥ १६० ॥ चतुर्थेश शुभग्रह तथा भाग्येशसे भी युक्त होवे  
तो मनुष्य बहुत सेना बहुत देशोंके आभरण वस्त्र भूषणादि सहित बहुत वाहन पावे ॥ १६१ ॥

भाग्येश्वरालाभगते विलग्ननाथे सुखेशे यदि भाग्यराशौ ॥  
सुखायभावे तनुनायके वा त्वसंख्ययानादियुतः प्रसिद्धः ॥ १६२ ॥

सुखेश्वरे केंद्रगते तदीशे लग्नस्थिते वा बहुवाहनाढ्यः ॥ कर्मेश्वरे  
लग्नगते तदीशे कर्मस्थिते वा बहुवाहनाढ्यः ॥ १६३ ॥

लग्नेश नवमेशसे लाभ स्थानमें चतुर्थेश नवम स्थानमें हो अथवा लग्नेश चौथे ग्यारहवें भावमें होवै तो असंख्य वाहनोंसे युक्त एव प्रसिद्ध ( विख्यात ) होवे ॥ १६२ ॥ चतुर्थेश केंद्रमें हो जिस राशिमें सुवेश है उसका स्वामी लग्नमें होवे तो बहुत वाहनोंसे युक्त होवै दशमेश लग्नमें लग्नेश दशवेमें होवै तो भी बहुत वाहनोंसे युक्त रहे ॥ १६३ ॥

सुखेश्वरे सौम्ययुते सुखस्थे शस्त्राश्वकोशाधिपतिर्भवेत्तु ॥ क्षेत्रेश्वरे  
लाभगते बलाढ्ये वंधौ भवे वा क्षितिसूनुयुक्ते ॥ १६४ ॥ भूसूनु-  
राशौ यदि वा सुवेशे राज्यार्थसौख्याभरणादियानम् ॥ सौम्ये  
विलग्ने सवलं प्रयुक्ते धर्मान्विते शोभनखेचरेन्द्रे ॥ १६५ ॥

चतुर्थेश चतुर्थमें शुभयुक्त होवे तो हथियार घोड़े और खजानेका स्वामी होवे चतुर्थेश लाभ स्थानमें बलवान् होवे अथवा चतुर्थ वा लाभ स्थानमें मंगल सहित होवे ॥ १६४ ॥ अथवा चतुर्थेश मंगलकी राशिमें होवे तो राज्य, धन, सुख, वस्त्र, भूषणादि और वाहन मिले लग्नमें बलवान् सौम्य ग्रह नवम स्थानमें शुभग्रह होवै ॥ १६५ ॥

स्वोच्चस्थिते वित्तपतौ च केंद्रे सिंहासनप्राप्तिमुदाहरन्ति ॥ सौ-  
म्येक्षिते धर्मगृहे तु केंद्रे सवित्तपाः शोभनखेचरेन्द्राः ॥ १६६ ॥  
उच्चे ग्रहे वा धनराशियुक्ते सिंहासनप्राप्तिमुदाहरन्ति ॥ केन्द्रे  
शुभाः पापखगास्त्रिपटलाभस्थितास्तत्पदमाहुरार्याः ॥ १६७ ॥

और धनेश अपने उच्चका केन्द्रमें होवै तो सिंहासनप्राप्ति योग कहते हैं, नवम स्थान शुभ दृष्ट होवे केंद्रमें धनेश सहित शुभ ग्रह होवे ॥ १६६ ॥ अथवा उच्चका ग्रह धनस्थानमें होवे तो सिंहासन प्राप्ति कहते हैं, केन्द्रमें शुभ ग्रह तीसरे, छठे, ग्यारहवें में पापग्रह होवें तो भी सिंहासन मिले ॥ १६७ ॥

गहेशे व्ययराशिस्थे पित्राद्यन्यं विदेशगः ॥ अष्टमस्थे गृहेशे वा  
स्वयं संपादयेद्गृहम् ॥ १६८ ॥ धनेशे लग्नभावस्थे कर्मेशे  
धनमाश्रिते ॥ वाहने स्वोच्चखेटस्थे वाहनाधिपतिर्भवेत् ॥ १६९ ॥  
लग्नवाहनभाग्येशास्त्वन्योन्यं केन्द्रमाश्रिताः ॥ लग्ननाथे  
बलाढ्ये वा वाहनाधिपतिर्भवेत् ॥ १७० ॥

चतुर्थेश वारहवै होवे तो पिताके घरसे अन्य घर विदेशमें बनावै अथवा चतुर्थेश अष्टम स्थानमें होवे तो आपही अपनेको घर बनावै ॥ १६८ ॥ धनेश लग्नमे दशमेश द्वितीय स्थानमें हो चतुर्थमें उच्चका ग्रह होवै तो वाहनोका स्वामी होवे ॥ १६९ ॥ लग्नेश चतुर्थेश नवमेश परस्पर केंद्रोंमें होवे लग्नेश बलवान् होवे तो वाहनोका स्वामी होवे ॥ १७० ॥

गोपुराद्यंशके वापि वाहनेशे बलान्विते ॥ लाभकर्मशुभाधी-  
शैर्दृष्टे वाहनसंयुतः ॥ १७१ ॥ परमोच्चांशके युक्ते भाग्येसे केंद्र-  
माश्रिते ॥ ग्रहद्वये तुंगयुते बहुवाहनपुंजभाक् ॥ १७२ ॥ धना-  
धिपेन संयुक्ते व्ययेशे स्वोच्चराशिगे ॥ भाग्याधिपेन संदृष्टे वाह-  
नाधिपतिर्भवेत् ॥ १७३ ॥

चतुर्थेश बलवान् गोपुरादि अंशकमें लाभेश, दशमेश, नवमेशसे दृष्ट होवै तो वाहनोसे युक्त रहे ॥ १७१ ॥ नवमेश केंद्रमे परम उच्चांशकमें होवै, दो ग्रह उच्चके होवैं तो बहुतसे वाहनोके समूहका स्वामी होवै ॥ १७२ ॥ व्ययेश अपने उच्चमें धनेशसे युक्त नवमेशसे दृष्ट होवै तो वाहनोका स्वामी होवै ॥ १७३ ॥

कर्माधिपे चतुर्थस्थे लाभनाथेन संयुते ॥ भाग्यनाथेन वा युक्ते  
बहुवाहनदेशभाक् ॥ १७४ ॥ उच्चाह्वये कर्मगते लग्ननाथेन  
वीक्षिते ॥ भाग्याधिपेन वा दृष्टे वाहनाधिपतिर्भवेत् ॥ १७५ ॥  
सिंहासनांशकगते कर्मवाहनराशिपे ॥ लग्नेश्वरेण संदृष्टे बहुवा-  
हनदेशभाक् ॥ १७६ ॥

दशमेश चौथे लाभेशसे युक्त अथवा नवमेशसे युक्त होवै तो बहुतसे वाहनोका स्वामी होवै ॥ १७४ ॥ उच्चका ग्रह दशममें लग्नेश अथवा नवमेशसे दृष्ट होवै तो वाहनोका स्वामी होवै ॥ १७५ ॥ दशम तथा चतुर्थका स्वामी सिंहासनांशमें हो लग्नेशसे दृष्ट होवै तो बहुतसे वाहनोके समूहका स्वामी होवै ॥ १७६ ॥

वाहनार्थतृतीयेषु भाग्यकर्मभवाधिपाः ॥ स्थिता वात्यर्थमा-  
नादिसंयुक्ते निधने शुभे ॥ १७७ ॥ स्वोच्चे सुखेशे तत्राथे  
केन्द्रकोणसमन्विते ॥ वाहने तुंगसंयुक्ते व्यये शुद्धे त्रिया-  
नभाक् ॥ १७८ ॥ परमोच्चांशके शुके कर्मेशे गृहसंयुते ॥  
संभवे तादृशे योगे वाद्यघोषादिभिर्युतः ॥ १७९ ॥ शंखवादि-

त्रयोषाद्यैः संयुक्ते भाग्यपे सुखे ॥ केंद्रोच्चकोणगे वापि कर्मेशे  
वाहनान्वितः ॥ १८० ॥

चतुर्थ, छाम, तीसरे भावोंमें नवमेश दशमेश छामेश होवै अथवा अतिबलसंयुक्त शुभ-  
ग्रह अष्टम भावमें होवै ॥ १७७ ॥ चतुर्थेश अपने उच्चमें हो उसका उच्चनाथ केंद्र  
त्रिकोणमे चतुर्थ स्थानमें उच्चका ग्रह होवै व्ययभाव शुद्ध ( ग्रहरहित ) होवै तो तीन  
वाहनोका स्वामी होवै ॥ १७८ ॥ शुक्र परमोच्चांशमें होवै दशमेश अपनी राशिमें होवै ऐसे  
योग होनेमें वाजाओंके शब्दसे युक्त वाहनोका स्वामी होवै ॥ १७९ ॥ नवमेश चतुर्थमें अथवा  
केंद्रमें उच्चका दशमेश होवै तो शंखवाजे आदियोंके शब्द सहित वाहनस्वामी होवै ॥ १८० ॥

शनिना संयुक्ते कर्मनाथे केंद्रे शुभान्विते ॥ लग्नेशे वृद्धिभं याते  
पणवादिरवैर्युतः ॥ १८१ ॥ कर्मभाग्यविलग्नेषु स्वोच्चे सौम्यग्रहाः  
स्थिताः ॥ दृष्टेषु वा लग्नपेन यानांते दुःखमाप्नुयात् ॥ १८२ ॥  
कर्मपट्सोदरसुखभाग्यलग्नव्ययेश्वराः ॥ सुताधिपेन सहिता  
ह्यसंख्यादद्यात्मदेशिभाक् ॥ १८३ ॥

दशमेश शनिसे युक्त केंद्रमें शुभग्रहयुक्त होवै लग्नेश उच्चाभिलाषी वा उदयी होवै तो  
पणव ( वाद्यविशेष ) आदिके शब्दसे युक्त वाहनाधीश होवै ॥ १८१ ॥ दशम नम और  
लग्नमे उच्चके शुभग्रह होवै लग्नेश उन भावोके देखे तो वाहनाधीश होवै परंतु अंतमें वाहनहीसे  
दुःखप्राप्त होवै ॥ १८२ ॥ दशम, छटा, तीसरा, चौथा, नवम, लग्न, व्ययभावोके स्वामी पंचमेशसे  
युक्त होवै तो अगणित धनवान् अपने देशके वाहनोका सुख भोग करे ॥ १८३ ॥

सुखं शुभयुते नाथे केंद्रकोणोच्चसंयुते ॥ भाग्येशे परमोच्चांशे  
सुखयानादिलाभभाक् ॥ १८४ ॥ मानेशे सुखराशिस्थे लाभे  
सौख्येशसंयुते ॥ लग्ने शुभेन संदृष्टे बहुयानादिलाभभाक् ॥ १८५ ॥  
मृदंगभेरीशंखादिकाहलादिरवैर्युतः ॥ राजयोगे समुद्भूते कर्मपे  
सौख्यसंयुते ॥ १८६ ॥

चतुर्थ भाव शुभग्रहयुक्त चतुर्थेश केंद्र त्रिकोणमें उच्च राशिका होवै, नवमेश परमोच्चां  
शमे होवै तो सुख देनेवाले वाहनादिसे युक्त होवै ॥ १८४ ॥ दशमेश सुखस्थानमे लाभे-  
शमी सुखस्थानमे हो, लग्नमें शुभग्रहकी दृष्टि होवै तो बहुत वाहन आदियोंके लाभवाला  
होवै ॥ १८५ ॥ दशमेश चतुर्थ स्थानमें हो और राजयोगभी होवे  
शंखादि, काहलाहि शब्दोंसे युक्त होवै ॥ १८६ ॥

बलाबलाच्छोभनदृष्टियोगात्प्रोक्तं तृतीयस्य फलं तु राशेः ॥  
चतुर्थराशेश्च फलं तथैव श्रीव्यंकटेशेन निरीक्ष्य सर्वम् ॥ १८७ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ तृतीयचतुर्थभावफलविचारो  
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अध्यायांतमें ग्रंथकर्ता कहताहै कि मैं व्यंकटेशने तृतीयराशि तथा चतुर्थ राशिका फल ग्रहभावके बलाबल शुभग्रह दृष्टियोगके अनुसार समस्त ग्रंथोंको देखकर कहाहै ॥ १८७ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषायां तृतीयचतुर्थभावफल-  
विचाराध्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अथ पञ्चमषष्ठभावफलविचाराध्यायः ।

सुतभवनात्सुतबुद्धिमंत्रिणामपि मंत्रभोजनपितृभावान् ॥ हृद-  
योदरप्रवेशं विवेकशक्तिं च निर्दिशेन्मतिमान् ॥ १ ॥

पंचम भावसे पुत्र, बुद्धि, मंत्रित्व, मंत्र, भोजन, पितृभाव, हृदय, उदरप्रवेश, विवेक-  
शक्तिका बुद्धिमान् ज्योतिषीने विचार करना, सोही आगे कहते है ॥ १ ॥

नाथैः कलत्रात्मजधर्मभानां पुत्रादिचिन्तां कथयेत्सर्जावैः ॥  
बुद्धिं तथा सोमसुतात्मजाभ्यां पितुस्तथैवात्मजभाग्यसूर्यैः ॥ २ ॥

सप्तम पंचम नवम भावोंके स्वामियों करिके तथा बृहस्पति करिके पुत्रादिका विचार कहना  
बुध तथा पंचम भावसे बुद्धिका तथा पंचम नवम और सूर्यकरिके पिताका विचार कहना ॥ २ ॥

पितुर्धनं याति सुखे सभानौ पुत्रे शशांके मरणं च मातुः ॥ सुते  
शुभे शोभनदृष्टियोगे पुत्रं ददात्येव तदा तदीशे ॥ ३ ॥

चतुर्थ स्थानमें सूर्य होवै तो पिताका धन पावै, पंचम खंडमा भी होवै तो माताको मृत्यु  
होवै, पंचम भावमें शुभग्रह शुभग्रहदृष्ट होवै अथवा पंचमेश शुभग्रह शुभग्रहसे दृष्ट होवै  
तो पुत्र देताहै ॥ ३ ॥

पुत्रस्थाने तदीशे वा गुरौ वा शुभवीक्षिते ॥ शुभेन सहिते वापि  
पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥ ४ ॥ लग्नेशे पुत्रभावस्थे पुत्रेशे बलसंयुते ॥  
परिपूर्णबले जीवे पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥ ५ ॥



पुत्रस्थान, अथवा पंचमेश वा गुरु शुभग्रहयुक्त दृष्ट होवे तो निस्सन्देह पुत्रप्राप्ति  
॥ ४ ॥ लग्नेश पंचम भावमें पंचमेश बलवान् बृहस्पति पूर्ण बली होवे तो भी  
फल हे ॥ ५ ॥

पुत्रस्थानाधिपे जीवे परिपूर्णबलान्विते ॥ लग्नाधिपेन वा शोभे  
पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥ ६ ॥ वैशेषिकांशके जीवे पुत्रेशोपि ग्रहण  
स्थिते ॥ शुभग्रहेण वा दृष्टे पुत्रप्राप्तिं समादिशेत् ॥ ७ ॥

स्थानगते वित्तनाथे पूर्णबलान्विते ॥ दृष्टे देवेन्द्रगुरुणा पुत्रप्राप्तिं  
न संशयः ॥ ८ ॥ लग्नपुत्राधिपौ युक्तावन्योन्यं वापि वीक्षिते  
क्षेत्रे परस्परस्थौ वा पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥ ९ ॥

पंचमेश बृहस्पति पूर्णबली हो अथवा पंचमेश बृहस्पतिको लग्नेश देखे तो निस्स  
प्राप्ति होगी ॥ ६ ॥ बृहस्पति और पंचमेश वैशेषिकांशकमें हों अथवा ग्रहसे दृष्ट हो  
पुत्रप्राप्ति कानी ॥ ७ ॥ धनभावेश पंचमभावमें पूर्णबलयुक्त हो अथवा बृहस्पतिसे दृष्ट हो  
तो निःसंशय पुत्रप्राप्ति हों ॥ ८ ॥ लग्नेश पंचमेश एकस्थानमें हो अथवा परस्पर देखे  
अथवा एककी राशिमें दूसरा परस्पर हो तो वही फल कहना ॥ ९ ॥

लग्नपुत्राधिपौ केंद्रे शुभग्रहसमन्वितौ ॥ कुटुम्बेशे बलाढये तु  
पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥ १० ॥ पुत्रस्थानाधिपस्यांशाराशीशे शुभसं-  
युते ॥ शुभेन वीक्षिते वापि पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥ ११ ॥ लग्नेशे  
दारभावस्थे भाग्येशे दारसंयुते ॥ द्वितीयेशे विलग्नस्थे पुत्रप्राप्तिर्न  
संशयः ॥ १२ ॥ दारेशग्रहसंयुक्तनवांशभवनाधिपे ॥ भाग्य-  
वित्तविलग्नैर्दृष्टे तत्प्राप्तिमादिशेत् ॥ १३ ॥

लग्नेश पुत्रेश केंद्रमें शुभग्रहसहित हों द्वितीयेश बलवान् होवे तो निस्सन्देह पुत्र  
होवे ॥ १० ॥ पंचमेश जिसके नवांशकमें है उसका स्वामी शुभग्रहयुक्त होवे अथवा शुभ  
दृष्ट होवे तो निस्सन्देह पुत्रप्राप्ति होवे ॥ ११ ॥ लग्नेश सप्तममें नवमेशभी सप्तममें होवे द्वि  
येश लग्नेमें होवे तो निःसंदेह पुत्रप्राप्ति होवे ॥ १२ ॥ सप्तमेश जिसके नवांशकमें है व  
नवमं द्वितीय और लग्नभावके स्वामी देखें तो पुत्रप्राप्ति कहनी ॥ १३ ॥

पापमध्ये तु यद्भावे दीशोऽपि तथा स्थिते ॥ कारके पापसंयुक्ते  
पुत्रनाशं वदेत्तदा ॥ १४ ॥ भाग्यपुत्रकलग्नेशसंयुक्तनवभागाः  
॥ ४ भांशाः पापयुताः पुत्रनाशं वदेत्तदा ॥

बलाबलाच्छोभनदृष्टियोगात्प्रोक्तं तृतीयस्य फलं तु राशेः ॥

चतुर्थराशेश्च फलं तथैव श्रीव्यंकटेशेन निरीक्ष्य सर्वम् ॥१८७॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ तृतीयचतुर्थभावफलविचारो

नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अध्यायांतमें ग्रंथकर्ता कहताहै कि मैं व्यंकटेशने तृतीयराशि तथा चतुर्थ राशिका फल ग्रहभावके बलाबल शुभग्रह दृष्टियोगके अनुसार समस्त ग्रंथोंको देखकर कहाहै ॥ १८७ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषायां तृतीयचतुर्थभावफल-  
विचाराध्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अथ पञ्चमषष्ठभावफलविचाराध्यायः ।

सुतभवनात्सुतबुद्धिमंत्रिणामपि मंत्रभोजनपितृभावान् ॥ हृद-  
योदरप्रवेशं विवेकशक्तिं च निर्दिशेन्मतिमान् ॥ १ ॥

पंचम भावसे पुत्र, बुद्धि, मंत्रित्व, मंत्र, भोजन, पितृभाव, हृदय, उदरप्रवेश, विवेक-  
शक्तिका बुद्धिमान् ज्योतिषोने विचार करना, सोही आगे कहते हैं ॥ १ ॥

नाथैः कलत्रात्मजधर्मभानां पुत्रादिचिन्तां कथयेत्सर्जाविः ॥

बुद्धिं तथा सोमसुतात्मजाभ्यां पितुस्तथैवात्मजभाग्यसूर्यैः ॥२॥

सप्तम पंचम नवम भावोंके स्वामियों करिके तथा बृहस्पति करिके पुत्रादिका विचार कहना  
बुध तथा पंचम भावसे बुद्धिका तथा पंचम नवम और सूर्यकरिके पिताका विचार कहना ॥२॥

पितुर्धनं याति सुखे सभानौ पुत्रे शशांके मरणं च मातुः ॥ सुते

शुभे शोभनदृष्टियोगे पुत्रं ददात्येव तदा तदीशे ॥ ३ ॥

चतुर्थ स्थानमें सूर्य होवै तो पिताका धन पावै, पंचम धंदमा भी होवै तो माताकी मृत्यु  
होवै, पंचम भावमें शुभग्रह शुभग्रहदृष्ट होवै अथवा पंचमेश-शुभग्रह-शुभग्रहसे दृष्ट होवै  
तो पुत्र देताहै ॥ ३ ॥

पुत्रस्थाने तदीशे वा गुरौ वा शुभवी

पुत्रप्राप्तिर्न संशयः ॥ ४ ॥ लग्ने

परिपूर्णत्रले जीवे पुत्रप्राप्तिर्न सं



बुद्धि नष्ट होवै ॥ ४५ ॥ पंचममें शनि होवै लग्नेशपर शनिकी दृष्टि और पंचमेश पापयुक्त होवै तो बुद्धिजड होगी ऐसा कहना ॥ ४६ ॥ शनि केतु राहुयुक्त शुभग्रहरहित पंचम भाव कारक शुभयुक्त होवै परंतु पंचमेश पापयुक्त अथवा क्रूर पष्ट्यंशमें होवै तो बुद्धि विस्मरणवाली होवै ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

सौम्ये तु बुद्धिभावस्थे गुरुशुक्रनिरीक्षिते ॥ तादृशे बुद्धिनाथे वा सर्वेषां बुद्धिदो भवेत् ॥ ४९ ॥ ऊहापोहसमर्थः स्यात्तदीशे गोपुरांशके ॥ ५० ॥ कारकस्थितराशीशे लग्ननाथेन वीक्षिते ॥ राजमन्त्री भवेदाता वाक्पतौ बलसंयुते ॥ ५१ ॥ बुद्धीश्वरेण संयुक्ते गोपुराद्यंशकान्विते ॥ आगामिसूचको मंत्री कारके केंद्रकोणगे ॥ ५२ ॥ भृगौ सौम्यसमायुक्ते दृष्टे ताभ्यां शुभांशके ॥ त्रिकालज्ञो भवेज्जीवे स्वांशे मृदंशसंयुते ॥ ५३ ॥

पंचमस्थानमें बुध, वृहस्पति शुक्रसे दृष्ट हो ऐसेही पंचमेशभी गुरु शुक्र दृष्ट होवै तो सभीको बुद्धिदेनेवाला होताहै ॥ ४९ ॥ पंचमेश गोपुरांशकमें होवै तो ऊहापोह ( दलील तर्क-रीर ) करनेमें समर्थ होवै ॥ ५० ॥ पंचमकारक जिसकी राशिमें है उसे लग्नेश देखे और गुरु बलवान् होवै तो राजमन्त्री तथा दाताभी होवै ॥ ५१ ॥ कारक ग्रह पंचमेशसे युक्त केंद्र-कोणमें वा गोपुरादि अंशकमें होवै तो भविष्य जाननेवाला मन्त्री होवै ॥ ५२ ॥ शुक्र बुधसे युक्त हो गुरु अपने नवांशमें मृदंशमें होवै बुध शुक्रसे दृष्ट होवै तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालका जाननेवाला होवै ॥ ५३ ॥

गोपुराद्यंशके वापि शुभांशे शुभवीक्षिते ॥ पुंग्रहे पुंग्रहं प्राप्ते पुंभागे पुत्रनायके ॥ सुपुत्रजननं विद्यात्प्रथमं नात्र संशयः ॥ ५४ ॥

पंचमेश गोपुरादि अंशकमें हो अथवा शुभग्रहके अंशकमें शुभग्रहसे दृष्ट पुरुषग्रहसे युक्त स्वयं पुरुष ग्रह होवै तो मध्यम सुपुत्र उत्पन्न होगा इसमें संशय नहीं ॥ ५४ ॥

स्त्रीराशौ स्त्रीग्रहे प्राप्ते स्त्रीभावे पुत्रनायके ॥ दारिकां प्रथमं विद्यात्पंढांशे पंढमादिशेत् ॥ ५५ ॥ कारकस्थितराशेर्वा पंचमे विन्दुसंख्यया ॥ नीचारिमृदगेहानां विन्दुं त्यक्त्वा सुतान्त्र-देत् ॥ ५६ ॥ पुत्रस्थानेशकिरणात्पुत्रभावांशकाद्देत् ॥ राशिम-जालैर्गुरोर्वापि वलोत्कर्पाद्देत्तथा ॥ ५७ ॥

पंचमेश स्त्रीराशिमें स्त्रीग्रहसहित स्त्रीनवांशकमें होवै तो प्रथम कन्या होवै यदि वह नपुंसकरादयंशकादिमें होवै तो नपुंसक पैदा होगा ऐसा कहना ॥ ५५ ॥ कारक जिस राशिमें है उससे अथवा पंचमभावके बिन्दु ( अष्टकवर्ग गणनासे ) की संख्यामें नीच, शत्रु, अस्तंगतके बिन्दुसंख्या छोड़के पुत्रसंख्या कहनी ॥ ५६ ॥ अथवा पंचमेशके रादिमसंरयासे पंचमभावांशकसंख्यासे अथवा रादिमयोंसे बृहस्पतिके बळवत्तासे पुत्रसंख्या कहनी ॥ ५७ ॥

लग्नपुत्रेश्वराभ्यां तु मित्रत्वेनैव मित्रता ॥ शत्रुत्वे शात्रवं प्रोक्तं समत्वे समता भवेत् ॥ ५८ ॥ लग्नपुत्रेश्वरौ खेटौ परस्परनिरीक्षितौ ॥ परस्परगृहांशस्थौ शुश्रूपां कारयेत्सुतः ॥ ५९ ॥ लग्नं पश्यति वा पुत्रनाथे लग्नान्विते यदि ॥ लग्नेश्वरे सुतर्क्षे वा पुत्रो वाक्यवशानुगः ॥ ६० ॥

लग्नेश पंचमेश परस्पर मित्र होंवें तो पिता पुत्रकी परस्पर मित्रता रहै उनके शत्रु होनेमें शत्रुता और सममें समता होतीहै ॥ ५८ ॥ लग्नेश पंचमेशकी परस्पर दृष्टि होवै, परस्पर राशि वा अंशकोंमें होवै तो पुत्र पितासे अपनी शुश्रूपा करवै ॥ ५९ ॥ पंचमेश लग्नको देखे यथा लग्नमें होवै तथा लग्नेश पंचममें होवै तो पुत्र पिताके अज्ञापर चलनेवाला होवै ॥ ६० ॥

पुत्रस्थानेश्वरे दुःस्थे लग्नेशेनापि वीक्षिते ॥ संदृष्टे कुजराहुभ्यां नित्यं पितृविदूषकः ॥ ६१ ॥ पंचमे गुरुशुक्राभ्यां सवित्रा सहितेऽथ वा ॥ एतेषां भवने वापि सोयं योजयिता भवेत् ॥ ६२ ॥ तृतीयेशे तृतीयस्थे पंचमेशे सुखं गते ॥ शुभोचखेदसंयुक्ते जातो भोजयिता भवेत् ॥ ६३ ॥

पंचमेश दुष्टभावमें हो लग्नेशसे भी दृष्ट हो परंतु मंगल राहु उसे देखें तो नित्य पिताका द्वेषी होवै ॥ ६१ ॥ पंचममें गुरु शुक्र हों सूर्यभी उनके साथ होवै अथवा युक्त ग्रहोंके स्थानमें पंचमेश त्रिभादि दुष्टभारमें होवै तो पिता पर आज्ञा चलानेवाला होवै ॥ ६२ ॥ तृतीयेश तीनों पंचमेश तीथे शुभग्रह वा उच्चरत्नों ग्रहसे युक्त होवै तो पिताको मूल सिद्धाने पिठाने वाळा होवै ॥ ६३ ॥

अन्नदानपरो नित्यं पंचमेशे शुभंगते ॥ शुभग्रहैः समायुक्ते युक्तीशे शुभसंयुते ॥ ६४ ॥ हृदये पापसंयुक्ते तदीशे पापसंयुते ॥ पापग्रहाणां मध्यस्थे दृढतं रोगमादिशेत् ॥ ६५ ॥ तदीशस्थांशराशीशे क्रूरपष्टयंशसंयुते ॥ क्रूरग्रहेण संदृष्टे दृढतं शल्यमादिशेत् ॥

॥ ६६ ॥ तन्नाथे नाशभावस्थे नाशस्थानेशसंयुते ॥ नीचारिभू-  
ढभावे वा हृद्गतं रोगमादिशेत् ॥ ६७ ॥ इति सुतभावः ।

पंचमेश शुभाशिमं यदा नवमस्थानमे शुभग्रहयुक्त होवै जिसकी राशिमं है वहभी शुभयुक्त होवै तो नित्य अन्न देनेमे तत्पर रहे ॥ ६४ ॥ हृदय ४ स्थानमें पाप, उसका स्वामी पापयुक्त. पापमध्य होवै तो हृदयमें रोग रहे पंचम उदरस्थान है उसके उपलक्षणसे उदररोग जानना ॥ ६५ ॥ उस भावका स्वामी जिसके नवांशकमें है उसका स्वामी क्रूर पृच्छंशमें हो क्रूरग्रहसे दृष्ट होवै तो हृदयमें ( शल्य ) गूलादिरोग होवै ॥ ६६ ॥ उस भावका स्वामी नाश १२ स्थानमें व्ययेशसहित हो अथवा नीच, शत्रु अस्तंगत होवै तो हृदयगत रोग कहना ॥ ६७ ॥ इति पंचमभावविचारः ॥

अथ षष्ठभावविचारः ।

अरिभवनादारिचोरक्षतविघ्नक्लेशनाभ्युदरदेशान् ॥ मधुरादिषड्  
पदंशान् ग्रहराशुदितान् वदेत्प्राज्ञः ॥ १ ॥

छठे स्थानसे शत्रु, चोर, घाव, विघ्न, क्लेश, नाभि. एवं उदररोगादि और मधुर आदि छः प्रकारके उपदग ग्रहराशियोंके अनुसार विचार करके विद्वानने फल कहने, ॥ १ ॥

पष्टेश्वरे क्रूरयुते विलम्बे रन्ध्रस्थिते वा व्रणदः शरीरे ॥ कर्मस्थिते  
तादृशखेचरेन्द्रे व्रणप्रदो गे शुभदृष्टियुक्ते ॥ २ ॥ पित्रादिभावा-  
दपि योजनीयं भावेशतत्कारकदृष्टियोगात् ॥ बलाबलेनापि  
विकल्प्य सर्वं तेषां व्रणं तत्कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३ ॥

छठे भावका स्वामी क्रूरयुक्त लग्नमे अथवा अष्टमभावमें होवै तो शरीरमें ( ग्रह ) विष्फो-  
ट्कादिबिद्ध होवै ऐसाही ग्रह दशमस्थानमें हो पापग्रहदृष्ट होवै तो अंगमें व्रण देनेवाला  
होताहै ॥ २ ॥ ऐसाही विचार पित्रादि सभी भावोंमें करना. भावेश भावकारक ग्रहके  
दृष्टियोगसे तथा बलाबलके अनुसार विचारके पित्रादियोंकोभी व्रणादि कहना ॥ ३ ॥

शिरोर्कादेर्मुखं कंठं श्रोत्रं नासा च गुह्यकम् ॥ पाणी पाश्वौ दृशौ  
पादौ प्रपदौ कुक्षिमादिशेत् ॥ ४ ॥ लग्नेशभूपुत्रशशांकपुत्राः सह-  
स्थिताः सौख्यगृहे व्यये वा ॥ अपानरोगं त्वथ वापवित्रं पश्यं  
ति पष्टं मुनयो वदन्ति ॥ ५ ॥ शशांकतत्पुत्रविलग्ननाथाः सरा-  
हवः केतुयुतास्तदंगे ॥ वैश्यं तु कुष्टं मुनयो वदन्ति शुभेक्षितास्तत्र  
भवेत्तदानीम् ॥ ६ ॥

छटे भावमें रोगकाभी विचार है शुभग्रहोंसे शुभत्व पापग्रहोंसे रोगादि छटे भावस्य राशिके उक्त अंगमें होताहै इसलिये अंगविभाग कहते हैं कि शिर १ मुख २ कंठ ३ कान ४ नाक ५ गुदा ६ हात ७ बगल ८ नेत्र ९ पैर १० पैरोंके तलुवे ११ और कुक्षि १२ ये क्रमसे हैं ॥ ४ ॥ लग्नेश मंगल और बुध चौथे वा वारहवें भावमें एकसाथ होवें तो गुदामें रोग होवै ९।६ भावोंको देखें तोभी वही फल मुनिजन कहते हैं ॥ ५ ॥ चंद्रमा बुध लग्नेश राहु वा केतुयुक्त छटे होवें तो कमलकुष्ठ होवै उनपर शुभदृष्टि होवै तो वह कुष्ठ तत्रस्य राशितुल्य अंगमें होवै ॥ ६ ॥

विना विलग्राधिपतिं ग्रहेषु लग्नस्थितेष्वत्र तु कुष्ठभाक् स्यात् ॥  
पित्रादिकानां फलमेवमाहुर्मुनीश्वराः कारकभावनाथैः ॥ ७ ॥ पैत्र्यं  
तु कुष्ठं कुजसंयुतेषु शैत्यं भवेन्मन्दसमन्वितेषु ॥ रक्तं तदा सूर्य-  
समन्वितेषु ग्रहोक्तदेशे नियतं तदाहुः ॥ ८ ॥

विना लग्नेश उक्त ग्रह लग्नमें होवें तो कुष्ठरोग होवै भावकारक. भावेशसेभी इसीप्रकार पित्रादिभावोंमें होवें तो पिता आदिको मुनीश्वर वही फल कहते हैं ॥ ७ ॥ उन ग्रहोंके साथ मंगलभी होवै तो पिताका कुष्ठ आया जानना, शनैश्वर युक्त होवै तो शीतसे उत्पन्न. सूर्ययुक्त होवै तो रुधिरसे उत्पन्न कुष्ठ ग्रहके उक्त स्थानमें अवश्य होगा बहते हैं ॥ ८ ॥

लग्नेशपट्टाधिपती दिनेशयुक्तौ ज्वरं चंद्रसमन्वितौ चेत् ॥ जलेन  
गंडं क्षितिमूनयुक्ते युद्धेन वा स्फोटकराशिभिर्वा ॥ ९ ॥ चैत्तेन  
रोगेण बुधेन युक्तौ निर्व्याधिकौ जीवसमन्वितौ चेत् ॥ शुक्रेण  
भार्याविपदं वदंति मंदेन नीचानिलरोगमाहुः ॥ १० ॥ सराहुके-  
तुर्यदि सर्पपीडा चौराग्निभीर्वातभयात्प्रमादः ॥

लग्नेश और पट्टेश सूर्ययुक्त होवें तो ज्वररोग होवै चंद्रमायुक्त होवै तो जल करके ( गंड ) गुल्मादि होवै मंगलसे युक्त होवें तो युद्धसे वा विस्फोटकादिसे राशितुल्य धातुसंबंधि रोग होवै ॥ ९ ॥ बुधसे युक्त हों तो मनके रोगसे पीड़ित रहे, बृहस्पतिसे युक्त होवें तो निरोगी रहे, शुक्रसे युक्त हों तो स्त्री मरनावै शनिसे युक्त हों तो नीचरोग वायुरोग कहने हैं ॥ १० ॥ राहु वा केतुसहित हों तो सर्पसे भय. वा विसर्पेण होवै तथा चोरभय. अग्निभय वायुकी भयसे ( ममाद ) विक्षिप्रता आदि होवै ॥

पट्टेश्वरश्चंद्रसुतेन युक्तः सागुर्विलग्रे स्वयमत्र शिश्रम् ॥ ११ ॥

छिनत्त्यसौ सौम्यदृशा विहीनः सभूमिपुत्रो यदि लिंगरोगात् ॥

कामेश्वरः शुक्रयुतो रिपुस्थः कलत्रपंडत्वमुदीरयन्ति ॥ १२ ॥

षष्ठेश बुधसहित तथा राहुसहित लग्नमें होवै तो आपही अपना लिंगछेदन करे ॥ ११ ॥  
यदि मंगलसहित हो उसपर शुभग्रहकी दृष्टि न होवे तो किसीरोगसे लिंगछेदन होवे,  
सप्तमेश शुक्रसहित छठा होवै तो स्त्री हिमडी होवै ॥ १२ ॥

पष्टेशलग्नाधिपती समंदौ केन्द्रत्रिकोणे यदि बन्धनं स्यात् ॥

सराहुकेतुर्यदि केन्द्रकोणे वदन्ति तज्ज्ञा निगडं तदानीम् ॥

॥ १३ ॥ पित्रादितत्कारकभावनाथैः पित्रादिकानां फलमाहुरन्ये ॥

तत्तद्गहाणां परिपाककाले त्वन्तर्दशायामथ वा वदन्ति ॥ १४ ॥

षष्ठेश तथा लग्नेश शनिसहित केन्द्रत्रिकोणमें होवै तो (बन्धन) कैद पावै यदि राहु केतु  
सहित केन्द्रकोणमें होवै तोभी ज्योतिषज्ञ वही फल कहते हैं ॥ १३ ॥ ऐसेही योग पित्रादि  
भावकारक भावेशसेभी होवें तो पिता आदिकोंभी वही फल कहतेहैं ये फल उन ग्रहोंकी  
दशामें अथवा अतर्दशामें कहने ॥ १४ ॥

धर्म शनौ वा सगुरौ तृतीये करच्छिद्रोऽर्के निधने व्यये वा ॥

त्रिधौ कलत्रे निधनान्वितो वा कुजेन युक्ते यदि वा सजीवे १५ ॥

कर्मस्थिताश्चेद्यदि राहुमन्दसौम्याः पदच्छेदयुतोऽत्र जातः ॥

शुक्रेज्यदृष्टे दिवसाधिनाथे सारे शनौ वा फणिनाथयुक्ते ॥ १६ ॥

क्रूरादिपष्ट्यंशसमन्विते वा विच्छेदनं तच्छिरसो वदन्ति ॥ मन्दे

विलग्नै मदने सराहौ कर्मान्विते भार्गवनन्दने च ॥ १७ ॥

कृष्णे शशांके मदराशियुक्ते विच्छिन्नहस्तः स भवेत्पदेन ॥ भूसु-

नुलग्नै यदि वा तदंशे सूर्याऽन्विते कृष्णानिशाकरे तु ॥ १८ ॥

फणीन्द्रचंद्रात्मजसंयुतेर्करश्म्याभिभ्रते ह्युदरस्य भेदः ॥ मंदोदये

सौम्यदृशा विहीने सर्पांर्कयुक्ते यदि कृष्णचन्द्रे ॥ १९ ॥ शस्त्रेण

कुक्षेर्दलनं वदन्ति जातस्य दर्शे मुनयो महान्तः ॥ २० ॥

शनि दृहसति सहित नरम वा तृतीय स्थानमें हो, सूर्य अष्टम वा द्वादशस्थानमें हो तो  
हाथ फटे मंगलयुक्त चंद्रमा सप्तम वा अष्टम स्थानमें हो अपना घृहम्पतिपुत्र  
होवे तोभी वही फल होगा ॥ १५ ॥ दशमस्थानमें राहु, शनि, बुध होवें तो  
पैर फटे ) सूर्य शुक्र गुरुसे दृष्ट अथवा मंगल शनि राहुयुक्त हों ॥ १६ ॥ अथवा भू-  
आदि षष्ट्यंशयन होवें तो शिर फटे, शनि लग्नमें अथवा सप्तममें राहुयुक्त होवें तथा दशममें



शुक्रभी होवै ॥ १७ ॥ कृष्णपक्षका चंद्रमा सप्तम होवै तो वह हाय पैर कटावै. लग्नमें मंगल वा उसका नवांशक होवै कृष्णपक्षका चंद्रमा सूर्ययुक्त हो ॥ १८ ॥ राहु बुधयुक्त होवै अस्तगतभी होव तो पेट फटे, शनि लग्नमें शुभदृष्टिरहित राहु सूर्ययुक्त क्षीण चंद्रमा होवै तो ॥ १९ ॥ शस्त्रसे कूखी फाडी जावै. विशेषतः दर्शमें अर्थात् पूरे क्षीण चंद्रमा होनेमें ऐसा फल मुनिलोग कहते है ॥ २० ॥

क्षीणे शशांके फणिनाथदृष्टे सौरौ शिरस्यास्य निकृंतनं स्यात् ॥

लग्ने शनौ सोमसुते स्वगेहे शौर्ये चतुर्थे सबुधेऽतिह्रस्वः ॥ २१ ॥

क्षीण चंद्रमा राहुसे दृष्ट शनि होवै तो उस मनुष्यका शिर फटे, लग्नमें शनि हो बुध अपने घरका होवै अथवा चौथा शनि बुधसहित होवै तो अतिठोटे कदका होवै ॥ २१ ॥

पष्ठाष्टमव्यये चन्द्रे लग्ननाथेन वीक्षिते ॥ मंदमांघ्रगुसंयुक्ते तस्य दुर्मरणं भवेत् ॥ २२ ॥

नीचारातिविमूढांशे मन्दे पापान्विते-  
क्षिते ॥ क्रूरपष्टचंशसंयुक्ते तस्य दुर्मरणं भवेत् ॥ २३ ॥

रंध्रेश्वर-  
स्थितत्र्यंशे पाशसर्पादिसंज्ञके ॥ दृकाणे मरणं व्याधिरुद्धंधान्मर-  
णं वदेत् ॥ २४ ॥ मंदमांघ्रगुसंयुक्ते रंध्रेशस्थत्रिभागपे ॥ तथा-  
त्रिधेर्कपुत्रे वा ह्युद्धंधान्मरणं वदेत् ॥ २५ ॥

चंद्रमा ६।८।१२ मैसे किसीमें लग्नेशसे दृष्ट तथा शनि केतु राहु सहित होवै तो उसका ( दुर्मरण ) विपूचिका उच्चपात विषबंधनादिसे मरण होवै ॥ २२ ॥ शनि नीच, शत्रु, मूढ अंगकमें पापयुक्त दृष्ट होवै क्रूरपष्टचंशमें होवै तो उस मनुष्यका दुर्मरण होवै ॥ २३ ॥ जिस द्रेष्काणमें अष्टमेश है वह पाश सर्प आदि होवै तो उस द्रेष्काणेशके दशा आदिमें व्याधि यद्वा फांसीसे मरण कहना ॥ २४ ॥ अष्टमेश जिसके द्रेष्काणमें है वह शनि केतु राहुसे युक्त होवै. अथवा शनि ऐसा होवै तो फांसीसे मरण होना कहना ॥ २५ ॥

पष्ठाष्टमेशे भौमे वा विक्रमेशसमन्विते ॥ मंदमांघ्रगुसंयुक्ते क्रूरांशे युद्धतो मृतिः ॥ २६ ॥

युद्धेन मरणं ब्रूयाच्छनियुक्तत्रिभागपे ॥ कुजेन वीक्षिते युक्ते भौमक्षेत्रे तदंशके ॥ २७ ॥

रविभौमौ यदा-  
न्योन्यं परस्परनिरीक्षितौ ॥ परस्परग्रहांशस्थौ द्वंद्वयुद्धान्मृतिं वदेत् ॥ २८ ॥

षष्ठेश अष्टमेश अथवा मंगल पराक्रमेशसे युक्त हों तथा शनि केतु राहु सहित हों क्रूरांशकमें होवै तो युद्धसे मरण होवै ॥ २६ ॥ शनि जिसके द्रेष्काणमें है वह मंगलसे

दृष्ट वा युक्त हो मंगलके राशि वा अंशकमें होवै तो युद्धसे मरण होवै ॥ २७ ॥ यदि सूर्य मंगलकी आपसमें परस्पर दृष्टि होवै परस्पर राशि अंशकमें होवै तो मल्दयुद्धसे मरण होग कहना ॥ २८ ॥

अष्टमे बहवः पापा भौमराशिगतांशकाः ॥ क्रूरपष्टयंशकयुताः  
सद्यस्तन्मरणं वदेत् ॥ २९ ॥ नीचमूढारिगेहस्थाः साम्याः सर्वे  
पराजिताः ॥ पापांशस्थाः पापयुताः सद्यस्तस्य मृतिं वदेत् ॥ ३० ॥  
सद्यः स्यान्मरणं तस्य शनिराहुदिनाधिपाः ॥ रंध्रेश्वीक्षिताः  
सर्वे क्रूरांशान्मूढसंयुताः ॥ ३१ ॥

अष्टम स्थानमें बहुत पापग्रह मंगलके राशि नवांशके होवै क्रूरपष्टयंशकमें होवै तो ( तत्काल मरण ) अकस्मात् मृत्यु होवै ॥ २९ ॥ समस्त शुभग्रह नीच अस्त शत्रुराशिमगत होवै युद्धमें पराजित तथा पापांशकमें पापग्रहोंसे युक्त होवै तो वैसाही फल कहना ॥ ३० ॥ शनि, राहु, सूर्य, अष्टमेशसे दृष्ट हों सभी क्रूरांशकमें हों अस्तगत हों तो उसमनुष्यका अचानक मरण होवै ॥ ३१ ॥

रोगस्थानगते सूर्ये तद्भावे पापसंयुते ॥ पापदृष्टियुते नाभौ-  
पैत्तिकाद्भ्रणमादिशेत् ॥ ३२ ॥ तथाभूते निशानाथे क्रूरदृष्टे  
तदंशके ॥ वातादितो भवेज्जातो रक्तपित्तादितः कुजे ॥ ३३ ॥

छठे स्थानमें सूर्य पष्टेश पायुक्त पापदृष्ट होवै तो नाभि स्थानमें पित्तविकारसे भ्रण कहना ॥ ३२ ॥ ऐसाही चंद्रमा होवै क्रूरदृष्ट क्रूरांशकगत होवै तो मनुष्य वातरोगसे पीडित होवै, इसीप्रकार मंगल होवै तो रक्तपित्तसे पीडित रहे ॥ ३३ ॥

श्लेष्मवातादितस्सौम्ये तथाभूते विशेषतः ॥ जीवे तु विद्रधिर्वाच्यः  
शुके मूलातिसाररुक् ॥ ३४ ॥ तथाभूते शनौ गुल्मरोगो वात्र  
विशेषतः ॥ राहुकेतुसमायुक्ते बाधा पैशाचिकी स्मृता ॥ ३५ ॥

उसीप्रकार बुध होवै तो विशेष करके श्लेष्म तथा वातरोगसे पीडित होवै, बृहस्पति वैसा होवै तो ( विद्रधि ) किसी अंगमें गुमडा आदि रोग होता है, शुक होवै, तो अतिसार रोग होवै ॥ ३४ ॥ ऐसा शनि होवै तो विशेषकरके गुल्मरोग होवै, राहु, केतुसे युक्त होवै तो पिशाचकी बाधा होवै ॥ ३५ ॥

चंद्रे पष्टे कुजयुते भ्रांतिपांड्वादिरोगभाक् ॥ सारे चन्द्रे रवियुते  
शूलवैसर्पे रोगभाक् ॥ ३६ ॥ पष्टे कुजे बुधयुते भृगुचन्द्रनिरी-  
क्षिते ॥ क्रूरांशकसमायुक्ते क्षयरोगं वदंति हि ॥ ३७ ॥

छटा चंद्रमा मंगल सहित होवै तो ( भ्रांति ) चित्तभ्रम तथा पाण्डु आदि रोगवाला होवै, चंद्रमा छटा मंगल सूर्य सहित होवै तो शूलरोग विसर्प रोग होवै ॥ ३६ ॥ छटा चन्द्रमा—  
बुधयुक्त होवै शुक्र चन्द्रमा उसे देखें क्रूरशकमें होवै तो क्षयरोग निश्चय कहतेहैं ॥ ३७ ॥

शन्यारसहिते षष्ठे रविराहुनिरीक्षिते ॥ लग्नेश्वरे हीनबले दीर्घ-  
रोगी भवेन्नरः ॥ ३८ ॥ षष्ठे शनौ सगुलिके रव्यारफणिवीक्षिते ॥  
शुभैर्न दृष्टे युक्ते वा श्वासकासक्षयादियुक् ॥ ३९ ॥

छठे भावमे शनि मंगल होवें सूर्य राहु उन्हे देखें लग्नेश निर्बल होवै तो मनुष्य दीर्घ-  
रोगी होवै ॥ ३८ ॥ छठे शनि गुलिक सहित होसूर्य, मंगल, राहु उनको देखें शुभग्रहोंसे  
युक्त दृष्ट न होवै तो श्वास, कास, क्षय, आदि रोगोंसे युक्त होवै ॥ ३९ ॥

जलराशिगते चन्द्रे षष्ठे तद्भवनाऽधिपे ॥ जलक्षस्थविदा दृष्टे  
मूत्रकृच्छ्रदिकं भवेत् ॥ ४० ॥ षष्ठे चन्द्रे शनौ रन्ध्रे व्यये पापे  
विलग्नपे ॥ पापांशकसमायुक्ते पीनसं रोगमादिशेत् ॥ ४१ ॥

छटा चन्द्रमा जलचरराशिका हो षष्ठेश जलराशिमें बुधसे दृष्ट होंवै तो मूत्रकृच्छ्र आदि  
रोग होवै ॥ ४० ॥ छटा चन्द्रमा अष्टम शनि बारहवेंमें पापग्रह और लग्नेश पापांशकमें  
होवै तो पीनस रोग होगा कहना ॥ ४१ ॥

बलहीनेऽरिनाथे वा लग्नस्थे वा धरासुते ॥ मूर्धातिर्मुखरोगो वा  
गुल्मविद्रधिभागभवेत् ॥ ४२ ॥ षष्ठेश्वरस्थितांशेशे रव्यादौ हि  
तथा भवेत् ॥ फलं पूर्वोक्तमप्यत्र क्रमात्तस्य विनिर्दिशेत् ॥ ४३ ॥

षष्ठेश बलरहितहो वा लग्नमें हो अथवा लग्नमें मंगल होवै तो शिरमें पीडा वा मुखरोग यदा  
गुल्मरोग ( विद्रधि ) ग्रंथि ग्रण रोगवाला होवै ॥ ४२ ॥ षष्ठेश जिसके नवांशकमें हो वहभी  
ऐसा होवै तो सूर्यादिकोंमेंसे जो ग्रह हो उसके धातुके अनुसार यदा ग्रहोक्त अंगमें क्रमसे  
पूर्वोक्त फल कहना ॥ ४३ ॥

शत्रुस्थानाधिपे केन्द्रे पापग्रहनिरीक्षिते ॥ षष्ठे वा पापबाहुल्ये शत्रु-  
पीडां विनिर्दिशेत् ॥ ४४ ॥ लग्नेशे शत्रुराशिस्थे तदीशे लग्नमाश्रिते ॥  
मन्दमाद्यगुसंयुक्ते शत्रुपीडां विनिर्दिशेत् ॥ ४५ ॥ पापग्रहेण संदृष्टे  
बलहीनेऽरिनायके ॥ पापांतरगते वापि शत्रुपीडां विनिर्दिशेत् ॥ ४६ ॥

षष्ठेश केन्द्रमें पापग्रहोंसे दृष्ट होवै अथवा छठे स्थानमें बहुत पाप होवें तो शत्रुसे पीडा  
मिले ॥ ४४ ॥ लग्नेश शत्रु राशि ( छठे भाव ) में हो षष्ठेश लग्नमें हो शनि राहु केतुसे

युक्त होवै तो शत्रुपीडा कहनी ॥ ४५ ॥ षष्ठेश पापग्रहदृष्ट तथा बलरहित होवै अथवा पाप-  
ग्रहोंके बीच होवै तो शत्रुपीडा कहनी ॥ ४६ ॥

शत्रुस्थानाधिपे दुःस्थे नीचमूढारिसंयुते ॥ लग्नेशे वलसंयुक्ते  
शत्रुनाशं वदेद्बुधः ॥ ४७ ॥ शुभग्रहेण संदृष्टे शत्रुस्थानाधिपे  
यदा ॥ शुभान्विते शुभक्षेत्रे तेन भैत्रीं वदेद्बुधः ॥ ४८ ॥ लग्नेशा-  
द्वलहीने तु शत्रुस्थानाधिपे यदा ॥ शुभान्विते शुभैर्दृष्टे शत्रूणां  
मैत्रमादिशेत् ॥ ४९ ॥

षष्ठेश दुष्टस्थानमे नीच, अस्त, शत्रुराशिस्थ होवै लग्नेश बलवान् होवै तो पंडित शत्रुका  
नाश होगा कहे ॥ ४७ ॥ षष्ठेश यदि शुभग्रहदृष्ट शुभयुक्त शुभग्रहके राशिमें होवै तो पंडित  
शत्रुसे मित्रता होगी कहे ॥ ४८ ॥ यदि षष्ठेश लग्नेशसे हीनबली होवै शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट  
होवै तो शत्रुओंसे मित्रता होगी कहना ॥ ४९ ॥

लग्नेशेऽष्टमभावस्थे षष्ठेशेन निरीक्षिते ॥ तौ वा विलग्नभावस्थौ  
ज्ञातिपीडां विनिर्दिशेत् ॥ ५० ॥ गुरुशुकौ विलग्नस्थौ पष्ठभावे-  
श्वरान्वितौ ॥ शन्यारफणिसंदृष्टौ ज्ञातिपीडां विनिर्दिशेत् ॥ ५१ ॥  
लग्नाधिपे शुभयुते पष्ठे चंद्रेऽथ वा शुभे ॥ केन्द्रत्रिकोणगे सौम्ये  
ज्ञातिभिः सह जीवनम् ॥ ५२ ॥ ज्ञातयो बहवः संति पष्ठेशे  
देवपूजिते ॥ शुभान्विते शुभैर्दृष्टे मृद्वंशादिसमन्विते ॥ ५३ ॥

लग्नेश अष्टम षष्ठेशसे दृष्ट हो अथवा लग्नेश षष्ठेश लग्नमें हों तो अपनी जातिवालोंको  
पीडा होगी कहना ॥ ५० ॥ गुरु और शुक लग्नमें षष्ठेश सहित होवें शनिमंगल राहु उन्हें  
देखे तो ज्ञातिपीडा कहनी ॥ ५१ ॥ लग्नेश शुभग्रहयुक्त हो छठे स्थानमें चंद्रमा वा कोई  
शुभग्रह हो बुध केन्द्रत्रिकोणमें होवै तो विरादरीके साथ आजीवन होवै ॥ ५२ ॥ षष्ठेश  
वृक्षसति शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट एवं मृद्वंशादियुक्त होवै तो विरादरी बहुत बडी होवै ॥ ५३ ॥

ज्ञातिक्षयं विजानीयात्पष्ठेशे पापसंयुते ॥ क्रूरांशनीचमूढादौ  
शुभदृग्योगवर्जिते ॥ ५४ ॥ पारावतादिभागस्थे लग्नेशे शुभवी-  
क्षिते ॥ ज्ञातीशे बलहीने वा तस्मादुत्कर्षतां व्रजेत् ॥ ५५ ॥  
भाग्येशे पष्ठराशिस्थे षष्ठेशेन निरीक्षिते ॥ पष्ठेशे मन्दभौमाभ्यां  
युते चौराग्निपीडनम् ॥ ५६ ॥

षष्ठश पापयुक्त हो कूरांशकमें तथा नीचास्तादिमें हो शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट न हो तो अपनी जातिवालोकका क्षय होवै ॥ ५४ ॥ लग्नेश शुभग्रहदृष्ट पारावतादि अशकमें हो चतुर्थेश बलरहित होवै तो अपनी जातिमें श्रेष्ठना पावै ॥ ५५ ॥ नवमेश छटा होवै षष्ठेश उसे देखे, तथा षष्ठेश शनि मगलसे युक्त होवै तो, चोर तथा अग्निसे पीडन होव ॥ ५६ ॥

तदीशे गोपुरांशादौ दिवसेशेन वीक्षिते ॥ लग्नेशे बलसंपूर्णे ज्ञातीनामुपकारकृत् ॥ ५७ ॥ पष्टे सौम्ये शुभैर्दृष्टे तदीशे शुभसंयुते ॥ पापग्रहाणां मध्यस्थे सूपदंशप्रियो भवेत् ॥ ५८ ॥

षष्ठेश गोपुरांशादिमें सूर्यसे दृष्ट होवै, लग्नेश पूर्ण बली होवै तो अपनी जातिवालोकका उपकर करनेवाला होवै ॥ ५७ ॥ छटा बुध शुभग्रहदृष्ट हो षष्ठेश शुभयुक्त होवै परन्तु पापग्रहोंके मध्यभी होवै तो अच्छे क्षारपदार्थोंको मिय माने ॥ ५८ ॥

उपदंशप्रियो नित्यं पष्टे जीवे शशांकजे ॥ क्षेत्रे तयोर्वा संप्राप्ते मृदंशादिसमन्विते ॥ ५९ ॥ देवेज्ये पष्टभावेशे शुके वा तस्य नायके ॥ मधुरादिप्रियो नित्यं गोपुराद्यंशकाऽन्विते ॥ ६० ॥

छटे बृहस्पति बुध हों षष्ठेश गुरु बुधके अशकमें मृदंशादिमें होवै तो क्षारवस्तु मिय होवै ॥ ५९ ॥ षष्ठेश गुरु वा शुक्र गोपुरादि अशकमें होवै तो मीठा आदि पदार्थ मिय माने ॥ ६० ॥

शुके पष्टे ससौम्ये वा शुभदृष्टे शुभांशके ॥ बलाऽन्विते शुभांशस्थे नित्यं मधुरभागभवेत् ॥ ६१ ॥ पापग्रहेण संदृष्टे बुधे मधुरवर्जितम् ॥ बुधेन युक्ते शुकेऽरौ त्वम्लभाक् स नरो भवेत् ॥ ६२ ॥ पष्टे शुके भौमदृष्टे भौमे शुके तदन्विते ॥ दिवसेशेन वा दृष्टे त्वम्लभाक् स नरो भवेत् ॥ ६३ ॥

शुक्र छटा होवै अथवा बुधयुक्त होवै शुभग्रहोंसे दृष्ट शुभांशकमें हो बलवान् तथा पारावतादि शुभांशकमें होवै तो नित्य मीठा खानेवाला होवै ॥ ६१ ॥ बुध पापग्रहोंसे दृष्ट होवै तो मीठा न खावै, बुधसहित शुक्र छटा होवै तो वह मनुष्य खट्टा खानेवाला होवै ॥ ६२ ॥ छटा शुक्र मगलसे दृष्ट हो अथवा मगल शुक्र छटे हों अथवा सूर्य उसे देखे तो वह मनुष्य खट्टा बहुत खावे ॥ ६३ ॥

षष्ठेशे भौमसंदृष्टे राहुकेतुनिरीक्षिते ॥ भौमक्षेत्रगते वापि विप्रलंभादिचौर्यभाक् ॥ ६४ ॥ पुत्रादीनामिदं योज्यं तत्तद्भावप्रकार-

कैः ॥ नास्तिकाय न वक्तव्यं वक्तव्यं सुजनाय वै ॥ ६५ ॥  
अध्यायः पंचमः प्रोक्तः पंचषड्भाववाचकः ॥ विचित्रार्थसमा-  
युक्तो वैकण्ठेशेन धीमता ॥ ६६ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ पञ्चमषष्ठभावफलविचारो नाम  
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

षष्ठेशपर मंगलकी दृष्टि हो राहु केतुभी देखे अथवा मंगलकी राशिमें होवे तो विशेष  
वादमतिवाद करके दूसरेसे किसीमकारकी विद्या आदि चोरे ॥ ६४ ॥ ऐसेही फल पुत्रादि  
भावोंमें उन भावोंके विचारसे उन पुत्रादिकोंको भी कहना यह शास्त्र नास्तिकके आगे न  
कहना सज्जनसे कहना ॥ ६५ ॥ यह पांचवां अध्याय पंचम तथा छठे भावका फलवाचक  
विचित्रार्थयुक्त धीमान् वैकण्ठेशने कहा ॥ ६६ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभापाटीकायां पञ्चमषष्ठभावफल-  
विचाराध्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमभावफलविचाराध्यायः ।

युवतिपदाद्बुद्धाहं भार्यापतिसूपदाधिगुडक्षीरम् ॥

आगमगमनमदार्तिं ब्रूयान्मूत्राशयं च नष्टधनम् ॥ १ ॥

सप्तम भावसे विवाहविचार, स्त्री पति विचार, दाल, दही, गुड, दूध, आगमन, गमन,  
कामदेवार्ति तथा मूत्राशयका विचार और चोरी आदिसे नष्ट धनका विचार कहना ॥ १ ॥

शुके कलत्रे त्वतिकामुकः स्याद्बुधेऽन्ययोपानिरतो गुरौ तु ॥

स्वदारसक्तो दिननाथपुत्रे कुदाररम्यः सुपतौ सुदारः ॥ २ ॥ कुजे

बहुस्रपिरतः कुलघ्नो भानौ कुटुम्बी बहुदारसक्तः ॥ लग्नस्थिता

वित्तकलत्रशत्रुनाथाः सशुक्रा यदि पापयुक्ताः ॥ ३ ॥

शुकः सप्तम होवे तो अतिकामी होवे, बुधसे परस्त्रीगामी, बृहस्पतिसे अपनो स्त्रीमें आसक्त,  
शनिसे दुष्टस्त्रीमें रमण करनेवाटा होवे सप्तमेश शुभ होवे, तो अच्छी स्त्री होवे ॥ २ ॥ मंगल  
सप्तम होवे तो बहुत स्त्रियोंके होतेभीपुत्र ( दूसरेकी स्त्री तथा परम नीचताति नाचकर्मकरने-

वाली स्त्रीका प्रसङ्ग कर अपने कुलको नष्ट करनेवाला ) होवै । सूर्यसे कुटुंबवाला बहुत स्त्रियोंमें आसक्त होवै । लग्नमें दूसरे, सप्तम, पंचम और छठे भावके स्वामी शुक्रसहित तथा पाप सहित होवै तो ॥ ३ ॥

जातः परस्त्रीषु रतः कुमार्गी शुभेक्षितश्चेन्न तथा भवेच्च ॥ लग्न-  
रिपौ पापयुतौ यदि स्याज्जातः परस्त्रीषु रतः कुमार्गी ॥ ४ ॥  
लग्नेश्वरे शत्रुकुटुम्बनाथे पापयुते वा यदि दारराशौ ॥ सौरो सपापे  
यदि दारनाथे जातः परस्त्रीषु रतः कुटुम्बे ॥ ५ ॥ सराहुकेतौ  
यदि दारनाथे पापेक्षिते वा व्यभिचारयोगः ॥ कर्मेशावित्तेशक-  
लग्ननाथा मानस्थिता जारमुदाहरन्ति ॥ ६ ॥

मनुष्य पराई स्त्रियोंमें आसक्त और कुमार्ग चखनेवाला होवै, यदि शुभग्रहोंसे दृष्टभी होवै तो वैसा न होवै कुछ कम होवै यदि लग्नेश पण्डेश पापयुक्त होवै तो परस्त्रीमें आसक्त तथा कुमार्गी होवै ॥ ४ ॥ लग्नेश पण्डेश द्वितीयेश पापयुक्त हो अथवा सप्तममें शनि, सप्तमेश पापयुक्त होवै तो पराई स्त्रीमें आसक्त रहे । यदि दूसरे भावमें ॥ ५ ॥ राहु वा केतु हो सप्तमेश पापदृष्ट होवै तो व्यभिचारयोग होताहै । दशमेश, धनेश, सप्तमेश वशममें हों तो जार (परस्त्री गमन करनेवाला) कहतेहैं ॥ ६ ॥

एको ग्रहस्तेषु चतुर्थराशौ जातः परस्त्रीगमनं प्रयाति ॥ पुत्रेश्वरे  
दारपतौ बलाढये दृष्टे युते वा त्वरिनायकेन ॥ ७ ॥ जातोऽ-  
नपत्यो यदि तत्कलत्रे जारात्सुतः स्याच्छुभखेटदृष्टे ॥ दारे<sup>मंगल</sup>श्वरे  
पापयुते कुटुम्बे भौमेन दृष्टे यदि जारपुत्रः ॥ ८ ॥

दशम द्वितीय सप्तम भावोंके स्वामियोंमें से एकभी ग्रह चौथे स्थानमें होवै तो परस्त्री-  
गमन करे । पंचमेश एवं सप्तमेश बलवान् हों पण्डेशसे दृष्ट वा युक्त हो ॥ ७ ॥ तो मनुष्य-  
अपुत्र होवै, यदि योगकर्त्ता उक्त ग्रह सप्तममें होवै और उसपर शुभग्रहकी दृष्टिभी होवै तो  
जारसे संतान पैदा होवै । सप्तमेश पापयुक्त दूसरे भावमें हो मंगल उसे देखे तो जारसे-  
पुत्र पैदा होवै ॥ ८ ॥

धीधर्मनाथौ सकलग्ननाथौ दुःस्थानगौ हीनवलौ शुभैर्न ॥ दृष्टे  
सुते दारबहुत्वयोगे त्वपुत्रयोगं मुनयो वदन्ति ॥ ९ ॥ क्षीणे  
शशांके यदि पापयुक्ते दारस्थिते त्वन्यकलग्नगामी ॥ लग्ने  
सपापे यदि दारनाथे जातः परस्त्रीषु रतः कुमार्गी ॥ १० ॥

कैः ॥ नास्तिकाय न वक्तव्यं वक्तव्यं सुजनाय वै ॥ ६५ ॥  
अध्यायः पंचमः प्रोक्तः पंचषड्भाववाचकः ॥ विचित्रार्थसमा-  
युक्तो वेंकटेशेन धीमता ॥ ६६ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ पञ्चमपष्ठभावफलविचारो नाम  
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

पष्ठेशपर मंगलकी दृष्टि हो राहु केतुभी देखे अथवा मंगलकी राशिमें होवे तो विशेष  
वादप्रतिवाद करके दूसरेसे किसीकारकी विद्या आदि चोरे ॥ ६४ ॥ ऐसेही फल पुत्रादि  
भावोंमें उन भावोंके विचारसे उन पुत्रादिकोंको भी कहना यह शास्त्र नास्तिकके आगे न  
कहना सज्जनसे कहना ॥ ६५ ॥ यह पांचवा अध्याय पंचम तथा छठे भावका फलवाचक  
विचित्रार्थयुक्त धीमान् वेंकटेशने कहा ॥ ६६ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषाटीकायां पञ्चमपष्ठभावफल-  
विचाराध्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमभावफलविचाराध्यायः ।

॥ १ ॥ राशिरूपेण सप्तमभावफलविचारो नाम ॥ १ ॥

द्वितीयेश सप्तमेशके साथ जितने ग्रह हैं उनके बलानुसार स्त्रियोंकी सख्या पंडित  
कहत हैं । सप्तमेश जिसकी राशिमें है उसके साथ जितने ग्रह हैं उनसेभी स्त्रीसख्या कहनी ॥ १४ ॥

कलत्रेशे बहुगुणे तुङ्गवक्रादिहेतुभिः ॥ बहुभार्यै नरं विद्यादुदय-  
क्ष्णतेऽपि वा ॥ १५ ॥ भार्याद्वयं वदेत्तत्र लग्नेशे नाशराशिगे ॥  
कलत्रे पापसंयुक्ते कुटुम्बेशे तथाविधे ॥ १६ ॥

∴ सप्तमेश उच्च वक्र आदि बहुतगुणोंसे युक्त होवे अथवा लग्नमें होवे तो मनुष्यको बहुत सि-  
योंसे युक्त जानना ॥ १५ ॥ लग्नेश नारहों सप्तममें पाप कुटुम्बमेंभी पाप ग्रह होवे तो दो स्त्री  
होंगी ऐसा कहना ॥ १६ ॥

शन्यारफणिसंयुक्ते कलत्रेशो यदा भवेत् ॥ क्रूरपष्टचंशके वापि  
कलत्रमरणं वदेत् ॥ १७ ॥ शुभग्रहेण संयुक्तः कलत्रेशोऽरिनी  
चगे ॥ पापे कलत्रराशिस्थे विवाहद्वयमादिशेत् ॥ १८ ॥



वाली स्त्रीका मसङ्ग कर अपने कुलको नष्ट करनेवाला ) होवै । सूर्यसे कुटुंबवाला बहुत स्त्रियोंमें आसक्त होवै । लग्नमें दूसरे, सप्तम, पंचम और छठे भावके स्वामी शुक्रसहित तथा पाप सहित होंवें तो ॥ ३ ॥

जातः परस्त्रीषु रतः कुमार्गी शुभेक्षितश्चेन्न तथा भवेच्च ॥ लग्ना-  
रिपौ पापयुतौ यदि स्याज्जातः परस्त्रीषु रतः कुमार्गी ॥ ४ ॥  
लग्नेश्वरे शत्रुकुटुम्बनाथे पापैर्युते वा यदि दारराशौ ॥ सौरो सपापे  
यदि दारनाथे जातः परस्त्रीषु रतः कुटुम्बे ॥ ५ ॥ सराहुकेतौ  
यदि दारनाथे पापेक्षिते वा व्यभिचारयोगः ॥ कर्मेशचित्तेशक-  
लग्ननाथा मानस्थिता जारमुदाहरंति ॥ ६ ॥

मनुष्य पराई स्त्रियोंमें आसक्त और कुमार्ग चलनेवाला होवै, यदि शुभग्रहोंसे दृष्टभी होवै तो वैसा न होवै कुछ कम होवै यदि लग्नेश पण्डेश पापयुक्त होवै तो परस्त्रीमें आसक्त तथा कुमार्गी होवै ॥ ४ ॥ लग्नेश पण्डेश द्वितीयेश पापयुक्त हों अथवा सप्तममें शनि, सप्तमेश पापयुक्त होवै तो पराई स्त्रीमें आसक्त रहे । यदि दूसरे भावमें ॥ ५ ॥ राहु वा केतु हो सप्तमेश पापदृष्ट होवै तो व्यभिचारयोग होताहै । दशमेश, धनेश, सप्तमेश दशममें हो तो जार (परस्त्री गमन करनेवाला ) कहतेहैं ॥ ६ ॥

एको ग्रहस्तेषु चतुर्थराशौ जातः परस्त्रीगमनं प्रयाति ॥ पुत्रेश्वरे  
दारपतौ वलाटत्रे दृष्टे युते वा त्वरिनायकेन ॥ ७ ॥ जातोऽ-

सप्तममे यदा द्वितीयस्थानमें पापयुक्त होवै ॥ ७ ॥ जातोऽ-  
होवै तो दूसरी स्त्रीवाला होवै ॥ २१ ॥ सप्तम तथा अष्टम भावमें पाप ग्रह हो वारहवों मंगल होवै स्वस्वामीसे सप्तमभाव दृष्ट न होवै तो दूसरी स्त्रीसे गृहस्थ होवै ॥ २२ ॥ धनस्थानमें बहुत पाप ग्रह हों सप्तममें भी ऐतही हों भावेश पापयुक्त होवै तो तीन स्त्री होवै ॥ २३ ॥ लग्न द्वितीय अथवा सप्तम भावमें पापग्रह हों सप्तमेश नीच राशि अस्तंगतादिमें होवै तो तीन स्त्री होवै इन योगोंमें स्त्री हानिसे तीसरी स्त्री होनेकी संभावना है ॥ २४ ॥

नीचमृटारिभावस्थे लग्नेशे दारपेऽथ वा ॥ क्रूरपट्टचंशके वापि कल-  
त्रांतरभागभवेत् ॥ २५ ॥ दारेशस्थनत्रांशेशे नीचमृटारिभांशके  
पापांतरे पापदृष्टे कलत्रांतरभागभवेत् ॥ २६ ॥

लग्नेश अथवा सप्तमेश नीच अस्त शत्रुराशिगन हो अथवा क्रूरपट्टचंशमें होवै तो अन्य स्त्रीवाला होवै ॥ २५ ॥ सप्तमेश मिसके नवांशकमें हो वह नीच अस्त शत्रु राशि वा नवांशकमें हो पापग्रहोंके बीच पापग्रहोंसे दृष्ट होवै तो अन्य स्त्रीवाला होवै ॥ २६ ॥

कैः ॥ नास्तिकाय न वक्तव्यं वक्तव्यं सुजनाय वै ॥ ६५ ॥  
अध्यायः पंचमः प्रोक्तः पंचषड्भाववाचकः ॥ विचित्रार्थसमा-  
युक्तो वैकटेशेन धीमता ॥ ६६ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ पञ्चमषष्ठभावफलविचारो नाम  
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

षष्ठेशपर मंगलकी दृष्टि हो राहु केतुभी देखें अथवा मंगलकी राशिमें होवै तो विशेष  
वादमतिवाद करके दूसरेसे किसीमकारकी विद्या आदि चोरे ॥ ६४ ॥ ऐसेही फल पुत्रादि  
भावोंमें उन भावोंके विचारसे उन पुत्रादिकोंको भी कहना यह शास्त्र नास्तिकके आगे न  
कहना सज्जनसे कहना ॥ ६५ ॥ यह पांचवां अध्याय पंचम तथा छठे भावका फलवाचक  
विचित्रार्थयुक्त धीमान् वैकटेशने कहा ॥ ६६ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषाटीकायां पञ्चमषष्ठभावफल-  
विचाराध्यायः पञ्चमः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमभावफलविचाराध्यायः ।

॥ १११ ॥

सप्तमेश सप्तमेशक साथ मिलते ग्रह हैं उनके बलानुसार स्त्रियोंकी संख्या पंडित  
कहत हैं । सप्तमेश जिसकी राशिमें है उसके साथ मिलते ग्रह हैं उनसेभी स्त्रीसंख्या कहनी ॥ १४ ॥

कलत्रेशे बहुगुणे तुङ्गवक्रादिहेतुभिः ॥ बहुभार्यं नरं विद्यादुदय-  
क्ष्मतेऽपि वा ॥ १५ ॥ भार्याद्वयं वदेत्तत्र लग्नेशे नाशराशिगे ॥  
कलत्रे पापसंयुक्ते कुटुम्बेशे तथाविधे ॥ १६ ॥

∴ सप्तमेश उच्च वक्र आदि बहुगुणोंसे युक्त होवै अथवा लग्नेमें होवै तो मनुष्यको बहुत स्त्रि-  
योंसे युक्त जानना ॥ १५ ॥ लग्नेश वारहवें सप्तममें पाप कुटुम्बमेंभी पाप ग्रह होवै तो दो स्त्री  
होंगी ऐसा कहना ॥ १६ ॥

शन्यारफणिसंयुक्ते कलत्रेशो यदा भवेत् ॥ क्रूरपष्टचंशके वापि  
कलत्रमरणं वदेत् ॥ १७ ॥ शुभग्रहेण संयुक्तः कलत्रेशोऽरिनी-  
चगे ॥ पापे कलत्रराशिस्थे विवाहद्वयमादिशेत् ॥ १८ ॥

वाली स्त्रीका प्रसङ्ग कर अपने कुलको नष्ट करनेवाला ) होवै । सूर्यसे कुटुंबवाला बहुत स्त्रियोंमें आसक्त होवै । लग्नमें दूसरे, सप्तम, पंचम और छठे भावके स्वामी शुक्रसहित तथा पाप सहित होवें तो ॥ ३ ॥

जातः परस्त्रीषु रतः कुमार्गी शुभेक्षितश्चेन्न तथा भवेच्च ॥ लग्न-  
रिपौ पापयुतौ यदि स्याज्जातः परस्त्रीषु रतः कुमार्गी ॥ ४ ॥  
लग्नेश्वरे शत्रुकुटुम्बनाथे पापैर्युते वा यदि दारराशौ ॥ सौरो सपापे  
यदि दारनाथे जातः परस्त्रीषु रतः कुटुम्बे ॥ ५ ॥ सराहुकेतौ  
यदि दारनाथे पापेक्षिते वा व्यभिचारयोगः ॥ कर्मेशचित्तेशक-  
लग्ननाथा मानस्थिता जारमुदाहरन्ति ॥ ६ ॥

मनुष्य पराई स्त्रियोंमें आसक्त और कुमार्ग चलनेवाला होवै, यदि शुभग्रहोंसे दृष्टभी होवै तो वैसा न होवै कुछ कम होवै यदि लग्नेश पण्डेश पापयुक्त होवै तो परस्त्रीमें आसक्त तथा कुमार्गी होवै ॥ ४ ॥ लग्नेश पण्डेश द्वितीयेश पापयुक्त हो अथवा सप्तममें शनि, सप्तमेश पापयुक्त होवै तो पराई स्त्रीमें आसक्त रहे । यदि दूसरे भावमें ॥ ५ ॥ राहु वा केतु हो सप्तमेश पापदृष्ट होवै तो व्यभिचारयोग होताहै । दशमेश, धनेश, सप्तमेश दशममें हों तो जार (परस्त्री गमन करनेवाला) कहतेहैं ॥ ६ ॥

एको ग्रहस्तेषु चतुर्थराशौ जातः परस्त्रीगमनं प्रयाति ॥ पुत्रेश्वरे  
दारपतौ बलाहके दृष्टे युते वा त्वरिनायकेन ॥ ७ ॥ जातोऽ-

सप्तममें यद्वा द्वितीयस्थानमें पाप... भावका स्वामी...  
होवै तो दूसरी स्त्रीवाला होवै ॥ २१ ॥ सप्तम तथा अष्टम भावमें पाप ग्रह हो वारहवीं...  
होवै स्वस्वामीसे सप्तमभाव दृष्ट न होवै तो दूसरी स्त्रीसे गृहस्थ होवै ॥ २२ ॥ धनस्थानमें  
बहुत पाप ग्रह हों सप्तममें भी ऐतदहो हों भावेश पापयुक्त होवै तो तीन स्त्री होवै ॥ २३ ॥  
लग्न द्वितीय अथवा सप्तम भावमें पापग्रह हों सप्तमेश नीच राशि अस्तंगतादिमें होवै तो तीन  
स्त्री होवें इन योगोंमें स्त्रीहानिसे तीसरी स्त्री होनेकी संभावना है ॥ २४ ॥

नीचमृढारिभावस्थे लग्नेशे दारपेऽथवा ॥ क्रूरपट्यंशके वापिकल-  
त्रांतरभागभवेत् ॥ २५ ॥ दारेशस्थनवांशेशे नीचमृढारिभांशके  
पापांतरे पापदृष्टे कलत्रांतरभागभवेत् ॥ २६ ॥

लग्नेश अथवा सप्तमेश नीच अस्त शत्रुराशिगत हो अथवा क्रूरपट्यंगमें होवै तो धन्य  
स्त्रीवाला होवै ॥ २५ ॥ सप्तमेश मिसके नवांशकमें हो वह नीच अस्त शत्रु राशि वा  
नवांशकमें हो पापग्रहोंके बीच पापग्रहोंसे दृष्ट होवै तो अन्य स्त्रीवाला होवै ॥ २६ ॥

एवं कुटुम्बनाथेन कारकस्थांशपेन वा ॥ पापांतरे दारगृहे तत्राथेऽ-  
पि कलत्रहा ॥ २७ ॥ लग्नेश्वरात्कर्मगते सोमपुत्रे बलान्विते ॥  
दारेशाद्विक्रमे चन्द्रे बहुस्त्रीसहितो भवेत् ॥ २८ ॥

इसी प्रकार द्वितीयेशसे तथा सप्तमकारकस्थित अंशेशसेभी फल कइना । सप्तमभावा  
पापोंके बीच हो सप्तमेशभी पापांतर होवै तो खीहानि होवै ॥ २७ ॥ लग्नेशसे दशममें  
बुध बलवान् होवै सप्तमेशसे तीसरा चंद्रमा होवै तो बहुत स्त्रियों सहित होवै ॥ २८ ॥

व्ययार्थेशौ तृतीयस्थौ गुरुणा च निरीक्षितौ ॥ भाग्यनाथेन  
वा दृष्टौ बहुस्त्रीसहितो भवेत् ॥ २९ ॥ केन्द्रत्रिकोणे दारेशे स्वोच्च-  
मित्रस्ववर्गगे ॥ कर्माधिपेन वा युक्ते बहुस्त्रीसहितो भवेत् ॥ ३० ॥

धनव्ययभावेश तीसरे भावमें गुरुदृष्ट अथवा नवमेशसे दृष्ट हों तो बहुत स्त्रियोंसहित होवै  
॥ २९ ॥ सप्तमेश केन्द्र वा त्रिकोणमें उच्च मित्र राशिमें वा अपने अंशादिमें हो अथवा  
दशमेशसे युक्त होवै तो बहुत स्त्री होंवै ॥ ३० ॥

लाभदारेश्वरौ युक्तौ परस्परनिरीक्षितौ ॥ बलाढ्यौ वा त्रिको-  
णस्थौ बहुस्त्रीसहितो भवेत् ॥ ३१ ॥ भाग्येशे दारराशिस्थे दारेशे  
सुखभं गते ॥ भावेशे लाभनाथे वा केंद्रे बहुकलत्रभाक् ॥ ३२ ॥

लाभेश सप्तमेश एकसाथ हों अथवा परस्पर देखते हों, बलवान् हों यद्वा त्रिकोणमें हों  
तो बहुत स्त्रीवाला होवै ॥ ३१ ॥ नवमेश सप्तममें, सप्तमेश चतुर्थमें, चतुर्थेश वा लाभेशके-  
न्द्रमें होवै तो बहुत स्त्रियोंवाला होवै ॥ ३२ ॥

दारेशसंयुक्तनवांशनाथयुक्तांशनाथे सति सौम्ययुक्ते ॥ पाराव-  
तांशादिगते बलाढ्ये जातः शतस्त्रीसहितो नरः स्यात् ॥ ३३ ॥  
कुटुम्बनाथस्थितराशिनाथसंयुक्तपष्ट्यंशपते बलाढ्ये ॥ मृदंशके  
गोपुरभागयुक्ते जातः शतस्त्रीद्विगुणेन युक्तः ॥ ३४ ॥ तत्कार-  
कस्थांशपयुक्तराशिनाथस्थितांशाधिपतौ च केंद्रे ॥ मृदंशके गोपु-  
रभागयुक्ते जातस्य वाच्या त्रिशती बधूनाम् ॥ ३५ ॥

सप्तमेश जिसके नवांशकमें है वहभी जिसके नवांशकमें है वह शुभयुक्त पारावतादि  
अशकमें हो बलवान् होवै तो मनुष्य सी स्त्रियों सहित रहे ॥ ३३ ॥ द्वितीयेश जिसकी  
राशिमें है वह पष्ट्यंशके सहित हो बलवान् हो मृदंशकमें वा गोपुरांशकमें हो तो दो सौ नर  
होंवै ॥ ३४ ॥ सप्तमकारक जिसके अंशकमें है वहभी जिसकी राशिमें है वह जिसके नवांशकमें

है वह केन्द्रमें मृदंशकमें वा गोपुरांशमें होवै तो तीन सौ स्त्री हों । ऐसे योगोंमें भावेश तथा भावेश जिसके राश्यंशमें है वहभी जिसके राशि वा अंशकमें हैं ऐसे २।३ विकल्पवाले सभी बलवान् तथा पारावतादि उत्तमभागोंमें होने चाहिये तब ठीक फल होगा ॥ ३५ ॥

दारेशे गोपुरांशस्थे कर्मेंशे दारराशिगे ॥ तथाविधे कुटुम्बेशे  
दशसंख्यकलत्रभाक् ॥ ३६ ॥ एवं पुत्रादिभावानां कलत्रादिकमा-  
दिशेत् ॥ दारेशे पापसंयुक्ते दारे वा पापसंयुते ॥ ३७ ॥ दारे-  
शस्थांशपे पापे कुस्त्रीभाक्स नरो भवेत् ॥ क्रूरपट्यंशके दारनाथे  
कुस्त्रीयुतो भवेत् ॥ ३८ ॥

सप्तमेश गोपुरांशकमें, दशमेश सप्तम और ऐसाही द्वितीयेशभी होवै तो दश स्त्रियोंको भोगे ॥ ३६ ॥ ऐसेही पुत्रादिभावोंका विचार करके उनके स्त्रियोंकी संख्या कहनी सप्तमेश पापयुक्त अथवा सप्तममें पाप हो ॥ ३७ ॥ सप्तमेशभी पापग्रहके अंशकमें होवै तो मनुष्य कुस्त्रीवाला होवै, सप्तमेश क्रूरपट्यंशमें हो तभी कुस्त्रीवाला होवै ॥ ३८ ॥

नीचांशे नीचसंयुक्ते दारनाथे च कारके ॥ कुस्त्रीयुतो भवेज्जातः  
शुभदृष्टिविवर्जिते ॥ ३९ ॥ दारेशे शुभसंयुक्ते शुभखेचरवी-  
क्षिते ॥ शुभग्रहाणां मध्यस्थे सत्कलत्रादिभागभवेत् ॥ ४० ॥  
दारेशे शुभराश्यंशे कारके वा तथाविधे ॥ कर्मेंशे बलसंयुक्ते  
सत्कलत्रसमन्वितः ॥ ४१ ॥

सप्तमेश एवं सप्तमभावकारक नीचांश नीचराशिमें हो उनपर शुभदृष्टि न होवै तो मनुष्य ( कुस्त्री ) निन्द्य स्त्रीसे युक्त होवै ॥ ३९ ॥ सप्तमेश शुभयुक्त शुभग्रहदृष्ट शुभग्रहके बीचमें होवै तो ( सुस्त्री ) उत्तम स्त्रीवाला होवै ॥ ४० ॥ सप्तमेश शुभ ग्रहके राशि अंशमें हो कारकभी ऐसाही हो दशमेश बलवान् होवै तो अच्छी स्त्रीवाला होवै ॥ ४१ ॥

स्वोच्चे मित्रे स्ववर्गेवा गोपुराद्यंशके भृगौ ॥ पट्यंशे मृदुभागस्थे  
सत्कलत्रसमन्वितः ॥ ४२ ॥ गुरुणा सहिते दृष्टे दारनाथे बला-  
न्विते ॥ कारके वा तथा भावे पत्नी व्रतपरायणा ॥ ४३ ॥ कल-  
त्रेशे स्वौ वापि भृगौ सौम्यनिरीक्षिते ॥ गुरुयुक्ते कलत्रे वा धर्म-  
शीला पतिव्रता ॥ ४४ ॥ कलत्राधिपतौ केन्द्रे शुभग्रहनिरी-  
क्षिते ॥ शुभांशेशुभराशौ वा पातिव्रतपरायणा ॥ ४५ ॥ कलत्रे-

शे रवौ वापि पापराश्यंशसंयुते ॥ पापान्विते पापदृष्टे पत्नी  
पापपरायणा ॥ ४६ ॥

शुक्र अपने उच्चराशि मित्रराशि अपने अंशादिमें अथवा गोपुरादि भागमें मृदुषट्चंशमें होवै तो अन्टी स्त्रीसे युक्त होवै ॥ ४२ ॥ सप्तमेश बलवान् हो बृहस्पतिसे युक्त वा दृष्ट हो ऐसेही भावकारक ग्रहभी होवै तो स्त्री पतिके व्रतमें तत्पर रहे ॥ ४३ ॥ सप्तमेश अथवा सूर्य शुक्र बुधसे यद्वा शुभग्रहमात्रसे दृष्ट हों, गुरुसहित हों अथवा सप्तमस्थानमें होवै तो स्त्री धर्मस्वभाववाली पतिव्रता होवै ॥ ४४ ॥ सप्तमेश केंद्रमें शुभग्रहसे दृष्ट शुभग्रहके अंशकमें वा शुभग्रहकी राशिमें होवै तो स्त्री पतिव्रतमें परायण रहे ॥ ४५ ॥ सप्तमेश अथवा सूर्य पापराशि पापांशकमें पापदृष्ट पापयुक्त होवै तो स्त्री पापकर्ममें तत्पर होवै ॥ ४६ ॥

भानौ कलत्राधिपतौ बलाढ्ये शुभान्विते शोभनराशिभागे ॥  
शुभग्रहेणापि निरीक्षिते वा लग्नेशमित्रे पतिभक्तियुक्ता ॥ ४७ ॥  
दारेश्वरे वा कुमुदात्मबंधौ पापान्विते पापनिरीक्षिते वा ॥ पापां-  
शके पापग्रहांतरस्थे कुमार्गचारी कठिनापराधा ॥ ४८ ॥

सप्तमेश सूर्य बलवान् हो, शुभयुक्त शुभग्रहकी राशिमें शुभांशकमें शुभग्रहसे दृष्ट हो वा लग्नेशका मित्र होवै तो स्त्री पतिभक्तिवाली होवै ॥ ४७ ॥ सप्तमेश अथवा चन्द्रमा पापयुक्त पापदृष्ट वा पापांशकमें पापग्रहोंके बीच होवै तो स्त्री कुमार्गी एवं कठिन अपराधवाली होवै ॥ ४८ ॥

सौम्यांशके सौम्यग्रहान्विते वा मित्रोच्चगेहे मृदुभागयुक्ते ॥  
चंद्रे कलत्राधिपतौ च शुक्ले पुण्या सुशीला सुचरित्रयुक्ता ॥ ४९ ॥  
दाराधिपे हीनबले धराजे क्रूरादिपष्टचंशसमन्विते वा ॥ निम्नारि-  
मूढे विहगारिभावे दुष्टान्यसक्ता पतिकर्कशा वा ॥ ५० ॥ मित्रो-  
च्चगे यदि दारनाथे शुभान्विते सौम्यदृशा समेते ॥ पारावर्तांशा-  
दिगते बलाढ्ये क्रूरापि पत्युर्गुणमार्गयुक्ता ॥ ५१ ॥

चन्द्रमा सप्तमेश और शुक्र शुभराशि शुभांशकमें वा मित्रराशि उच्चराशिमें मृदुशकमें होवे तो पुण्यवती सुशीला उत्तमचरित्रवाली होवै ॥ ४९ ॥ सप्तमेश हीनबल हो मगड मूर आदि पष्टचंशमें वा नीच गुरु राशिमें अन्तमें होवै तो ग्री दुष्टग्रहभावकी अन्य पुण्यमें आसन वा पतिके द्विदे (दर्कशा) कठोर होवै ॥ ५० ॥ यदि सप्तमेश मित्र र्गमें उच्च र्गमें शुभग्रहोंदि

दृष्ट वा युक्त हो पारावतादि अंशकमे प्राप्त बलयुक्त होवै तो क्रूरस्वभाव हुयेमें भी पतिके गुण एवं उसके मार्गगामिनी होवै ॥ ५१ ॥

दाराधिपे सोमसुते सपापे नीचारिमूढे यदि नाशभावे ॥ पापा-  
न्तरे पापदशा समेते जाता पतिव्री कुलनाशकारी ॥ ५२ ॥  
सुपुत्रसौख्यान्वितधर्मशीला व्रतोपवासादिविशुद्धदेहा ॥ सौम्ये  
कलत्राधिपतौ बलाढ्ये मित्रोच्चवर्गे यदि गोपुरांशे ॥ ५३ ॥

सप्तमेश चन्द्रमा पापयुक्त नीच, शत्रु, अस्तका यदि बारहवें भावमें पापग्रहोंके बीचमें पावदृष्ट होवै तो वह कन्या पतिको मारनेवाली कुलका नाग करनेवाली होवै ॥ ५२ ॥ सप्तमेश शुभ ग्रह बलवान् मित्र उच्च वर्गमें यदि गोपुरांशकमें होवै तो सुपुत्रा सुखसे युक्त धर्ममें स्वभाव, व्रत उपवासादिकोंसे शुद्ध देहवाली होवै ॥ ५३ ॥

भृगोः सुते दारपतौ सपापे नीचान्विते नीचभमूढगेहे ॥ क्रूरा-  
दिपृष्ठचंशसमन्विते वा वेश्यासमाना कठिना हि चौरा ॥ ५४ ॥  
शुके कलत्राधिपतौ बलाढ्ये शुभान्विते शोभनखेचरांशे ॥  
मित्रोच्चवर्गे स्वगृहे मृदुस्थे वाचलिका पुत्रवती गुणाढ्या ॥ ५५ ॥

सप्तमेश शुक्र पापयुक्त नीचगत ग्रहयुक्त नीच राशिमें वा अस्तंगत हो अथवा क्रूरादिपृष्ठचंशयुक्त होवै तो वेश्याके समान तथा फटोर और चोर होवै ॥ ५४ ॥ सप्तमेश शुक्र बलवान् शुभयुक्त शुभग्रहके अंशकमें मित्र एवं उच्चवर्गमें अपनी राशिमें मृदु अंशकमें होवै तो वाचाल पुत्रवती गुणयुक्त होवै ॥ ५५ ॥

जरातिदुष्टा कुलदूषणा स्वान्मन्दे कलत्राधिपतौ सपापे ॥ नीचां-  
शके नीचगृहेऽरिगेहे पापेक्षिते पापवियच्चरांशे ॥ ५६ ॥ परोप-  
कारी द्विजदेवभक्ता स्त्री ब्रह्मवादी गुरुदृष्टियुक्ते ॥ शुभेक्षिते धर्म-  
रता सुशीला मंदे कलत्राधिपतौ बलाढ्या ॥ ५७ ॥

सप्तमेश शनि पापयुक्त नीचराशि नीचांशकमें शत्रुराशिमें पावदृष्ट पापग्रहके अंशकमें होवै तो वृद्धे आकारकी अतिदुष्ट कुलमें दूषण लगानेवाली होवै ॥ ५६ ॥ सप्तमेश शनि बलवान् शुभग्रहदृष्ट विशेषतः गृहस्पतिसे दृष्ट होवै तो परोपकार करनेवाली ब्राह्मण और देवतोंकी भक्ति करनेवाली ब्रह्मवादिनी ज्ञानवती धर्ममें तत्पर सुशील होवै ॥ ५७ ॥

सराहुकेतौ मदनेऽन्यसक्ता पापेक्षिते पापरता कुशीला ॥ क्रूरां-  
शके भर्तृविपप्रदा स्याल्लोकापवादान्वितकर्कशा स्यात् ॥ ५८ ॥

सप्तमभावमें राहु वा केतु सहित होवै तो अन्यपुरुषमें आसक्त रहे पापदृष्टभी हो तो पातपर और दुष्ट शीलवाली होवै । क्रूरांशकमें होवै तो भर्ताको विषदेनवाली लोकमें कलंकयुक्त और ( कर्कशा ) कठोरभी होवै ॥ ५८ ॥

दारेश्वरे सन्निहिते विलम्बे नाथस्य बाल्ये परिणीतमाहुः ॥ लग्ना-  
त्कलत्राच्छुभखेचरेन्द्रे समीपराशौ यदि तत्तथैव ॥ ५९ ॥ लग्ने  
कुटुम्बे यदि दारभावे शुभान्विते शोभनवर्गयुक्ते ॥ तदीश्वरे शो-  
भनदृष्टयुक्ते बाल्ये विवाहादिकमाहुरार्याः ॥ ६० ॥

सप्तमेश लग्नेश एकसाथ अंशोंमें समीपवर्ती होवै तो बाल्यावस्थामें विवाह होवै यदि लग्न  
सप्तमसे शुभग्रह समीप राशियोंमें होवै तौभी वही फल कहतेहै ॥ ५९ ॥ लग्न द्विती  
और सप्तमस्थान शुभयुक्त शुभांशकादियुक्त हों उनके स्वामी शुभग्रह दृष्ट युक्त होवै तो श्रे  
प्येतिथी बाल्यावस्थामें विवाहादि कहतेहै ॥ ६० ॥

पारावतांशादिगते कलत्रनाथे कुटुम्बाधिपतौ वलाढये ॥ मृद्वा-  
ख्यभागे तनुभावनाथे बाल्ये विवाहं मुनयो वदन्ति ॥ ६१ ॥  
भाग्यं विवाहात्परतो वदन्ति शुक्रेस्तगे चोपचयान्विते वा ॥ कुटुं-  
वमेतादृशभावयुक्ते लग्नेश्वरे वा शुभदृष्टियोगे ॥ ६२ ॥

सप्तमेश पारावतांशादिमें होवै द्वितीयेश बलवान् होवै और लग्नेश मृदंशकमें होवै तो  
मुनिलोग बाल्यावस्थामें विवाह कहतेहैं ॥ ६१ ॥ शुक्र सप्तम हो अपवा उपचय ३।६।१।  
१० स्थानमें हो यद्वा द्वितीयमें हो अपवा लग्नेश इन भावोंमेंसे किसीमें हो शुभग्रहसे दृष्ट  
युक्त होवै तो मुनिलोग विवाहसे पीछे भाग्योदय होगा कहतेहैं ॥ ६२ ॥

तत्कारके दारपतौ कुटुम्बनाथे विलम्बाधिपतौ च दुःस्थे ॥ नीचा-  
रिमूढांशगते सपापे भाग्यं विवाहात्प्रविनाशमेति ॥ ६३ ॥  
क्रूरादिपष्टयंशसमन्वितेपि तत्कारके तादृशखेचरेन्द्रे ॥ शुभा-  
न्विते शोभनदृष्टिपाते नाशात्परं भाग्यमुपैति जातः ॥ ६४ ॥

सप्तमकारक सप्तमेश द्वितीयेश और लग्नेश दुष्ट स्थानमें हों नीच शत्रु मूढ अंशकमें पाप-  
युक्त होवै तो विवाह होमानेसे भाग्य नष्ट होनावै ॥ ६३ ॥ सप्तमकारकग्रह वा पूर्वानोंमेंसे  
कोई क्रूरआदि पष्टयंशमें भी होवै तथा शुभग्रहसे युक्त दृष्ट होवै तो ( भाग्य ) ऐश्वर्य नाश  
होकर फिर ऐश्वर्य पानाहै ॥ ६४ ॥



क्रूर कलत्रेशयुते त्रिकोणे तत्कारके पापसमन्विते वा ॥ कुटुम्बरा-  
शौ यदि वात्र माने दूरे विवाहात्कथयन्ति संतः ॥ ६५ ॥ माने सपापे  
यदि वा कुटुम्बे भाग्येथ वा पापयुते कलत्रे ॥ क्रूरांशके क्रूरनिरी-  
क्षिते वा दूरे विवाहात्कथयन्ति संतः ॥ ६६ ॥ पुत्रादिलाभेष्वय-  
मेव मार्गस्तं चिंतयित्वा प्रवदेत्सुतादीन् ॥ ६७ ॥ लग्नेश्वराद्धी-  
नवले कलत्रनाथेऽरिभागांशयुते विमूढे ॥ नीचांशके नीचसम-  
न्विते वा निकृष्टजातौ हि कलत्रलाभः ॥ ६८ ॥

पापग्रह सप्तमेशसहित त्रिकोण ९।५ मे होवै वा सप्तम कारक पापयुक्त दूसरे वा दशम-  
स्थानमें होवै तो विवाहसे बहुत दिनों पीछे भाग्य उदय होवै ऐसा सज्जन कहतेहैं ॥ ६५ ॥  
सप्तमेश पापयुक्त दशम, वा द्वितीय यद्वा नवमस्थानमें हो सप्तममें भी पापग्रह होंवें तभी  
वही फल कहतेहैं ॥ ६६ ॥ पुत्रादि लाभमेंभी ऐसाही विचार करके पुत्रादिमात्रि दूर वा  
शीघ्र कहना ॥ ६७ ॥ सप्तमेश लग्नेशसे हीनबली हो शत्रुराशि शुभके अंशकमें वा अस्तंगत  
हो अथवा नीचराश्यंकमें होवै तो स्त्री अपनेसे नीच जातकी मिले ॥ ६८ ॥

लग्नेश्वरात्पूर्णवले कलत्रनाथे शुभांशे शुभदृष्टियुक्ते ॥ वैशेषिकांशे  
परमोच्चभागे उत्कृष्टजातौ हि कलत्रलाभः ॥ ६९ ॥ लग्नेश्वरे  
हीनवले कलत्रनाथात्सपापे यदि नीचभागे ॥ नाशस्थिते वान्व-  
वरोहभागे कलत्रजातेः स्वयमत्र हीनः ॥ ७० ॥

लग्नेशसे सप्तमेश पूर्णबली हो शुभांशकमें शुभग्रहोंसे दृष्ट वैशेषिकांशकमें वा परमोच्चभागमें  
होवै तो अपनेसे उत्तमजातिमें स्त्री मिले ॥ ६९ ॥ लग्नेश सप्तमेशसे हीनबली हो पापयुक्त  
नीचांशकगत बारहवें भावमें अथवा ( अवरोही ) उच्चसे उतरता होवै तो स्त्रीकी जातिसे  
अपनी जानि न्यून होवै ॥ ७० ॥

तस्माद्बलाढये तु विलग्ननाथे त्वारोहभागे परमोच्चभांशे ॥ केन्द्र-  
त्रिकोणे यदि वा ससौम्ये श्रेष्ठः कलत्रात्स्वयमेव जातः ॥ ७१ ॥  
कलत्रनाथाद्यदि वा कलत्रराशेः कुटुम्बाधिपतेर्वदेद्वा ॥ वलेन  
साम्ये समजातिमाहुः स्त्रियं सुशीलां पतिभक्तिचित्ताम् ॥ ७२ ॥

सप्तमेशसे लग्नेश बलवान् हो आरोहभागमें वा परमोच्चराश्यंकमें शुभयुक्त केन्द्र त्रिको-  
णमें होवै तो स्त्रीकी जातिसे अपनी जाति श्रेष्ठ होवै ॥ ७१ ॥ सप्तमेशसे वा सप्तम राशिसे

अथवा द्वितीयेशसे बलाबल देखके यह फल कहना यदि लग्नेश सप्तमेश बलमें तुल्य हों तो स्त्री तुल्यजातिकी कहतेहैं तथा सुगौला और पतिकी भक्तिमें चित्त लगानेवाली होतीहै ॥ ७२ ॥

लग्नेश्वरस्यापि कलत्रनाथे शत्रौ तदीयस्त्वह शत्रुभूतः ॥ मित्राणि  
ते तस्य कुलोद्भवाश्च मित्रे विलग्नधिपतेस्तदानीम् ॥ ७३ ॥

दारेश्वरस्यापि विलग्ननाथे शत्रौ तदीयास्त्वरयस्ततोऽन्ये ॥ ७४ ॥  
लग्नेशकाभी सप्तमेश शत्रु होवै तो विवाह स्थानवाले शत्रु होवै यदि लग्नेशका सप्तमेश मित्र होवै तो स्त्रीके कुलवाले भी उसके मित्र होवै ॥ ७३ ॥ सप्तमेशकाभी लग्नेश शत्रु होवै तो वे सवधी शत्रु और मित्र हों तो मित्र होवै ॥ ७४ ॥

कलत्राधिपतेर्वर्णं राशेर्वा कारकस्य च ॥ सर्वोत्तमबलस्यैव तेषां  
मध्ये विनिर्दिशेत् ॥ ७५ ॥ सुगुणा रूपसंपन्ना तस्मिन्गुर्वच्छवी-  
क्षिते ॥ पापेक्षिते पापयुक्ते कुरूपा दुर्गुणा भवेत् ॥ ७६ ॥

स्त्रीका रग सप्तमेश वा सप्तमराशि अथवा सप्तम भावकारकग्रहमेसे जो सर्वोत्तम बली हो उससे कहना ॥ ७५ ॥ उक्त बली गुरु शुक्रसे दृष्ट होवै तो स्त्री अच्छे गुणोंवाली रूपसे सपन्न होगी यदि पापदृष्ट पापयुक्त होवै तो स्त्री कुरूपा एव दुर्गुणोंवाली होवै ॥ ७६ ॥

कलत्रनाथस्थितमं तदीयं राशिं कलत्ररय विदुर्महान्तः ॥  
तस्योच्चनीचं यदि वा कलत्रराशिं तदंशत्रितयं तदीयम् ॥ ७७ ॥  
कलत्रराशित्रितयेथ वा स्यात्तदीशसंयुक्तभ्रूणराशौ ॥ कलत्र-  
राशिं समुदाहरन्ति प्रोक्तान्यराशौ यदि नास्ति पुत्रः ॥ ७८ ॥

गोसिंहकन्यादिषु जन्मराशिः स्त्रीणां भवेज्जन्मानि वाल्पपुत्रा ॥  
शुभग्रहैराक्रमितेषु तेषु सुतान्बदेत्तत्र बहून्गुणाढयान् ॥ ७९ ॥

सप्तमेश जिस राशिमें है १, सप्तमेशकी जो राशि है २, उसकी जो उच्चराशि जो नीच राशि है ३, इस प्रकार कलत्र राशिके तीन भेद होतेहैं । इनसे स्त्रीका विचार बलाबल देखके कहना ॥ ७७ ॥ उक्त तीनप्रकार कलत्रराशि अपने स्वामी युक्त वा इन तीनोंमें एकका स्वामी दूसरेमें हो. अथवा सप्तमेश जिस राशिमें है उसके त्रिकोण ९ । ५ में कलत्रराशि रहतेहैं । इनमेंभी बलाबल देखना. इनराशियोंमें बली यह हो तो पुत्र होगा, निर्बलग्रह निर्बलराशि हो तो नहीं होते ॥ ७८ ॥ उक्त स्थानोंमें २ । ५ । ७ आदि राशि अथवा ये जन्मराशि हो तो कन्या बहुत, पुत्र कम होवै यही राशि शुभग्रहोंसे युक्त होवै तो गुणवान् बहुत पुत्र होंगे ऐसा कहना ॥ ७९ ॥

बंध्यासंगो मदे भानौ चन्द्रे दासीसमाश्रयः ॥ कुजे रजस्वला-  
संगो बंध्यासंगश्च कीर्तितः ॥ ८० ॥ बुधे वेश्यार्थहीना वा  
वणिक्स्त्री वा प्रकीर्तिता ॥ गुरौ ब्राह्मणभार्या स्याद्गर्भिणी-  
संगमो भृगौ ॥ ८१ ॥ हीना वा पुष्पिता वा स्यान्मंदराहुफणी-  
श्वरैः ॥ राहौ च गर्भिणीसंगः कृष्णया कुब्जया शनौ ॥ ८२ ॥

सप्तम सूर्य होवै तो वांझ स्त्रीका संग करे, चंद्रमा होवै तो दासीका आश्रय लेवै, मंग-  
लसे रजस्वला और वांझ स्त्रीका संग कहाहै ॥ ८० ॥ बुधसे वेश्या अथवा दरिद्रा  
( भिखारिन ) यदा वनियेकी स्त्रीसे, बृहस्पतिसे ब्राह्मणकी स्त्रीका संग, शुकसे गर्भिणीका  
संग ॥ ८१ ॥ शनि राहु केतुसे हीननातिकी वा रजोवती स्त्रीका गमन करे, राहुसे गर्भिणी  
स्त्रीका संग, और शनिसे कालेरगकी कुचरी कुरूया स्त्रीसे भी संग करताहै ॥ ८२ ॥

एवं सुखस्थितैरैतरीद्वक्त्रीसंग ऊह्यताम् ॥ सूर्याद्यैः सुखगै-  
र्वाच्यं वाहनं गृहनिर्णयः ॥ ८३ ॥ वनं गृहं च कुड्यं स्याद्विहारो  
देवतालयम् ॥ जलं हरिगजस्थानमिति स्थाननिरूपणम् ॥ ८४ ॥

इसीप्रकार उक्त ग्रह चतुर्थ स्थानमे होवै तो भी इसीप्रकार स्त्रीसंग जानना । सूर्यादि  
ग्रहोमेंसे जो चतुर्थ स्थानमे हो उसके अनुसार वाहन तथा मकानका निर्णय कहना ॥ ८३ ॥  
सूर्यसे वन, चंद्रमासे वस्तीमे, मंगलसे कुटिया, बुधसे विहारस्थान, गुरुसे देवालय,  
शुकसे जलस्थान, शनिसे सिंहव्याघ्रादि स्थान, राहु केतुसे गजस्थान इसप्रकार स्थानका  
निरूपण करना ॥ ८४ ॥

पापैर्धुक्ते चतुष्केन्द्रे चतुष्पान्मैथुनं वदेत् ॥ पापैर्दृष्टेषु सर्वेषु  
केन्द्रेष्वेवं विनिर्दिशेत् ॥ ८५ ॥ केन्द्रे कोणे पापयुते पशुवन्मै-  
थुनं वदेत् ॥ मन्दे पापान्विते वापि समादौ तादृशं वदेत् ॥ ८६ ॥

चारो केन्द्रोंमें पापग्रह होवै तो पशुके समान ( वा साथ ) मैथुन करनेवाला हावै ऐसा  
कहना, यदि चारों केन्द्र पापयुक्त होवै तोभी ऐसाही फल कहना ॥ ८५ ॥ केन्द्र तथा  
त्रिकोण पापयुक्त होवै तो पशुसमान मैथुन कहना शनि पापयुक्त वा केतुयुक्त केन्द्र कोणमें  
होवै तोभी वही फल कहना ॥ ८६ ॥

मन्दे सूर्ये सुखे भौमे पशुवन्मैथुनं वदेत् ॥ राहौ कलत्रे भौमे  
वा सुखे तादृशमैथुनम् ॥ ८७ ॥ मंदेशे भृगुसंहृष्टे भौमक्षेत्र-  
गतेऽथ वा ॥ भृगुणा सहिते वापि भगचुम्बनभागभवेत् ॥ ८८ ॥

अथवा द्वितीयेशसे बलाबल देखके यह फल कहना यदि लग्नेश सप्तमेश बलमें तुल्य हों तो स्त्री तुल्यजातिका कहतेहैं तथा सुशीला और पतिकी भक्तिमें चित्त लगानेवाली होतीहै ॥ ७२ ॥

लग्नेश्वरस्यापि कलत्रनाथे शत्रौ तदीयस्त्वह शत्रुभूतः ॥ मित्राणि  
ते तस्य कुलोद्भवाश्च मित्रे विलग्नाधिपतेस्तदानीम् ॥ ७३ ॥

दारेश्वरस्यापि विलग्रनाथे शत्रौ तदीयास्त्वरयस्ततोऽन्ये ॥ ७४ ॥

लग्नेशकाभी सप्तमेश शत्रु होवै तो विवाह स्थानवाले शत्रु होवैं यदि लग्नेशका सप्तमेश मित्र होवै तो स्त्रीके कुलवाले भी उसके मित्र होवैं ॥ ७३ ॥ सप्तमेशकाभी लग्नेश शत्रु होवै तो वे संबंधी शत्रु और मित्र हों तो मित्र होवैं ॥ ७४ ॥

कलत्राधिपतेर्वर्णं राशेर्वा कारकस्य च ॥ सर्वोत्तमबलस्यैव तेषां  
मध्ये विनिर्दिशेत् ॥ ७५ ॥ सुगुणा रूपसंपन्ना तस्मिन्गुर्वच्छवी-  
क्षिते ॥ पापेक्षिते पापयुक्ते कुरूपा दुर्गुणा भवेत् ॥ ७६ ॥

स्त्रीका रंग सप्तमेश वा सप्तमराशि अथवा सप्तम भावकारकग्रहमेंसे जो सर्वोत्तम बली हो उससे कहना ॥ ७५ ॥ उक्त बली गुरु शुक्रसे दृष्ट होवै तो स्त्री अच्छे गुणोंवाली रूपसे सज्ज होगी यदि पापदृष्ट पापयुक्त होवै तो स्त्री कुरूपा एवं दुर्गुणोंवाली होवै ॥ ७६ ॥

कलत्रनाथस्थितभं तदीयं राशिं कलत्रस्य विदुर्महान्तः ॥  
तस्योच्चनीचं यदि वा कलत्रराशिं तदंशत्रितयं तदीयम् ॥ ७७ ॥  
कलत्रराशित्रितयेथ वा स्यात्तदीशसंयुक्तभक्तेणराशौ ॥ कलत्र-  
राशिं समुदाहरन्ति प्रोक्तान्यराशौ यदि नास्ति पुत्रः ॥ ७८ ॥

गोसिंहकन्यादिषु जन्मराशिः स्त्रीणां भवेज्जन्मानि वाल्पपुत्रा ॥  
शुभग्रहैराकामितेषु तेषु सुतान्त्रदेत्तत्र बहून्गुणाढयान् ॥ ७९ ॥

सप्तमेश जिस राशिमें है १, सप्तमेशकी जो राशि है २, उसकी जो उच्चराशि जो नीच राशि है ३, इस प्रकार कलत्र राशिके तीन भेद होतेहैं । इनसे स्त्रीका विचार बलाबल देखके कहना ॥ ७७ ॥ उक्त तीनप्रकार कलत्रराशि अपने स्वामी युक्त वा इन तीनोंमें एकका स्वामी दूसरेमें हो. अथवा सप्तमेश जिस राशिमें है उसके त्रिकोण ९ । ५ में कलत्रराशि कहतेहैं । इनमेंभी बलाबल देखना. इनराशियोंमें बली ग्रह हों तो पुत्र होंगे; निर्बलग्रह निर्बलराशि हों तो नहीं होते ॥ ७८ ॥ उक्त स्थानोंमें २ । ५ । ६ राशि अथवा ये जन्मराशि हों तो कन्या बहुत, पुत्र कम होंवैं यही राशि शुभग्रहोंसे बहुत पुत्र होंगे ऐसा कहना ॥ ७९ ॥

बंध्यासंगो मदे भानौ चन्द्रे दासीसमाश्रयः ॥ कुजे रजस्वला-  
संगो बंध्यासंगश्च कीर्तितः ॥ ८० ॥ बुधे वेश्यार्थहीना वा  
वणिकस्त्री वा प्रकीर्तिता ॥ गुरौ ब्राह्मणभार्या स्याद्गर्भिणी-  
संगमो भृगौ ॥ ८१ ॥ हीना वा पुष्पिता वा स्यान्मंदराहुफणी-  
श्रैः ॥ राहौ च गर्भिणीसंगः कृष्णया कुब्जया शनौ ॥ ८२ ॥

सप्तम सूर्य होवे तो वांझ स्त्रीका संग करे, चंद्रमा होवे तो दासीका आश्रय लेवे, मंग-  
लसे रजस्वला और वांझ स्त्रीका संग कहाहै ॥ ८० ॥ बुधसे वेदया अथवा दरिद्रा  
( भिखारिन ) यद्वा बनियेकी स्त्रीसे, वृहस्पतिसे ब्राह्मणकी स्त्रीका संग, शुक्रसे गर्भिणीका  
संग ॥ ८१ ॥ शनि राहु केतुसे हीननातिकी वा रजोवती स्त्रीका गमन करे, राहुसे गर्भिणी  
स्त्रीका संग, और शनिसे काठेरंगकी कुचरी कुरूया स्त्रीसे भी संग करताहै ॥ ८२ ॥

एवं सुखस्थितैरैरीदृक्स्त्रीसंग उद्यताम् ॥ सूर्याद्यैः सुखगै-  
र्वाच्यं वाहनं गृहनिर्णयः ॥ ८३ ॥ वनं गृहं च कुब्जं स्याद्विहारो  
देवतालयम् ॥ जलं हरिगजस्थानमिति स्थाननिरूपणम् ॥ ८४ ॥

इसीप्रकार उक्त ग्रह चतुर्थ स्थानमें होवें तो भी इसीप्रकार स्त्रीसंग जानना । सूर्यादि  
ग्रहोंमेंसे जो चतुर्थ स्थानमें हो उसके अनुसार वाहन तथा मकानका निर्णय कहना ॥ ८३ ॥  
सूर्यसे वन, चंद्रमासे वस्तीमें, मंगलसे कुटिया, बुधसे विहारस्थान, गुरुसे देवालय,  
शुक्रसे जलस्थान, शनिसे सिंहव्याघ्रादि स्थान, राहु केतुसे गजस्थान इसप्रकार स्थानका  
निरूपण करना ॥ ८४ ॥

पापैर्युक्ते चतुष्केन्द्रे चतुष्पान्मैथुनं वदेत् ॥ पापैर्दृष्टेषु सर्वेषु  
केन्द्रेष्वेवं विनिर्दिशेत् ॥ ८५ ॥ केन्द्रे कोणं पापयुते पशुवन्मै-  
थुनं वदेत् ॥ मन्दे पापान्विते वापि त्रिमांदौ तादृशं केत् ॥ ८६ ॥

चारों केन्द्रोंमें पापग्रह होवें तो पशुके समान ( वा साथ ) मैथुन करनेवाला होवे ऐसा  
कहना, यदि चारों केन्द्र पापयुक्त हों तो भी ऐसाही फल कहना ॥ ८५ ॥ केन्द्र तथा  
त्रिकोण पापयुक्त होवें तो पशुसमान मैथुन कहना शनि पापयुक्त वा केतुयुक्त केन्द्र कोणमें  
होवे तो भी वही फल कहना ॥ ८६ ॥

मन्दे सूर्ये सुखे भौमे पशुवन्मैथुनं वदेत् ॥ राहौ कलत्रे भौमे  
वा सुखे तादृशमैथुनम् ॥ ८७ ॥ मंदेशे भृगुसंदृष्टे भौमक्षेत्र-  
गतेऽथ वा ॥ भृगुणा सहिते वापि भगजुम्बनभाग्भवेत् ॥ ८८ ॥

चौथे भावमें शनि सूर्य मंगल हो तो पशुके तुल्य मैथुन कहना, राहु सप्तम वा मंगल चौथे होवै तो वैसाही मैथुन कहना ॥ ८७ ॥ जिस राशिमें शनि है उसका स्वामी शुक्रसे दृष्ट होवै अथवा मंगलके क्षेत्रमें हो अथवा शुक्रसे युक्त होवै तो भगका चुम्बन करनेवाला होवै ॥ ८८ ॥

एवं कुटुम्बनाथेन भगचुम्बनभागभवेत् ॥ ८९ ॥ कर्मेशे मन्दसंदृष्टे  
भौमक्षेत्रगतेऽथ वा ॥ भृगुणा सहिते वापि भगचुम्बनभागभवेत् ॥  
॥ ९० ॥ लग्नेशे नीचराश्यादौ स्थिते तादृशचुम्बनम् ॥ एवं  
कुटुम्बनाथेन भगचुम्बनभागभवेत् ॥ ९१ ॥ कुजे कृशस्तनी मंदे  
राह्लादौ लंबनस्तनी ॥ कठिनोर्ध्वकुचा भानौ शेषैः स्थूलो-  
त्तमस्तनी ॥ ९२ ॥

इसीप्रकार द्वितीयेशसे भग चुम्बन वाळा होताहै ॥ ८९ ॥ दशमेश शनिसे दृष्ट अथवा मंगलके राशिमें वा शुक्र सहित होवै तो भग चुम्बनवाळा होवै ॥ ९० ॥ लग्नेश नीच राशि आदिमें हो तोभी वैसाही चुम्बन करे। ऐसेही कुटुम्बेशसेभी भग चुम्बनवाळा होवै ॥ ९१ ॥ मंगलसे पतले स्तनवाळी, शनि राहु आदिसे लंबे स्तनवाळी सूर्यसे कडे एवं ऊंचे स्तनवाळी अन्यग्रहोंसे स्थूल और उत्तम स्तनोंवाली होतीहै ॥ ९२ ॥

पापेनैकेन सहिते विलक्षणकुचा भवेत् ॥ दारेशे पापखेटे वा शुभे  
वा तादृशस्तनी ॥ ९३ ॥ शुभद्वयेन सहिते दारेशेऽपि तथाविधे ॥  
समस्तनी भवेत्पत्नी पापयोगेऽन्यथा भवेत् ॥ ९४ ॥ अति-  
स्थूलस्तनी पत्नी सशुभे दारनायके ॥ जलगहे जलक्षस्थे गुरु-  
णापि निरीक्षिते ॥ ९५ ॥

एक पापग्रहसे युक्त होवै तो विलक्षण स्तनवाळी होवै, सप्तमेश पाप वा शुभ पापयुक्त नीचा दिग्गत होवै तो वैसाही फल होगा ॥ ९३ ॥ दो शुभग्रहोंसे सहित हो सप्तमेशभी वैसाही होवै तो स्त्री समान स्तनवाळी होवे पापयुक्त होवै तो पत्नी न होवै ॥ ९४ ॥ सप्तमेश शुभयुक्त होवै तो अतिस्थूल स्तनवाळी होवै जलराशिमें वृद्धिस्थानगत होवै बृहस्पतिभी उसे-  
देसे तोभी वही फलहोगा ॥ ९५ ॥

रवौ वा भूमिपुत्रे वा मन्दमान्द्यगुसंयुते ॥ दाराधिपे पापभागे  
भगदैर्घ्यं विनिर्दिशेत् ॥ ९६ ॥ तदीशौ गुरुशुक्रौ वा शुभांशस-  
हितौ यदा ॥ समं भगं भवेत्तस्याः । तु दीर्घकम् ॥ ९७ ॥

शनिचन्द्रविदां मध्ये यत्रैकस्मिन्मदेश्वरे ॥ ह्रस्वं भगं समादिष्टं  
स्त्रियामेवं विनिर्दिशेत् ॥ ९८ ॥

सूर्य अथवा मंगल, शनि, केतु, राहुयुक्त होवें सप्तमेश पापाशकमें होवै तो भग दीर्घ होवै ॥ ९६ ॥ सप्तमेश गुरु वा शुक यदि शुभग्रहोंके अंशमें हों तो उस स्त्रीका भग सम होवै-  
पापयुक्त होवें तो दीर्घभग होवै ॥ ९७ ॥ शनि चंद्रमा बुधमेंसे एक सप्तमेश होवै तो छोटा भग कहावै इसप्रकार स्त्रियोंके ग्रहोंका विचार करना ॥ ९८ ॥

कलत्रेशे जलक्षस्थे कारके वा तथाविधे ॥ जलक्षे दारभावे वा पूर्ण-  
चन्द्रनिरीक्षिते ॥ ९९ ॥ चन्द्रे जलक्षे दारस्थे जलस्थभृगुवीक्षिते ॥  
जलक्षस्थविदा दृष्टे स्त्रीगुह्यस्यार्द्रता भवेत् ॥ १०० ॥ पूर्णे शशांके  
दारस्थे जलराशयंशकेऽपि वा ॥ जलस्थगुरुसंदृष्टे सततं त्वार्द्रता  
भवेत् ॥ १०१ ॥ परमोच्चांशके शुके जलराशिगतेपि वा ॥ भानु-  
नासंयुते वापि मैथुनादेव तादृशम् ॥ १०२ ॥

सप्तमेश जलराशिमें सप्तमकारकभी जलराशिमें हो वा सप्तम भावमें जलराशि पूर्ण चंद्र से दृष्ट होवै स्त्रीका भग गीळा शीघ्र होवै ॥ ९९ ॥ चन्द्रमा जलराशिमें सप्तम होवै उसे शुक देखे जलराशिस्थ बृहस्पतिसे भी दृष्ट होवै तो स्त्रीके गुह्यस्थानमें गीळापन रहे ॥ १०० ॥ पूर्ण चन्द्रमा सप्तममें जलराशि वा जलराशयशकका होवै जलराशिस्थ गुरु उसे देखे तो सर्व दा भगमें गीळापन रहे ॥ १०१ ॥ शुक परमोच्चांशकमें हो अथवा जलराशिमें हो सूर्यसे युक्त होवै तो मैथुनसेभी तादृशह भग होवै ॥ १०२ ॥

दारेशे शुक्रराशिस्थे दारे वा शुक्रसंज्ञके ॥ शुक्रग्रहेण संयुक्ते  
त्वनार्द्रं गुह्यमादिशेत् ॥ १०३ ॥ पापक्षेत्रे पापमध्ये दारेशेपि तथा-  
विधे ॥ पापदृग्योगसंपाते त्वनार्द्रं गुह्यमादिशेत् ॥ १०४ ॥

सप्तमेश ( शुक्र ) स्पष्ट चरराशिमें वा सप्तममें शुक्रराशि शुक्रग्रह होवै तो गुह्य-  
स्थान गीळा न रहे ऐसा कहना ॥ १०३ ॥ पापग्रहीराशिमें पापग्रहोंके बीच ऐसाही सप्तमेश होवै पापदृग्योग दृष्टि ना योग होवै तोभी वैपत्ती कहना ॥ १०४ ॥

सप्तमेशे बुधे दृष्टे गुरुणा बलसंयुते ॥ भुक्तीशेनापि संदृष्टे सूपद-  
ध्याज्यभागभवेत् ॥ १०५ ॥ सप्तमेशे गुरौ दृष्टे शोभनांशसम-  
न्विते ॥ सौम्यांशसौम्यसंदृष्टे सूपदध्याज्यभागभवेत् ॥ १०६ ॥

सप्तमेश बुध गुरुसे दृष्ट एवं बलवान् होवै द्वितीयेशसे भी दृष्ट होवै तो. दाल दही घी आदि खानेवाला होवै ॥ १०५ ॥ सप्तमेश गुरु द्वितीयेशसे दृष्ट शुभांशकमें तथा बुधक नवांशमें बुधसे दृष्ट होवै तौभी वह फल कहना ॥ १०६ ॥

दारस्थे भृगुपुत्रे वा पूर्णचन्द्रनिरीक्षिते ॥ पापैर्युक्ते दृष्टे वा सूप-  
दध्याज्यभागभवेत् ॥ १०७ ॥ रवौ वा भूमिपुत्रे वा सप्तमेश-  
शुभेक्षिते ॥ भुक्तिस्थानगते वापि कदाचिदधिसूपभाक् ॥ १०८ ॥

अथवा सप्तम शुक्र पूर्णचन्द्रमासे दृष्ट तथा पापग्रहोंसे युक्त दृष्ट न होवै तो दाल दही घी आदि खानेवाला होवै ॥ १०७ ॥ सूर्य अथवा मंगल सप्तमेश हो शुभग्रहदृष्ट हो अथवा दूसरे स्थानमें होवै तो दही दाल कदाचित् खावै ॥ १०८ ॥

पापे सप्तमभावस्थे तदीशे पापसंयुते ॥ क्रूरपष्टचंशके वापि घृत-  
सूपादिहीनभाक् ॥ १०९ ॥ चन्द्रे गुरौ वा दारेशे जलराशयंशसं-  
भवे ॥ जलग्रहेण वा दृष्टे क्षीरपानादिभागभवेत् ॥ ११० ॥ सप्त-  
मेशस्थितांशेशे शुभदृष्टिसमन्विते ॥ शुभग्रहांशके वापि गुडक्षी-  
रादिपानभाक् ॥ १११ ॥

सप्तममें पापग्रह हो सप्तमेश पापयुक्त हो अथवा क्रूरपष्टचंशकमें होवै तो घृत दाल आदि से रहित भोजन करे ॥ १०९ ॥ चंद्रमा वा बृहस्पति सप्तमेश होकर जलचर राशि वा अंश-  
कमें हो अथवा जलघातुवाले ग्रहसे दृष्ट होवै तो दुग्ध आदि पीनेवाला होवै ॥ ११० ॥  
सप्तमेश जिसके अंशकमें है वह शुभ दृष्ट होवै अथवा शुभांशकमें होवै तो गुड दूध आदि उत्तम पदार्थ पान करनेवाला होवै ॥ १११ ॥

वहवः सप्तमे पापाः पष्टे वा रन्त्रभेपि वा ॥ क्रूरपष्टचंशसंयुक्ता मूत्र-  
कृच्छं विनिर्दिशेत् ॥ ११२ ॥ इति सप्तमभावस्थानिश्चितार्थ-  
विचारयुक् ॥ षष्ठाध्यायो मया प्रोक्तो व्यंकटेशेन धीमता ॥ ११३ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ सप्तमभावफल-

विचारो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सप्तम स्थानमें बहुत पापग्रह हों अथवा छठे वा अष्टममें हों, क्रूर पष्टचंशकसंयुक्त होवै तो मूत्र-  
कृच्छ्र रोग कहना ॥ ११२ ॥ मैं धीमान् व्यंकटेशने इसप्रकार सप्तमभावस्थ निश्चित फल  
विचार चित्र अर्थवाला छठा अध्याय कहाहै ॥ ११३ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषाटीकायां सप्तमभावफलवि-

चाराध्यायः पष्ठः ॥ ६ ॥



## सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथायुर्धर्मभावफलविचाराध्यायः ।

मरणाज्जीवितमरणं गुह्यस्थानं च मरणहेतुं च ॥

अन्नसुखं भृतिदंशं परिभवमपि चिंतयेत्प्राज्ञः ॥ १ ॥

मरणसे जीवन और मरण, गुह्यस्थान, मरणका हेतु, अन्नसुख, भृति, दश, हारजानाभी अष्टम भावसे विचारने । इनको खुलासा आगे कहेंगे ॥ १ ॥

रन्ध्रेश्वरे पापयुतैत्यराशावल्पायुरस्येति वदंति पष्ठे ॥ तत्रापि  
लघ्वेश्वरयोगजातः स्वल्पायुरस्येति वदंति संतः ॥ २ ॥

अष्टमेश पापयुक्त बारहवें वा छठे होवै तो इस मनुष्यकी अल्पायु होगी, तहां लघ्वेश्वरभी युक्त होवै तो विद्वान् इसकी थोड़ी आयु कहते हैं ॥ २ ॥

स्वक्षेत्रसंस्थे यदि रंध्रनाथे दीर्घायुराहुर्मुनयो महान्तः ॥ मदेन  
वाचिन्त्य विशेषमायुः स्वक्षेत्रमित्रोच्चगृहस्थितेन ॥ ३ ॥ रन्ध्रेश्व-  
रेणापि विलग्ननाथे युते रिपौ वा व्ययराशियुक्ते ॥ पष्टान्त्यपे वा  
यदि लग्नयुक्ते दीर्घायुरस्येति शुभेक्षितश्चेत् ॥ ४ ॥

अष्टमेश अपने क्षेत्रमें होवै तो बड़े मुनिजन इसकी दीर्घायु कहतेहैं अथवा सप्तम भावसे अपनी राशि मित्रकी राशि और उच्चराशि स्थित मद्रके अनुसार दीर्घायु विशेष जाननी ॥ ३ ॥ अष्टमेश युक्त लघ्वेश छठे वा बारहवें होवै और पष्टेश व्ययेश लग्नमें होवै शुभमह उनको देखें तो मनुष्यभी दीर्घायु होगी ॥ ४ ॥

कर्मेश्वरेणापि विचिन्त्यमायुर्दीर्घं सुहृत्स्वोच्चयुतेन तेन ॥ केन्द्र-  
स्थितैः कर्मविलग्नरन्ध्रनाथैस्तथैवायुरुदाहरन्ति ॥ ५ ॥ प्रोक्तं  
ग्रहैर्व्योमचरैस्त्रिभिर्वा सभानुजैः केंद्रगतैस्तथैव ॥ स्वक्षेत्रकोणा-  
दिगतैर्विशेषाद्ददन्ति दीर्घायुरुदारचिन्ताः ॥ ६ ॥

ऐसेही मित्र उच्च स्वगृहादिस्थित दशमेशसेभी दीर्घायुका विचार करना दशम लग्न और अष्टम भावके स्वामी केन्द्रमें होवै तो वैसेही दीर्घायु कहनी ॥ ५ ॥ उक्त मद्र दशममें हों वा तीनों शनियुक्त अन्य केंद्रमें हों तो भी उदारखुदिकाठे दीर्घायु कहतेहैं ॥ ६ ॥

केन्द्रान्विते विलग्नशे गुरुशुक्रसमन्विते ॥ ताभ्यां निरीक्षिते वापि दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ७ ॥ चतुरस्रे शुभैर्युक्ते लग्नेशे शुभसंयुते ॥ गुरुणा दृष्टिसंयोगे पूर्णमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ८ ॥ त्रिषडायगताः पापाः शुभाः केन्द्रत्रिकोणगाः ॥ लग्नेशे बलसंयुक्ते पूर्णमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ९ ॥

लग्नेशकेन्द्रमें गुरु शुक्र सहित वा इनसे दृष्ट होवै तो दीर्घायु कहनी ॥ ७ ॥ केन्द्रोंमें शुभग्रह लग्नेश शुभयुक्त बृहस्पतिसे दृष्ट होवै तो पूरी आयु कहनी ॥ ८ ॥ पापग्रह तीसरे छठे ग्यारहवें में शुभग्रह केन्द्र कोणोंमें हों और लग्नेश बलवान् होवै तो पूर्ण आयु कहनी ॥ ९ ॥

षट्सप्तरन्ध्रभावेषु शुभेषु सहितेषु च ॥ त्रिषडायेषु पापेषु पूर्णमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ १० ॥ रंध्राधिपे विलग्नस्थे गुरुशुक्रयुतेक्षिते ॥ लग्नेशे केन्द्रभावे वा दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ११ ॥ उच्चाश्रितैस्त्रिभिः खेटैर्लग्ने रन्ध्रेशसंयुते ॥ रंध्रे पापविहीने तु दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ १२ ॥

छठे सातवें और आठवें भावमें शुभग्रह हों ३६।११ में पापग्रह हों तो पूर्णायु कहनी ॥ १० ॥ अष्टमेश लग्नमें गुरु शुक्रसे युक्त वा दृष्ट होवै वा लग्नेश केन्द्र भावमें होवै तो दीर्घायु कहनी ॥ ११ ॥ तीन ग्रह उच्चके हों अष्टमेश लग्नमें हो और अष्टममें कोई पापग्रह न होवै तो दीर्घायु कहनी ॥ १२ ॥

रन्ध्रस्थितैस्त्रिभिः खेटैः स्वोच्चमित्रस्वगेहगैः ॥ लग्नेशे बलसंयुक्ते दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ १३ ॥

अष्टम भावमें तीन ३ ग्रह हों और वे अपने उच्च मित्र अथवा राशिमें होंवें अर्थात् अष्टम भाव उन ग्रहोंके उच्चादिमेंसे कोई होवै, और लग्नेश बलवान् होवै तो दीर्घायु कहनी ॥ १३ ॥

पारावतादिभागस्थाः पापाः सर्वशुभास्तथा ॥ केन्द्रत्रिकोणनिलयाः पूर्णमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥ षष्ठाष्टमे व्यये पापे लग्नेशे दुर्बले यदि ॥ अल्पायुरनपत्यो वा शुभदृग्योगवर्जिते ॥ १५ ॥ (१६)

संपूर्ण पाप तथा शुभग्रह पारावतादि अंशकोंमें केन्द्र त्रिकोण गत होवें तो पूर्णायु कहनी ॥ १४ ॥ छठे आठवें और बारहवें भावमें पापग्रह हों लग्नेश निर्बल होवै शुभग्रहोंसे युक्त वा

दृष्ट न हों तो अल्पायु वा अपुत्र होवै ॥ १५ ॥ (१६)

चतुष्टयगते पापे शुभदृष्टिविवर्जिते ॥ बलहीने विलग्नशे त्वल्प-  
मायुर्विनिर्दिशेत् ॥ १७ ॥ व्ययार्थौ पापसंयुक्तौ शुभदृष्टिविव-  
र्जितौ ॥ क्रूरपष्टचंशके वापि स्वल्पमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ १८ ॥

केद्रमें पापग्रह शुभग्रहदृष्टि रहित होवै तथा लग्नेश बलहीन होवै तो अल्पायु कहनी ॥ १७ ॥  
बारहवा और दूसरा भाव पापयुक्त शुभदृष्टिरहित हों अथवा क्रूर पष्टचशकमें होवै तो अल्पायु  
कहनी ॥ १८ ॥

आयुर्योगाङ्घ्रिधा प्रोक्ताः स्वल्पमायुश्चिरायुषः ॥ द्वात्रिंशत्पूर्वम-  
ल्पायुर्मध्यमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ १९ ॥ सप्तत्याः प्राक् ततः पूर्ण-  
मायुरत्र वदन्ति हि ॥ अल्पायुर्दिननाथस्य शत्रुर्लगाधिपो यदि ॥ २० ॥

अल्प मध्य दीर्घ भेदसे आयुके तीन भेद हैं । ३२ वर्षसे पहिले अल्प, ७० वर्षसे पूर्व मध्य  
इससे ऊपर पूर्णायु कहतेहैं ॥ लग्नेश सूर्यका शत्रु होवै तो अल्पायु होवै ॥ १९ ॥ २० ॥

• समत्वे मध्यमायुः स्यान्मित्रे दीर्घायुरादिशेत् ॥ बलहीने विल-  
ग्नशे जीवे केन्द्रत्रिकोणगे ॥ २१ ॥ पष्ठाष्टमव्यये पापे मध्यमा-  
युरुदाहृतम् ॥ शुभे केन्द्रत्रिकोणस्थे शनौ बलसमन्विते ॥ २२ ॥  
पष्टे वाप्यष्टमे पापे मध्यमायुरुदाहृतम् ॥ लग्ने त्रिकोणे केन्द्रे  
वा मध्यमायुश्च मिश्रिते ॥ २३ ॥

लग्नेश सूर्यका सम होवै तो मध्यमायु, मित्र होवै तो दीर्घायु कहनी । लग्नेश निर्बल होवै  
बृहस्पति केंद्र वा त्रिकोणमे होवै और छठे आठवे बारहवे मे पापग्रह होवै तो मध्यायु कहंही ।  
केंद्र त्रिकोणमें शुभग्रह हों शनि बलवान् हो छठे अथवा आठवें पापग्रह होवै अथवा लग्न  
त्रिकोण केन्द्रमे पापग्रह हावै तो मध्यमायु होवै, उक्तयोगमिश्रित हो तोभी मध्यायु  
होवै ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

अल्पायुर्योगजातानां वियत्पाको मृतिप्रदः ॥ मध्यमे प्रत्यरिदशा  
मृतिं दद्याद्विशेषतः ॥ २४ ॥ वधभेशदशा कष्टा पूर्णायुर्योगसं-  
ज्ञके ॥ योगायुरिति निश्चित्य जातस्यैवं वदेद्बुधः ॥ २५ ॥

निर्नके अल्पायु योग होतेहैं उनको विषय नक्षत्रेश दशा, मध्यमायुवालेको मृत्युरितारेश  
दशा, और विशेषकरिके पूर्णायुयोगमें वधनक्षत्रेशदशा मृत्यु देतीहै, इसप्रकार योगायु निश्चय  
करके पढित आयु फहे ॥ २४ ॥ २५ ॥

आयुर्विलग्नाधिपती बलेन हीनौ धरासूनुव्रणेशयुक्तौ ॥ युद्धे मृतिं  
तस्य वदन्ति तज्ज्ञाः शस्त्रेण वा तन्मरणं विशेषात् ॥ २६ ॥  
रंभ्रांगनाथौ यदि वा रिपुस्थौ राह्वन्वितौ केतुयुतौ समंदौ ॥ तद्भु-  
क्तिकालेऽप्यथ वापि पाके शस्त्रेण चौरैर्मरणं प्रयाति ॥ २७ ॥

अष्टमेश और लग्नेश बलरहित होवें तथा मगल एवं षष्टेशसे युक्त होवें तो ज्योतिषज्ञ उसकी मृत्यु रणमें; विशेषतः शस्त्रसे कहतेहैं ॥ २६ ॥ यदि लग्नेश अष्टमेश छठे स्थानमें शनि तथा राहु वा केतु सहित होवे तो उसकी दशा अथवा अंतर्दशामें शस्त्रसे चोरोंके हाथसे मरे ॥ २७ ॥

रन्भ्रांगपौ वाहननाथयुक्तौ तस्मान्मृतिं तस्य वदन्ति तज्ज्ञाः ॥  
मृतिं त्वजीर्णाद्भूरुसंयुतौ तौ देहेशजीवौ रिपुगावजीर्णात् ॥ २८ ॥  
लग्नेश्वरे वाहननाथयुक्ते वागीश्वरेणापि युते त्वजीर्णात् ॥ देहेश्वरे  
वाहनवित्तभावनाथान्विते वा मरणं त्वजीर्णात् ॥ २९ ॥ रन्भ्रे-  
शयोगान्मरणं दशायामन्तर्दशायामथ वा वदन्ति ॥ पित्रादि-  
भावाधिपयोगदृष्ट्या पित्रादिकानां मरणं तथैव ॥ ३० ॥

अष्टमेश लग्नेश चतुर्थेशसे युक्त होवें तो वाहनसे मृत्यु कहतेहैं । यदि वही लग्नेश अष्ट-  
मेश बृहस्पतिसे युक्त होवे तो अजीर्णसे मृत्यु होवे । तथा लग्नेश और बृहस्पति छठे हो तो  
भी अजीर्णसे ज्योतिषी मृत्यु कहतेहैं ॥ २८ ॥ लग्नेश चतुर्थेशसे तथा बृहस्पतिसेभी युक्त  
होवे तो अजीर्णसे मृत्यु होवे । लग्नेश, चतुर्थेश, द्वितीयेशसे युक्त होवे तोभी अजीर्णसे मृत्यु  
होवे ॥ २९ ॥ अष्टमेशके योगसे उसकी दशा वा अंतर्दशामें मरण कहतेहैं । ऐसेही  
पित्रादिभावशोंकी दृष्टि वा योगसेभी पिता आदिवा मरण कहना ॥ ३० ॥

भुक्त्यंगपौ भानुसुतेन युक्तौ दुःस्थानगौ वा विपभक्षणेन ॥  
राहुध्वजाभ्यां सहितौ च दुःस्थानुद्ग्रंथनात्तस्य मृतिं वदन्ति ॥ ३१ ॥  
षष्टेश्वरे भानुसुते सराहौ केतौ मृगाद्भीतिमुदाहरन्ति ॥ जीवेन-  
युक्ते गजभीतिमस्य जातस्य चन्द्रेण युक्तेऽपि भीतिम् ॥ ३२ ॥  
सूर्यान्विते तादृशभानुपुत्रे मृगात्सशृंगाच्छुनकात्सभीमे ॥ षष्ट-  
स्थिते भानुसुतेपि चैवं विना स्वतुंगस्वगृहं सुखेष्टे ॥ ३३ ॥

दशमेश लग्नेश शनिरहित दुष्टस्थानमें हों तो विपयानेमें मृत्यु होवे । यदि राहु  
वा केतुसे युक्त दुष्ट स्थानमें हों तो पापीसे मरण होवे ॥ ३१ ॥ षष्टेश शनि

राहु वा केतु सहित होवे तो मृगस भय कहतेहैं । बृहस्पतिसे युक्त होवे तो हाथीसे और चंद्रमासे युक्त होवे तो घोडेसे भय कहतेहैं ॥ ३२ ॥ वैसाही शनि सूर्यसे युक्त होवे तो शींगवाले मृगसे और भौमयुक्त होवे तो कुत्तासे भय होवे, छठ स्थानमें शनि होवे तोभी यही फल जानना इन योगोंमें योगकत्ता ग्रह अपने उच्चराशि स्वराशि का न हो तब उक्त फल होंगे ॥ ३३ ॥

सुखेशभाग्येशविलग्रनाथास्त्रिकोणगाः केन्द्रगताश्च सर्वे ॥  
भुक्तौ यदा तत्परिपाककाले पित्रा सहैवानुमृतिं च मातुः ॥ ३४ ॥  
रन्ध्रे शशांके फणिनाथयुक्ते हीने त्वपस्मारयुतः समन्दे ॥ तत्र  
स्थिते हीनबले शशांके पिशाचपीडा जलजा च पीडा ॥ ३५ ॥  
भौमाहिमन्दान्यतमेन युक्ते क्षीणे शशांके निधनस्थितेपि ॥  
दुःस्थे त्वपस्मारभयान्मृतिः स्यात्पिशाचावधा त्वथ वा मृतिः  
स्यात् ॥ ३६ ॥ रन्ध्रे सराहौ यदि वा सकेतौ चातुर्थिकात्पीडन-  
माहुरस्य ॥ रन्ध्रेश्वरेणापि युते तथैवं क्रूरादिषष्ट्यंशयुतेतिस-  
त्यम् ॥ ३७ ॥ नीचस्थिते वासरनायके वा पष्ठाष्टमस्थे यदि  
पापदृष्टे ॥ राज्ञां प्रकोपान्मरणं पितुश्च तत्पीडया वित्तवि-  
नाशमेति ॥ ३८ ॥

चतुर्पेश नवमेश और लग्नेश त्रिकोण वा केन्द्रमें हों उनकी दशा अंतर्दशा समयमें पिताके साथ माताकीभी मृत्यु होवे ॥ ३४ ॥ अष्टम भावमें चंद्रमा राहुयुक्त तथा बलहीन होवे तो अपस्मार ( मृगीरोग ) होवे अष्टमस्थ निर्बल चन्द्रमा शनिसहित होवे तो पिशाच आर जलसे उत्पन्न पीडा होवे ॥ ३५ ॥ ऐसाही चन्द्रमा क्षीण (तनु) मंगल, राहु शनिमस किसीसेयुक्त अष्टमस्थ होवे तो भी वही फल कहना । ऐसा चंद्रमा यदि अन्यदुष्टस्थानमें होवे तो पिशाचकी पीडा अथवा मृत्यु होवे ॥ ३६ ॥ अष्टमस्थ चन्द्रमा राहु वा केतु सहित होवे तो चौधिया उरसे पीडा इसमें होवे अष्टमेशसे युक्तभी होवे तो वही फल होगा यदि क्रूरादिषष्ट्यंशमें भी होवे तो वह फल अतिसत्य ( अवश्य ) ही होगा ॥ ३७ ॥ सूर्य नीच राशिमें होवे अथवा छठे वा आठवें भावमें पापदृष्ट होवे तो राजाओकी पीडासे मरण एवं पिताका मरण एवं धननाशभी होवे ॥ ३८ ॥

अथ केचिदरिष्टयोगाः ॥ लग्नाच्छुभे कर्मणि भूमिपुत्रे पापेक्षिते  
मातुलमृत्युमाहुः ॥ मन्देन युक्ते यदि पुत्रमृत्युं चन्द्रे हि तन्मा-

आयुर्विलग्राधिपती बलेन हीनौ धरासुनुव्रणेशयुक्तौ ॥ युद्धं मृतिं  
तस्य वदन्ति तज्ज्ञाः शस्त्रेण वा तन्मरणं विशेषात् ॥ २६ ॥  
रंभ्रांगनाथौ यदि वा रिपुस्थौ राह्वन्वितौ केतुयुतौ समंदौ ॥ तद्दु-  
क्तिकालेप्यथ वापि पाके शस्त्रेण चौरैर्मरणं प्रयाति ॥ २७ ॥

अष्टमेश और लग्नेश बलरहित होवें तथा मंगल एवं शुक्रेण युक्त होवें तो ज्योतिषज्ञ उसकी मृत्यु रणमे; विशेषतः शस्त्रसे कहतेहैं ॥ २६ ॥ यदि लग्नेश अष्टमेश छठे स्थानमें शनि तथा राहु वा केतु सहित होवे तो उसकी दशा अथवा अंतर्दशामें शस्त्रसे चोरोंके हाथसे मरे ॥ २७ ॥

रन्भ्रांगपौ वाहननाथयुक्तौ तस्मान्मृतिं तस्य वदन्ति तज्ज्ञाः ॥  
मृतिं त्वजीर्णाद्भूरुसयुतौ तौ देहेशजीवौ रिपुगावजीर्णात् ॥ २८ ॥  
लग्नेश्वरे वाहननाथयुक्ते वागीश्वरेणापि युते त्वजीर्णात् ॥ देहेश्वरे  
वाहनवित्तभावनाथान्विते वा मरणं त्वजीर्णात् ॥ २९ ॥ रन्ध्रे-  
शयोगान्मरणं दशायामन्तर्दशायामथ वा वदन्ति ॥ पित्रादि-  
भावाधिपयोगदृष्ट्या पित्रादिकानां मरणं तथैव ॥ ३० ॥

अष्टमेश लग्नेश चतुर्थेशसे युक्त होवें तो वाहनसे मृत्यु कहतेहैं । यदि वही लग्नेश अष्ट-  
मेश बृहस्पतिसे युक्त होवे तो अजीर्णसे मृत्यु होवें । तथा लग्नेश और बृहस्पति छठे हो तो  
भी अजीर्णसे ज्योतिषी मृत्यु कहतेहैं ॥ २८ ॥ लग्नेश चतुर्थेशसे तथा बृहस्पतिसेभी युक्त  
होवें तो अजीर्णसे मृत्यु होवें । लग्नेश, चतुर्थेश, द्वितीयेशसे युक्त होवें तोभी अजीर्णसे मृत्यु  
होवें ॥ २९ ॥ अष्टमेशके योगसे उसकी दशा वा अंतर्दशामें मरण कहतेहैं । ऐसेही  
पित्रादिभावेशोंकी दृष्टि वा योगसेभी पिता आदिका मरण कहना ॥ ३० ॥

भुक्त्यंगपौ भानुसुतेन युक्तौ दुःस्थानगौ वा विपभक्षणेन ॥  
राहुध्वजाभ्यां सहितौ च दुःस्थावुद्धंघनात्तस्य मृतिं वदन्ति ॥ ३१ ॥  
पष्टेश्वरे भानुसुते सराहौ केतौ मृगाद्भीतिमुदाहरन्ति ॥ जीवन-  
युक्ते गजभीतिमस्य जातस्य चन्द्रेण युक्तेष्वभीतिम् ॥ ३२ ॥  
सूर्यान्विते तादृशभानुपुत्रे मृगात्सशृंगाच्छुनकात्सभौमे ॥ पष्ट-  
स्थिते भानुसुतेपि चैवं विना स्वतुंगस्वगृहं सुखेदे ॥ ३३ ॥

दशमेश लग्नेश शनिसहित दुष्टस्थानमें होवें तो विपयानेसे मृत्यु होवे । यदि राहु  
॥ केतुसे युक्त दुष्ट स्थानमें होवे तो फाँसीसे मरण होवे ॥ ३१ ॥ पष्टेश शनि

राहु वा केतु सहित होव तो मृगस भय कहतेहैं । बृहस्पतिसे युक्त होवे तो हाथीसे और चंद्रमासे युक्त होव तो घोड़ेसे भय कहतेहैं ॥ ३२ ॥ वैसाही शनि सूर्यसे युक्त होवै तो शींगवाले मृगसे और भौमयुक्त होवे तो कुत्तासे भय होवै. छोट स्थानमें शनि होवे तोभी यही फल जानना इन योगोंमें योगकत्ता ग्रह अपने उच्चराशि स्वराशि का न हो तब उक्त फल होंगे ॥ ३३ ॥

सुखेशभाग्येशविलग्ननाथाह्निकोणगाः केन्द्रगताश्च सर्वे ॥  
भुक्तौ यदा तत्परिपाककाले पित्रा सहैवानुमृतिं च मातुः ॥३४॥  
रन्ध्रे शशांके फणिनाथयुक्ते हीने त्वपस्मारयुतः समन्दे ॥ तत्र  
स्थिते हीनबले शशांके पिशाचपीडा जलजा च पीडा ॥ ३५ ॥  
भौमाहिमन्दान्यतमेन युक्ते क्षीणे शशांके निधनस्थितेपि ॥  
दुःस्थे त्वपस्मारभयान्मृतिः स्यात्पिशाचाबधा त्वथ वा मृतिः  
स्यात् ॥ ३६ ॥ रन्ध्रे सराहौ यदि वा सकेतौ चातुर्थिकात्पीडन-  
माहुरस्य ॥ रन्ध्रे शरेणापि युते तथैवं क्रूरादिषष्ट्यंशयुतेतिस-  
त्यम् ॥ ३७ ॥ नीचस्थिते वासरनायके वा पष्ठाष्टमस्थे यदि  
पापदृष्टे ॥ राज्ञां प्रकोपान्मरणं पितुश्च तत्पीडया वित्तावि-  
नाशमेति ॥ ३८ ॥

चतुर्थेश नवमेश और लग्नेश त्रिकोण वा केन्द्रमें होवैं उनकी दशा अंतर्दशा समयमें पिताके साथ माताकीभी मृत्यु होवै ॥ ३४ ॥ अष्टम भावमें चंद्रमा राहुयुक्त तथा बलहीन होवे तो अपस्मार ( मृगीरोग ) होवै अष्टमस्थ निर्बल चन्द्रमा शनिसहित होंवै तो पिशाच आर जलसे उत्पन्न पीडा होवै ॥ ३५ ॥ ऐसाही चन्द्रमा क्षीण (तनु) मंगल, राहु शनिमस किसीसे युक्त अष्टमस्थ होवै तो भी बड़ी फल कहना । ऐसा चंद्रमा यदि अन्य दुष्टस्थानमें होवै तो पिशाचकी पीडा अथवा मृत्यु होवै ॥ ३६ ॥ अष्टमस्थ चन्द्रमा राहु वा केतु सहित होवै तो चौथिया घरमें पीडा इसकी होव अष्टमेशसे युक्तभी होवै तो बड़ी फल होगा यदि क्रूरादिषष्ट्यंशमें भी होवै तो वह फल अतिसत्य ( अवश्य ) ही होगा ॥ ३७ ॥ सूर्य नीच राशिमें होवै अथवा छठे वा आठवें भावमें पापदृष्ट होवै तो राजाओकी पीडासे मरण एवं पिताका मरण एवं धननाशभी होवै ॥ ३८ ॥

अथ केचिदरिष्टयोगाः ॥ लग्नाच्छुभे कर्मणि भूमिपुत्रे पापेक्षिते  
मातुलमृत्युमाहुः ॥ मन्देन युक्ते यदि पुत्रमृत्युं चन्द्रे हि तन्मा-

तृमूर्ति सपापे ॥ ३९ ॥ पितुर्मूर्तिर्वासरनायकेत्र न संशयः पाप-  
दशा समेते ॥ पापद्वयेनापि युतौ विलग्ननिशाकरो मृत्युमुपैति  
बालः ॥ ४० ॥ अस्ते शशांके परिवेषयुक्ते पापेक्षिते वा मरणं  
च सद्यः ॥ त्वष्टार्यतोषेषु विलग्नचन्द्रे जातः सवित्रीसुतमातु-  
लांश्च ॥ ४१ ॥

अब थोड़े भरिष्टयोग कहते हैं ॥ लग्नसे नवम वा दशममे मंगल पापदृष्ट होवै तो  
पामाकी मृत्यु होवै यदि शनियुक्त होवै तो उसके पुत्रकी, और चंद्र सहित होवै  
तो उसकी मृत्यु होवै ॥ ३९ ॥ इन्ही भावोंमें पापदृष्ट सूर्य होवै तो निस्संदेह पिताकी  
मृत्यु होवै, लग्नेश तथा चन्द्रमा दो पापग्रहोंसे युक्त होवै तो बाल्यावस्थाहोमें मरजावै ॥ ४० ॥  
जन्म समयमें चन्द्रमापर ग्रहण अथवा ( परिवेष ) मंडल होवै तथा पापदृष्ट होवै तो बालक  
शीघ्र मरजावै ॥ चंद्रमा एवं लग्न चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढमें होवै ऐसे समयमें  
चंद्रमा अस्त वा परिवेषयुक्त होवै तो भाई और मामा मरें ॥ ४१ ॥

पादाक्रमेणापि निहन्ति तांस्तु शुभैस्तु दृष्टे सहिते न दोषः ॥  
लाभे शुभे वा यदि मन्दभौमौ फणीन्द्रयुक्तौ पितुरस्त्यपायः ॥  
॥ ४२ ॥ पापेक्षिते भूमिसुते कलत्रे जातः समृत्युं समुपैति रन्ध्रे ॥  
सोत्थे धराम्नुयुते सपापे पापेक्षिते सोदरनाशमाहुः ॥ ४३ ॥

यद्वा उनको पादाक्रमणसे मारे यदि उस योगकर्ता ग्रहपर शुभग्रहकी दृष्टिभी होवै तो  
वह दोष नहीं होगा, लाभ वा नवम स्थानमें शनि मंगल राहुयुक्त होवै तो उसके पिताका  
नाश होवै ॥ ४२ ॥ पापदृष्ट मंगल सप्तमस्थानमें यद्वा अष्टम स्थानमें होवै तो बाल्याव-  
स्थामें मरण होवै तृतीयभागमें मंगल पापयुक्त दृष्ट होवै तो भ्रातृनाश होवै ॥ ४३ ॥

अस्ते शशांके यदि मातृमृत्युं पापान्विते पापदशा समेते ॥ भानौ  
पितुर्मृत्युमुदाहरन्ति मन्दारशुकैः सहिते सुतस्य ॥ ४४ ॥ तृतीय-  
पष्टस्थितखेचरेन्द्रैः पापग्रहैरन्त्यगतैश्च सौम्यैः ॥ शिशोर्मूर्तिं वा  
कुमुदात्मबन्धौ चतुर्थरंध्रस्थितपापखेटैः ॥ ४५ ॥

पापयुक्त दृष्ट चन्द्रमा सप्तम स्थानमें होवै तो माताकी मृत्यु होवै ऐसाही सूर्य होवै ता  
पिताकी मृत्यु कहतेहैं यदि सप्तममें शनि मंगल शुक सहित होवै तो पुत्रकी मृत्यु होवै  
॥ ४४ ॥ पापग्रह तीसरे छठे भावोंमें हों शुभग्रह बारहवें में हों अथवा चंद्रमा पापग्रहोंस-  
हित चौथे वा आठवें होवै तो बालककी मृत्यु होवै ॥ ४५ ॥



लग्नेर्कचन्द्रौ व्ययगास्तु पापाः शिशोर्मृतिं शोभनदृष्ट्यभावे ॥  
 अस्ते रवौ चन्द्रयुते विलग्नौ पापान्विते तत्सुतमृत्युमाहुः ॥४६॥  
 दिनेशचन्द्रौ व्ययगौ तदानीमन्धो भवेत्सौम्यदृशा विहीनौ ॥  
 युक्ते तयोरन्यतरेण रिष्फे काणो भवेत्सौम्यदृशा विहीने ॥४७॥  
 दिनेशचन्द्रौ व्ययगौ तदीशे लग्नस्थिते देहविनाशमाहुः ॥ सुरे-  
 श्वरे रंभ्रगते व्यये वा पापान्विते पापदृशा समेते ॥ ४८ ॥ लग्ना-  
 धिपे पूर्णबले सुखेशभाग्येश्वरौ नाशगतौ विहीनौ ॥ जातस्य ज-  
 न्मावसरे तदानीं पितुश्च मातुर्निधनं वदन्ति ॥ ४९ ॥

लग्नमें सूर्य चन्द्रमा व्ययभावमें पापग्रह हों उन्हें शुभग्रह न देखें तो बालककी मृत्यु होवे, समममें सूर्य लग्नमें चन्द्रमा पापयुक्त हों तो पुत्रमरण कहतेहैं ॥ ४६ ॥ सूर्य चन्द्रमा व्यय-  
 स्थानमें शुभदृष्टिरहित होवें तो अंधा होवै, इनमेंसे एक छठे एक व्ययस्थानमें शुभदृष्टिरहित  
 होवें तो एक आंखसे काण होवै ॥ ४७ ॥ सूर्य चन्द्रमा व्ययभावमें और व्ययेश लग्नमें  
 होवे तो शरीर नष्ट होवे । बृहस्पति आठवें वा बारहवें पापग्रह दृष्ट युक्त होवै ॥ ४८ ॥ लग्नेश  
 पूर्णबली, चतुर्थेश नवमेश अष्टमभावमें बलहीन होवें तो मनुष्यके जन्मसमयहीमें माता और  
 पिताकाभी मरण कहतेहैं ॥ ४९ ॥

दुःस्थे तृतीयाधिपतौ सचन्द्रे स्तन्यं परस्त्रीपु पिवेत्स बालः ॥  
 तातेशतत्कारकखेचरेन्द्रौ दुःस्थौ तयोः पुत्रसुखं न दृष्टम् ५०॥  
 केन्द्रत्रिकोणे यदि तौ विहंगौ वदेत्तयोः पुत्रसुखं त्वभीष्टम् ॥  
 पितुर्निशायां मरणं वदन्ति भाग्येशसूर्यार्कसुताः क्षतस्थाः॥५१॥  
 पष्टेश्वरेणापि युतास्तथैव चंद्रेण हीनास्तु दिवा मृतिः स्यात् ॥  
 सुखस्थितैः खेचरनायकैर्वा मातुर्मृतिः स्यादयने तु तस्मिन्॥५२॥

तृतीयेश चंद्रमासहित त्रिक स्थानमें होवै तो अनपस्त्रीका दूध पीवै; अपना माताका न  
 पीवै, दशमेश तथा दशमभावकारक ग्रह दुष्टस्थानमें होवें तो उनको पुत्रसुख देखनेमें न आवे.  
 ॥ ५० ॥ वही ग्रह केन्द्र त्रिकोणमें होवें तो उनको मनोनुकूल पुत्रसुख कहना । नवमेश  
 सूर्य और शनि अष्टम स्थानमें होवें तो पिताका मरण रात्रिमें कहते हैं ॥ ५१ ॥ यदि वही  
 पष्टेशसे भी युक्त होवें तो दिनमें कहते हैं, परंतु पष्टेश चंद्रमा होवै तो वह फल नहीं होगा, वही  
 ग्रह चतुर्थ स्थानमें होवें तो उत्कमकार दिन वा रात्रिमें माताकी मृत्यु कहनी ॥ ५२ ॥

नो चेत्तदीशान्वितराशिकाले मातुर्मृतिः स्यादयने च तस्मिन् ॥  
 द्वित्र्यादियोगादयनं हि तत्र व्यत्यासतो वा प्रवदन्ति सन्तः ॥  
 ॥ ५३ ॥ नाशे चरे वा पितृभावनाथे दूरस्थितस्तज्जनकोपि  
 वाच्यः ॥ स्थिरोभयस्थे पितृभावनाथे समीपतस्तज्जनकः स्थितः  
 स्यात् ॥ ५४ ॥

ऐसे न हों तो चतुर्थेश जिस राशिमें है उसके उक्त समय ( अयन दिन रात्र्यादि ) में  
 माताकी मृत्यु कहनी, यदि दो तीन योग होवें तो मरणसमय विपरीततासे सज्जन कहतेहैं  
 ॥ ५३ ॥ दशमेश अष्टममें वा चरराशिमें होवै तो मरणसमयमें उसका पिता दूर रहेगा  
 ऐसा कहना, यदि स्थिर वा द्विस्वभाव राशिमें होवै तो उस समयमें पिता समीप होगा ॥ ५४ ॥

केंद्रे चरेकें यदि वा शशांके सुतो दहेत्तत्पितरौ न तत्र ॥ द्विदे-  
 हराशौ यदि तौ च केन्द्रे तयोर्मृतिं वा दहने विकालम् ॥ ५५ ॥  
 बलेन युक्ते पितृभावनाथे शशांकदेहेशचतुर्थनाथाः ॥ बलेन  
 हीना यदि तज्जनन्यां गाढां विपत्तिं समुदाहरन्ति ॥ ५६ ॥

सूय अथवा चंद्रमा चरराशि केंद्रमें होवें तो पुत्र अपने माता पिताका दाह अपने हाथसे  
 न करे, यदि वही केंद्रमें द्विस्वभावराशिके हों तो माता पिताके मृत्युमें दाहका फुसमप होवै  
 ॥ ५५ ॥ दशमेश बलवान् हो चन्द्रमा लग्नेश चतुर्थेश बलहीन हों तो उसकी माताको  
 गाढ़ी विपत्ति कहतेहैं ॥ ५६ ॥

रन्ध्रे तु पापबाहुल्ये गुह्यरोगं विनिर्दिशेत् ॥ शुभग्रहेण संदृष्टे न  
 दोषं तत्र निर्दिशेत् ॥ ५७ ॥ रन्ध्रे शुभेक्षिते तेन संयुक्ते चेत्सुखं  
 भवेत् ॥ स्थूलान्नं पापसंबन्धे मृद्भन्नं शुभसंयुक्ते ॥ ५८ ॥

अष्टम भावमें बहुत पापग्रह होवें तो गुह्यस्थानमें रोग होवे उनपर शुभग्रहोंकी दृष्टि होवै  
 तो वह दोष न कहना ॥ ५७ ॥ अष्टम स्थानमें शुभग्रह हों शुभग्रहोंकी दृष्टि होवै तो सुखी  
 रहे । ऐसेही पापसंबन्धसे मोटा अन्न शुभग्रह संबन्धसे कोमल अन्न मिले ॥ ५८ ॥

रन्ध्रेशे पापसंयुक्ते पापदृष्टे तदन्तरे ॥ पापक्षेत्रेथ वा रन्ध्रे जातः  
 परिभवान्वितः ॥ ५९ ॥ शुभग्रहाणां संबन्धे रन्ध्रे परिभवो न  
 हि ॥ चरे रन्ध्रे मृतिदूरे तदीशे चरराशिगे ॥ ६० ॥

अष्टमेश पापयुक्त दृष्ट होवै वा पापोंके बीच, वा पापराशिमें अथवा अष्टम स्थानमें होवै  
 तो वह मनुष्य हारा हुआ रहे ॥ ५९ ॥ यदि अष्टम भावमें शुभग्रहोंका दृष्टियोगादि संबन्ध

होवै तो परिभव ( तिरस्कार ) नहीं होगा. अष्टममें चरराशि हो अष्टमेश चरराशिमें होवै तो दूरदेशमें मरण होगा ॥ ६० ॥

शनौ वा चरराशिस्थे चरांशस्थे तथा भवेत् ॥ स्थिरे रन्ध्रे तदीशे  
पि स्थिरराशौ तदंशके ॥ ६१ ॥ शनौ वा स्थिरराश्यंशे स्वगृहे  
मरणं भवेत् ॥ रन्ध्रे द्विदेहराश्यादौ मार्गे मरणमादिशेत् ॥ ६२ ॥  
इत्यष्टमभावविचारः ॥

अथवा शनि चरराशिमें होवै वा चरांशरूमें होवै तोभी दूरदेशमें मरण होवै । अष्टम स्थानमें स्थिरराशि हो उसका स्वामीभी स्थिरराशिमें होवै तो अपने घरमें मृत्यु होवै । ऐसे ही अष्टममें द्विस्वभाव राश्यादि होवै तो मार्गमें मरण कहना ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ इतने अष्टम भावके विचार कहे हैं ॥

अथ नवमभावविचारः ।

शुभभवनाद्गुरुभाग्यं पितृपौत्रदयातपःप्राप्तिम् ॥ ऊरुस्थानं  
स्वातं सहभोक्तृन्दानयोगमपि विद्यात् ॥ १ ॥ चिन्तनीया गुरु-  
स्वामिपितृभाग्यादिमातुलाः ॥ नवमे स्वामिसौम्याब्दे शुभा  
एतेन्यथाशुभाः ॥ २ ॥

नवमभावसे गुरु, भाग्य, पिता, पौत्र, दया, तप, लाभ, ऊरुस्थान, मन, कुटुम्बादि साथ भोजन करनेवाले, दान, योगसाधन इतनोंका विचार जानना ॥ १ ॥ तथा गुरु, स्वामी ( आचार्यादि ), पिता, ऐश्वर्य आदि, मामा, इनशा, विचारभी इसीसे करना । नवमभाव अपने स्वामी एवं शुभग्रहसे युक्त होवै तो उपरोक्त अच्छे होतेहैं; और प्रकार होनेमें अशुभ फल जानना ॥ २ ॥

चन्द्रे सपापे यदि धर्मराशौ भृगोः सुते वा गुरुदारगामी ॥  
धर्माधिपे तादृशखेचरेण युते सपापे गुरुदारगामी ॥ ३ ॥ धर्मा-  
धिपस्थांशपतौ तथैव युक्ते तदा तादृशदारगामी ॥ धर्माधिपे  
नीचगते तदंशे शुक्रेण युक्ते गुरुदारगामी ॥ ४ ॥ क्षीणे निशीशे  
त्वथ वा तदंशे शुक्रे तथैवं गुरुदारगामी ॥ धर्माधिपे नीचगते  
तदंशे शुक्रेण युक्ते गुरुदारगामी ॥ ५ ॥

यदि नवम भावमें पापयुक्त चन्द्रमा अथवा पापयुक्त शुक्र होवै तो गुरु ( अपनेसे श्रेष्ठ ) की खोरा गमन करनेवाला होवै, धर्मभावेश ऐसे ग्रहसे युक्त तथा पापयुक्त होवै तो

भी वही फल होगा ॥ ३ ॥ नवमेश जिसके नवांशकमे है वहभी ऐसा युक्त होवै तो गुरु स्त्रीगामी होवै नवमेश नीच राशिमें धर्मभावस्पांशमें शुक्र होवै तोभी वही फल होगा ॥ ४ ॥ क्षीण चन्द्रमा अथवा नवमभावांश तथा शुक्र उक्त प्रकारके होवै तोभी वही फल देंगे, और धर्मेश नीचगत, धर्म भावांश शुक्रयुक्त होवै तो भी वही फल जानना ॥ ५ ॥

धर्मेश्वरे सौम्ययुते तदंशे वैशेषिकांशे त्वथ वा तदीशे ॥ क्रूरादि-  
षष्ट्यंशविवर्जिते स्याज्जातस्तु धर्मे दृढबुद्धियुक्तः ॥ ६ ॥ गुरौ  
वा भृगुपुत्रे वा स्वोच्चमित्रांशके शुभे ॥ धर्माधिपे बलयुते धर्मा-  
ध्यक्षो नरो भवेत् ॥ ७ ॥ गुरुशुक्रबुधांशस्थे धर्मनाथे शुभे-  
क्षिते ॥ शुभग्रहाणां मध्यस्थे धर्मभाक्स नरो भवेत् ॥ ८ ॥

नवमेश नवमभावांश शुभयुक्त होवै नवमभाव भावेश वैशेषिकांशकमे होवै क्रूर आदि षष्ट्यंशसे रहित होवै तो धर्ममें दृढ बुद्धिवाला होवै ॥ ६ ॥ बृहस्पति अथवा शुक्र उच्च मित्रांशकका नवम स्थानमें होवै और नवमेश बलवान् होवै तो मनुष्य धर्माध्यक्ष होवै ॥ ७ ॥ नवमेश गुरु शुक्र बुधके अंशकमे शुभग्रहयुक्त होवै अथवा शुभग्रहोंके मध्यमें होवै तो वह मनुष्य धर्मवाला होवै ॥ ८ ॥

सौम्यान्विते धर्मगृहे तस्मिन् क्षपांशसंयुते ॥ क्रूरषष्ट्यंशके वापि  
दंभाद्धर्मपरिग्रहः ॥ ९ ॥ नाथकारकभावानामंशे शुभसमन्विते ॥  
शुभांशे शुभसंदष्टे शुचितो धर्मसंयुतः ॥ १० ॥

नवमभाव शुभयुक्त हो परतु उसमें पापांशक अथवा क्रूरषष्ट्यंशक होवै तो दम (घमंड) से धर्म करे ॥ ९ ॥ नवम भावेश नवम भावकारकेशके अंशकमें शुभयुक्त होवै अथवा वे शुभांशकी शुभदृष्ट होवै तो पवित्रतासे धर्मसहित रहे ॥ १० ॥

धर्मे पापे पापभाक्स्यात्तदीशे पापसंयुते ॥ क्रूरषष्ट्यंशके वापि  
पापमध्यगतेऽथ वा ॥ ११ ॥ राहुमंदयुते धर्मे क्रूरांशे गुलिके-  
क्षिते ॥ तदीशे क्रूरराशयंशे त्वतिक्रूरादिक्रूद्रवेत् ॥ १२ ॥

धर्मस्थानमें पापग्रह होवै तो पाप भोगनेवाला होवै, धर्मेश पापयुक्त अथवा क्रूरषष्ट्यंशमें वा पापग्रहोंके मध्यमें होवै ॥ ११ ॥ यद्वा धर्मस्थान राहु शनैश्वरसे युक्त होवै क्रूर गुलिकसे दृष्ट होवै नवमेश क्रूरराशि क्रूरांशकमें होवै तो अतिक्रूरआदि काम करनेवाला होवै ॥ १२ ॥

पितृस्थानेश्वरे सौम्ये कारके शुभसंयुते ॥ भावे वा शुभसंयुक्ते  
पितृसौख्यं विनिर्दिशेत् ॥ १३ ॥ पारावतादिभागस्थे नाथे वा

कारकेपिवा ॥ स्वोच्चमित्रांशके वापि पितृसौख्यं विनिर्दिशेत् ॥  
॥ १४ ॥ सौम्यांतरस्थे तत्राथे गुरुशुक्रयुतेक्षिते ॥ तेषामेकेन संयुक्ते  
पितृसौख्यं विनिर्दिशेत् ॥ १५ ॥ गोपुराद्यंशसंयुक्ते कारके ना-  
थवीक्षिते ॥ पापैरवीक्षिते युक्ते पितृसौख्यं विनिर्दिशेत् ॥ १६ ॥

पितृस्थानका स्वामी शुभग्रह होवे पितृकारक ग्रह शुभयुक्त होवै अथवा पितृभाव शुभग्रहयुक्त होवै तो पिताका सौख्य कहना ॥ १३ ॥ भावेश वा भावकारक पारावतादि अंशकमें होवै अथवा उच्चांशक मित्रांशकमें होवै तो पितृसौख्य कहना ॥ १४ ॥ पितृस्थानेश शुभग्रहोंके मध्यमें गुरुशुक्रसे युक्त वा दृष्ट होवै अथवा गुरुशुक्रमेंसे एकसेभी युक्त होवै तो पितृसौख्य कहना ॥ १५ ॥ पितृकारक गोपुरादि अंशमें हो पितृभावेशसे दृष्ट पापग्रहोंसे अदृष्ट होवै तो वही फल कहना ॥ १६ ॥

पापदृष्टे सपापे वा कारके भावनायके ॥ पापांतरगते वापि पि-  
तृदुःखं विनिर्दिशेत् ॥ १७ ॥ क्रूरनीचांशकस्थे वा भावनाथे च  
कारके ॥ मंदमांशगुसंयुक्ते पितृदुःखं विनिर्दिशेत् ॥ १८ ॥ सौम्ये  
तदीश्वरे वापि नीचशत्रुसमन्विते ॥ क्रूरपट्टचंशके वापि पितृदुःखं  
विनिर्दिशेत् ॥ १९ ॥ पितृस्थानेश्वरांशेशसंयुक्तनवभागपः ॥ क्रू-  
रनीचारिभागस्थपितृदुःखं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

पितृभावकारक वा भाव पापयुक्त वा दृष्ट हो अथवा पापोंके मध्यमें होवै तो पिताको दुःख कहना ॥ १७ ॥ भावेश वा भावकारक क्रूरशक नीचांशकमें होवै शनि केतु राहुसे युक्त होवै तो पिताको दुःख कहना ॥ १८ ॥ पितृभावेश वा तत्रस्थ शुभग्रह नीचका हो अथवा शत्रुशयंशयुक्त होवै अथवा क्रूरपट्टचंशकमें होवै तो वही फल कहना ॥ १९ ॥ पितृभावेश जिसके अंशकमें हो वह जिसके नवांशकमें है क्रूर नीच शत्रुके अंशकमें होवै तोभी वही फल कहना ॥ २० ॥

लग्नेशात्पितृभावेशे संपूर्णबलसंयुते ॥ कारके वा शुभैर्दृष्टे जातः  
पितृवशानुगः ॥ २१ ॥ पितृजन्माष्टमे जातस्तदीशे लग्नगोपि  
वा ॥ तेनैव पितृकार्याणि कर्मशेषं समापयेत् ॥ २२ ॥

पितृभावेश वा पितृभावकारक लग्नेशकी अपेक्षा पूर्णबली तथा शुभदृष्ट होवै तो मनुष्य पिताके वशमें उसका आज्ञाकारी होवै ॥ २१ ॥ पिताके जन्मलग्नसे अष्टम लग्नमें जन्म होवै अथवा उस लग्नका स्वामी इसके लग्नमें होवै तो उसी ग्रहसे शेषकर्म ( ... ) समाप्त करे इसका सुखासे अष्टकवर्ग गणितमें है ॥ २२ ॥

पितृकर्मगृहे जातः पितृतुल्यगुणान्वितः ॥ पितृजन्मतदीयक्षं  
जातः पितृधनाश्रितः ॥२३॥ पितु पष्ठाष्टमे जातः पित्रोः शत्रुर्भ-  
वेन्नरः ॥पितुर्धर्मायवित्तेषु जातः पितृवशो भवेत् ॥२४॥ पित्रष्टमे-  
शनक्षत्रत्रितये यस्तु जायते ॥ स करोति पितुर्दुःखं पुत्रपौत्रसम-  
न्वितः ॥ २५ ॥ पितुर्जन्मांत्यभेशर्क्षत्रितये यस्तु जायते ॥ स  
करोति पितुर्दुःखं दूरदेशगतो भवेत् ॥ २६ ॥

पिताकी राशिसे दशम राशिमें जन्म होवै तो पिताके गुणोंके तुल्य गुणवाला होवै यदि  
पिताके राशिमें जन्म होवै तो मनुष्य पिताके धनका आश्रयो होवै ॥ २३ ॥ पिताके  
राशिसे ६ वा ८ राशिमें होवै तो मनुष्य पिताका शत्रु होवै पिताके ९ । ११ । २ मेंसे  
किसी राशिमें जन्म होवै तो पिताके वशमें रहै ॥ २४ ॥ पिताके अष्टम राशिमें वा  
अष्टमेश जिस नक्षत्रमें है उससे तीन नक्षत्रोंमें जन्म होवै तो वह मनुष्य पुत्रपौत्रसहित  
पिताकी आज्ञा ( शिक्षा ) पर चले ॥ २५ ॥ पिताके जन्मराशिसे द्वादशेशसे तीनराशिओं-  
मेंसे किसीमें जन्म होवै तो पिताको दुःख करे तथा दूरदेश चलाजावै ॥ २६ ॥

भाग्याधिपे विलग्नेशे दुश्चिक्वे धर्मगेपि वा ॥ बलवान् स्वोच्चभे  
वापि येपांते श्रेष्ठमानवाः ॥ २७ ॥ त्रिकोणकेन्द्रे यदि भाग्यनाथे  
सौम्योक्षिते सौम्ययुते बलाढ्ये ॥ पारावतांशादिगते शुभांशे जातो  
धनाढ्ये बहुभाग्ययुक्तः ॥ २८ ॥ धनाधिपे लाभगते तदीशे भा-  
ग्यस्थिते तद्भवनाधिपेथै ॥ कर्माधिपेनापि युतेथ दृष्टे जातो महा-  
भाग्ययुतो नरः स्यात् ॥ २९ ॥

नवमेश तथा लग्नेश तीसरे वा नवममें होवै बलवान् होवै अथवा अपने उच्चमें होवै ऐसे  
योग भिन मनुष्योंके हों वे श्रेष्ठ मनुष्य होतेहैं ॥ २७ ॥ नवमेश केन्द्र त्रिकोणमें शुभग्रह-  
दृष्ट वा युक्त होवै बलवान् होवै पारावतादि शुभांशकर्म हो तो मनुष्य धनवान् बड़ा भाग्य-  
शाली होताहै ॥ २८ ॥ द्वितीयेश लाभस्थानमें लाभेश नवममें नवमेश द्वितीयमें होवै दशम-  
शेषे दृष्ट वा युक्त होवै तो मनुष्य बड़ा भाग्यशाली होवै ॥ २९ ॥

तृतीयराशेरधिपेन युक्ते भाग्याधिपे सौम्यदृशा समेते ॥ शुभा-  
न्विते शोभनखेचरांशे भ्रातुर्धनाद्भाग्यमुपैति जातः ॥ ३० ॥ पुत्रे

श्वरे वा यदि भाग्यराशौ भाग्याधिपेनात्र युतेपि दृष्टे ॥ तत्कारके वा यदि पुत्रभावे जातः सुताद्भाग्यमुपैति वित्तम् ॥ ३१ ॥

नवमेश तृतीयभावेण युक्त तथा शुभग्रहोसे युक्त वा दृष्ट और शुभग्रहके अंशकमें होवै तो भाईके धनसे मनुष्य ऐश्वर्य पाव ॥ ३० ॥ यदि पंचमेश भाग्यस्थानमें भाग्येशसे युक्त वा दृष्ट अथवा नवमभावकारकग्रह पंचममें होवै तो पुत्रसे ऐश्वर्य एवं धन पावै ॥ ३१ ॥

ज्ञातिस्थानाधिपे भाग्ये भाग्येशे ज्ञातिसंगते ॥ ज्ञातिकारकसंयुक्ते ज्ञातिभाग्यमुपैति सः ॥ ३२ ॥ कलत्रकारकादेवं तत्स्थानेशाद्भवेत्तथा ॥ भाग्याधिपस्य शत्रुश्च शत्रुराशिपतिस्तथा ॥ ३३ ॥ तदीशे भाग्यसंबंधे शत्रुभाग्यमुपैति सः ॥ पष्ठाष्टमांत्यनाथेन युक्ते नाथेत्र तत्फलम् ॥ ३४ ॥

चतुर्थेश नवमस्थानमें नवमेश चतुर्थमें हो चतुर्थभावकारकसे युक्त होवै तो ज्ञाति ( विरादर ) का ऐश्वर्य पावै ॥ ३२ ॥ ऐसेही कलत्रभाव कलत्रकारकसे भी खीसे ऐश्वर्य सहना नवमेशका शत्रुग्रह तथा शत्रुराशिका स्वामी भाग्य वा भाग्येशसे बैसाही संबंध करै तो शत्रुका ऐश्वर्य पावै यदि भाग्येश ६ । ८ । १२ भावेशसे संबंधी हो तोभी वही फल होगा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

भाग्याधिपे विनाशस्थे शत्रुनीचनिरीक्षिते ॥ क्रूरांशे नीचराश्यादौ भाग्यहीनो भवेन्नरः ॥ ३५ ॥ बहुपापसमायोगे भाग्ये हीने तदीश्वरे ॥ लग्नेशे बलहीने वा भाग्यहीनो भवेन्नरः ॥ ३६ ॥

भाग्येश चारहमें भावमें शत्रुदृष्ट वा नीचमें यद्वा नीचगत ग्रहसे दृष्ट होवै क्रूरांशमें अथवा नीचराशि आदिमें होवै तो मनुष्य भाग्यहीन होवै ॥ ३५ ॥ नवममें बहुत पाप हों नवमेश हीनबल होवै अथवा लग्नेश बलरहित होवै तो मनुष्य भाग्यहीन होवै ॥ ३६ ॥

गुरुशुक्रेक्षिते युक्ते भाग्ये तत्रायकेपि वा ॥ लग्नेशार्थपतौ धीरे भाग्यप्राप्तिः पुनर्भवेत् ॥ ३७ ॥ क्रूराशयंशके भाग्यनाथे शुक्रेज्यवीक्षिते ॥ भाग्यलग्नेशसंहृष्टे भाग्यनाशं करोति सः ॥ ३८ ॥ लग्नेशे भाग्यराशिस्थे भाग्येशे लग्नमाश्रिते ॥ लाभे भाग्येशसंयुक्ते पुनर्भाग्यं लभेत्बलु ॥ लाभभाग्येशसंयुक्तभाग्यपेयः पुनर्भवेत् ॥ ३९ ॥

भाग्यभाव तथा भाग्येश बृहस्पति गुरुसे दृष्ट वा युक्त होवै, लग्नेश तथा द्वितीयेश बलवान् होवै तो फिरभी ऐश्वर्यकी प्राप्ति होवै ॥ ३७ ॥ नवमेश क्रूरग्रहके राशि अंशकमें होवै उसे शुक्र बृहस्पति देखे भाग्येश लग्नेशभी देखें तो वह ऐश्वर्यका नाश करताहै ॥ ३८ ॥ लग्नेश नवममें नवमेश लग्नमें हो अथवा नवमेश लाभस्थानमें होवै तो फिरभी नष्ट ऐश्वर्यका लाभ होवै, लाभेश भाग्येश युक्त हो अथवा परस्परराशित्त हो तोभी फिर धनादि होंगे ॥ ३९ ॥

कर्मेशे भाग्यराशिस्थे भाग्येशे बलसंयुते ॥ गुरुशुक्रयुते दृष्टे ज-  
पध्यानसमाधिमान् ॥ ४० ॥ कर्मेशयुक्तराशयंशराशीशे बल-  
संयुते ॥ तदीशे भाग्यसंबंधे जपध्यानसमाधिमान् ॥ ४१ ॥  
देवलोकांशकस्थे वा कर्मेशे भाग्यपेथ वा ॥ पारावतांशके सौ-  
म्ये दृष्टे सुब्रह्मनिष्ठता ॥ ४२ ॥

दशमेश नवम हो नवमेश बलवान् हो बृहस्पति गुरुसे युक्त वा दृष्ट होवै तो जप ध्यान समाधिवाला होवै ॥ ४० ॥ दशमेश जिसकी राशिमें है वह बलवान् होवै जिस राशिमें वह बैठा है उसका स्वामी नवमेशसे किसी प्रकारका संबंध रखता हो तोभी वही फल होगा ॥ ४१ ॥ दशमेश वा नवमेश देवलोकांशकमें हो अथवा पारावतांशकमें शुभदृष्ट होवै तो ब्रह्मनिष्ठ होवै ॥ ४२ ॥

दानस्थानाधिपे स्वोच्चे शुभग्रहनिरीक्षिते ॥ तत्स्थाने शुभसंयुक्ते  
दानकृत्स नरो भवेत् ॥ ४३ ॥ पारावतादिभागस्थे दानेशे गुरु-  
वीक्षिते ॥ लग्नेशे भृगुसंदृष्टे महादानकरो भवेत् ॥ ४४ ॥ दानाधि-  
पेन संदृष्टे लग्ने तत्रायकेपि वा ॥ तस्मिन्केन्द्रत्रिकोणस्थे महादा-  
नकरो भवेत् ॥ ४५ ॥ सिंहासनांशके दाननाथे लग्नेशवीक्षिते ॥  
कर्मेशेनापि संदृष्टे महादानकरो भवेत् ॥ ४६ ॥

नवमेश अपने उच्चमें शुभग्रहदृष्ट होवै नवमभावमें शुभग्रह होवै तो वह मनुष्य दान करनेवाला होवै ॥ ४३ ॥ नवमेश पारावतादि शुभांशकमें गुरुसे दृष्ट होवै, लग्नेशपर शक्रकी दृष्टि होवै तो मनुष्य महादान ( अग्निदान तुलादानादि ) करनेवाला होवै ॥ ४४ ॥ लग्नेश वा लग्नमें नवमेशकी दृष्टि होवै वह नवमेशभी केन्द्र त्रिकोणमें होवै तो भी वही फल होवै ॥ ४५ ॥ नवमेश सिंहासनांशकमें होवै उसे लग्नेश देखे भीर कर्मेशभी देखे तोभी वही फल होगा ॥ ४६ ॥



भाग्ययोगे तु संप्राप्ते दानयोगे तथा भवेत् ॥ राजयोगेथ वा प्राप्ते  
नेतरेषां तथा भवेत् ॥ ४७ ॥ इतरेषां तु संप्राप्ते दानयोगे कथं  
भवेत् ॥ भाग्ययोगे नरो जातो दानस्य तु सहायकृत् ॥ ४८ ॥  
जातः पुरोहितो वाथ ब्रह्मवंशसमुद्भवः ॥ दानाध्यक्षोऽथ जातः  
स्याद्द्वर्णभेदविकल्पनात् ॥ ४९ ॥

भाग्ययोगहोनेमें तथा दानयोग अथवा राजयोग होनेमें उक्त फल होताहै. अन्ययोगोंमें  
नहीं ॥ ४७ ॥ दानयोग होनेमें भी उक्तयोग न हो राजभंगादि दुष्टयोग हो तो दानी होना  
संभव नहीं होता दानयोगमें भाग्ययोगभी होवे तो वह दानकर्ममें सहायता करना है  
भाग्ययोगकी संपन्नतासे दान होताहै अथवा दूसरेके दानमें सहायता और उसका  
प्रतिपादनआदि करताहै ॥ ४८ ॥ उक्तदानादियोगोंसे ब्राह्मणवंशोत्पन्न पुरोहित अथवा  
दानाध्यक्ष होताहै क्षत्रिय दानी, अथवा दानकर्मसहायक होताहै ऐसेही स्ववर्णानुसृत फल  
मनुष्यको मिलताहै ॥ ४९ ॥

चतुर्थे दानभावशे कर्मशे केन्द्रमाश्रिते ॥ व्ययेशे गुरुसंहृष्टे महा-  
दानकरो भवेत् ॥ ५० ॥ भाग्येशेनापि संहृष्टे स्वोच्चस्थे सोमनं-  
दने ॥ लाभेशे केन्द्रभावस्थे महादानकरो भवेत् ॥ ५१ ॥

नवमेश चतुर्दशमेश केन्द्रमें होवे व्ययेशपर बृहस्पतिकी दृष्टि होवे तो महादान-  
देनेवाला होवे ॥ ५० ॥ बुध अरुने उच्चका होवे नवमेश उस देसे और लाभेश केन्द्रमें  
होवे तो महादान करनेवाला होवे ॥ ५१ ॥

लग्नेशे लाभराशिस्थे कर्मशे बलसंयुते ॥ लग्नेशेनापि संहृष्टे  
दानग्रहणमिष्यते ॥ ५२ ॥ सुतेशे भाग्यराशिस्थे कर्मभाग्यपसं-  
युते ॥ लग्नेशेनापि संहृष्टे दानप्राप्तिर्न संशयः ॥ ५३ ॥ भाग्येशे  
कर्मनाथेन दृष्टे केन्द्रत्रिकोणगे ॥ परमोच्चांशके वापि दानप्रा-  
प्तिर्न संशयः ॥ ५४ ॥

लग्नेश लाभस्थानमें हो दशमेश बलवान् होवे उसे लग्नेशभी देवे तो दान देनेवाला होवे ॥  
५२ ॥ पंचमेश नवस्थानमें नवमेश तथा दशमेशमें युक्त होवे उसे लग्नेशभी देवे तो  
उसको दानकी प्राप्ति होवे इसमें संदेह नहीं ॥ ५३ ॥ नवमेश दशमेशमें दृष्ट होकर केन्द्र  
त्रिकोणमें होवे अथवा परम उच्चांशमें होवे तो निम्नदेह दातरी प्राप्ति होवे ॥ ५४ ॥

गुरुस्थानेशसंयुक्तनवांशाधिपतौ यदा ॥ गुरुशुक्रेक्षिते वापि  
गुरुभक्तियुतो भवेत् ॥ ५५ ॥ गुरुस्थाने सौम्ययुते गुरुसंबंध  
संयुते ॥ तदीशे मृदुभावस्थे गुरुभक्तियुतो भवेत् ॥ ५६ ॥  
अध्यायः सप्तमः प्रोक्तश्चायुर्धर्माधिवाचकः ॥ नानार्थसारसं-  
युक्तो व्यङ्ग्येश्वरशर्मणा ॥ ५७ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ अष्टमनवमभावफलविचारो  
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

बृहस्पति जिसकी राशिमैं है वह जिसके नवांशमें हो वह गुरु शुक्रसे दृष्ट होवै तो गुरु-  
भक्तिवाला होवै ॥ ५५ ॥ नवमस्थान शुभयुक्त हो - बृहस्पति उसके साथ संबंध करता हो  
उसकी अधिष्ठित राशिका स्वामी सौम्यभावमें होवै तो मनुष्य गुरुभक्तिवाला होवै ॥ ५६ ॥  
वह सातवां अध्याय आयु तथा धर्मविचारवाचक नानामकारके सार अर्थोंसे युक्त वेङ्ग्येश्वर  
शर्मणै कहा ॥ ५७ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहाधरभाषाटीकायामष्टमनवमभावफल-  
विचाराध्यायः सप्तमः ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ दशमादिभावविचाराध्यायः ।

दशमात्प्रवृत्तिमाज्ञां कीर्तिं वृष्टिं प्रवासपूर्तादीन् ॥

मानं कर्माजीवं जानुस्थानं च निर्दिशेद्दासान् ॥ १ ॥

दशमभावसे कर्मकी प्रवृत्ति ( किस काममें रुचि रहेगी ) हकूमत, कीर्ति, वर्षा, प्रवास,  
पूर्त ( वापी कूपआदि ) आदिसे राज्यस्थान ऐश्वर्यादि, तथा मान, किस कामसे आमीवत  
होगा, ( पितृस्थानादि ) और जानुस्थानका विचार, दासआदियोंका विचार कहना ॥ १ ॥

कर्माधिपे हीनबले सपापे कर्मादिवैकल्यमुशंति तज्ज्ञाः ॥ कर्म-  
शवागीशशशांकपुत्रा वीर्यान्विता यज्ञकरा भवन्ति ॥ २ ॥  
शुभग्रहैर्दृष्टिसमन्वितास्ते वीर्यान्विता यज्ञविशेषमाहुः ॥ दुःस्थाः  
शशांकात्मजजीवशुक्राः पापेक्षिताः कर्मविनाशमाहुः ॥ ३ ॥

दशमेश हीनबल पापयुक्त होवै तो ज्योतिषज्ञ कर्मआदिकी विकलता कहतेहैं दशमेश बृहस्पति बुध बलवान् होवै तो मनुष्य यज्ञ करनेवाले होतेहैं ॥ २ ॥ वही तीनों शुभग्रहेंसि दृष्ट तथा बलवान्भी होवैं तो यज्ञविशेष कहतेहैं बुध गुरु दुष्टस्थानोंमें हों पापग्रह उन्हें देखें तो कर्मका नाश कहतेहैं ॥ ३ ॥

नाशस्थितास्तत्र तदंशनाथास्तद्युक्तराशेरधिपाश्च नाशम् ॥ राहौ  
च माने यदि वा दिनेशे भागीरथीस्नानमुशंति तज्ज्ञाः ॥ ४ ॥  
माने च मीने यदि वा ससौम्ये भौमान्विते वा भविता च मुक्तिः ॥  
जलक्षगे पूर्णशशांकजीवे मानस्थिते गांगजलादिपूतः ॥ ५ ॥

वही बुध गुरु शुक्र नाशस्थानमें हो अथवा उनके अंशनाथ तथा राशिनाथभी नाशस्थानमें हों तो भी वही फल होगा यदि राहु अथवा सूर्य दशम स्थानमें होवैं तो ज्योतिषज्ञ भागीरथीका स्नान मिलेगा कहतेहैं ॥ ४ ॥ दशममें मीनराशि शुभग्रहयुक्त अथवा भौमयुक्त होवै तो मुक्ति होगी दशमस्थानमें जलचर राशिके पूर्णचन्द्रमा बृहस्पति होवैं तो गंगाआदिके जलसे पवित्र होवै ॥ ५ ॥

माने गुरौ शुक्रयुते च केन्द्रे स्वोच्चस्थिते तादृशतोयपूतः ॥ माने  
धने शुक्रयुते सजीवे केन्द्रोच्चगे तादृशतोयपूतः ॥ ६ ॥ बुधे व्यये  
वा यदि वा तदीशे स्वोच्चान्विते तादृशपुण्यभाक्स्यात् ॥ चन्द्रे  
तृतीये जलराशियुक्ते सौम्यान्विते तादृशपुण्यभाक्स्यात् ॥ ७ ॥

दशम स्थानमें बृहस्पति शुक्रयुक्त होवै अथवा अपनी उच्चराशिका किसी केन्द्रमें होवै तो गंगाजलसे पवित्र होवै दशम वा द्वितीय स्थानमें शुक्रसहित बृहस्पति हो अथवा केन्द्रमें उच्चराशिका होवै तो वैसेही गंगाजलसे पवित्र होवै ॥ ६ ॥ बुध बारहवें होवै अथवा व्ययेश अपने उच्चमें होवै तो वैसाही पुण्यवान् होवै चन्द्रमा जलराशिका तीसरे भावमें शुभयुक्त होवै तोभी वैसेही पुण्यवाला होवै ॥ ७ ॥

शुभेश्वरे केन्द्रयुते जलक्षे सौम्येक्षिते तादृशतोयपूतः ॥ बुधे  
सजीवे यदि वा सभौमे प्राकारकृन्मण्डपगोपुरादीन् ॥ ८ ॥  
मानस्थिते तद्गृहनाथयुक्ते करोति जीर्णोद्धरणादि तत्र ॥ ९ ॥  
करोति कूपादितटाकभूमिं कर्मेंश्वरे गोपुरभागयुक्ते ॥ मृद्वंशके  
वा शुभदृष्टियुक्ते भाग्येश्वरेणापि निरीक्षिते वा ॥ १० ॥

दशमेश जलराशिका केन्द्रमें हो शुभग्रह उसे देखे तो गंगाआदिके जलसे पवित्र रहे बुध बृहस्पति अथवा मंगलसे युक्त होवै तो माकार मण्डप अट्टालिका आदि बनानेवाला होवै ॥ ८ ॥ बुध दशमेश सहित दशम स्थानमें होवै तो जीर्णोद्धार आदि करताहै ॥ ९ ॥ दशमेश गोपुरांगकमें होवै अथवा मृदंशकमें होवै शुभग्रह तथा भाग्येशसेभी दृष्ट होवै तो कुआं तालाब आदि भूमि बनावै ॥ १० ॥

चन्द्रात्मजे कर्मगते तदीशे भाग्यस्थिते पापविवर्जितेस्मिन् ॥  
सौम्येक्षिते शोभनभावयुक्ते यज्ञस्य कर्ता स भवेत्तदानीम् ॥ ११ ॥  
कर्माधिपेस्मिन्यदि सोमपुत्रे स्वोच्चस्थिते वा यदि धर्मराशौ ॥ विवर्जितः स्याच्छिखिराहुपापैर्यज्ञस्य कर्ता स भवेत्तदानीम् ॥ १२ ॥

बुध दशम स्थानमें दशमेश नवममें पापरहित होवै शुभग्रहकी राशियोंमें शुभग्रह दृष्ट होवै तो यज्ञ करनेवाला होवै ॥ ११ ॥ यदि बुध दशमेश होकर अपने उच्चमें होवै अथवा नवमभावमें होवै केतु राहु और पापग्रहोंसे रहित होवै तो यज्ञका करनेवाला होवै ॥ १२ ॥

कर्माधिपे स्वोच्चगते सपापे नीचांशगे नाशगतेपि तस्मिन् ॥ विघ्नो भवत्येव मखस्य तस्य क्रूरादिपष्टचंशगतेपि चैवम् ॥ १३ ॥  
तुंगस्थिते सोमयुते तदीशे स्वोच्चान्विते सोमसुतेन दृष्टे ॥ शुभेक्षिते वा सबुधे स्वराशौ यज्ञस्य कर्ता स भवेत्तदानीम् ॥ १४ ॥

दशमेश अपने उच्चराशिमें हो परंतु पापयुक्त नीचांशकमें और वारहवें होवै तो उसके यज्ञका विघ्न अवश्य होताहै यदि दशमेश क्रूरआदि पष्टचंशमें होवे तोभी वही फल होगा ॥ १३ ॥ दशमेश अपने उच्चराशिमें हो उसे उच्चराशिस्थ बुध देखे अथवा शुभग्रह दृष्ट तथा बुधयुक्त होवै यदा उच्चमें न हो अपनी राशिमें होवै तो वह मनुष्य यज्ञकरनेवाला होवै ॥ १४ ॥

आज्ञास्थानाधिपे सौम्ये शुभदृष्टियुतेपि वा ॥ शोभनांशगते वापि जातस्त्वाज्ञाधिपो भवेत् ॥ १५ ॥  
आज्ञास्थानगते सूर्ये भूमिपुत्रेण वा युते ॥ केन्द्रान्विते तदीशेपि क्रूरामाज्ञां करोति सः ॥ १६ ॥  
आज्ञाधिपे मन्दयुते रन्ध्रनाथेन संयुते ॥ क्रूरशि केन्द्रराशौ वा क्रूरामाज्ञां करोति सः ॥ १७ ॥  
मानाधिपे केन्द्रयुते शुभयुतोक्षितेपि वा ॥ शरपष्टचंशसंयुक्ते सौम्यामाज्ञां करोति सः ॥ १८ ॥

दशमेश शुभग्रह शुभग्रहसे दृष्ट युक्त होवै अथवा शुभांशकमें होवै तो दूसरेको आज्ञा देने वाला ( हाकिम ) होवै ॥ १५ ॥ दशम भावमें सूर्य वा मंगल होवै दशमेश केन्द्रमें हो तो वह हाकिम होनेपर क्रूर आज्ञा देनेवाला होवै ॥ १६ ॥ दशमेश शनियुक्त तथा अष्टमेशसे युक्त होवै क्रूरांशकमें अथवा केंद्रमें होवै तो क्रूर आज्ञा देताहै ॥ १७ ॥ दशमेश केंद्रमें शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट होवै पांचवें षष्ट्यंशमें होवै तो वह हाकिम सौम्य आज्ञा देताहै ॥ १८ ॥

राहुमांदियुते माने रंध्रे राहौ ध्वजेपि वा ॥ नीचस्थे धर्मभावेशे  
क्रूरामाज्ञां करोति सः ॥ १९ ॥ शशांके कर्किसंयुक्ते गुरुशुक्र  
निरीक्षिते ॥ पारावतादिभागस्थे सत्कीर्तिसहितो भवेत् ॥२०॥

राहु वा केतु दशममें हो अथवा अष्टममें हो और धर्मेश नीचराशिमें होवै तो वह क्रूर आज्ञा देता है ॥ १९ ॥ चंद्रमा कर्कका बृहस्पति शुक्रसे दृष्ट होवै पारावनादि शुभांशकमें होवै तो वह मनुष्य सत्कीर्तिवाला होवै ॥ २० ॥

तदीशे शुभसंयुक्ते शुभमध्यगतेपि वा ॥ शुभग्रहाणामंशे वा सत्की-  
र्तिसहितो भवेत् ॥ २१ ॥ कांतिस्थानाधिपे सौम्ये स्वोच्चमित्र-  
स्ववर्गगे ॥ सौम्यषष्ट्यंशके वापि सत्कीर्तिसहितो भवेत् ॥२२॥  
तदीशे देवलोकस्थे सिंहाशे शुभनायके ॥ बलपूर्णं विलग्नशे  
सत्कीर्तिसहितो भवेत् ॥ २३ ॥ पापग्रहाणां संबन्धे माननाथे  
बलक्षये ॥ क्रूरषष्ट्यंशसंयुक्ते सत्कीर्तिसहितो भवेत् ॥ २४ ॥

चंद्रराशिंश शुभयुक्त अथवा शुभग्रहोंके मध्यमें हो अथवा शुभग्रहोंके अंशकमें होवै तो सत्कीर्तियुक्त होवै ॥ २१ ॥ दशमेश शुभग्रह अपने उच्च वा मित्रराशि वा अपने अंशमें होवै अथवा शुभषष्ट्यंशमें होवै तो सत्कीर्तिवाला होवे ॥ २२ ॥ दशमेश देवलोकशकमें होवै और नवमेश सिंहासनांशकमें पुस्तकार्तरमें “ शुभांशकस्थे ” ऐसा पाठहै अर्थात् शुभग्रहके नवमांशमें होवै, लग्नेश पूर्णबली होवै तो सत्कीर्तिवाला होवै ॥ २३ ॥ दशमेश निर्बल तथा पापग्रहोंसे संबन्धी होवै और क्रूरषष्ट्यंशमें होवै तो वही फल होगा ॥ २४ ॥

अपकीर्तियुतो जातः कर्मस्थे च रवौ शनौ ॥ पापांशके पापदृष्टे  
पापमध्यगतेपि तत् ॥ २५ ॥ शुभग्रहाणां संबन्धे मानतन्नाय-  
केपि वा ॥ स्वोच्चे वा स्वगृहे वापि जातो मानी दृढव्रतः ॥२६॥  
इंगितज्ञोपि मानी स्यान्माने जीवेथ वा शुभे ॥ तदीशे शुभसं-  
बन्धे शुभमध्यगतेपि वा ॥ २७ ॥

दशमस्थानमें सूर्य वा शनि पापदृष्ट वा पापमध्य होवै तो भी अपकीर्तिवाला होवै ॥ २५ ॥  
दशमस्थानसे अथवा दशमेशसे शुभग्रहोंका संबंध होवै अथवा स्वोच्चराशि वा स्वरागिमं होवै  
तो मानवाला और दृढतवाला होवै ॥ २६ ॥ दशमस्थानमे वृहस्पति अथवा कोई शुभग्रह  
होवै दशमेशका संबंध शुभग्रहोंसे होवै अथवा शुभग्रहोंके मध्यमे होवै तो आकारहीसे दूसरेके  
मनका भाव जाननेवाला होवै ॥ २७ ॥

पापे माने पापदृष्टे तदीशे नीचराशिगे ॥ पापराश्यंशके वापि  
मानहीनो भवेन्नरः ॥ २८ ॥ मानाधिपे चरांशस्थे संचारसहि-  
तो भवेत् ॥ स्थिरांशे स्थैर्यमुद्दिष्टं मृगयात्रा द्विदेहगे ॥ २९ ॥  
पष्टेशे कर्मराशिस्थे कर्मेशे मंदसंयुते ॥ केन्द्रत्रिकोणगे वापि दासी  
दासान्विनिर्दिशेत् ॥ ३० ॥

दशमस्थानमे पापग्रह पापग्रहसे दृष्ट हो दशमेश नीचराशिमें हो अथवा पापग्रहकी राशि  
वा अंशकमें होवै तो मनुष्य मानहीन रहे ॥ २८ ॥ दशमेश चरराज्यंशकमें होवै तो घूमने  
फिरनेवाला होवै स्थिरांशकमें होवै तो स्थिर रहे और द्विस्वभावांशकमें होवै तो शिकार खेळ  
ना आदि सैखानी होवै ॥ २९ ॥ पष्टेश दशममे दशमेश अनियुक्त होवै अथवा केन्द्र त्रिको-  
णमें होवै तो दास दासी बहुत होवै ॥ ३० ॥

कर्माधिपस्थांशपतौ शनिसंबंधसंयुते ॥ पष्ठाधिपस्य संबधे  
बहुदासान्विनिर्दिशेत् ॥ ३१ ॥ शुभग्रहेण संदृष्टे कर्मराशौ तदी-  
श्वरे ॥ भानुपुत्रेण वा युक्ते बहुदासान्विनिर्दिशेत् ॥ ३२ ॥ कर्मनाथेन  
वा भुक्तिप्रश्ने पूर्तिं विनिर्दिशेत् ॥ तत्र पापसमायोगे जानुदौर्घ-  
ल्यमादिशेत् ॥ ३३ ॥ इति दशमभावविचारः ॥

दशमेश जिसके नवांशकमें है वह शनिसे संबंधी होवे पष्टेशकाभी संबंध हो  
तो बहुतदासका होना कहना ॥ ३१ ॥ दशमस्थानमें शुभग्रहकी दृष्टि होवै व  
दशमेश अनियुक्त होवै तोभी वही फल कहना ॥ ३२ ॥ भोजनप्रश्नमें दशमेशसे भोज  
नकी पूर्ति आदि बलाबल देखके कहनी दशममें पापग्रह होवै तो जंघा कृश होवै ॥ ३३ ॥  
इति दशमभावविचारः ॥

अथ प्रव्रज्यायोगाः ।

ग्रहैश्चतुर्भिः सहितैस्तदीशे त्रिकोणगे केन्द्रगतैस्तु मुक्तः ॥ चतु-  
र्ग्रहैः केन्द्रगतैः प्रव्रज्यामाप्नोति जातः कथितो मुनीन्द्रैः ॥ १ ॥

न वीक्षितश्चेदितरग्रहैर्लगाधिपः पश्यति भानुपुत्रम् ॥ लगाधिपं  
वा यदि भानुपुत्रः संन्यासयोगो हि बलेन हीनः ॥ २ ॥ शने-  
र्दकाणे कुमुदात्मबन्धौ मंदेक्षिते तादृशयोगमाहुः ॥ मन्दांशके  
भूमिसुतांशके वा मंदेक्षिते चन्द्रयुते तथैव ॥ ३ ॥ संन्यासयोगा-  
धिपतौ सराहौ क्रूरांशके वा गुलिकेन युक्ते ॥ संन्यासवैकल्यमु-  
दाहरंति भंगो भवेत्तस्य शुभैर्विहीने ॥ ४ ॥ इति प्रव्रज्यायोगाः ॥

अब संन्यासयोग कहते हैं चार ग्रह एक स्थानमें होवें उस भावका स्वामी केन्द्र त्रिको-  
णमें न होवै अथवा चार ग्रह केन्द्रमें होवें तात्पर्य यह है कि चार आदि ग्रह एक स्थानमें  
होवें तो मनुष्य संन्यासी ( फकीरी ) पाता है यह मुनीन्द्रोंने कहा है ॥ १ ॥ लग्नेशपर  
केवल शनिकी दृष्टि होवै अन्यकी न होवै अथवा शनिको लग्नेश देखे लग्नेशको शनि देखे  
चन्द्रहित होवै तो संन्यासयोग होता है ॥ २ ॥ चन्द्रमा शनिके द्रष्टाणमें हो शनि उसे देखे  
तो संन्यासयोग होता है शनिके वा मंगलके अंशकमें शनिसे दृष्ट हो अथवा चन्द्रमा शनिसहित  
होवै तो भी वही योग होता है ॥ ३ ॥ जिस स्थानमें संन्यासयोग है उसका स्वामी राहुयुक्त  
होवै अथवा क्रूरांशकमें गुलिकसहित होवै तो संन्यासमें विकलता हांवै यदि शुभग्रहोसे युक्त  
दृष्ट न होवै तो संन्यास लियेमें भी भग होनावै ॥ ४ ॥ इति संन्यासयोगाः ॥

अथ लाभभावविचारः ।

आयेनार्थावाप्तिं पादावपि वामकर्णचिंतां च ॥ जातावपि कच-  
कुब्जाञ्ज्येष्ठान्द्रूयाद्धनान्यासाम् ॥ १ ॥ लाभेश्वरे केंद्रगते त्रि-  
कोणे वा समन्विते ॥ लाभे वा पापसंयुक्ते धनलाभमुदीरयेत् ॥ २ ॥

ग्यारहवें भावसे धनमाप्ति, पैसोंका विचार, वामकर्णका विचार, केश, कुजता, बडेभाई,  
धनादिविचार करना ॥ १ ॥ लाभेश केंद्र त्रिकोणमें हो अथवा लाभस्थानमें पापग्रहसे युक्त  
होवै तो धनलाभ कहना ॥ २ ॥

धनाधिपे लाभगते लाभेशे धनमागते ॥ तावुभौ केन्द्रगौ वापि  
धनलाभमुदीरयेत् ॥ ३ ॥ शुभमध्यगते लाभे तदीशे वा तथा  
स्थिते ॥ पारावतादिभागस्थे धनलाभमुदीरयेत् ॥ ४ ॥ लाभे-  
शयुक्तराशीशे शुभग्रहनिरीक्षिते ॥ शुभग्रहाणां मध्यस्थे धन-  
लाभमुदीरयेत् ॥ ५ ॥ लाभनाथसमायुक्तनवांशाधिपतौ शुभे ॥

वित्ताधिपेन संदृष्टे धनलाभमुदीरयेत् ॥ ६ ॥ लाभाधिपसमायु-  
क्तत्र्यंशभागपतौ शुभे ॥ कर्मेश्वरेण संदृष्टे धनलाभमुदीरयेत् ॥ ७ ॥

धनेश लाभमें लाभेश द्वितीयभावमें होवै अथवा वे दोनोंके केंद्रमें होंवें तो धनलाभ  
कहना ॥ ३ ॥ लाभभाव शुभग्रहोंके बीचमें होवै अथवा लाभेश ऐसा होवै और पारावतादि  
अशकमें होवै तो धनलाभ कहना ॥ ४ ॥ लाभेश जिस राशिमें है उसका स्वामी शुभग्रह  
दृष्ट शुभग्रहोंके बीचमें होवै तो धनलाभ होवै ॥ ५ ॥ लाभेश जिसके नवांशकमें है उसका  
स्वामी शुभग्रह हो और धनेश उसे देखे तो धनलाभ कहना ॥ ६ ॥ लाभेश जिसके द्रेष्का-  
णमें है वह शुभग्रह होवै कर्मेश उसे देखे तो धनलाभ कहना ॥ ७ ॥

पापग्रहाणां संवंधे धनहानिं विनिर्दिशेत् ॥ लाभेश्वरोक्तदिग्भा-  
गाद्धनप्राप्तिं विनिर्दिशेत् ॥ ८ ॥ लाभराश्युक्तदिग्भागात्सर्वोत्त-  
मवलादपि॥वलाबलवशेनैव द्रव्यलाभं विनिर्दिशेत् ॥ ९ ॥ लाभे  
पापे तद्गृहे वा धनहानिं विनिर्दिशेत् ॥ लाभेशे पापसंवंधे धन-  
नाशं विनिर्दिशेत् ॥ १० ॥

लाभेश पापग्रहोंसे संबंधी होवै तो धनहानि कहनी धनप्राप्तिके लिये लाभेश जिस दिशा-  
का स्वामी है उस दिशासे धनलाभ कहना ॥ ८ ॥ लाभगत राशिके उक्त दिशासे अथवा  
सर्वोत्तम बली ग्रहके दिशासे धनप्राप्ति कहनी ॥ ९ ॥ लाभस्वानमें पापग्रह हो वा पाप-  
ग्रहकी राशि होवै तो धनहानि कहनी लाभेश पापग्रहोंसे संबंधी होवै तो धननाश होवै ॥ १० ॥

कर्णस्थानेश्वरे सौम्ये शुभदृष्टिसमन्विते ॥ कर्णाधिपे वलवति  
कर्णाभरणमिष्यते ॥ ११ ॥ पापग्रहाणां संवंधे तत्राशोत्र भवि-  
ष्यति ॥ लाभेशात्सोदरेशाद्वा कर्णसौख्यं विनिर्दिशेत् ॥ १२ ॥  
तदीशे शुभसंवंधे कर्णसौख्यं विनिर्दिशेत् ॥ तदीशे पापसंवंधे  
कर्णरोगं विनिर्दिशेत् ॥ १३ ॥ ब्रूयाज्येष्ठांशलाभेन शुभपापव-  
शादपि ॥ शुभग्रहाणां संवंधे दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥

लाभेश शुभग्रह शुभदृष्ट होवै तथा लाभेश चट्टान् होवै तो कर्णके भूषण होवै ॥ ११ ॥  
यदि उसका पापग्रहोंसे संबंध होवै तो उन भूषणोंका नाश कहना ऐसेही लाभेशसे तथा  
शुभांशसेभी कर्णोंका सौख्य कहना ॥ १२ ॥ इन भाषोंका स्वामी शुभग्रहोंसे संबंध करे  
तो कर्णसौख्य कहना । पापसंबंधसे कर्णरोग बधिरता आदि कहनी ॥ १३ ॥ लाभसे दक्षिण  
कर्ण तृतीयसे नामर्णरा दिनार शुभ पापग्रहद्वयसे शुभाशुभ कहना शुभग्रहोंके संबंधसे  
विनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥ - -



पापान्विते पापदृष्टे तद्धानि प्रवदन्ति हि ॥ लाभराशेश्च दिग्भागे  
धनलाभमुदीरयेत् ॥ १५ ॥ तद्भाशिनाथदिग्भागाद्भव्यप्राप्ति-  
मुदीरयेत् ॥ लाभराशिवशादेवं चिन्तयेन्मतिमात्रः ॥ १६ ॥

इत्यायभावविचारः ॥

तदीश पापयुक्त दृष्ट होवै तो लाभकी हानि कहते है लाभभाव(शिकी जो दिशाहै उस दिशासे लाभ कहना ॥ १५ ॥ अथवा लाभेशकी दिशाकी ओरसे धनप्राप्ति कहनी । इस प्रकार बुद्धिमान् मरुत्प्य लाभराशिके वशसे धनका लाभालाभ विचारे ॥ १६ ॥ इति लाभ-  
भावविचारः ॥ {

अथ व्ययभावविचारः ।

व्ययभवनाद्ययमखिलं पतनं नरके च वैकल्यम् ॥ वामाक्षि  
चरणयुगलं शयनस्थानं विनिर्दिशेत्प्राज्ञः ॥ १ ॥

बारहवै भावसे सपूर्ण व्यय ( खर्च ), नरकमें उटना, विकल्पकता, वामनेत्र, दोनों चरण, शयन स्थानका विचार प्राज्ञ कहे ॥ १ ॥

व्यये पापसमायुक्ते तदीशे पापखेचरे ॥ पापग्रहेण संदृष्टे पापमू-  
लाद्धनव्ययः ॥ २ ॥ मन्दमान्द्यगुसंयुक्ते व्यये वा तद्गृहाधिपे ॥  
क्रूरांशकसमायुक्ते पापमूलाद्धनव्ययः ॥ ३ ॥ व्ययाधिपसमायु-  
क्तनवभागपतौ शुभे ॥ शुभांशे शुभमध्यस्थे धर्ममूलाद्धनव्ययः  
॥ ४ ॥ गुरुशुक्रौ व्यये वापि बुधचंद्रौ शुभेक्षितौ ॥ पारावता-  
दिभागस्थौ धर्ममूलाद्धनव्ययः ॥ ५ ॥

व्ययभावमें पापग्रह होवै व्ययेश पापग्रह होवै पापग्रहसे दृष्ट होवै तो पापके कारण धन खर्च होवै ॥ २ ॥ शनि केतु राहुसे युक्त व्ययभाव वा व्ययेश होवै तथा क्रूरांशकमें होवै तो पापके कारण धनव्यय होवै ॥ ३ ॥ व्ययेश जिसके नवांशकमें है वह शुभग्रह होवै एवं शुभग्रहके अंशकमें शुभग्रहोंके बीचमें होवै तो धर्मके कारण धन व्यय होवै ॥ ४ ॥ बृहस्पति शुक्र अथवा बुध चंद्रमा व्ययभावमें शुभदृष्ट तथा पारावतादि अंशकमें होवै तो धर्मके कारण धनव्यय होवै ॥ ५ ॥

व्ययाधिपे त्रिकोणस्थे केन्द्रे पापनिरीक्षिते ॥ परपृच्छंशके  
वापि पापमूलाद्धनव्ययः ॥ ६ ॥ पापेन कर्मनाथेन व्ययेशे दृष्टि-  
संयुते ॥ शत्रुनीचादिभागस्थे पापमूलाद्धनव्ययः ॥ ७ ॥ शुभेन

वित्ताधिपेन संदृष्टे धनलाभमुदीरयेत् ॥ ६ ॥ लाभाधिपसमायु-  
क्तत्र्यंशभागपतौ शुभे ॥ कर्मेश्वरेण संदृष्टे धनलाभमुदीरयेत् ॥ ७ ॥

धनेश लाभमें लाभेश द्वितीयभागमें होवै अथवा वे दोनोंके केंद्रमें होंवें तो धनलाभ कहना ॥ ३ ॥ लाभभाव शुभग्रहोंके बीचमें होवै अथवा लाभेश ऐसा होवै और पारावतादि अंशकर्म होवै तो धनलाभ कहना ॥ ४ ॥ लाभेश जिस राशिमें है उसका स्वामी शुभग्रह दृष्ट शुभग्रहोंके बीचमें होवै तो धनलाभ होवै ॥ ५ ॥ लाभेश जिसके नवांशकर्म है उसका स्वामी शुभग्रह हो और धनेश उसे देखे तो धनलाभ कहना ॥ ६ ॥ लाभेश जिसके द्रेष्काणमें है वह शुभग्रह होवै कर्मेश उसे देखे तो धनलाभ कहना ॥ ७ ॥

पापग्रहाणां संबंधे धनहानिं विनिर्दिशेत् ॥ लाभेश्वरोक्तादिग्भा-  
गाद्धनप्राप्तिं विनिर्दिशेत् ॥ ८ ॥ लाभराश्युक्तादिग्भागात्सर्वोत्त-  
मबलादपि॥बलावलवशेनैव द्रव्यलाभं विनिर्दिशेत् ॥ ९ ॥ लाभे  
पापे तद्गृहे वा धनहानिं विनिर्दिशेत् ॥ लाभेशे पापसंबंधे धन-  
नाशं विनिर्दिशेत् ॥ १० ॥

लाभेश पापग्रहोंसे संबंधी होवै तो धनहानि कहनी धनप्राप्तिके लिये लाभेश जिस दिशा-  
का स्वामी है उस दिशासे धनलाभ कहना ॥ ८ ॥ लाभगत राशिके उक्त दिशासे अथवा सर्वोत्तम बली ग्रहके दिशासे धनप्राप्ति कहनी ॥ ९ ॥ लाभस्थानमें पापग्रह हो वा पाप-  
ग्रहकी राशि होवै तो धनहानि कहनी लाभेश पापग्रहोंसे संबंधी होवै तो धननाश होवै ॥ १० ॥

कर्णस्थानेश्वरे सौम्ये शुभदृष्टिसमन्विते ॥ कर्णाधिपे बलवति  
कृत्स्नहा व्यपेशपर निर्बल मंगलकी दृष्टि हो वा युक्त होवै तो भ्रातृवगेक कारण धननाश  
होवै ॥ ११ ॥ तथा बलहीन पंचमेशसे दृष्ट वा युक्त व्यपेश होवै तथा कुरांशमें भी हों  
तो पुत्रके कारण धनव्यय होवै ॥ १२ ॥ व्यपेश दशमेशसे युक्त वा दृष्ट होवै अथवा का  
कसेभी युक्त होवै तो पिताके कारण धनव्यय होवै ॥ १३ ॥ ऐसेही चतुर्थेशसे युक्त वा द  
व्यपेश होवै कुरभावमें क्रूरग्रहयुक्त होवै तो माताके कारण धनव्यय होवै ॥ १४ ॥

बलहीने तु रिण्फेशे कुरराश्यंशकेपि वा ॥ नीचांशे नीचराशौ वा  
देहे वैकल्यमादिशेत् ॥ १५ ॥ बहुपापसमायोगे व्यये तद्भावना-  
यके ॥ मन्दमान्द्यगुसंयुक्ते देहवैकल्यमादिशेत् ॥ १६ ॥

व्यपेश बलहीन होवै कुरराशि कुरांशकर्म अथवा नीचराशि नीचांशकर्म होवै तो शरीरमें  
विचटता होवै ॥ १५ ॥ व्यपभावमें बहुत पाप होवै व्यपेश शनि केतु राहुसे युक्त होवै तो  
शरीरमें विकटता होवै ॥ १६ ॥

पापान्विते पापदृष्टे तद्धानि प्रवदन्ति हि ॥ लाभराशेश्च दिग्भागे  
धनलाभमुदीरयेत् ॥ १५ ॥ तद्भाशिनाथदिग्भागाद्रव्यप्राप्ति-  
मुदीरयेत् ॥ लाभराशिवशादेवं चिंतयेन्मतिमात्ररः ॥ १६ ॥  
इत्यायभावविचारः ॥

तदीश पापयुक्त दृष्ट होवै तो लाभकी हानि कहते हैं लाभभावराशिकी जो दिशाहै उस  
दिशासे लाभ कहना ॥ १५ ॥ अथवा लाभेशकी दिशाकी ओरसे धनप्राप्ति कहनी । इस  
प्रकार बुद्धिमान् मनुष्य लाभराशिके वशसे धनका लाभालाभ विचारे ॥ १६ ॥ इति लाभ-  
भावविचारः ॥ {

अथ व्ययभावविचारः ।

व्ययभ्रवनाद्व्ययमखिलं पतनं नरके च वैकल्यम् ॥ वामाक्षि  
चरणयुगलं शयनस्थानं विनिर्दिशेत्प्राज्ञः ॥ १ ॥

बारहवें भावसे संपूर्ण व्यय ( खर्च ), नरकमें पडना, विकल्पकता, वामनेत्र, दोनों  
चरण, शयन स्थानका विचार प्राज्ञ कहे ॥ १ ॥

व्यये पापसमायुक्ते तदीशे पापखेचरे ॥ पापग्रहेण संदृष्टे पापमू-  
लाद्धनव्ययः ॥ २ ॥ मन्दमान्द्यगुसंयुक्ते व्यये वा तद्गृहाधिपे ॥  
ऋशांकसमायुक्ते पापमूलाद्धनव्ययः ॥ ३ ॥ व्ययाधिपसमायु-  
क्तनवभागपतौ शुभे ॥ शुभांशे शुभमध्यस्थे धर्ममूलाद्धनव्ययः  
संदृष्टे स्वर्गप्राप्तिर्भविष्यति ॥ २४ ॥

उक्तग्रह उच्चका होवै तो उच्चमलोक नीचका होवै तो नीचलोक और सम होवै तो समलो-  
ककी प्राप्ति होवै, इसप्रकार मर्हिपि कहतेहैं ॥ २२ ॥ शुभग्रह अपने उच्चमें बारहवेभी होवै  
उसे शुभग्रह देखें और देवलोकादि अंशकमें होवै तो स्वर्गप्राप्ति होगी ॥ २३ ॥ दृग्मेंश  
गृहस्पति व्ययभावमे भी हो उसे शुभग्रह देखे तो स्वर्गकी प्राप्ति होगी ॥ २४ ॥

नेत्रशे शुभसंयुक्ते शोभनांशसमन्विते ॥ शुभखेचरसंबंधे तन्नेत्रस्य  
शुभं वदेत् ॥ २५ ॥ अन्यथा चेद्गद्ग्राशं पादयोरपि तत्तथा ॥  
तत्प्रपंचादिकं सर्वं धनभावे प्रदर्शितम् ॥ २६ ॥

व्ययेश शुभग्रहसे युक्त हो शुभषष्ठ्यशमे तथा शुभग्रहसे संबंधी होवै तो नेत्रका शुभ कहना  
॥ २५ ॥ पापयुक्त, अशुभ षष्ठ्यंशगत पापसंबंधी होवै तो नेत्रनाश कहना ऐसेही पैरोंका भी  
विचार कहना क्योंकि पादस्थानभी द्वादशही है इसका समस्त विचार धनभावमें कहदिया ॥ २६ ॥

गुरुशुक्रबुधास्तत्र वाहनं निर्दिशेद्बुधः ॥ वाहनोक्तादिकं सर्वं तदि  
 हात्र विचिंतयेत् ॥ २७ ॥ शुभग्रहाणां सम्बन्धे व्यये तद्भावना-  
 यके ॥ दोलां तु मंचं प्रवेच्छयनादिसुखं तथा ॥ २८ ॥  
 व्ययेशे स्वोच्चराशिस्थे शुभवर्गसमन्विते ॥ शुभग्रहेण संदृष्टे  
 पर्यकशयनं वदेत् ॥ २९ ॥ विचित्रमञ्चशयनं व्ययेशे परमो-  
 च्चगे ॥ भाग्यनाथेन वा दृष्टे मणिरत्नविभूषितम् ॥ ३० ॥ पापग्र-  
 हाणां संबन्धे व्यये तद्भावनायके ॥ क्रूरांशे क्रूरसंदृष्टे शयनादि-  
 सुखं न हि ॥ ३१ ॥ व्ययेशः पापखेटोपि स्वोच्चमित्रस्वराशिः ॥  
 तस्यनाथोपि तत्स्थाने शयनादिसुखं वदेत् ॥ ३२ ॥ नीचे व्यये  
 वा लग्नेशे शत्रुनाथेन वीक्षिते ॥ मंदमाद्यगुसंयुक्ते शयनादिसुखं  
 न हि ॥ ३३ ॥

व्ययभावमें बृहस्पति, शुक्र, बुध होवै तो वाहन होगा कहना और जो चतुर्थस्थान विचा-  
 रमें वाहन विचार करेहै वह सभी यहा विचारने ॥ २७ ॥ बारहवें स्थानमें तथा व्ययेशके  
 साथ शुभग्रहोका संबध होवै तो डोली मंच आदि होंगे कहना तथा विस्तर आदिका सुख  
 कहना ॥ २८ ॥ व्ययेश अपने उच्चराशिमें शुभांशकादियुक्त होवै तथा शुभग्रह उसे देखे तो  
 पलंग आदि शय्या मिले ॥ २९ ॥ व्ययेश अपने परम उच्चमें हो वा नवमेशसे दृष्ट होवै तो  
 शय्या मणि आदिसे भूषित होवै ॥ ३० ॥ व्ययस्थानमें पापग्रहोंका संबध होवै व्ययेश  
 क्रूरांशमें क्रूरदृष्ट होवै तो शय्याआदिका सुख न होवै ॥ ३१ ॥ व्ययेश पापग्रहभी अपने उच्च  
 मित्रराशि अपने अंशादिमें होवै और उस राशिका स्वामीभी उसी स्थानमें होवै तो शय्या  
 आदिका सुख कहना ॥ ३२ ॥ लग्नेश नीचराशिमें वा व्ययभावमें पृथ्वशसे युक्त होवै  
 शनि केतु राहुमेंसे किसीसे युक्त होवै तो शय्या आदिका सुख नहीं मिलेगा ॥ ३३ ॥

पंचमे भृगुसंयुक्ते चन्द्रेण सहिते तथा ॥ ताभ्यां दृष्टेथ वा पुत्रे  
 स्त्रीदेवोपास्तिमादिशेत् ॥ ३४ ॥ पंचमे पुंग्रहयुते पुंदेवोपास्ति-  
 मादिशेत् ॥ पंचमे भानुसंबन्धे सूर्यशंकरभाजनः ॥ ३५ ॥ चन्द्रे  
 तथाविधे जाते यक्षिणी देवता भवेत् ॥ स्कंदो वा भैरवो वापि  
 सौम्यसंबन्धवीक्षिते ॥ ३६ ॥ उपास्या शारदा सौम्ये विष्णुर्वा  
 सात्विको गुरौ ॥ चासुण्डां पंचमे शुक्रसंबन्धे तु विनिर्दिशेत् ॥ ३७ ॥

शनौ प्रेताशनी प्रोक्ता श्मशाननिलया भवेत् ॥ राहुकेतुयुते तत्र  
परपीडनदेवता ॥ ३८ ॥

पंचम स्थानमें शुक्र चंद्रमा सहित होवै अथवा शुक्र चंद्रमा पंचमभावको देखें तो स्त्री संतक ( देवी आदिका ) उपासक होवै ॥ ३४ ॥ पंचममें पुरुषग्रह होवै तो पुरुषवाची ( शिवगणेशादि ) की उपासना करे । पंचममें सूर्यका संबंध होवै तो सूर्य एवं महादेवकी उपासना करे ॥ ३५ ॥ ऐसाही चन्द्रमा होवै तो यक्षिणी उसकी देवता होवै उसपर बुधका संबंध होवै वा दृष्टि होवै तो रूद्र ( वेतालादि ) अथवा भैरव उसकी देवता होवै ॥ ३६ ॥ पंचम भावमें बुध होवै तो सरस्वती उपास्य देवता होवै बृहस्पति होवै तो सात्विक विष्णु राम कृष्णादि उपास्य होवै शुक्र पंचम होवै तो चामुण्डा होवै ॥ ३७ ॥ शनि होवै तो मृतके अशनवाली देवी राहु केतुसे श्मशान कालिका आदि दूसरेको पीडा देनेवाली होवै ॥ ३८ ॥

उत्तेश्वेतेषु खेटेषु स्वोच्चमित्रांशकेषु च ॥ तदेव भजनं स्वार्थं  
परार्थं त्वन्यथा भवेत् ॥ ३९ ॥ सौम्येक्षितेषु सर्वेषु मृदंशादि-  
गतेषु च ॥ तदेव सौम्यता वाच्या क्रूरांशे क्रूरता भवेत् ॥ ४० ॥  
द्वित्र्यादिग्रहयोगेन तद्देवभजनं भवेत् ॥ लग्नाधिपस्य मंत्रेशे मित्रे  
तन्मित्रमादिशेत् ॥ ४१ ॥ शत्रुत्वे शत्रुभूतः स्यात्समत्वे समता  
भवेत् ॥ ४२ ॥ लग्नाद्वादशराशीनां फलं प्रोक्तं मयाधुना ॥  
संगृह्य सारमखिलमध्यायस्त्वष्टमोऽभवेत् ॥ ४३ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ भावफलनिरूपणो नामा-  
ष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

उक्तग्रहोंमेंसे यदि अपने मित्रांशक उच्चंशकोंमें होवै तो वह उपासना अपने छिये और नीचशत्रु आदि अंशकोंमें होवै तो पराये अर्थ होवै ॥ ३९ ॥ उक्त ग्रह सभी शुभदृष्ट होवै तथा मृदुआदि अंशादिमें होवै तो सौम्य उपासना और क्रूरदृष्ट क्रूरांशकादिमें होवै तो क्रूर-  
पासना कहनी ॥ ४० ॥ जो दो तीन आदि ग्रहोंसे यह योग होवै तो वैसेही मरारके उत-  
नेही देवताओंकी उपासना होवै लग्नेशका पंचमश मित्र होवै तो वह देवता मित्रभावमें शत्रु  
होवै तो शत्रुभावमें रहेगा कहना ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ लग्नेसे बारह राशियोंका फल मैंने इस  
समय समस्त सार ग्रहण करके कह दिया इस प्रकार अष्टम अध्याय होगया ॥ ४३ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषाटीकायां भाषाघ्यायोऽष्टमः ॥ ८ ॥

इति द्वादशभावविचारः ॥

## नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अथ राजयोगाध्यायः ।

पङ्क्तिर्ग्रहैरुच्चसमन्वितैः स्याद्राजाधिराजो बहुदेशभर्ता ॥ उच्च-  
स्थितैः पञ्चभिरत्र राजा शक्तयान्वितो देवगुरो विलग्रे ॥ १ ॥  
कुम्भे विलग्रे भृगुनन्दने वा स्वोच्चस्थिते भूमिपतिश्चतुर्भिः ॥ उच्च-  
स्थितैर्नीचवियुक्तभागैः क्रूरादिषष्ट्यंशविहीनभागैः ॥ २ ॥

छः ग्रह उच्चके होवें तो राजाओंका राजा ( बादशाह ) बहुत देशोंका स्वामी होवै पांच  
ग्रह उच्चके हो और लग्नमें ग्रहस्मृति होवै तो सामर्थ्यवाला राजा होवै ॥ १ ॥ कुम्भराशि  
लग्नमें शुक्र होवै और चार ग्रह उच्चके होवें तो राजा होवै, परन्तु जो ग्रह उच्चके हैं वे  
नीचांशक एवं क्रूरआदि षष्ट्यंशमें न होवें तब राजयोग होताहै ॥ २ ॥

लग्ने वृषे तत्र गते शशाके पङ्क्तिर्ग्रहैरुच्चगतैर्नृपः स्यात् ॥ क-  
स्मिन् ग्रहे स्वोच्चयुते तु सर्वैः स्वक्षेत्रगैर्भूपतितुल्यजातः ॥ ३ ॥  
मूलत्रिकोणाङ्कितराशियुक्तैर्मित्रक्षगैर्वा यदि वक्रयुक्तैः ॥ कस्मिन्  
ग्रहे स्वोच्चयुतेत्र शेषैर्नीचांशहीनैर्नृपतुल्यजातः ॥ ४ ॥ जनयति  
नृपमेकोप्युच्चगो मित्रदृष्टः प्रचुरधनसमेतं मित्रयोगाच्च सिद्धम् ॥  
विषसुविमुखमूढव्याधितं बंधतप्तं वधदुरितसमेतं शत्रुनिम्न-  
क्षणेपु ॥ ५ ॥

लग्न वृष हो उसमें चंद्रमा हो और ६ ग्रह चंद्रसहित उच्चके हों तो राजा होवै किसी  
स्थानमें भी सभी ग्रह उच्चगत होनेसे राजा होताहै सभी स्वराशित्त हों तो राजाके तुल्य  
होवै ॥ ३ ॥ मूलत्रिकोणराशियोंमें वा मित्रराशियोंमें अथवा वनग्रह किसीभावमें हो शेष  
उच्चराशियोंमें हो परन्तु नीचांशकोंमें न होवें तो मनुष्य राजाके तुल्य होवै ॥ ४ ॥ एक भी  
ग्रह उच्चगत मित्रग्रहसे दृष्ट हो तो बहुत धन सहित मित्रमंडलीसे संपन्न राजा होताहै शत्रुनीच  
राशियोंमें पापग्रह धनरहित सुखरहित बंधनसे सतप्त मरण अरिष्ट सहित करतेहैं ॥ ५ ॥

शुभं वर्गोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सद्गृहे ॥ अशून्येषु च केन्द्रेषु  
कारकाख्यग्रहेषु च ॥ ६ ॥ हित्वाकं सुनफानफादुरुधराः स्वा-  
न्त्योभयस्यैर्ग्रहैः शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बहुभिः केम-

द्रुमोऽन्यैस्त्वसौ ॥ केन्द्रे शीतकरेऽथ वा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते  
केचित्केन्द्रनवांशकेष्वपि वदंत्युक्तिप्रसिद्धा न ते ॥ ७ ॥ सौम्ये  
स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दोस्नस्मिंश्च भूपसचिवक्षितिपाल-  
जन्म ॥ संपन्नसौख्यविभवा हतशत्रवश्च दीर्घायुषो विगतरोगभ-  
याश्च जाताः ॥८ ॥

वर्गोत्तम लग्नमें जन्म शुभ होताहै शुभग्रह बेशिस्थान ( सूर्यसे १२ ) में तथा कारकग्रहमें  
भी जन्म शुभ होताहै परतु केन्द्र शून्य ( ग्रहरहित ) न हों ॥ ६ ॥ सूर्यसे १२ में  
वेशि २ में वो दोनोंमें ग्रह होनेसे उभयचारी होताहै, तेसेही सूर्यको छोडकर चंद्रमासे  
दूसरा कोई ग्रह होवे तो सुनफा, १२ में होवे तो अनफा होताह, यदि दोनों भावोंमें हों तो  
दुरुधरा होताहै इनमेंसे कोई भी न होवे तो केमद्रुम योग होताहै, अन्य आचार्य चंद्रमा  
केन्द्रमें होनेसे अथवा किसी ग्रह सहित होनेसे केमद्रुमभग होना कहनेहै, कोई केन्द्रनवांश-  
कर्म होनेसेभी ऐसा कहतेहैं परन्तु यह बात उक्तिसे प्रसिद्ध नहींहै ॥ ७ ॥ चन्द्रमासे  
७ । ६ । ८ । भावोंमें ग्रह होवे तो अधियोग होताहै इसका फल होके सुखविभवसे  
संपन्न, शत्रुरहित, दीर्घायु, नीरोग, निर्भय, सेनाणति, मंत्री और राजा होतेहैं, इसमें यह  
क्रम मानते हैं कि चन्द्रमासे ६ । ७ । ८ । मेंसे एक भावमें ग्रहहो तो सेनानायक दोमें हो तो  
मंत्री तीनमें हो तो राजा होताहै ॥ ८ ॥

लग्ने चन्द्रे गुरौ सौख्ये कर्मस्थे भृगुनन्दने ॥ स्वोच्चस्वर्क्षस्थिते  
मन्दे नृपतुल्यो भवेन्नरः ॥ ९ ॥ दशमैकादशे रिष्फलग्रवित्तसहो-  
त्थमे ॥ ग्रहास्तिष्ठन्ति चेत्सौम्या नृपतुल्यो भवेन्नरः ॥ १० ॥  
केन्द्रत्रिकोणगाः सौम्या पापाः पङ्कलाभसोदराः ॥ लग्नाधिपे  
वलवति नृपतुल्यो भवेन्नरः ॥११॥ दृश्यते युज्यते वापि चन्द्र-  
जेन बृहस्पतिः ॥ शिरसा शासनं तस्य धारयति नृपास्तदा ॥१२॥

चंद्रमा लग्नमें बृहस्पति चतुर्थमें शुक्र दशमभावमें हो और अपने उच्च वा अपनी राशिमें  
होवे तो मनुष्य राजाके तुल्य होवे ॥ ९ ॥ दशमभावसे लेकर तीसरे पर्यंत शुभग्रह सभी  
होवें तो मनुष्य राजाके समान होवे ॥ १० ॥ शुभग्रह केन्द्र त्रिकोणोंमें पापग्रह ६ । ११  
। ३ में हों और लग्नेश बलवान् होवे तो मनुष्य राजतुल्य होवे ॥ ११ ॥ बृहस्पतिको  
बुध देखे वा युक्त होवे तो उस मनुष्यकी आज्ञाको राजालोग शिरमें धारण करें ॥ १२ ॥

नीचस्थितो जन्मानियो ग्रहः स्यात्तद्राशिनाथोथतदुच्चनाथः ॥ स  
चेद्विलग्न्यादि केन्द्रवर्ती राजाभवेद्भार्मिकचक्रवर्ती ॥ १३ ॥ नि-

शाकरे केन्द्रगते विलग्नं त्यक्त्वा त्रिकोणे यदि जीवदृष्टे ॥ शुक्रेण  
दृष्टे बलपूर्णयुक्ते जातो नरो भूपतितुल्यभाग्यः ॥ १४ ॥ नीच-  
स्थिता जन्मानि ये ग्रहेन्द्राः स्वोच्चांशगा राजसमानभाग्याः ॥

उच्चस्थिता चेदपि नीचभागा ग्रहा न कुर्वति तथैव भाग्यम् ॥ १५ ॥

जो ग्रह जन्ममें नीचका है उसके उच्चराशिका स्वामी अथवा जिस राशिमें बैठा है उसका स्वामी लग्नसे केन्द्रमें होवै तो धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होवै ॥ १३ ॥ चन्द्रम-  
लग्न छोड़के केंद्रमें होवै अथवा त्रिकोणमें होवै उसे बृहस्पति देखे अथवा शुक्रसे दृष्ट होवै पूर्णबली होवै तो मनुष्य राजाके ऐश्वर्यके बराबर ऐश्वर्यवाला होवै ॥ १४ ॥ जो ग्रह जन्ममें नीचके हों वह अपने उच्चांशकोंमें हों तो राजाओंके समान ऐश्वर्यवाले हों। जो ग्रह उच्चराशियोंमें हो वह नीचांशकोंमें हों तो वैग्रह वैसा ऐश्वर्य नहीं करसकते ॥ १५ ॥

ग्रहा बलाढ्या यदि पूर्वपङ्के स्वोच्चस्थिताः पूर्वदले नृपः स्यात् ॥

तद्व्यत्ययं पश्चिमभाग्ययुक्ता मिश्रस्थिताश्चेदुभयत्र भाग्यम् ॥

॥ १६ ॥ त्रेधा विभज्यं तु वयःप्रमाणं खण्डत्रयं तत्र वदन्ति

संतः ॥ व्ययादिकं प्राथमिके च खण्डे शुभग्रहाः शोभनमत्र

दद्युः ॥ १७ ॥ खण्डे द्वितीये बहवश्च सौम्यास्तथैव सौख्यं तु

तृतीयखण्डे ॥ खण्डे तु यस्मिन्बहवश्च पापा नीचांशगा मूढस-

मान्वितास्तु ॥ १८ ॥ दुःखं भवेत्तत्र विशेषतस्तु राज्यात्पदभ्रं-

श्चमुदाहरन्ति ॥ एवं भवेच्छोभनखेचरेन्द्रैः खण्डान्वितैः शोभन-

कालमाहुः ॥ १९ ॥

बलवान् ग्रह यदि पूर्वपङ्के ( लग्नसे छठे भावपर्यन्त ) में होवै तो आयुके पूर्वदलमें और पश्चिमपङ्के ( ७ से १२ केभीतर ) होवै तो उमरके उत्तरदलमें, दोनों पङ्कोंमें हों तो दोनहूँ दलमें, ऐश्वर्य होवै ॥ १६ ॥ आयुके प्रमाणका तीन भाग करना इनको ज्योतिषज्ञ तीन खंडकरतेहैं ऐसेही १२ भावोंके ३ खंड जानने प्रथम दूसरे तथा तीसरे खंडमें जहां शुभग्रह हो उस खंडमें सुख ऐश्वर्य देतेहैं जिस खंडमें बहुत पाप हों अथवा नीचांशके वा अस्तंगत ग्रह हों तो उमरके उस खंडमें दुःख होताहै विशेषकरके राज्यसे पदच्युति होनी कहतेहैं ऐसेही शुभग्रहोंसे वह उमरका खंड शुभ कहतेहैं ॥ १७ । १८ । १९ ॥

लग्ने गुरौ बुधे केन्द्रे भाग्यनाथेन वीक्षिते ॥ लग्नेशे वापि सं-

दृष्टे नृपतुल्यो भवेन्नरः ॥ २० ॥ सप्तमे जीवसंयुक्ते त्रिकोणे वा



समन्विते ॥ लग्नाधिपेन संदृष्टे नृपतुल्यो भवेन्नरः ॥ २१ ॥ केन्द्रे  
शनौ त्रिकोणे वा स्वोच्चमूलत्रिकोणगे ॥ राज्याधिपेन संदृष्टे  
नृपमानसमन्वितः ॥ २२ ॥ कर्मेशे रन्ध्रभावस्थे स्वोच्चमित्रांश-  
संयुते ॥ पारावतांशके वापि राजराजो भवेन्नरः ॥ २३ ॥

लग्नमे बृहस्पति बुध केंद्रमें भाग्येशसे दृष्ट और लग्नेशसेभी दृष्ट होवै तो मनुष्य राजाके तुल्य  
होवै ॥ २० ॥ बृहस्पति सप्तममें वा त्रिकोणमें होवै लग्नेशसे दृष्ट होवै तो वही फल  
होगा ॥ २१ ॥ अपने उच्च वा मूलत्रिकोणका शनि केन्द्र वा त्रिकोणमें होवै दशमेश उसे  
देखे तो राजमानसे युकरहे ॥ २२ ॥ दशमेश अष्टममें उच्चका वा मित्रांशका होवै अथवा  
पारावतांशमे होवै तो राजराज होवै ॥ २३ ॥

नीचे गुरौ विलग्नस्थे रन्ध्रस्थे वाथ धर्मपे ॥ तथाविधांशसंयुक्ते  
राजराजो भवेन्नरः ॥ २४ ॥ गुरौ व्यये शनौ लाभे स्वौ वा विक्र-  
माधिपे ॥ गुरौ व्यये विलग्नशे राजराजो भवेन्नरः ॥ २५ ॥ पंचमे  
जीवसंयुक्ते चन्द्रे केन्द्रे बृहस्पतौ ॥ स्थिरलग्ने तदीशेतु राज्यस्थे  
नृपतिर्भवेत् ॥ २६ ॥ पूर्वपङ्के ग्रहाः सर्वे यस्य तिष्ठन्ति ज-  
न्मनि ॥ भाग्याधिपे धनस्थे वा सचन्द्रे नृपतिर्भवेत् ॥ २७ ॥

नीचराशिका बृहस्पति लग्न अथवा अष्टमभावमें होवै और नवमेश पारावतांशमे होवै  
तो राजराज (राजाओंका राजावा कुबेरसम) होवै ॥ २४ ॥ चारहवें बृहस्पति ग्यारहवें शनि  
वा सूर्य होवै तृतीयेश बृहस्पति होवै लग्नेश चारहवें होवै तो राजराज होवै ॥ २५ ॥  
पंचम भावमें वा केन्द्रमें बृहस्पति सहित चन्द्रमा होवै लग्नमें स्थिरराशि लग्नेश राज्यस्थानमें  
होवै तो राजा होवै ॥ २६ ॥ जिसके समस्त ग्रह लग्नसे छटे भाव पर्यन्त हों अथवा  
भाग्येश धनस्थानमें चन्द्रमासहित होवै तो राजा होवै ॥ २७ ॥

चन्द्राधिष्ठितराशंशनाथे केन्द्रायकोणगे ॥ बुधात्केंद्रगते वापि  
राजराजो भवेन्नरः ॥ २८ ॥ निशांकरः सभौमस्तु वित्त वा वि-  
क्रमेपि वा ॥ पंचमे राहुसंयुक्ते राजराजो भवेन्नरः ॥ २९ ॥ भा-  
ग्याधिपसमायुक्तनवांशाधिपतौ सुखे ॥ पुत्रस्थानगते वापि नृप-  
श्रेष्ठो भवेन्नरः ॥ ३० ॥

चन्द्र जिसकी राशि वा नवांशरुमें हे वह केन्द्र लाभ वा त्रिकोणमें होवै अथवा  
बुधसे केन्द्रमें होवै तो मनुष्य राजाओंकाभी राजा होवै ॥ २८ ॥ चंद्रमा मंगलपुत्र

दूसरे वा तीसरे भावमें होवै राहु पंचममें होवै तो राजराज होवै ॥ २९ ॥  
नवमेश जिसके नवांशकमें है वह चतुर्थभावमें होवै अथवा पंचममें होवै तो राजाओंमें  
श्रेष्ठ होवै ॥ ३० ॥

ऋरं सकर्मभावशे ग्रहास्तिष्ठंति चेत्क्रमात् ॥ लग्नादिपूर्वपङ्केऽस्मि-  
न् राजराजो भवेन्नरः ॥ ३१ ॥ लग्ने चरे तदीशेपि चरराशयंश-  
कान्विते ॥ भाग्येशे चरराशिस्थे भूमिपालोऽन्यदेशगः ॥  
॥ ३२ ॥ राजयोगादिसंजाते तथा वाच्योऽन्यथा न हि ॥  
उत्तमांशगते चन्द्रे गुरौ नीचांशवर्जिते ॥ ३३ ॥ शुभपष्टयंशके  
सूर्ये नृपतुल्यो भवेन्नरः ॥ त्रयो वा द्वौ खगौ वापि चत्वारो नीच-  
संयुताः ॥ ३४ ॥ शुभपष्टयंशसंयुक्ताः स्वोच्चांशे वा धरापतिः ॥  
॥ ३५ ॥ नीचस्थितांशनाथस्तु खेटः केन्द्रत्रिकोणगः ॥ चरलग्ने  
तदीशे तु चरांशदौ नृपो भवेत् ॥ ३६ ॥

दशमेश पापयुक्त होवै ओर लग्नेसे छडे भावपर्यंत क्रमसे ग्रह होवै तो राजराज  
होवै ॥ ३१ ॥ लग्नेमें चरराशि हो लग्नेसे चरराशि चरांशकमें होवै भाग्येशभी चर-  
राशिमें होवै तो परदेशमें जाके राजा होवै ॥ ३२ ॥ यह फल जिसके राजयो-  
गभी हों उसको कहना औंको नहीं, चंद्रमा उत्तमाशमें हो बृहस्पति नीचांशकमें  
न हो सूर्य शुभपष्टयंशमें होवे तो मनुष्य राजतुल्य होवै, तीन वा दो यदा चार ग्रह नीचराशि-  
योंमें होवै और शुभपष्टयंशोंमें वा अपने उवांशकोंमें होवै तो राजा होवै, नीचगत ग्रहका  
अंशनाथ ग्रह केन्द्र त्रिकोणमें होवै लग्नेमें चरराशि लग्नेसे चरराशि चरांशकमें होवै तो राजा  
होवै ॥ ३३ ॥ ३४ । ३५ । ३६ ॥

माने राहौ भवे मंदे भाग्यनाथेन वीक्षिते ॥ लग्नेशे नीचखेटेन युते  
नृपसमो भवेत् ॥ ३७ ॥ अंशतो भावतो वापि स्वोच्चमूलत्रिको-  
णगः ॥ राजयोगास्तु निर्दिष्टास्तेषां योगे बहुत्वदाः ॥ ३८ ॥ इति  
राजयोगाः ॥

दशम राहु लाभमें शनि भाग्येशसे दृष्ट होवै और लग्नेसे नीचगत ग्रहसे युक्त होवै तो  
राजतुल्य होवै ॥ ३७ ॥ अशसे भावसे ग्रह अपने उच्च वा मूलत्रिकोणमें हो तो भी  
राजयोग होताहै ॥ उक्त राजयोगोंमें ऐसा होनेसे विशेषतर राजयोग होताहै ॥ ३८ ॥  
इति राजयोगाः ॥

अथ जातकभंगयोगाः ।

जीवे सकेतौ यदि वा सराहौ चाण्डालता पापनिरीक्षिते चेत् ॥

नीचांशके नीचसमन्विते वा जीवे द्विजश्चेदपि तादृशः स्यात् ॥

॥ १ ॥ ध्वजाहिमन्दैः सहितैद्रपूज्ये शुक्रेक्षिते वा शशिसूनुदृष्टे ॥

शूद्रोपि चेद्विप्रसमानमेति विद्यां च सर्वामधिगम्य जातः ॥ २ ॥

बृहस्पति केतु वा राहु सहिन और पापदृष्ट होवै तो वह मनुष्य चाण्डालताको प्राप्त होवै वह बृहस्पति नीचराशि वा नीचांशकमें होवै तो ब्राह्मणभी हो तो भी चाण्डाल होनावै ॥ १ ॥ केतु राहु और शनिसे युक्त बृहस्पतिको शुक्र वा बुध देखें तो शूद्रभी हो तो भी मनुष्य समस्त विद्या जानकर ब्राह्मणके समानताको प्राप्त होताहै ॥ २ ॥

मेपे शशांके रविसूनुदृष्टे भिक्षाशनी भूमिसुतेन दृष्टे ॥ निःश्री-

र्विलग्नस्य निशाकरस्य लुब्धो दिनेशात्मजदृष्टियोगात् ॥ ३ ॥

शुभग्रहाणामवलोकनेन हीनाद्भवेत्तत्र समन्वितत्वाद्वा ॥ तत्काल-

होराधिपतौ धराजे केंद्रे शनौ चेद्यदि वा विलग्नैः ॥ ४ ॥ शुभग्र-

हाणामवलोकहीने दासस्तु भिक्षाशनदेहशीलः ॥ ५ ॥

मेपका चंद्रमा शनिसे दृष्ट होवै तो भिक्षा मांगके खावै मगलसे दृष्ट होवै तो लक्ष्मीरहित होवै लग्न चंद्रमाके शनिसे युक्त वा दृष्ट होनेसे लुब्ध (नित्य वृष्णायुक्त) रहे ॥ ३ ॥ यह फल शुभग्रहोंके योग दृष्टि रहित होनेमें होताहै तत्काल लग्नका स्वामी मंगलमें केन्द्रमें हो अथवा शनि लग्नमें होवे ॥ ४ ॥ शुभग्रह उसे न देखें तो पराया दास होवै और भिक्षाके अन्नसे देहधारणकरे ॥ ५ ॥

पापमध्यगते चन्द्रे सप्तमे मन्दसंयुते ॥ श्वासक्षयप्रीहगुल्मविद्राधिं

भजते नरः ॥ ६ ॥ वैशौ समन्दे दशमे सचन्द्रे वैकल्यमङ्गे क्षि-

तिजे कलत्रे ॥ परस्परक्षेत्रनवांशयुक्तौ शशाङ्कसूर्यौ तनुशोपणं

स्यात् ॥ ७ ॥ दिनेशचन्द्रौ रविराशियुक्तौ चन्द्रर्क्षगौ वा यदि

शोपणं स्यात् ॥ रन्ध्रारिवित्तांत्यगता ग्रहेन्द्रा दिनेशचन्द्रारयमाः

क्रमेण ॥ ८ ॥ कुर्वन्ति जातं नयनेन हीनं तद्घातुकोपाद्बलसं-

युतस्य ॥ लग्नै गुरौ भूमिसुते कलत्रे उन्मादभाक् तत्र नरो हि

जातः ॥ ९ ॥

चन्द्रमा पापग्रहोंके बीचमें हो शनि सप्तम भावमें होवै तो श्वास, क्षय, ग्रीह, गुल्म, विद्रधि रोगसे मनुष्य पीडित रहे ॥ ६ ॥ सूर्यसे दूसरे (वेशि) स्थानमें शनि दशममें चन्द्रमा और मंगलसप्तममें होवै तो अंगविकल होवै । चन्द्रमा सूर्य अन्योन्य राशि नवाशकोंमें होवै तो शरीरकेश रहे ॥ ७ ॥ सूर्य चन्द्रमा सूर्यकी राशिमें वा चन्द्रराशिमें होवै तो शरीर सूख जावै, अष्टममें सूर्य, छठे चन्द्रमा, दूसरे मंगल, बारहवें शनि ऋमसे होवै तो ॥ ८ ॥ मनुष्यको बलवान् ग्रहके धातुके कोपसे नेत्रहान करतेहैं । लग्नेम बृहस्पति सप्तममें मङ्गल होवै तो मनुष्य उन्मादी ( विक्रिप्त ) होताहै ॥ ९ ॥

उन्मादयुग्मंशयुतो विलग्रे शनौ कलत्रे सकुजे त्रिकोणे ॥ लग्ने  
शनौ रिष्फगते दिनेशे चन्द्रे त्रिकोणे यदि वा धराजे ॥ १० ॥  
उन्मादबुद्धिः सजडोथ वा स्याज्जातो हि चेच्चञ्चलबुद्धियुक्तः ॥  
लग्ने त्रिकोणे दिननाथचन्द्रौ सौम्ये गुरौ केन्द्रसमन्विते वा ॥  
॥ ११ ॥ उन्मादबुद्धिः स भवेत्तदानीं शन्यारवारो यदि जन्म-  
काले ॥ केन्द्रस्थितौ सौम्यनिशाकरौ वा सौम्यांशहीनौ भ्रमसं-  
युतः स्यात् ॥ १२ ॥

लग्नेमें शनि सप्तममें मंगल हो अथवा त्रिकोणमें होवै तो उन्मादी ( वावला ) अथवा स्वलित वाणी होवै, लग्नेमें शनि बारहवें सूर्य और त्रिकोण ५।९ में चन्द्रमा अथवा मंगल होवै ॥ १० ॥ तो उन्मादबुद्धि अथवा जड ( मूर्ख ) यदा मनुष्य चंचल बुद्धिवाला होवै लग्ने वा त्रिकोणमें सूर्य चन्द्रमा अथवा शनि बृहस्पति केन्द्रमें होवै ॥ ११ ॥ और जन्म-कालमें शनि वा मंगलवार होवै तो वह मनुष्य उन्मादबुद्धि होवै वा यदि केन्द्रमें बुध चन्द्रमा शुभाशरहित होवै तो भ्रमसयुक्त होवै ॥ १२ ॥

केन्द्रीस्थिता मन्दनिशाकरार्का जडो भवेदन्यवसूपभोक्ता ॥

भाग्येश्वरे रिष्फगते तदीशे वित्तस्थिते भ्रातृगतैश्च पापैः ॥ १३ ॥

केमद्रुमेस्मिन्स भवेत्कुभोजी दुष्कर्मयुक्तोन्यकलत्रगामी ॥ १४ ॥

शनि चन्द्रमा सूर्य केन्द्रमें होवै तो दूसरेका द्रव्य खानेवाला मूर्ख होवै । भाग्येश बारहवें व्ययेश धनस्थानमें और तृतीय स्थानमें पापग्रह हो ऐसे केमद्रुम योगमें मनुष्य कुभोजी ( निकम्मे अन्नादि खानेवाला ) दुष्कर्मोंसे युक्त परस्त्रीगमन करनेवाला होवै ॥ १३ ॥ १४ ॥

नीचे विलग्राधिपतौ तदंशे पष्ठाष्टमस्थैर्यदि पापखेटैः ॥ १५ ॥

मांदौ विलग्रे कुलनाशकः स्यादल्पायुराहुः शुभदृष्टिहीनैः ॥

सर्वग्रहैर्नीचसपत्नभोगैः कर्मान्यगैर्भिक्षुक एव जातः ॥ १६ ॥

लग्नेश नीचराशि नीचांशकमें होवै पापग्रह छठे आठवें होवै मांदि लग्नमें होवै तो अपने कुलका नाशकरनेवाला होवै उक्त ग्रहोंपर शुभग्रहदृष्टि न होवै तो अल्पायु कहतेहैं । समस्त ग्रह नीच शुक्रराशियोंमें दशम स्थान रहित होवैं तो मनुष्य भिक्षुक होवै ॥ १५ ॥ १६ ॥

होरेश्वरे रिष्फगते तु माने क्रूरान्विते भौमयुते शशांके ॥ जातो-  
भिशस्तः परदेशवासी भिक्षाशनी दुःखितदेहभाक्स्यात् ॥ १७ ॥

षष्ठाष्टमे भानुसुते सभौमे जातोप्यपस्मारयुतो नरः स्यात् ॥

पापग्रहाः षड्व्ययबंध्रभेषु जीवे परिध्यांन्वितकेन्द्रगे वा ॥ १८ ॥

रन्ध्रस्थिताः पापखगाश्च सर्वे निशाकराच्छौ यदि केन्द्रयुक्तौ ॥

योगे गदाख्ये सभवेत्तदानीं जातोप्यपस्मारयुतः सुतप्तः ॥ १९ ॥

लग्नेश बारहवें दशम स्थानमें पापग्रह चन्द्रमा मंगलयुक्त होवै तो मनुष्य झूठे कलंकवाला परदेशमें रहनेवाला भिक्षा मांगके खानेवाला और दुःखी शरीरवाला होवै ॥ १७ ॥ शनि मंगलसहित छठे वा आठवें भावमें हो तो मनुष्य अपस्मार ( मृगीरोग ) वाला होवै पापग्रह ६ । १२ । ८ भावोंमें हों वृहस्पति परिधि ( शॉडल ) वाला जन्ममें अथवा केन्द्रमें होवै तोभी वही फल होगा ॥ १८ ॥ सभी पापग्रह आठवें भावमें हों चंद्रमा शुक्र केन्द्रमें ऐसे गदायोगमें मनुष्य अपस्मारी होताहै आश्रयोक्त गदायोग 'आसन्नकेन्द्रदयवाला' यहाँ नहीं है उक्तयोगकी गदा संज्ञा रखदी है इसमें मनुष्य सततभी रहताहै ॥ १९ ॥

समन्वितताः सौम्यशशांकशुक्राः केन्द्रस्थिता भोगिपतौ विलग्नैः ॥

चंडालयोगः स भवेत्तदानीं जातो निजाचारसुकर्महीनः ॥ २० ॥

जातः परिभ्रंशसमन्वितः स्याच्छुभैर्न युक्ता यदि दृष्टिहीनाः ॥ माने

स्थिता वा यदि वित्तराशौ पापास्तथा देवगुरौ च हीने ॥ २१ ॥

सुभ चंद्रमा शुक्र एकसाथ केन्द्रमें हों राहु लग्नमें होवै यह चंडालयोग होताहै इसमें उत्पन्न मनुष्य अपने कुलाचार एवं सत्कर्मसे हीन होताहै ॥ २० ॥ पापग्रह दशममें वा द्वितीय स्थानमें शुभग्रहोंके योग एवं दृष्टिसे रहित होवैं और वृहस्पति नीच मूढ दुष्ट पटवेंशाओंमें होवै तो वाणी सरलित बोले यटा धर्मादिकार्यसे च्युत होवै ॥ २१ ॥

भाग्येश्वरे चांशगते सपापे जन्मोदयेशे रविगे कुलग्नः ॥ विन-  
ष्टपुत्रार्थकलत्रभाक्स्याच्छुभैर्न युक्तौ यदि वीक्षितौ वा ॥ २२ ॥

शुभाशुभैः केन्द्रगतैः शशांको लग्नेश्वरेणापि निरीक्षितश्चेत् ॥

सौरांशके वा यदि संयुतश्चेज्जातः कुलध्वंसकरो विदारः ॥ २३ ॥

चन्द्रमा पापग्रहोके वीचमें हो शनि सप्तम भावमें होवै तो श्वास, क्षय, फ़ीह, गुल्म, विद्रधि रोगसे मनुष्य पीडित रहे ॥ ६ ॥ सूर्यसे दूसरे (वेशि) स्थानमें शनि दशममें चन्द्रमा और मंगलसप्तममें होवै तो अंगविकल होवें । चन्द्रमा सूर्य अन्योन्य राशि नवांश-कोंमें होवें तो शरीरकेश रहे ॥ ७ ॥ सूर्य चन्द्रमा सूर्यकी राशिमें वा चन्द्रराशिमें होवै तो शरीर सूख जावै, अष्टममें सूर्य, छठे चन्द्रमा, दूसरे मंगल, बारहवें शनि क्रमसे होवें तो ॥ ८ ॥ मनुष्यको बलवान् ग्रहके धातुके कोपसे नेत्रहीन करतेहैं । लग्नमे बृहस्पति सप्तममें मङ्गल होवै तो मनुष्य उन्मादी ( विक्षिप्त ) होताहै ॥ ९ ॥

उन्माद्युग्रभ्रंशयुतो विलग्रे शनौ कलत्रे सकुजे त्रिकोणे ॥ लग्ने  
शनौ रिष्फगते दिनेशे चन्द्रे त्रिकोणे यदि वा धराजे ॥ १० ॥  
उन्मादबुद्धिः सज्जोथ वा स्याज्जातो हि चेच्चञ्चलबुद्धियुक्तः ॥  
लग्ने त्रिकोणे दिननाथचन्द्रौ सौम्ये गुरौ केन्द्रसमन्विते वा ॥  
॥ ११ ॥ उन्मादबुद्धिः स भवेत्तदानीं शन्यारवारो यदि जन्म-  
काले ॥ केन्द्रस्थितौ सौम्यनिशाकरौ वा सौम्यांशहीनौ भ्रमसं-  
युतः स्यात् ॥ १२ ॥

लग्नमें शनि सप्तममें मंगल हो अथवा त्रिकोणमें होवै तो उन्मादी ( वावला ) अथ स्पलित वाणी होवै, लग्नमे शनि बारहवें सूर्य और त्रिकोण ५।९ में चन्द्रमा अथवा मंग होवै ॥ १० ॥ तो उन्मादबुद्धि अथवा जड ( मूर्ख ) यद्वा मनुष्य चञ्चल बुद्धिवाला हे लग्न वा त्रिकोणमें सूर्य चन्द्रमा अथवा शनि बृहस्पति केन्द्रमे होवै ॥ ११ ॥ और जन्म कालमें शनि वा मंगलवार होवै तो वह मनुष्य उन्मादबुद्धि होवै वा यदि केन्द्रमे बु चन्द्रमा शुभांशरहित होवै तो भ्रमसंयुक्त होवै ॥ १२ ॥

केन्द्रस्थिता मन्दनिशाकराका जडो भवेदन्यत्तस्मात् नीचताको  
भाग्येश्वरे रिष्फगते तदीशे वित्तमिश्रणनिश्चयही होगा १६।२७।२८ ॥

केन्द्रस्थिता मन्दनिशाकराका जडो भवेदन्यत्तस्मात् नीचताको  
भाग्येश्वरे रिष्फगते तदीशे वित्तमिश्रणनिश्चयही होगा १६।२७।२८ ॥  
केन्द्रस्थिता मन्दनिशाकराका जडो भवेदन्यत्तस्मात् नीचताको  
भाग्येश्वरे रिष्फगते तदीशे वित्तमिश्रणनिश्चयही होगा १६।२७।२८ ॥  
केन्द्रस्थिता मन्दनिशाकराका जडो भवेदन्यत्तस्मात् नीचताको  
भाग्येश्वरे रिष्फगते तदीशे वित्तमिश्रणनिश्चयही होगा १६।२७।२८ ॥

सूर्य तुलाके दशवें अंशमें अर्थात् परमनीचांशकमें होवै तो हनार राजयोग हुयेमें भी नीचता पावै ॥ २९ ॥ शुक्रभी नीचका होनेसे राजयोगका नाशक होताहै । तथा जन्म-समयमें उल्कापातादियोंसे अपकाश होनेमें वा ग्रहोंके मकाशावस्था वा उदयता न होनेमें भी राजयोग भंग होतेहैं ॥ ३० ॥

लग्नेश नीचराशि नीचांशकमें होवै पापग्रह छठे आठवें होवै मांदि लग्नमें होवै तो अपने कुलका नाशकरनेवाला होवै उक्त ग्रहोंपर शुभग्रहदृष्टि न होवै तो अल्पायु कहतेंहैं । समस्त ग्रह नीच शुक्रराशिमें दशम स्थान रहित होवैं तो मनुष्य भिक्षुक होवै ॥ १९ ॥ १६ ॥

होरेश्वरे रिष्कगते तु माने क्रूरान्विते भौमयुते शशांके ॥ जातो-  
भिशस्तः परदेशवासी भिक्षाशनी दुःखितदेहभाक्स्यात् ॥ १७ ॥

पथाष्टमे भानुसुते सभौमे जातोप्यपस्मारयुतो नरः स्यात् ॥

पापग्रहाः पड्व्ययरंध्रभेषु जीवे परिध्यांन्वितकेन्द्रगे वा ॥ १८ ॥

रन्त्रस्थिताः पापखगाश्च सर्वे निशाकराच्छौ यदि केन्द्रयुक्तौ ॥

योगे गदाख्ये सभवेत्तदानीं जातोप्यपस्मारयुतः सुतप्तः ॥ १९ ॥

लग्नेश बारहवें दशम स्थानमें पापग्रह चन्द्रमा मंगलयुक्त होवै तो मनुष्य झूठे फलंज्वाला परदेशमें रहनेवाला भिक्षा मांगके खानेवाला और दुःखी शरीरवाला होवै ॥ १७ ॥ शनि मंगलसहित छठे वा आठवें भावमें हो तो मनुष्य अपस्मार ( मृगीरोग ) वाला होवै पापग्रह ६ । १२ । ८ भावोंमें हों बृहस्पति परिधि ( शॉडल ) वाला जन्ममें अथवा केन्द्रमें होवै तोभी वही फल होगा ॥ १८ ॥ सभी पापग्रह आठवें भावमें हों चंद्रमा शुक्र केन्द्रमें ऐसे गदायोगमें मनुष्य अपस्मारी होताहै आश्रयोक्त गदायोग 'आसन्नकेन्द्रयवाला' यहाँ नहीं है उक्तयोगकी गदा संज्ञा रखदी है इसमें मनुष्य सतप्तभी रहताहै ॥ १९ ॥

समन्विताः सौम्यशशांकशुक्राः केन्द्रस्थिता भोगिपतौ विलम्बे ॥

चंडालयोगः स भवेत्तदानीं जातो निजाचारसुकर्महीनः ॥ २० ॥

जातः परिभ्रंशसमन्वितः स्याच्छुभैर्न युक्ता यदि दृष्टिहीनाः ॥ माने

रयुक्ते तदव्युद्धि वित्तराशौ पापास्तथा देवगुरौ च हीने ॥ २१ ॥

दशममें चंद्रमा सप्तममें बुध दूसरे शशांकमें हों राहु लग्नेमें होवै यह चंडालयोग होताहै इसमें उत्पन्न नीच शत्रु राशि अंशकोंमें भी होवैं तो निश्चय अपनी जातसंपात हाव ॥ २० ॥ पापग्रह दशममें वा द्वितीय धनके मध्य अपांत् पांचवें नवांशकमें शनि मंगलसे युक्त वा दृष्ट होवै तो कुप्री होवै अथवा चंद्रमा किसी राशिमें मकर फर्क वृषांशकमें शनि मंगलसे युक्त वा दृष्ट होवै तो भी कुप्री होताहै परंतु यह योग चंद्रमापर शुभदृष्टि न होनेमें है यदि शुभग्रह दृष्ट वा युक्तभी हाव तो कुछ नहीं होता तदंग रोग दहू चित्रक आदि होतेहैं ॥ २६ ॥

कुलीरकुम्भालिनवांशयुक्ते चंद्रे समादौ यदि गुल्मरोगी ॥ चंद्रे

सुखे तद्वनांशयुक्ते पापान्विते स्याद्विजकंठरोगी ॥ ३७ ॥ चंद्रे

सपापे फणिनाथयुक्ते रिष्फे शुभे रन्ध्रगते तथापि ॥ उन्मादभाक्  
तत्र सरोपता च जातस्तु नित्यं कलहप्रियः स्यात् ॥ ३८ ॥

कर्क कुंभ वृश्चिकांशका चंद्रमा राहु केतु सहित होवै तो ( गुल्म ) पेटमें गोलिका रोग होवै यदि वैसाही चंद्रमा चतुर्थ होवै और पापयुक्त होवै तो दांत तथा कंठमें रोग होताहै ॥ ३७ ॥ चंद्रमा पापयुक्त राहु सहित बारहवें होवै अथवा चंद्रमा सपाप और १२ वें ८ वेंमें शुभग्रह होवै तो मनुष्य उन्मादी ( बावला ) होवै और क्रोधी एवं नित्य कलहको प्यारा माननेवाला होवै ॥ ३८ ॥

चन्द्रे तु गोकर्कटराशियुक्ते पापान्विते तद्विपरीतयुक्ते ॥ उन्म-  
ण्डलस्थौ शशिमौमसंज्ञौ पापान्वितौ सौम्यदशा विहीनौ ॥ ३९ ॥  
हृच्छूलभाग् जातनरस्तु नित्यं तथैव तौ सप्तमराशियुक्तौ ॥ केन्द्रे  
शनौ जन्मनि येन दृष्टे जीवे शशांके यदि वा दिनेशे ॥ ४० ॥  
विलग्नगे स्याद्यदि भाग्यहीनः प्राप्तार्थचोरो मुनयो वदन्ति ॥ ४१ ॥

वृष कर्कका चंद्रमा पाप एवं शत्रुयुत होवै वा चंद्रमा मंगल अस्तंगत पापयुक्त तथा शुभ-  
दृष्टिवर्जित होवै ॥ ३९ ॥ तो हृदयमें गूल रहे यदि वैसेही चंद्रमा मंगल सप्तमस्थानमें हों  
तो भी वही फल मनुष्यको नित्य होगा शनि केन्द्रमें बैठकर लग्नगत बृहस्पति वा चंद्रमा यद्वा  
सूर्यको देखे ॥ ४० ॥ तो मनुष्य भाग्यहीन होगा मिलेहुये धनकाभी चोर होवै ऐसा  
ज्योतिषज्ञ मुनि कहतेहैं ॥ ४१ ॥

व्यये शुभेशे यदि पापखेटे केन्द्रस्थिते ज्ञानधनादिहीनः ॥

परान्नभुग् दुःखितदेहभाक् स्याच्छुभैर्न दृष्टे कलहप्रियो वा ॥ ४२ ॥

केन्द्रे गुरौ तज्जनकेन काले न कर्मवेदोक्तमथास्ति नास्ति ॥

पितुः सुतो वा यदि वा न कुर्यादूर्ध्वं तु तत्कर्म शुभैर्विहीने ॥ ४३ ॥

नवमे<sup>१</sup>दिदि वाग्रहें होवै पापग्रह केन्द्रमें होवै तो ज्ञान धन आदिसे हीन रहे उसपर  
शुभग्रह दृष्टिभी न होवै तो पराया अन्न खानेवाला दुःखित देह अथवा कलहको प्यारा मान-  
नेवाला होवै ॥ ४२ ॥ बृहस्पति केन्द्रमें होवै तो उसके पिताने समयपर वेदोक्तकर्म  
( संस्कार ) न किये होंगे अर्थात् घात्य होगा अथवा पुत्र पिताका ऊर्ध्वकर्म न करे ऐसा फल  
तब होगा जब बृहस्पति शुभग्रह दृष्टि योगरहित हो ॥ ४३ ॥

केन्द्रे शशांके क्षितिसूनुयुक्ते रन्ध्रस्थितो वा यदि कश्चिदस्ति ॥

संवाहनाद्भीतिमुशन्ति तज्ज्ञाः सुखस्थिते क्षीणनिशाकरे तु ॥ ४४ ॥



रवौ सुखे पापदशा समेते देहोष्णतां सौख्यमथाहुरार्याः ॥ रवेः  
शशांके नवमस्थिते तु जले मृतिस्तस्य पितुश्च वाच्या ॥ ४५ ॥

केन्द्रमे चंद्रमा मंगल सहित हो अथवा अष्टममें हो यदा क्षीण चंद्रमा चौथे होवै और  
अष्टम भावमें भी कोई ग्रह होवै तो ज्योतिषज्ञ बाहनसे भय कहतेहैं ॥ ४४ ॥ सूर्य चतुर्थ  
स्थानमें पापदृष्ट होवै तो शरीर गरम रहे तथा श्रेष्ठलोग पित्तघातु प्रबल रहनेसे नीरोग सुखी  
भी कहतेहैं सूर्यसे चन्द्रमा नवमस्थानमें होवै तो उसके पिताकी मृत्यु जलमे कहनी ॥ ४५ ॥

पापेक्षितौ चंद्ररवी झपस्थौ जले मृतिस्तस्य पितुश्च वाच्या ॥  
कुजाहियुक्ते दिवसेशपुत्रे सुखे शनौ वा भयमस्य वाच्यम् ॥ ४६ ॥  
नीचे भृगौ धर्मगते सपापे द्विजप्रहर्ता यदि पापदृष्टे ॥ विकर्णता-  
मेति फणीन्द्रयुक्ते माने तदा भौमयुते शिशुघ्नः ॥ ४७ ॥

चन्द्रमा सूर्य मीन राशिमें पापदृष्ट हों तो उसके पिताकी मृत्यु जलमें कहनी यदि शनि  
मंगल राहुसे युक्त होवै अथवा गनि चौथे होवै तो जातकको जलकी भय कहनी ॥ ४६ ॥ धर्म  
स्थानमें नीचराशिका शुक्र पापयुक्त होवै उसे पापग्रह देखे तो ब्राह्मणको मारनेवाला होवै यदि  
राहुसहित होवै तो कानोसे रहित होवै यदि दशमस्थानमे मंगलयुक्त होवै तो बालकोंको मारने  
वाला होवै ॥ ४७ ॥

नीचे गुरौ वासरनायके वा केन्द्रस्थिते पापयुते शिशुघ्नः ॥ केन्द्रे  
सपापे शुभदृष्टियुक्ते रन्ध्रे भृगौ गोमृगजातिहन्ता ॥ ४८ ॥ श-  
शांकसौम्यौ दशमस्थितौ वा पापेक्षितौ पापसमागमौ वा ॥  
नीचांशगौ सौम्यदशा विहीनौ जातस्तु नित्यं खलु पक्षिहन्ता ॥ ४९ ॥

बृहस्पति अथवा सूर्य नीचराशिका केन्द्रमें पापयुक्त होवै तो बालघाती होवै शुक्र केन्द्रमें  
पापयुक्त शुभदृष्ट होवै अथवा अष्टममें होवै तो गवय आदि मृगजातिका मारनेवाला होवै  
॥ ४८ ॥ चंद्रमा शुभ पापयुक्त वा दृष्ट दशमस्थानमे होवै अथवा नीचांशकमें शुभदृष्टि  
रहित होवै तो निश्चय सर्वदा पक्षियोंका मारनेवाला होवै ॥ ४९ ॥

रन्ध्रे गुरौ नीचसमन्विते वा गलांतमृत्युं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ चन्द्रे  
व्यये वा मदने सशुके जातस्य वामं नयनं हिनस्ति ॥ ५० ॥

रन्ध्रे त्रिकोणे दिवसाधिनाथे जातस्य गेहे शिथिलीभयं स्यात् ॥  
तस्मिञ्छनौ वा यदि वा सकेतौ पतेत्तदानीं कृकलासजातिः ॥ ५१ ॥

अष्टम स्थानमे बृहस्पति नीचका होवै तो गला घुटकर मरण होना ज्योतिषज्ञ कहतेहैं  
चंद्रमा व्ययभावमे शुक्रसहित हो अथवा समममें होवै तो मनुष्य नेत्र हीन होवै

॥ ५० ॥ चंद्रमा त्रिकोणमें सूर्यसहित होवै तो मनुष्यके घरमें शिथिली ( जहरीले कीट ) की भये होवै उक्तस्थानमें केतुसहित शनि होवै तो उसके घरमें कृकलास ( छिन्कलीकी जातिविशेष ) पड़े ॥ ५१ ॥

कौल्यादिपातित्यमुशंति तज्ज्ञास्तत्रैव राहौ तु कुजे तु कौर्मम् ॥  
तत्र स्थिते सोमसुते तु दंशं शुक्रे तु निद्रायतनं स्त्रियाश्च ॥५२॥  
तत्रैव मंदे पतनं नराणां बलाबलं तत्र वदेद्विचिन्त्य ॥ ५३ ॥

उक्तस्थानमें राहु होवै तो उसके घरमें कुत्ता अथवा शूकरसे अपवित्रता होना कहते हैं यदि तहां मंगल होवै तो कछुवे पढ़ें बुध होवै तो दंश ( वनमक्षिका ) पड़े । शुक्र होवै तो स्त्रियोंके शयन आदिसे मलिनता रहे ॥ ५२ ॥ तहां शनि होवै तो मनुष्योंके शयन आदिसे मलिनता होवै इसमें बचावके देखके बुद्धिबलसे न्यूनाधिस्य यद्वा मलिनता पतितता आदि कहनी ॥ ५३ ॥

बंध्यास्त्रियाः संगमनं रवौ स्यान्मंदे शशांके भवने समानम् ॥  
रजस्वलासंगमनं कुजे तु बंध्यांगनासंगमनं च वाच्यम् ॥ ५४ ॥  
बुधे तु वेश्यागमनं मदस्थे हीनांगनासंगमनं वाणिग्जा ॥ मंदे  
गुरौ ब्राह्मणभार्यया वा भृगौ तु गर्भान्वितभामिनी वा ॥ ५५ ॥  
सपुष्पिणी जातिविहीनिका वा गम्या भवेत्तेन शनिध्वजाद्यैः ॥  
राहौ मदे गर्भिणिसंगमः स्यात्कृष्णा च कुब्जा शशिनावदंति ॥ ५६ ॥

सप्तममें सूर्य होवै तो वांझ स्त्रीका गमन करे चंद्रमा वा चंद्रमाकी राशि सप्तममें होवै तो समान स्त्रीका गमन करे मंगल होवै तो रजस्वलाका गमन करे तथा वांझ स्त्रीका संगमभी कहना ॥ ५४ ॥ बुध होवै तो बेव्या तथा हीन जातिकी स्त्री यद्वा वाणिक् स्त्रीका गमन करे गुरु होवै तो ब्राह्मणकी स्त्रीसे, शुक्रसे गर्भवती स्त्रीका गमन करे ॥ ५५ ॥ शनि केतु आदिसे रजस्वला वा जातिसे हीन हुई स्त्रीका गमन करे, राहु सप्तम होवै तो गर्भिणी चंद्रमासे कृष्णकुवरी आदिसे गमन करे ये फल केवल भावजन्य नहीं है उक्तग्रह नीच शत्रु आदिमें हों तब ये फल हैं अन्यथा होनेमें नहीं हैं ॥ ५६ ॥

सुखस्थितैरीदृशसंगमस्तु वाच्यस्तदा व्योमचरैर्विशोपात् ॥ सूर्या-  
दिभिर्व्योमचरैः सुखस्थैर्वाच्या तयोः संगमनस्य शाला ॥ ५७ ॥  
वनं गृहं शून्यगृहं विहारस्थानं तु देवालयतोयभूमिः ॥ हरीशज-  
ग्गनमतीवदुर्गस्थानं तु वा निर्जिततोयभूमिः ॥ ५८ ॥

उक्त संगम सुखस्थानगत ग्रहोसे भी कहना विशेषतः चतुर्थस्थानगत ग्रहोसे मैथुनस्थान कहना जैसे सूर्यसे वनमें चन्द्रमासे घरमें मंगलसे शूने घरमे बुधसे विहारस्थान बृहस्पतिसे देवतालय जलाशयभूमि. शुक्रसे विष्णु वा शिवस्थान शनिसे दुर्ग ( किञ्च ) वा जीतीहुई जलप्राय भूमि मैथुनस्थान कहना ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

केन्द्रे चतुष्के यदि पापयुक्ते जातः पशूनां मिथुनं समेति ॥  
केन्द्रत्रिके पापयुते यदि स्यात्पश्चादिवन्मैथुनमेति जातः ॥ ५९ ॥  
कृशस्तना भूमिसुते मदस्थे लंबस्तना मंदफर्णांद्रकेतौ ॥ काठि-  
न्यतश्चोर्ध्वकुचा रवौ स्याच्छेषग्रहैरुत्तमकोमलांगी ॥ ६० ॥

चारों केन्द्रोंमें पापग्रह होंवें तो मनुष्य पशुके साथ मैथुनकरे यदि तीन केन्द्रोंमें होंवें तो पशुके समान मैथुन करे ॥ ५९ ॥ मंगल सप्तम होंवें तो स्त्री कृश स्तनवाली मिले शनि राहु केतुसे लम्बे स्तनवाली सूर्यसे कडे और ऊंचे स्तन अन्यग्रह चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्रसे कोमलांगी उत्तम स्तनादि अंगोंवाली स्त्री होवे ॥ ६० ॥

चन्द्रे कृशांगे परिजीर्णगेहं तस्मिन्बलिष्ठे सुदृढं नवीनम् ॥  
दुःस्थे यदि स्याच्छनिराहुकेतौ दाहेन तप्तं नियमेन वाच्यम् ॥  
॥ ६१ ॥ धनायपौ लग्नपतेस्तु मित्रे धनं तदीयं द्विजदेवतार्थम् ॥ ६२ ॥

चंद्रमा क्षीण होवै तो जीर्ण घर होवे चंद्रमा बलवान् होनेमें दृढ एवं नवीन होताहै यदि शनि राहु केतु दुष्टस्थानोंमें होंवें तो अग्नि आदि दाहक वस्तुसे घर संतप्त नियमसे कहना ॥ ६१ ॥ २ । ११ भावोंके स्वामी लग्नके मित्र होंवें तो उसका धन देवता एवं ब्राह्मणोंके काम आये ॥ ६२ ॥

इति चिंतामणौ प्रोक्तो राजयोगादिनिर्णयः ॥ जातभंगादिकं चैव  
व्यङ्ग्येन धीमता ॥ ६३ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ राजयोगजातभङ्गादिनिरूपणो  
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

इतना सर्वार्थचिन्तामणिम राजयोगादि तथा जातके राजयोग भंगादिष्व निर्णय धीमान् व्यङ्ग्येनैव कदा ॥ ६३ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषाटीकायां राजयोगजातभङ्गादि-  
निरूपणान्यायो नवमः ॥ ९ ॥

## दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥



अथारिष्टाध्यायः ।

केचिद्योगं प्रशंसन्ति दशां केचिद्रदन्ति हि ॥ तद्विना चायुषं ज्ञातुं  
न शक्यं तु मनीषिभिः ॥ १ ॥ त्रिविधाश्चायुषां योगाः स्वल्पायुर्म-  
ध्यमोत्तमाः ॥ द्वात्रिंशत्पूर्वमल्पं स्यात्तदूर्ध्वं मध्यमं भवेत् ॥ २ ॥  
आसप्ततेस्तदूर्ध्वं तु दीर्घायुरिति संमतम् ॥ उत्तमायुः शतादूर्ध्व-  
मिह शंसन्ति तद्विदः ॥ ३ ॥

आयुके लिये कोई तो योगकी प्रशंसा करतें कोई दशा कहतेहैं इनके विना आयु  
जाननेको मुनियोंका सामर्थ्य नहीं है ॥ १ ॥ इनमें पहिले योगोंका विचार कहतेहैं  
कि आयुके योग तीन प्रकारके होनेहैं अल्प मध्यम और उत्तम ३२ वर्षसे पूर्व अल्पायु  
उसके उपर ७० पर्यंत मध्यमायु इसके उपर दीर्घायु कही है सौसे उपर ज्योतिषज्ञ लोक  
उत्तमायु कहते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

आद्रादशाब्दा ज्जंतृनामायुर्ज्ञातुं न शक्यते ॥ जपहोमचिकित्साद्यै-  
र्बालरक्षां तु कारयेत् ॥ ४ ॥ पित्रोर्दोषैर्भृताः केचित्केचिद्बालग्रहै-  
रपि ॥ अपरे रिष्टयोगाच्च त्रिविधा बालमृत्यवः ॥ ५ ॥ जन्मतः  
प्रवलेनैव बालानां पुष्टिवर्द्धनम् ॥ कथयेदेव शेषं तु तत्तद्यो-  
गानुरूपतः ॥ ६ ॥

दशा आदिसे आयु १२ वर्षसे भीतर ज्ञात नहीं होसकती इस अवस्थामे जप हवन  
( चिकित्सा ) वैद्यकसे बालरक्षा करनी चाहिये ॥ ४ ॥ किमी बालककी मृत्यु माताके  
रोग असयम जन्याय पाप आदिसे होतीहै किमीकी बालग्रह पूतना छल छिद्र आदिसे  
बिसीकी बाल्यारिष्टयोगोंसे भी मृत्यु होती है ॥ ५ ॥ जन्मसे प्रबल योगोंके अनुसार बाल-  
कोंके पुष्टि घटानेके उपाय कहने ॥ ६ ॥

अल्पायुर्लग्नपे भानोः शत्रौ मध्ये तु मध्यमम् ॥ मित्रे लग्नेश्वरे तस्य  
दीर्घमायुरुदाहृतम् ॥ ७ ॥ अल्पायुर्योगजातस्य विपदायै मृति-  
म्बदेत् ॥ जातस्य मध्यमे योगे प्रत्यरौ तु मृतिवदेत् ॥ ८ ॥

दीर्घायुर्योगजातानां वधभे तु मृतिं वदेत् ॥ जातस्य मध्यमे  
योगे प्रत्येकं त्रिविधं भवेत् ॥ ९ ॥

जन्मलग्नेश सूर्यका शत्रु होवै तो अल्पायु, सम होवै तो मध्यमायु और मित्र होवै तो दीर्घायु कहीहै ॥ ७ ॥ जिसकी अल्पायु पाई गयी है उसकी मृत्यु विपत् नक्षत्रकी दशममें कहनी मध्यायु योगमें प्रत्यरिके ॥ ८ ॥ और दीर्घायु उक्त योगवालोंकी वधताराके पाकमें मृत्यु होतीहै उक्त तीन योगोंमें प्रत्येक ताराके पाककालमें मृत्यु होतीहै ॥ ९ ॥

चरस्थिरेति सूत्रेण दीर्घमध्याल्पकायुषः ॥ तयोरन्यतमं ज्ञात्वा  
चायुर्ज्ञानं प्रचक्षते ॥ १० ॥ अल्पायुरल्पमध्यं तु पूर्णायुस्त्रि-  
विधं स्मृतम् ॥ मध्यमादल्पमध्यं तु पूर्णायुस्त्रिविधं भवेत् ॥ ११ ॥  
दीर्घायुषोल्पमध्यं तु पूर्णायुस्त्रिविधं भवेत् ॥ एवं नवविधः प्रोक्त-  
श्चायुषां तु विनिर्णयः ॥ १२ ॥

सूत्रपठित जो चर स्थिर द्विस्वभाव हैं इनके अनुसार दीर्घ मध्य और अल्प आयु हाती है इनमेंसे यहाँ किसकी प्राप्ति है उसका निश्चय करके आयुका ज्ञान कहते हैं ॥ १० ॥ इन अल्प मध्य दीर्घ आयुके ३ । ३ भेद हैं, कि अल्पायु अल्प मध्य और दीर्घ भेदसे तीन प्रकारकी है, मध्यायु अल्प मध्य पूर्णसे दीर्घायु अल्पमध्य पूर्ण भेदसे ३ प्रकारकी है इस प्रकार आयुका निर्णय नौ ९ प्रकारका है प्रत्येक आयुके वर्ष जो पूर्व कहे हैं उनमें भी चर स्थित द्विस्वभाव भेदोंसे प्रत्येकके तीन तीन भाग होतेहैं ॥ ११ ॥ १२ ॥

पञ्चम्यारदशामृत्युं दद्यात्पृष्ठीगुरोर्दशा ॥ शनेश्चतुर्थीमृत्युः स्याद्द-  
शाराहोश्च सप्तमी ॥ १३ ॥ विपत्पाकदशा कष्टा प्रत्यरीशदशा  
तथा ॥ वधभेशदशा कष्टा पापास्यादशुभेक्षिता ॥ १४ ॥ नीचारा-  
तिविमूढस्य विपत्प्रत्यरिर्निधनाः ॥ दशा दद्युर्मृतिं तस्य पापैर्युक्ता  
विशेषतः ॥ १५ ॥

उक्त दशाओंमें मंगलकी दशा पंचमीमें गुरुकी पृष्ठीमें शनिकी चतुर्थीमें राहुकी सप्तमीमें मृत्यु देतीहै ॥ १३ ॥ विपत्ताराकी पाकदशा कष्ट देतीहै ऐसे ही प्रत्यरिके स्वामीकी और वध नक्षत्र स्वामिकी भी कष्ट देतीहै यदि पापदृष्ट होवै ॥ १४ ॥ नीचगत शत्रुगत अमंगत-की विपत् प्रत्यरि निधनदशा मृत्यु देतीहै पापयुक्त होनेसे विशेषफल करतीहै ॥ १५ ॥

राशिसंधिषु ये जातास्ते वाला मृतजीवनाः ॥ पापदृष्टा युता वापि  
निःसंशयमृतिः स्मृता ॥ १६ ॥ गंडांतेपूद्भ्रवो मर्त्यः पितृमातृव-  
लात्ततः ॥ यदि जीवितस्वर्गपालो गजवाजिसमन्वितः ॥ १७ ॥

राशिसंधिमें जिनबालकोंका जन्म होताहै वै मृतप्राय रहतेहैं यदि पापग्रहोंसे युक्त दृष्ट होवें तो निःसंदेह मृत्यु होतीहै ॥ १६ ॥ जो मनुष्य गंडांतमें उत्पन्न होताहै वह माता पिता के बल अर्थात् शांत्युपचारादिसे बालक बच जावै तो स्वर्गकाभी पालक अर्थात् बड़ा पराक्रमी हाथी घोड़े सहित बड़ा ऐश्वर्ययुक्त होताहै ॥ १७ ॥

तृतीयगौ भानुनिशाकरौ वा क्रूरक्षंगौ क्रूरनिरीक्षितौ वा॥व्याधिं नरस्यापि वदंति तज्ज्ञाः स्त्रीवर्षमात्रं त्वतिदुर्लभं तत् ॥ १८ ॥

चन्द्रात्स्मरे वासरनाथभौमौ कुजोदये वा मरणं दशाहात् ॥ १९ ॥

सूर्य चंद्रमा तीसरे अथवा क्रूर राशियों वा क्रूर ग्रहोंसे दृष्ट होवै तो ज्योतिषज्ञ उस मनुष्यको रोगयुक्त रहना कहतेहैं यदि कन्या होवै तो उसका जीवित रहना एक वर्षभी दुर्लभ होवै ॥ १८ ॥ यदि चन्द्रसे सप्तम सूर्य मंगल होवै अथवा चंद्रमासे सप्तम सूर्य और लग्नमें मंगल होवै तो दश दिनमें मरण होवै ॥ १९ ॥

उद्यद्रेष्काणजा मित्रे यस्य स्यादारुणो ग्रहः ॥ क्षीणचंद्रे विल-  
ग्रस्थे सद्यो हरति जीवितम् ॥ २० ॥ विलग्नादिपतिर्नीचे नि-  
धने वार्कसंयुते ॥ कृच्छ्रेण जीवितं विद्यात्मृतप्रायो भविष्यति ॥  
॥२१॥ आपोक्लिमे स्थिताः सर्वे ग्रहा वलविवर्जिताः ॥ षण्मासं द्वा-  
द्विमासं वा तस्यायुः समुदाहृतम् ॥ २२ ॥

सप्तमभावमें उद्यदायुष (मेषका मथम, मिथुनका दूसरा, सिंहका मथम, तुलाका दूसरा, कुंभका मथम,) द्रेष्काणका पापग्रह हो और चन्द्रमा लग्नमें होवै तो तत्काल बालक मरजावै ॥ २० ॥ लग्नेश नीचका होवै अथवा सूर्यके साथ अष्टममें होवै तो बड़ी कठिनतासे बचे मरेके सदृश रहे ॥ २१ ॥ आपोक्लिम ३। ६। ९। १२ भावोंमें सभी ग्रह बलहीन होवै तो ६ महीने अथवा ७ ही महीने उसकी आयु होवै ॥ २२ ॥

केतोरुदयः पूर्वे पश्चादुल्काग्निपवननिर्घाताः ॥ रौद्रे सति मौहूर्त्ते प्राणैः संत्यज्यते जंतुः ॥२३॥ ग्रहणं परिवेषकाले जातः पा-  
पान्विते विलग्रस्थे ॥ लग्नेशे बलहीने जीवति पक्षत्रयं त्रिमासं वा ॥ २४ ॥ अंशाधिपतिर्जन्मपतिर्लग्नपतिश्चास्तमुपगता य-  
स्य॥जन्मावसानमरणं तस्य भवेत्कतिपयाहेन ॥ २५ ॥ संधि-  
चतुष्टयकाले जातो मृत्युं समादिशेत्तज्ज्ञः ॥ पापयुते वा दृष्टे शीघ्रं सौम्यैरदृष्टयुते ॥ २६ ॥

निसके जन्ममें पूर्वमें केतुका उदय, पश्चिममें उल्हापात अग्नि वायुके निर्घात शब्द हो और रौद्र मुहूर्तमें जन्म होवै तो शीघ्रही बालक मरजावै ॥ २३ ॥ जिसका जन्म ग्रहण वा परिवेष ( शौडल ) के समयमें हो लग्नमें पापग्रह लग्नेश बलरहित होवै तो ३ पक्षमें वा ३ महीनेमें बालक मरे ॥ २४ ॥ लग्नेश अंशेश राशीश निसके अस्तंगत होवैं तो कुछही दिनोंमें मरजावै ॥ २५ ॥ मातः सायं अर्धरात्रि और मध्यान्ह इन चार संधियहके समयमें निसका जन्म होवै लग्न चंद्रमा पापयुक्त हों और शुभयुत दृष्ट न हों तो शीघ्र मृत्यु होवै ॥ २६ ॥

राहौ केन्द्रे पापयुक्तोक्षिते वा क्षिप्रं नाशं याति सौम्यैरदृष्टे ॥  
पापः केन्द्रे वार्किलग्रे त्रिकोणे सौम्यैः षष्टे चाष्टमेंत्ये च बालः ॥  
॥ २७ ॥ जातः क्षीणे शीतगौ लग्नसंस्थे पापैर्दृष्टे नाशमाशु  
प्रयाति ॥ उच्चक्षेत्रं मेपरशिं च हित्वा राहुर्युक्तस्तेष्वपि  
प्रापनाशः ॥ २८ ॥

राहु केन्द्रमें पापयुक्त वा दृष्ट होवै शुभग्रह उसे न देखें तो शीघ्र बालक मरजावै अथवा पापग्रह केन्द्रमें शनि लग्न वा त्रिकोणमें और मंगलग्रह ६ । ८ । १२ भावोंमें होवै तो शीघ्र मरे ॥ २७ ॥ क्षीण चंद्रमा लग्नमें पापदृष्ट होवै तो शीघ्र बालकका नाश होवै इन्ही स्थानोंमें चंद्रमा मेष वृष कर्कसे अन्य राशियोंका राहुयुक्त होवै तौभी वही फल करता है ॥ २८ ॥

लग्नात्स्वांत्यौ पापयुक्तौ यदि स्तः सप्तस्वांत्यौ वा विनश्ये-  
त्क्षणेन ॥ लग्नाद्बालश्चाष्टमे पापचारैः सोमे क्षीणे त्वष्टमाब्दं च  
जीवेत् ॥ २९ ॥ केन्द्रे चन्द्रात्पापयुक्तैरसौम्यैः स्वर्गं याति  
प्रोच्यते वत्सेरण ॥ जन्माधीशे लग्नगे क्रूरयुक्ते पश्यत्यार्केश्वा-  
ष्टमे जीववर्जे ॥ ३० ॥

लग्नेसे २ । १२ स्थान पापयुक्त होवै अथवा सप्तमसे २ । १२ अर्थात् ६ । ८ भावोंमें पापग्रह होवैं तो बालक तत्काल मरे लग्नेसे ५।८ में पापग्रहयुक्त क्षीण चंद्रमा होवै तो बालक ८ वर्ष जीवै ॥ २९ ॥ चंद्रमासे केन्द्रमें पापग्रह हों शुभग्रह न हों तो एकवर्षमें स्वर्ग चला जावै, लग्नेश लग्नमें क्रूरयुक्त शनिसे दृष्ट होवै तो ८ वर्ष जीवै, परन्तु तहां बृहस्पति होवै तो यह फल नहीं होता ॥ ३० ॥

षष्टे वर्षे द्वादशे वाष्टमे वा संधौ राशेर्जातको मृत्युमेति ॥  
षष्टे रंभ्रे शीतरश्मिश्च यस्य क्षीणे रिष्के पापयुक्तेऽथ वापि ॥

सौम्यैर्दृष्टे त्वष्टमाब्दं च जीवेत्पापैः सौम्यैर्मिश्रितैस्तद्दलाख्यम्  
 ॥ ३१ ॥ जीवे विलग्रे मिथुने तुलायां शुक्रेण युक्ते शशिसूनुनापि  
 ॥ ३२ ॥ पापैर्दृष्टे मृत्युराशिस्थितैर्वा जीवेद्दर्पं चाष्टमं चैव  
 बालः ॥ ३३ ॥

( राशिसंधि ) गडांतमें जन्महो और ६ । ८ । १२ भावमें पापयुक्त चंद्रमा होवे तो बालक मरजावे यदि उसे शुभग्रह देखे तो ८ वर्ष बचे यदि पाप शुभ दोनों देखें तो ८ का आधा ४ वर्ष जीवे ॥ ३१ ॥ मिथुन तुलाका वृहस्पति लग्नमें शुक्र वा बुधसेभी युक्त होवे ॥ ३२ ॥ और उसे पापग्रह देखे अथवा अष्टमभावमें होवे तो बालक आठवर्ष जीवे ॥ ३३ ॥

लग्ने क्षीणे शशिनि निधनं रन्ध्रकेन्द्रेषु पापैः पापांतःस्थैर्निधन-  
 हिवुकद्यूनसंस्थे च चन्द्रे ॥ एवं लग्ने भवति मदनच्छिद्रसंस्थैश्च  
 पापैर्मात्रा सार्द्धं यदि न च शुभैर्वीक्षितः शक्तिमद्भिः ॥ ३४ ॥  
 राहुग्रस्ते शीतरश्मौ विलग्रे क्रूरैर्युक्ते चाष्टमे भूमिपुत्रे ॥ मात्रा-  
 सार्द्धं चन्द्रवद्भास्करेपि शस्त्रैः पातेनाशु मृत्युं प्रयाति ॥ ३५ ॥

लग्नमें क्षीण चंद्रमा अष्टमभाव तथा केंद्रोंमें पापग्रह होवे तो बालक मरे ८ । ४ । ७ भावोंमें चंद्रमा पापग्रहोके बीचमें होवे तौभी वहीफल होगा, ऐसे लग्नमें पापांतस्थ चंद्रमा ७ । ८ भावोंमें पापग्रह होवें तो मातासहित बालक मरे, परन्तु इनको यदि बलवान् शुभग्रह न देखें तब यह फल होगा ॥ ३४ ॥ ग्रहणसमयका चंद्रमा लग्नमें पापयुक्त अष्टममें मंगल होवे तो मातासहित बालक मरे, ऐसेही चंद्रमाके तरह सूर्य होवे तो शस्त्रसे वा गिरनेसे शीघ्र मरे ॥ ३५ ॥

अस्तंगते दिनपतौ रविजे विलग्रे भौमेऽथ वा निधनगे व्रजति  
 तृतीयात् ॥ एवं स्थितेऽपि हिमगावशुभैरदृष्टे राहुग्रहे च निधनं  
 भवतीह चाष्टौ ॥ ३६ ॥ वृहस्पतिभौमग्रहेऽष्टमस्थः- सूर्येन्दुभौ-  
 मार्कजदृष्टमूर्तिः ॥ अवैद्विभिर्भागवद्विहीनो लोकान्तरं प्राप-  
 यति प्रसूतम् ॥ ३७ ॥

सप्तम सूर्य लग्नमें शनि अथवा अष्टममें मंगल होवे तो तीसरे वर्ष बालक मरे ऐसे योगमें चंद्रमापर पापग्रह दृष्टि न हो राहुपरभी पापदृष्टि न होवे तो आठ वर्षमें मृत्यु होतीहै ॥ ३६ ॥ वृहस्पति भौमराशि १ । ८ का अष्टम भावमें हो उसे सूर्य चंद्रमा मंगल शनि देखें शुक्रकी दृष्टि उसपर न होवे तो बालकको तीन वर्षमें लोकान्तर भेजताहै ॥ ३७ ॥



वक्री शनिभौमगृहं प्रपन्नश्छिद्रे च पष्ठे च चतुष्टये वा ॥ कुजेन  
संप्राप्तवलेन दृष्टो वर्षद्वयं जीवयति प्रजातम् ॥ ३८ ॥ सौरे  
स्मरस्थे यदि वा विलग्ने जन्मस्थलग्ने शशानि त्वलौ वा ॥  
सौम्येषु केन्द्रोपगतेषु सद्यो जातस्य मृत्युर्यवनोपदिष्टः ॥ ३९ ॥  
नीचस्थे देवपूज्ये तु भौमक्षेत्रगतेऽथ वा ॥ संधित्रयेपि जातस्तु  
मासान्मृत्युं प्रगच्छति ॥ ४० ॥

वक्रगतिवाला शनि मंगलकी राशिका छटे आठवें वा केन्द्रस्थानमें होवै उसे बलवान्  
मंगल देखे तो बालकको दो वर्ष जीवित रखताहै ॥ ३८ ॥ शनि सप्तममें वा लग्नमें हो तथा  
जन्मलग्नमें अथवा वृश्चिकमें चन्द्रमा होवै और शुभ केन्द्रोंमें होवै तो बालक तत्कालही  
मरे यह योग यवनाचार्यका कहाहै ॥ ३९ ॥ नीचका बृहस्पति हो अथवा मंगलके घर  
१ । ८ का हो तीन प्रकारकी राशि संधियोंमें किसीमें जन्म होवै तो एक महीनेमें मृत्यु  
होता है ॥ ४० ॥

क्षेत्रस्य सन्धौ तिथिराशिसंधौ एकत्रता तत्प्रसवस्त्रिधा स्यात् ॥  
जातस्तु मृत्युं समुपैति सद्यः शुक्रेहि जीवेदिति नन्दिकोक्तम् ॥  
॥ ४१ ॥ पष्ठ्यां जातश्चार्कलग्ने कुजे वा गण्डान्ते वा मृत्युयोगेथ  
वापि ॥ भौमो हन्ति प्राणिनं तत्क्षणेन जीवेक्षितश्चेन्न भवेत्प्रजातः  
॥ ४२ ॥ भौमोदये तदिवसे कृशेन्दौ होरास्वामी लग्नकेन्द्राद्-  
दिष्टः ॥ जातो योसौ क्षिप्रमेवैति मृत्युं भौमः सौरोप्येवमेवं  
विधत्ते ॥ ४३ ॥

भावसंधि तिथिसंधि राशिसंधिमेंसे एक वा दो तीनके एक साथही आय पडनेमें प्रसव  
होवै तो बालककी मृत्यु होवै यदि उस दिन शुक्रवार होवै मृत्यु नहीं होगी यह नंदीश्वरका  
मत है ॥ ४१ ॥ पष्ठीमें जन्महो लग्नमें सूर्य वा मंगल होवै और तीन प्रकारमें से कोई  
गंडांत होवै अथवा मृत्युयोग होवै उस दिन मंगलवार होवै तो उसी क्षणमें मृत्यु होती है  
यदि बृहस्पतिकी दृष्टि होवै तो बालककी मृत्यु नहीं होगी ॥ ४२ ॥ मंगलवार हो मंगलही  
लग्नमें हो चंद्रमा क्षीण हो लग्नेश लग्न वा केन्द्रसे बाहर होवै तो जो जन्मा है उसको मंगल  
क्षिप्रही मृत्यु देताहै ऐसाही शनिभी करताहै ॥ ४३ ॥

सुतमदननवांत्यलग्नरंघ्रेष्वशुभयुतो मरणाय शीतरश्मिः ॥ भृगुसु-  
तशशिपुत्रदेवपूज्यैर्यदि वलिभिर्न विलोकितो युतो वा ॥ ४४ ॥

पंचम सप्तम नवम द्वादश लग्न अष्टमभावमें चंद्रमा पापयुक्त होवै तो मृत्यु देता है यदि शुक्र बुध बृहस्पतिसे दृष्ट वा युक्त न हो इनसे युक्त दृष्ट होनेमें आरिष्ट नहीं होता ॥ ४४ ॥

होरास्ताष्टमगेष्वसत्सु हिमगौ क्षीणे तु जातः शिशुः स्वर्गं गच्छति  
सौम्यकेन्द्ररहितो जीवो न चेद्वीक्षते ॥ लग्नांत्याष्टमधर्मभेषु  
सहिताश्चंद्रार्कभौमार्कजाः क्षिप्रं गच्छति चांतकं सुरपतेर्मंत्री न  
चेद्वीक्षते ॥ ४५ ॥

पापयुक्त चन्द्रमा १ । ७ । ८ भावोंमें हो और क्षीण भी होवै तो ऐसेमे उत्पन्न हुआ बालक स्वर्ग जाता है यदि केन्द्रोंमें शुभग्रह न हों, तथा चंद्रमाको बृहस्पति न देखे और १ । १२ । ८ । ९ भावोंमें चंद्रमा सूर्य मंगल शनि होंवें इनको गुरु न देखे तो शीघ्र बालक मरता है ॥ ४५ ॥

लग्ने चन्द्रे भास्करे वा वलिष्टे पापैः केन्द्रे नैधने च त्रिकोणे ॥  
शुक्रः सूर्यः शीतगुश्चैकसंस्था नाशं गच्छेद्योगमवैति जातः ॥ ४६ ॥  
मेपे विंशतिभागे स्यान्मृत्युं दद्यान्निशाकरः ॥ एकविंशतिभागस्तु  
सिंहे तत्त्वैस्तु गोवृषे ॥ ४७ ॥

लग्न चंद्रमा अथवा सूर्य बलवान् होवै पापग्रह केन्द्रमें हों अष्टम वा त्रिकोणमें शुक्र सूर्य चंद्रमा एकसाथ हों तो इस योगमें बालकका नाश होवै ॥ ४६ ॥ मेपके २० वीसवें अंश सिंहके २१ में वृषके २५ अंशमें चन्द्रमा बालको मृत्यु देताहै ॥ ४७ ॥

वृश्चिके च तथा चन्द्रस्त्रयोविंशतिभागकः ॥ द्वाविंशतिकुलीरे तु  
तुलायां वेदभागकः ॥ ४८ ॥ विंशतिर्मकरे चंद्रः कन्यायां प्रथ-  
मांशकः ॥ धनुरष्टादशो भागो मीने दशमभागयुक् ॥ ४९ ॥  
द्वाविंशतिर्नृयुग्मे तु चन्द्रोप्येवं मृतिप्रदः ॥ कुंभे पंचेदुभागे च मृत्युं  
दद्यात्तथैव च ॥ ५० ॥ ये ये निशाकरांशास्तु मृत्युभागव्यव-  
स्थिताः ॥ तावद्भिर्वत्सरैर्जातो मृत्युमेति न संशयः ॥ ५१ ॥  
लग्नजन्मपयोर्यस्तु शत्रुर्लग्नगतः शुभः ॥ करोति मृत्युं जातस्य  
स्वस्य धातोः प्रभावतः ॥ ५२ ॥

तैसेही वृश्चिकके २३ वें अंशमें कर्कके २२ में तुलाके ४ में ॥ ४८ ॥ मकरके २० में कन्याके १ में धनके १८ में मीनके १० में ॥ ४९ ॥ मिथुनके २२ में चंद्रमा मृत्यु देने-

वाला होताहै तथा कुम्भके १५ वें भी मृत्यु करताहै ॥ ५० ॥ जो जो चंद्रमूके अंश मृत्यु-  
भागमें हैं उतने वर्षोंमें मनुष्य निस्संदेह मरण पाता है ॥ ५१ ॥ लग्नेश वा चंद्रराशिका  
शत्रुग्रह लग्नेमें शुभग्रहभी होवै तोभी अपने पूर्वोक्त धातुशेषसे बालककी मृत्युकरताहै ॥ ५२ ॥

रन्ध्रे धरासूनुदिनेशसौरा जातस्तु मृत्युं समुपैति मासात् ॥ केतुश्च  
यस्मिन्नुदितेत्र जातो मासद्वयेनैव यमं प्रयाति ॥ ५३ ॥ भूपाल-  
योगा यवनैः प्रदिष्टा राज्ञः कुले जातनरे धरेशाः ॥ तेतिप्रयोगास्तु  
तदन्यजाताः सद्यो यमं यांति नरास्तथैवम् ॥ ५४ ॥ भानुर्नभ-  
स्थो यदि पापदृष्टो धरासुतर्क्षे शशिनश्च गेहे ॥ जातस्तु मृत्युं  
समुपैति शीघ्रं शुभैर्न दृष्टो वियुतोपि चैवम् ॥ ५५ ॥

अष्टम स्थानमें मंगल सूर्य शनि होवें तो एक महीनेमें बालक मरे जिस लग्नेमें केतुका  
उदय है उसमें जन्म होवै तो दो महीनेमें मरे ॥ ५३ ॥ जो राजयोग यवनाचार्यने कहेहैं  
उनमें रातकुलका बालक तो राजा होता है ऐसेयोगमें अन्यका बालक जन्में तो अतिप्रयोग  
( असंभव ) होनेस वह बालक तत्काल यमको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ यदि पापदृष्ट सूर्य  
दशम भावमें मंगल वा चंद्रमाकी राशिका होवै शुभग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट न होवै तो शीघ्र  
बालक मरे ॥ ५५ ॥

लग्ने ये द्रेष्काणा निरर्गला हि विहंगपाशधरसंज्ञाः ॥ मरणाय सप्त  
वर्षैः क्रूरयुताश्चापि संदृष्टाः ॥ ५६ ॥ रविचंद्रभौमगुरुभिः क्रुजगु-  
रुसौरैन्दुभिस्तथैकस्थैः ॥ रविशनिभौमशशाकैर्मरणं खलु पञ्च-  
भिर्वर्षैः ॥ ५७ ॥ रविणा युक्तः शशिजः सौम्यैर्दृष्टो विनाशयति  
नूनम् ॥ एकादशभिर्वर्षैर्देवांकेपि स्थितं जातम् ॥ ५८ ॥

जो लग्नेमें पक्षि सर्प पाशधर द्रेष्काण क्रूरग्रहोंसे युक्त दृष्ट होवै तो सात वर्षमें  
मृत्यु देते है ॥ ५६ ॥ सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु अथवा मंगल गुरु सूर्य चंद्रमा यद्वा  
सूर्य शनि मंगल चंद्रमा एकस्थानमें होवें तो निश्चय पांचवर्षमें मृत्यु देतेहैं ॥ ५७ ॥  
सूर्यसे युक्त बुध शुभग्रहोंसे दृष्ट होवै तो बालक देवताके गोदमेंभी बैठा हो तोभी ग्यारहवें  
वर्षमें मारही देताहै यह योग अन्यग्रंथोंमें नहीं देखा गयाहै ॥ ५८ ॥

लग्ने रविशनिभौमैः शुक्रग्रहे वा शशी क्षीणः ॥ दृष्टो न देवगु-  
रुणा सप्तभिरुद्वैर्विनाशयति ॥ ५९ ॥ केन्द्रे रविसुपिततनुः  
क्षितिजो मन्दावलोकितोथ युतः ॥ वर्षचतुष्केणाशु मारयति

किमत्र गणितेन ॥ ६० ॥ लग्नाधिपतेश्चन्द्रो मरणपदस्थोपि  
कृष्णतां याति॥ऋरैः सकलैर्दृष्टो न शुभैर्वर्षैस्त्रिभिस्तु मारयति ६१ ॥

लग्नमें सूर्य, शनि, मंगल हों क्षीण चंद्रमा शुक्रकी राशिका होवै उसे गुरु न देखे तो ७ वर्षमें मारता है ॥ ५९ ॥ केन्द्रमें अस्तंगत मंगल शनिसे दृष्ट वा युक्त होवै तो चार वर्षमें मारता है इसमें गणितायुकाभी प्रयोजन नहीं है ॥ ६० ॥ लग्नेशसे चंद्रमा अष्टम होवै कृष्णपक्षका जन्म हो सभी पापग्रह उस चंद्रमाको देखें शुभग्रह न देखें तो ३ वर्षमें मारता है ॥ ६१ ॥

पापो विलग्नधिपतिः शशांकादंत्यस्थितः ऋरनिरीक्षितश्चेत् ॥  
चन्द्रांशकस्थो यदि वा तदीशो जातः शिशुः प्रेतपुरीं नवाब्दैः ॥  
॥ ६२ ॥ दृश्ये भागे संयुताः सौम्यखेटाः पापाः सर्वे यस्य  
जन्मन्यदृश्ये ॥ राहौ लग्ने पापयुक्तेषु दृष्टे जातो मृत्युं याति पंचा-  
ब्दसंख्यैः ॥ ६३ ॥

लग्नेश पापग्रह चन्द्रमासे चारहवें भावमें पापदृष्ट होवै अथवा ऐसे योगमें चंद्रराशि शशांकादंत्यस्थित होवै तो बालक ९ वर्षमें यमपुरी पहुंचे ॥ ६२ ॥ जिसके जन्ममें शुभग्रह दृश्यार्थ ४ से १० पर्यंत और पापग्रह अदृश्य भागमें हों राहु लग्ने पापयुक्त वा दृष्ट होवै तो बालक पांचवें मरजावै ॥ ६३ ॥

राहुः सप्तमभवने शशिसूर्यनिरीक्षितो न शुभदृष्टः ॥ दशभिर्द्राभ्यां  
सहितैरब्दैर्जातं विनाशयति नूनम् ॥ ६४ ॥ घटालिसिंहे फणि-  
नाथयुक्ते तस्मिन्विलग्नैः सति पापदृष्टे ॥ जातो यमं सप्तदशे  
प्रयाति वर्षेन्द्रपूज्येन युतो न दृष्टः ॥ ६५ ॥

सप्तम भावमें राहु सूर्य चन्द्रमासे दृष्ट हो शुभग्रह उसे न देखें तो बालकको १२ वर्षमें नाश करे यह निश्चय है ॥ ६४ ॥ राहु ११।८।५ राशिका लग्नेमें हो उसे पापग्रह देखें और उसको बृहस्पति न देखे न उसके साथ होवै तो बालक १७ वें वर्षमें मरे ॥ ६५ ॥

क्षीणेन्दुः पापसंदृष्टो राहुदृष्टो विशेषतः ॥ जातो यमपुरं याति  
दिनैः कतिपयैः किल ॥ ६६ ॥ जन्मेशलग्नाधिपती विलग्न-  
त्पष्ठाष्टमांत्येषु दिनेशयुक्तौ ॥ जातो यमं द्वादशभिश्च वर्षैः  
प्रयाति सौम्येन युतौ न दृष्टौ ॥ ६७ ॥ होराधिपतिर्द्यूने पाप-  
जितो मरणमेव विदधाति ॥ राशिं त्रिगुणीकृत्वा वर्षे मासे न  
संदेहः ॥ ६८ ॥

क्षीण चन्द्रमा पापदृष्ट हो विशेषतः राहुदृष्ट होवै तो निश्चय कुछेक दिनोंमें बालक मर ॥ ६६ ॥ जन्मलग्नेश तथा चन्द्रराशीश लग्नेसे ६।८।१२ भावोंमें सूर्यसे युक्त होवै शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट न हों तो १२ वर्षमें यमपुर जावै ॥ ६७ ॥ लग्नेश सप्तम स्थानमें ( पाप-जित ) पापग्रहसे युद्धमें पराजित होवै तो जिस राशिमें है उसको त्रिगुण करके जो अंक हो उतनवें महीने वा वर्षमें निःसंदेह मरण करताहै ॥ ६८ ॥

तरणीन्दुकुजाः पुत्रस्थाने युक्ता न सौम्यगाः ॥ जातो यमपुरं  
याति नवमेव्दे न संशयः ॥ ६९ ॥ लग्नेश्वरे विलग्नस्थे पापैः  
सर्वैरदृश्यगैः ॥ चतुर्थे मासि मरणं याति बालो न संशयः ॥ ७० ॥  
चन्द्रलग्नाधिपः सूर्यः स्वपुत्रेण समन्वितः ॥ लग्नादष्टमरा-  
शिस्थो द्वादशाब्दे मृतिप्रदः ॥ ७१ ॥ पष्ठाष्टमे पापयुते सौम्ये  
दृष्टिविवर्जिते ॥ आपोक्लिमे विलग्नशे षोडशे निधनं व्रजेत् ॥ ७२ ॥

सूर्य चंद्रमा मंगल पंचमभावमें शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट न होवै तो नवमवर्षमें निस्संदेह यमालय जाता है ॥ ६९ ॥ लग्नेश लग्नेमें और सभी पापग्रह ( अदृश्यार्द्ध ) ११ से ३ भावपर्यंत होवै तो निस्संदेह बालक चौथे महीने मरजावै ॥ ७० ॥ चंद्रराशीश सूर्य शनिसे युक्त अष्टम भावमें होवै तो १२ वें वर्ष मृत्यु करताहै ॥ ७१ ॥ वही सूर्य पाप-युक्त ६।८ भावमें शुभग्रह दृष्टिरहित हो तथा लग्नेश आपोक्लिमें ३।६।९।१२ में से किसीमें होवै तो १६ वर्षमें मृत्यु होवै ॥ ७२ ॥

परस्परक्षेत्रसमास्थितौ वा लग्नेशरन्ध्राधिपती न सौम्ये ॥ रिष्फा-  
रिभे वागधिपेन युक्ते त्वष्टादशाब्दे निधनं प्रयाति ॥ ७३ ॥ केन्द्रेषु  
पापेषु निशाकरेण सौम्यग्रहैर्वीक्षणवर्जितेषु ॥ पष्ठाष्टमे वा यदि  
वा शशांके जीवेच्छिन्नुर्विशातिवर्षमात्रम् ॥ ७४ ॥

लग्नेश अष्टमेश अन्योन्य राशियोंमें शुभग्रह योग रहित होवै अथवा ६।१२ भावमें पंच-  
मेशसे युक्त होवै तो १८ वर्षमें मृत्यु होवै ॥ ७३ ॥ केन्द्रोंमें पापग्रह चंद्रमा शुभग्रहोंकी  
दृष्टिसे वर्जित होवै अथवा केन्द्रोंमें पापग्रह हुयेमें चंद्रमा ६।८ भावमें होवै तो बालक बीस  
२० ही वर्ष जावै ॥ ७४ ॥

जीवेन सहितः सूर्यो लग्नस्थः कीटराशिगः ॥ अष्टमाधिपतौ  
केन्द्रे द्वाविंशे मरणं ध्रुवम् ॥ ७५ ॥ राहुणा सहित चन्द्रे जामित्रे  
चाष्टमेपि वा ॥ देवेज्ये लग्नगेहेस्मिन् द्वाविंशे मरणं भवेत् ॥ ७६ ॥

पापद्वयांतरस्थे तु होरानाथे न सौम्यगे ॥ पितृजन्मनि जातस्तु  
पंचविंशे यमं व्रजेत् ॥७७॥ मंदोदये शत्रुराशौ सौम्यैरापोक्लिमो-  
पगैः ॥ षड्विंशे सप्तविंशे वा मरणं भवति ध्रुवम् ॥ ७८ ॥

बृहस्पतिसहित सूर्य कीट ४ राशिका लग्नमें होवै अष्टमेश केन्द्रमें होवै तो २२ वें वर्ष  
मृत्यु होवै ॥ ७५ ॥ राहुसहित चन्द्रमा सप्तम वा अष्टमभावमें होवै बृहस्पति लग्नमें होवै  
तो २२ वर्षमें मृत्यु होवै ॥ ७६ ॥ लग्नेश दो पापग्रहोंके बीचमें शुभग्रहरहित होवै और  
पिताके जन्मलग्नमें जन्म होवै तो २५ वर्षमें मरे ॥ ७७ ॥ लग्नमें शनि शत्रुराशिका होवै  
शुभग्रह आपोक्लिम ३।६।९। १२ में हों तो २६ वा २७ वर्षमें निश्चय मरे ॥ ७८ ॥

चन्द्रो मन्दसहायस्तु सूर्यश्चाष्टमसंयुतः ॥ एकोनत्रिंशके वर्षे  
जातो यमपुरं व्रजेत् ॥ ७९ ॥ पापा जन्माष्टमार्गस्थाः सौम्याः  
केन्द्रबहिस्थिताः ॥ अस्मिन् योगे समुत्पन्ने त्वष्टाविंशे मृति-  
र्भवेत् ॥ ८० ॥ जन्मरन्ध्रपयोर्मध्ये निशानाथे व्यये गुरौ ॥  
सप्तविंशतिवर्षे वा त्रिंशद्वर्षेपि वा मृतिः ॥ ८१ ॥ रन्ध्रेशे जीव-  
संदष्टे पापे पापनिरीक्षिते ॥ रन्ध्रस्थे जन्मपे वापि अष्टाविंशे मृति-  
र्भवेत् ॥ ८२ ॥ अष्टमाधिपतौ केन्द्रे लग्ने तु बलवत्तरे ॥ त्रिंश-  
द्वर्षाण्यसौ जीवेद्वात्रिंशद्वाथ जातकः ॥ ८३ ॥ लग्नादष्टमराश्यंशे  
भानुपुत्रसमन्विते ॥ पापे बलाधिके लग्ने केन्द्राद्वाह्ये शुभे  
तथा ॥ ८४ ॥ अन्योन्यसंगतौ क्रूरौ लग्नस्थौ पापवीक्षितौ ॥ द्वा-  
दशे शीतरश्मौ च परमायुस्तथैव हि ॥ ८५ ॥

चंद्रमा शनिसे संबंधी होकर अष्टमभावमें होवै सूर्यभी अष्टमभावमें होवै तो २९ वें  
वर्ष यमपुरमें जावै ॥ ७९ ॥ पापग्रह १।८।७ भावमें होवें शुभग्रह केन्द्रमें  
बाहर होवें इस योगमें जो उत्पन्न हो उसकी मृत्यु २८ वर्षमें होवै ॥ ८० ॥ चन्द्रमा लग्न  
तथा अष्टमेशके बीचमें हो बृहस्पति बारहवां होवै तो २७ वा ३० वर्षमें मृत्यु होवै ॥ ८१ ॥  
अष्टमेशपर बृहस्पतिकी दृष्टि होवै अष्टमेशभी पापग्रह हो पापग्रह उसे देखे अथवा लग्नेश  
अष्टममें होवै तो २८ वर्षमें मृत्यु होवै ॥ ८२ ॥ अष्टमेश केन्द्रमें अथवा लग्नमें बलवान्  
होवै तो वह ३० वर्ष अथवा ३२ वर्ष जीवै ॥ ८३ ॥ लग्नसे अष्टम राशि वा उसके अंशक-  
में शनि होवै बलाधिक पापग्रह लग्नमें होवै तथा केन्द्रसे बाहर शुभग्रह होवै तोभी वही फल  
होगा ॥ ८४ ॥ अन्योन्य राशिगत पापग्रह पापदृष्ट होकर लग्नमें हों चंद्रमा चारहवां होवै  
तो भी उतनीही आयु होगी ॥ ८५ ॥

जन्माष्टमेशौ यदि केन्द्रयुक्तौ रन्ध्रे तु यः कश्चन खेचरेन्द्रः ॥  
 द्वाविंशके तन्मरणं शुभैस्तु केन्द्रेषु हीनेष्वहितैर्ग्रहेन्द्रैः ॥ ८६ ॥  
 क्षीणे शशांके दिवसेशयुक्ते रन्ध्राधिपे केन्द्रगतेऽष्टमेपि ॥ पा-  
 पान्विते लग्नगते विहीने द्वात्रिंशदब्दे निधनं प्रयाति ॥ ८७ ॥  
 लग्नरन्ध्रपयोर्योगे स्फुटं तत्कृत्यसंयुतः ॥ शुभैरयुक्तः पापश्चे-  
 न्मृत्युः स्यात्सप्तविंशतौ ॥ ८८ ॥

यदि लग्नेश अष्टमेश केन्द्रमें होंवे तथा अष्टमभावमें कोई ग्रह होवे और केन्द्रमें शुभग्रह  
 न हों पापग्रह होंवे तो २२ वर्षमें उसकी मृत्यु होवे ॥ ८६ ॥ क्षीण चन्द्रमा सूर्ययुक्त होवे  
 अष्टमेश केन्द्रमें पापग्रह अष्टमभावमें हो हीनवली ग्रह पापयुक्त लग्नमें होवे तो ३२ वर्षमें मृत्यु  
 को प्राप्तहोवे ॥ ८७ ॥ लग्नेश अष्टमेश एकसाथ पापग्रह हों शुभग्रहोंसे युक्त न होंवे तो २७  
 वर्षमें मृत्यु होवे ॥ ८८ ॥

लग्नाद्विलोमे ससुतश्च चन्द्रो रन्ध्रेश्वरे केन्द्रगते ससौम्यैः ॥ दृष्टे युते  
 वा परमायुरत्र त्रिंशत्परं नास्ति वलैर्विहीनः ॥ ८९ ॥ रन्ध्रेश्वरे  
 भाग्यधनात्मयुक्ते लग्नाधिपे रन्ध्रयुते त्वसौम्यैः ॥ जातश्चतुर्विंश-  
 तिवर्षमात्रं जीवत्यसौ शोभनदृष्टियुक्ते ॥ ९० ॥

लग्ने वारहों भावमें बुधसहित चन्द्रमा होवे अष्टमेश किसी केन्द्रमें निर्धूल शुभग्रहोंसे दृष्ट  
 वा युक्त होवे तो उसकी परमायु ३० वर्षसे अधिक न होवे ॥ ८९ ॥ अष्टमेश ९ । २ । १  
 भावोंमेंसे किसीमें हो लग्नेश अष्टमस्थानमें पापयुक्त वा दृष्ट होवे उसपर शुभदृष्टिभी हो तीभी  
 २४ वर्षमात्र जीवे ॥ ९० ॥

अष्टमाधिपतौ लग्ने लग्नेशे बलवर्जिते ॥ त्रिंशद्वर्षाण्यसौ जीवेत्रिं-  
 शन्नातीव वर्तते ॥ ९१ ॥ आपोक्लिमगते चंद्रे लग्नेशे च तथैव हि  
 ॥ पापेक्षिते वलैर्हीने जीवत्यायुस्तथैव च ॥ ९२ ॥ गुरुशुक्रौ च  
 केन्द्रस्थौ लग्नेशे पापसंयुते ॥ आपोक्लिमस्थे संध्यायामायुः पट्ट-  
 त्रिंशदेव हि ॥ ९३ ॥

अष्टमेश लग्नमें लग्नेश बलरहित होवे तो ३० वर्षवत्के उपरान्त आयु न पावे ॥ ९१ ॥ चंद्रमा  
 आपोक्लिम ३ । ६ । ९ । १२ भावमें से किसीमें हो ऐसाही चन्द्रमाभी आपोक्लिमसे पाप-  
 दृष्ट तथा बलहीन होवे तीभी उतनीही आयु होगी ॥ ९२ ॥ गुरु शुक्र केन्द्रमें हो लग्नेश  
 पापयुक्त आपोक्लिम हो और संध्याकालका जन्म होवे तो ३६ की परमायु होव ॥ ९३ ॥

लग्नस्थिते वासरनायके तु पापान्तरे शत्रुगते विहीने ॥ पट्टत्रिं-  
शदंतं परमायुरस्य शुभैर्न दृष्टे सति सत्यमेतत् ॥ ९४ ॥ भूसूनु-  
चन्द्रौ तनुगौ शुभास्तु केन्द्राप्टमस्था न भवेयुरत्र ॥ जातो यदा  
मान्द्युदये शिशुः स्यात्पट्टत्रिंशकेन्द्रे निधनं प्रयाति ॥ ९५ ॥ हो-  
राशास्त्राभ्यासबलात्संगृह्य विदुषां मुदे ॥ परं त्यक्त्वा त्वसारं तु  
कृतं व्यङ्कटशर्मणा ॥ ९६ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणावरिष्टयोगनिरूपणं  
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

सूर्यलग्ने पापग्रहोंके बीच शत्रुराशिमें एवं निर्बल होवै और शुभग्रह उसे न देखे तो ३६  
वर्ष उसकी परमायु होगी ॥ ९४ ॥ मंगल चन्द्रमा लग्नमें हो शुभग्रह केन्द्र तथा अष्टम  
स्थानमें न होवै और केतु लग्नमें होवै तो बालक ३६ छत्तीस वें वर्षमें मरे ॥ ९५ ॥ यह  
बाल्यारिष्टाध्याय होराशास्त्रके अभ्यासबलसे व्यंकटेश्वरने असारको दूर छोडके सारसंग्रह  
कियाहै ॥ ९६ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषाटीकायामरिष्टाध्यायो दशमः ॥ १० ॥

एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

अथारिष्टभङ्गाध्यायः ।

लग्नस्थितो देवगुरुर्विशेषात्वेटात्रिहन्त्याद्विबलांस्तथैव ॥ एकोपि  
बालेन्दुधरप्रणामः समस्तपापं शमयेत्तथैव ॥१॥ अत्यंतसत्त्वे  
यदि लग्ननाथे सौम्यान्विते तादृशदृष्टिमागैः॥केन्द्रस्थिते पापदृशा  
विहीने स भाग्यवान् जीवति दीर्घमायुः ॥ २ ॥

बाल्यारिष्टहारक ग्रहोंमें विशेषतः लग्नका वृद्धसति अरिष्टकर्ता निर्बल ग्रहोंके फलोंको  
नाश करदेताहै जैसे एक शिवजीको प्रणाम करना समस्तपापोंको नाश करदेताहै ॥ १ ॥  
लग्नेश अतिबलवान् होवै शुभग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त होकर केन्द्रमें बैठा होवै पापदृष्टिरहित होवै  
तो वह बालक भाग्यवान् एवं दीर्घायु होताहै ॥ २ ॥

शशांको रन्ध्रनाथस्तु सौम्यद्रेष्काणसंयुतः ॥ जातं शिशुं प्रयत्नेन  
रक्षयेद्वात्रिवासरम् ॥३॥ चन्द्रः संपूर्णगात्रस्तु सौम्यक्षेत्रांशगोपि



वा॥सर्वारिष्टनिहन्ता स्याद्विशेषाच्छुक्रवीक्षितः ॥४॥ जीवभार्ग-  
वसौम्यानामेकः केन्द्रगतो बली ॥ पापदृग्योगहीनश्चेत्सद्योरिष्ट-  
स्य भंगकृत् ॥ ५ ॥ चन्द्रोपि शत्रुराशिस्थो जीवशुक्रविदां  
यथा ॥ द्रेष्काणं शमयत्येवारिष्टं पापं हरिर्यथा ॥ ६ ॥

अष्टमेश चन्द्रमा शुभग्रहके द्रेष्काणमें होवै तो दिनरात यत्नसे बालककी रक्षा करनी  
प्रायत् दिनरात यह बालक केशी रहकर बच जातहै ॥ ३ ॥ पूर्णचन्द्रमा शुभग्रहके राशिमें अथवा  
अंशके होवै तो समस्त बाल्यारिष्टोंका नाश करताहै विशेषतः शुक्रसे दृष्ट यह फल करताहै  
। ४ ॥ बृहस्पति शुक्र बुधमेंसे एकभी केन्द्रमें बलवान् होवै पापग्रहसे युक्त दृष्ट न होवै तो  
त्काळ अरिष्टभंग करताहै ॥ ५ ॥ चन्द्रमा शत्रुराशिमें भी होवै परंतु बृहस्पति शुक्र बुध  
द्रेष्काणमें होवै तो अरिष्टको शमित करदेताहै जैसे श्रीहरि पापको क्षमन करतेहैं ॥ ६ ॥

शुक्लेऽपि पक्षे यदि रात्रिजन्म चन्द्रोपि पष्ठाष्टमराशियुक्तः ॥ शुभे-  
क्षितः सन्निह कृष्णपक्षे दृश्यः स पापैरवति प्रसूतम् ॥ ७ ॥ निशाकरे  
शोभनखेचरांशे शुभेक्षिते पूरितदीप्तिजालः ॥ जातस्य निःशेषम-  
रिष्टमाशु यथा विषं हन्ति च वै न तेयः ॥ ८ ॥ प्रकाशमानो गगने-  
न्द्रपूज्यः केन्द्रस्थितो रक्षति जातसूनुम् ॥ सौम्यांशका जीवश-  
शांकशुक्रसौम्या विनिघ्नन्ति समस्तदोषम् ॥ ९ ॥ जन्माधिपः  
केन्द्रगतः शुभश्चेजातं शिशुं रक्षति सौम्यदृष्टः ॥ स्वांशस्थितैः  
शोभनखेचरेन्द्रैर्दृष्टस्तदान्यो विनिहन्त्यरिष्टम् ॥ १० ॥

शुक्रपक्षमें रात्रिका जन्म हो चंद्रमा छठे वा आठवें भावमें शुभदृष्ट होवै और कृष्णपक्षमें  
दिनका जन्म चंद्रमा ६ । ८ भावमें पापदृष्टभी हो तीभी बालककी रक्षा करताहै ॥ ७ ॥  
चंद्रमा शुभग्रहके अंशके शुभदृष्ट पूर्णमण्डल होवै तो बालकके संपूर्ण अरिष्टोंको नाश करताहै  
जैसे गरुड विषका नाश करताहै ॥ ८ ॥ उदया बृहस्पति केन्द्रमें होवै तो बालककी रक्षा  
करताहै गुरु शुक्र चंद्रमा बुध शुभांशकमें होवै तीभी संपूर्ण अरिष्टयोग फलको नाश करतेहैं  
॥ ९ ॥ जन्मलग्नेश शुभग्रह केन्द्रमें शुभदृष्ट होवै तो बालककी रक्षा करताहै लग्नेश शुभ  
पापोंसे कोई हो उसे अपने अंशकस्थित शुभग्रह देखें तो वहभी अरिष्टहंता होताहै ॥ १० ॥

लग्नात्तृतीयारिभवे च राहुः पापैर्विमुक्तः शुभदृश्यमानः ॥ विनाश-  
यत्याशु समस्तरिष्टं तूलं यथा वायुबलस्य वेगः ॥ ११ ॥  
शीर्षोदयस्थाः सकला ग्रहेन्द्रा रिष्टं हरन्त्याशु शुभांशकस्थाः ॥

पूर्णेन्दुरन्यैर्विद्युतः शुभैस्तु दृष्टो हरत्याशु समस्तरिष्टम् ॥ १२ ॥  
 सर्वग्रहेन्द्रैः परिपूर्णचन्द्रो दृष्टो हरत्याशु समस्तदोषान् ॥ नयैः  
 स्वकीयैः प्रहेरत् क्षितीशो यथा तथा जन्मनि दोषजालम् ॥  
 ॥ १३ ॥ सौम्यग्रहैरतिबलैर्विवलैश्च पापैर्लभ्ये च सौम्यभवनं  
 शुभदृष्टियुक्तम् ॥ सर्वापदां विहरतो भवति प्रसूतिः पूजापरे खलु  
 यथा पठनैर्ग्रहाणाम् ॥ १४ ॥

राहु लग्ने तीसरा छटा ग्यारहकं पापरहित शुभग्रह दृष्ट होवैतो समस्त बाल्यारिष्ट शीघ्र  
 नाश करताहै, जैसे वायुका बल वेग रुईका गल्ला उडादेताहै ॥ ११ ॥ समस्तग्रह शीर्षो-  
 दय ५ । ६ । ७ । ८ । ११ । ३ राशियोंमें शुभ ग्रहोंके अशकमें होवै तो अरिष्टको  
 नाशतेहैं पूर्ण चद्रमा पापग्रहरहित तथा शुभदृष्ट होवै तोभी सपूर्णदोष दूर करताहै ॥ १२ ॥  
 पूर्ण चद्रमापर सभी ग्रहोंकी दृष्टि होवै तोभी वही फल होगा जैसे राजा अपने न्यायोंसे समस्त  
 मजदूके दोषोंके दूर करताहै ॥ १३ ॥ शुभग्रह अतिबलवान होवै पापग्रह निर्बल होंवैं तथा  
 लग्नमें शुभग्रहकी राशि शुभग्रहसे दृष्ट होवै ऐसे समयमें जन्म होवै तो सपूर्ण आपत्ति-  
 योंसे रहित होवै, जैसे ग्रहोंकी पूजामे ग्रहोंके स्तोत्रादि पाठमें तत्पर मनुष्योंकी आपत्ति दूर  
 होतीहै ॥ १४ ॥

उदयोगस्त्यमुनेः सप्तर्षीणां मरीचिपूर्वाणाम् ॥ सर्वारिष्टं नश्यति  
 तम इव सूर्योदये प्रबलम् ॥ १५ ॥ अजवृषपकर्किणि लग्ने  
 रक्षति राहुः समस्तपीडाभ्यः ॥ पृथिवीपतिः प्रसन्नः कृतापराधं  
 यथा पुरुषम् ॥ १६ ॥ चंद्रः शुभवर्गस्थः क्षीणोपि शुभेक्षितो  
 हस्ति रिष्टम् ॥ जलमिव हंत्यतिसारं जातीफलवल्कलव्यधितम्  
 ॥ १७ ॥ सप्ताष्टमपष्टस्थाः शशिनः सौम्या हरंति कष्टफलम् ॥  
 युवतिजनस्य कटाक्षा ललिता यूनां यथा नूनम् ॥ १८ ॥

जन्म समयमें अगस्त्य मुनिका उदय तथा मरीचि आदि सप्तर्षियोंका उदय समस्त अरिष्ट  
 नाश करता है जैसे प्रबल अधकारको सूर्योदय नाश करता है ॥ १५ ॥ मेष वृष कर्क राशिका  
 राहु लग्नमें होवै तो समस्त पीडाओंसे रक्षा करताहै जैसे अपराधी पुरुषको प्रसन्न हुआ राजा  
 वचाय देताहै ॥ १६ ॥ चद्रमा क्षीणभी हो परन्तु शुभग्रहोंके रादयादि वर्गमें होवै तो अरिष्ट  
 हरण करताहै जैसे अतिसारको जातीफलके बकलोंमें पकाया पानी हर लेताहै ॥ १७ ॥  
 चद्रमासे ७ । ८ । ६ स्थानोंमें शुभग्रह होवैं तो कष्टफळका हरण करतेहै जैसे जवान स्त्रियोंके  
 सुहाउने कटाक्ष युवजनोंके कष्ट दूर करतेहैं ॥ १८ ॥

पापराशिगते चंद्रे तदीशेन निरीक्षिते ॥ सौम्यग्रहाणां वर्गस्थे  
कृपणेन धनं यथा ॥ १९ ॥ चंद्राधिष्ठितराशीशे लग्नस्थे शुभ-  
वीक्षिते ॥ भृगुणा वीक्षिते चंद्रे स्वोच्चे रिष्टं हरेत्तदा ॥ २० ॥  
स्वोच्चस्थे स्वगृहेथ वापि सुहृदां वर्गे स्वकीयेथ वा संपूर्णः शुभवी-  
क्षितः शशधरो वर्गेषु सौम्येषु वा ॥ शत्रूणामवलोकनेन रहितः  
पापैर्युक्तेक्षितो रिष्टं हंति सुदुस्तरं दिनमणिः प्रालेयनाशं यथा  
॥ २१ ॥ अध्यायोरिष्टभंगाख्यः प्रोक्तश्चितामणौ मया ॥ मधु-  
वृत्त्या गृहीत्वा तु व्यंकटेश्वरशर्मणा ॥ २२ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिंतामणावरिष्टभङ्गनिरूपणो नाम

एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

चंद्रमा पापराशिमें हो उस राशिका स्वामी उसे देखे और शुभग्रहोंके अंशादिमें होवे तो बालककी रक्षा करताहै जैसा कृपण मनुष्य धनकी रक्षा करताहै ॥ १९ ॥ चंद्रमा राशीश लग्नमें शुभग्रह दृष्ट होवे तथा चंद्रमाको शुरु देखे उच्चमें होवे तो अरिष्टको हरताहै ॥ २० ॥ पूर्णचंद्रमा शुभग्रहोंसे दृष्ट होकर अपने उच्च वा स्वगृहमें हो अथवा मित्रके वर्गमें हो अथवा अपने वर्गमें हो यदा मित्रके वर्गमें हो शत्रुदृष्टिसे रहित पापयोगदृष्टि रहित होवे तो कठिन अरिष्टको भी दूर करताहै जैसे सूर्य बर्फका नाश करताहै ॥ २१ ॥ मुझ व्यंकटेशने माधुकरीशृत्तिसे अनेक ग्रंथोंका सार लेकर यह अरिष्टभंगाध्याय कहा ॥ २२ ॥

इति स० चिं० म० माहीधरभाषाटीकायामरिष्टभङ्गाध्याय एकादशः ॥ ११ ॥

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

अथ मध्यमायुर्योगविचाराध्यायः ।

द्वात्रिंशदूर्ध्वमर्वाक्तः सप्तत्या मध्यमायुर्योगान् ॥ तावत्कालनि-  
यमितान् योगविशेषानहं वक्ष्ये ॥ १ ॥ चंद्रे कुजर्क्षे तनुगे प्रदृष्टे  
ऋग्रहेः शोभनखेचरेन्द्रैः ॥ केन्द्राद्बहिष्टेर्निधनं प्रयाति वर्षेऽय-  
स्त्रिंशत्समानकैस्तु ॥ २ ॥ पापग्रहे रंथ्रपतौ सचंद्रे केंद्रस्थिते वा  
यदि वा त्रिकोणे ॥ निरीक्षिते पापखगेर्नभस्यैर्जातस्त्रयास्त्रिंश-  
दुपैति वर्षम् ॥ ३ ॥

अथ मध्यमायुयोग कहतेहैं कि ३३ वर्षसे ऊपर ७० वर्षके भीतर आयुके योगविशेषमें ग्रंथकर्त्ता कहताहै ॥ १ ॥ चंद्रमा मंगलकी राशिका लग्नमें पापग्रहोंसे दृष्ट होवै शुभग्रह केंद्रमें न होवैं तो ३३ वर्ष आयु होवै ॥ २ ॥ अष्टमेश पापग्रह चंद्रमा सहित केन्द्र अपवा त्रिकोणमें होवै उसे पापग्रह दशम भावमें बैठकर देखें तो मनुष्यकी ३३ वर्ष आयु होवै ॥ ३ ॥

लग्ने शनौ रात्रिकरेण युक्ते भौमे घटस्थे सुरसंख्यवर्षैः ॥ क्रूरां-  
तरे लग्नगते तदीशे युग्मस्थिते देवगुरौ पुरस्थे ॥ ४ ॥ जातस्तु  
मृत्युं मुनिवह्निवर्षैः प्रयाति शास्त्रप्रवरैः प्रदिष्टम् ॥ सभूमिजे रंभ्र-  
पतौ विलग्ने राशौ स्थिरे वा यदि वा धराजे ॥ ५ ॥ रिष्के-  
ष्टमे मृत्युमुपैति जातस्त्वब्दैर्द्रिपाथोधिसमानकैर्वा ॥ केन्द्रे गुरौ  
कर्मणि सूर्यपुत्रे लग्ने चरे वेदयुगैः समानैः ॥ ६ ॥

लग्नमें चंद्रमासहित शनि होवै मंगल कुम्भका होवै तो ३३ वर्ष आयु होवै लग्न पापांतर हो लग्नेश मिथुनका होवै और बृहस्पति चतुर्थ होवै ॥ ४ ॥ तो जातक ३७ वर्षमें मृत्युको प्राप्त होताहै यह शास्त्रज्ञोंने कहाहै, लग्नमें मंगल सहित अष्टमेश होवै यदा मंगल स्थिरराशिमें अष्टम वा बारहवें भावमें होवै तो ४२ वर्षमें मृत्यु होवै बृहस्पति केंद्रमें शनि दशम होवै लग्नमें चरराशि होवै तो ४४ वर्ष आयु होवै ॥ ५ ॥ ६ ॥

गुरुशुक्रौ च केन्द्रस्थौ लग्नेशे पापसंयुते ॥ आपोक्लिमस्थे संध्या-  
यामायुः पट्टत्रिंशदेवहि ॥ ७ ॥ स्वोच्चे विलग्ने रविनंदने च जीवे-  
स्तगे कर्मणि सूर्यपुत्रे ॥ जातो धनाढ्यो बहुशास्त्रवेत्ता वेदाब्धि-  
वर्षैर्निधनं प्रयाति ॥ ८ ॥ लग्नेश्वरे रंभ्रगते सपापे केंद्राद्ग्रहिष्टे  
यदि सौम्यखेटे ॥ चत्वारिंशद्दत्सरे मृत्युर्मेति जातः पुत्रो  
नान्यथा शास्त्रमेतत् ॥ ९ ॥

गुरु शुक्र केन्द्रमें हों लग्नेश पापयुक्त होकर २ । ५ । ८ । १२ भावमें से किसीमें हों और संध्याकालका जन्म होवै तो ३६ वर्ष आयु होवै ॥ ७ ॥ उच्चका शनि लग्नमें बृहस्पति सप्तम शनि दशम होवै तो मनुष्य धनवान् तथा बहुत शास्त्र जाननेवाला होवै ४४ वर्षमें मरजावै ॥ ८ ॥ लग्नेश पापयुक्त अष्टमस्थानमें हो शुभग्रह केंद्रोंमें न हों तो ऐसे योगमें जन्मवाला पुत्र ४४ वर्षमें मृत्युको प्राप्त होताहै यह शास्त्रज्ञा झूठी नहींहै ॥ ९ ॥

जन्माधिपे रंभ्रगते सपापे पापान्विते रंभ्रपतौ रिपुस्थे ॥ बला-  
न्विते वा शुभदग्निमुक्ते पंचाब्धिवर्षैर्निधनं प्रयाति ॥ १० ॥

मेघे शशांके तनुगे सुपूर्णे सौम्येक्षिते भूपतिरत्र जातः ॥ पापग्र-  
हाणां च दशा विहीने नागाब्धिवर्षेर्निधनं प्रयाति ॥ ११ ॥

लग्नेश पापयुक्त अष्टमभावमें अष्टमेश पापयुक्त छठे स्थानमें बलवान् वा शुभदृष्टिरहित होवै तो ४५ वर्षमें मरणको प्राप्त होवै ॥ १० ॥ पूर्णचंद्रमा मेघ राशिका लग्नेश शुभदृष्ट होवै तो ऐसे योगमें उत्पन्न मनुष्य राजा होवै परंतु उसे पापग्रह न देखते हों और ४८ वर्ष में मृत्युको प्राप्त होताहै ॥ ११ ॥

शनैश्चरो लग्नगतः सहायस्त्वन्येन चन्द्रो व्ययभेष्टमे वा ॥ वेदां-  
तविज्ञानसुशीलवृत्तो जातस्तु मृत्युं नयनेषु वर्षे ॥ १२ ॥ चापे  
गुरो लग्नगतेष्टमस्थे भौमे सराहौ मुनिवाणवर्षे ॥ रन्ध्रेश्वरे काम-  
गते शशांके पापान्विते पण्मृतिगेष्ववाणे ॥ १३ ॥ संरध्रपे देवगुरो  
विलग्रे कुंभे सपापे यदि केन्द्रराशौ ॥ शास्त्रार्थवेत्ता खलु पुण्यवांश्च  
जातस्तु पृथ्या निधनं प्रयाति ॥ १४ ॥

शनि किसी ग्रहके साथ लग्नमें होवै चंद्रमा ८ वा १२ भावमें होवै तो वेदांतके ज्ञानसे उत्तम स्वभाव एवं चारैतगाला होव और ५२ वर्षमें मृत्यु पावै ॥ १२ ॥ धनका वृहस्पति लग्नमें अष्टममें मंगल राहुसहित होवै तो ५७ वर्षमें और अष्टमेश सम चंद्रमा पापयुक्त ६।८ भावमें होवै तो ५८ वर्षमें मरे ॥ १३ ॥ गुरु लग्नमें अष्टमेश सहित होवै अथवा कुंभका गुरु पाप-ग्रह सहित केन्द्रमें होवै तो शास्त्रोंका अर्थ जाननेगाला तथा पुण्यवान् होवै और ६० वर्षमें मृत्यु पावै ॥ १४ ॥

केन्द्रे सपापे तनुपे व्ययस्थे लग्नेश्वरे रन्ध्रगते हि वह्नौ ॥ लोका-  
न्तरं प्रापयति स्म जातं कुशीलवृत्तं कुलपांसनं तम् ॥ १५ ॥  
सौरौ विलग्रे हिद्युके शशांके कुजे कलत्रे गगने दिनेशे ॥ कर्वाज्य-  
सौम्येष्विहर्तयुंतेषु नरेश्वरो जीवति वर्षपृथ्या ॥ १६ ॥

केन्द्रमें पापसहित लग्नेश हो अथवा सपाप लग्नेश व्ययभावमें हो अष्टमभावमें होवै तो वह मनुष्य दुष्ट स्वभाव चारित्र तथा दुष्टनाश करनेगाला होवै और अग्निमें गडकर मरे ॥ १५ ॥ लग्नमें शनि, तनुपं चंद्रमा, लग्नमें मंगल, दशममें सूर्य होवै शुक्र बुध लग्नमें से विद्यते युक्त होवै तो राजा होवै ६० वर्ष जीवै ॥ १६ ॥

लग्नाभिधाने विद्युधारिपूज्ये बुधेज्यचंद्रः परिदृश्यमाने ॥ जातं नरं  
भूमिपतिं धनाढ्यं करोति पृथ्या सुतभेन्द्रपूज्ये ॥ १७ ॥ तिते

विलग्रे बुधभास्करात्मजौ चतुष्टयस्थाः परमोच्चखेचराः ॥ तृती-  
यलाभर्क्षगतास्तु योगे महीपतिः स्यान्निधनं च पष्ट्या ॥ १८ ॥

लग्नमें शुक्र चंद्र बुध गुरुसे दृष्ट होवे तथा गुरु पंचममें होवै तो मनुष्यको राजा एवं धनप्राप्त्य करताहे और ६० वर्ष आयु होतीहै ॥ १७ ॥ शुक्र लग्नमें होवै बुध शनि केन्द्रमें होवै और परमोच्च राशिगत ग्रह २।११ भावमें होवै तो ऐसे योगमें मनुष्य राजा होतीहै और ६० वर्ष आयु होतीहै ॥ १८ ॥

होराजन्माधिनाथौ निधनमुपगतौ मृत्युनाथे च केंद्रे योगे जातो  
नरोस्मिन् जनयति नरपं कीर्तिवित्तान्वितं च ॥ पष्ट्यां पड्-  
भिर्युतायां निधनमभिहितं नंदकोक्ते द्विनिघ्नम् ॥ वर्षे त्रिंशेथ वा  
स्यात्खिलमिति खचरैर्जायते पार्थिवेन्द्रः ॥ १९ ॥ नक्षत्रना-  
थसहितः सविता नभस्थः सौरिर्विलग्नसहितो हिवुके सुरेज्यः ॥  
अस्मिन् योगे जायते यो मनुष्यः क्षोणीपतिर्नैधनमष्टपष्ट्या  
॥ २० ॥ जीवे विलग्रे बुधसूर्ययुक्ते मीने शनौ द्वादशगे हिमांशौ  
॥ जातो योगे चार्थवान्सौख्यभाक् च जीवेत् पष्ट्या पट्सहा-  
येन जातः ॥ २१ ॥

लग्नेश तथा तत्काल होरेश अष्टम स्थानमें होवै अष्टमेश केन्द्रमें होवै ऐसे योगमें जिसका जन्म होवै तो वह कीर्ति एवं धनयुक्त राजा होताहै ६६ वर्षमें उसकी मृत्यु होतीहै नदकोक्त मतसे ६० वर्ष आयु इस योगमें कहीहै राजा होना उसके मतसे भी है ॥ १९ ॥ सूर्य चंद्रमा सहित दशम भावमें शनि लग्नमें गुरु चौथा होवै इस योगमें जो मनुष्य जन्मे वह राजा होताहै तथा ६८ वर्ष आयु होतीहै ॥ २० ॥ लग्नमें गुरु बुध सूर्यसहित होवे मीनका शनि किसी भावमें हो चंद्रमा द्वादश होवे इस योगमें उत्पन्न मनुष्य धनवान् सुखी होताहै और ६६ वर्षपर्यंत जीता रहे ॥ २१ ॥

चंद्रे विलग्रे स्वगृहं प्रयाते नीचे शनौ सप्तमगे च सूर्ये ॥ अस्मिन्  
जातो मानुषो ज्ञानिसुख्यो जीवेत्पाष्टिः पंचभिः संप्रयुक्तः ॥ २२ ॥  
नीचे मंदे केन्द्रगे वा त्रिकोणे सौम्ये केंद्रे भास्करे वा ससौम्ये ॥  
योगे जातः पंडितो धर्मशीलो ज्ञानी प्राज्ञः सप्ततेर्वत्सराणाम् ॥ २३ ॥

चंद्रमा कर्कका लग्नमें नीचका शनि सप्तम सूर्य हो इस योगमें उत्पन्न मनुष्य ज्ञानियोंमें अष्ट होवै और ६५ वर्ष आयु होवै ॥ २२ ॥ नीचका शनि केन्द्र वा त्रिकोणमें, शुभग्रह

केंद्रमें अथवा बुधसहित सूर्य केन्द्रमें होवै तो इस योगमें उत्पन्न मनुष्य धर्म करनेवाला पंडित एवं ज्ञानी होताहै और ७० वर्षपर्यंत जीताहै ॥ २३ ॥

प्रवले केंद्रगे सौम्ये निधने सौम्यवर्जिते ॥ लग्नाधिपेन दृष्टश्चेत्पापैर्जीवति सततिम् ॥ २४ ॥ पंचमस्थे धरासूनौ नीचे मंदेस्तगे रवौ ॥ अस्मिन् जातो मनुष्यस्तु सप्तत्या निधनं व्रजेत् ॥ २५ ॥ इत्येवं बहुधा मया निगदिता योगास्त्वसंख्या इमे ये प्रोक्ता यवनादिभिर्मुनिगणैर्निश्चित्य योगान् स्थितान् ॥ ज्ञात्वा सम्यगुदाहरन्ति मनसा ते यांति कीर्तिम्परामेवं प्रश्रविधौ सुजन्मसमये वैवाहिके कर्मणि ॥ २६ ॥

बलवान् शुभग्रह केंद्रमे होवै धनस्थानमें शुभग्रह न होवै लग्नेशसे दृष्ट न हो पापदृष्ट होवै तो ७० वर्ष बचे ॥ २४ ॥ मंगल पंचमभावमें शनि नीचराशिमें सूर्य सप्तमभावमें होवै इस योगमें उत्पन्न मनुष्य ७० वर्षमें मरे ॥ २५ ॥ ग्रंथकर्ताका कथन है कि इसप्रकार योग मैंने कहेहैं परंतु ऐसे योग असंख्य हैं जो यवनाचार्यादि मुनिगणोंने कहेहैं उनमें जो वर्तमान योग हैं उनको मनमें निश्चय करके जो फल कहतेहैं वह परम कीर्तिको प्राप्त होतेहैं ऐसे योगोंका विचार जन्ममें प्रश्नमें और विवाहमें भी करना ॥ २६ ॥

अथ दीर्घायुर्योगः ।

दीर्घायुराप्नोति खगाः समस्ताः शुभाशुभाः पद्मवनांतरस्थाः ॥ लग्नात्तथैवापरभागयुक्ताः शुभाशुभास्तद्विपरीतमन्यत् ॥ २७ ॥ लग्नादिपट्टके शुभस्वेचरेन्द्राः सर्वे बलाढ्यास्त्वपरे तु पापाः ॥ प्रदीप्तियुक्तो गुणवान् सुशीलः श्रीमानशीत्या निधनं प्रयाति ॥ २८ ॥

अब दीर्घायुयोग कहतेहैं- शुभाशुभ सभी ग्रह लग्नेसे छठे भावपर्यंत हों अथवा सप्तमसे व्ययपर्यंत हों तो दीर्घायु ७० से ऊपर आयु मिलतीहै और प्रकार होनेमें विपरीत फल होताहै ॥ २७ ॥ यदि लग्नेसे छठे भावपर्यंत बलवान् शुभग्रह और दूसरे भाग ७ से १२ पर्यंत बलवान् पापग्रह हों तो गुणवान् उत्तम स्वभाव लक्ष्मीवान् होताहै ८० वर्षमें मरताहै ॥ २८ ॥

लग्ने केन्द्रे शशिसुते कोणे चंद्रे शुभेशनौ ॥ जातस्तु देवमुनिभिर्वर्षैः क्लिश्यत्यतः सुखम् ॥ २९ ॥ ओजराशिगताः सर्वे पूर्णच-

न्द्रसमन्विताः ॥ ओजलग्रे परं भाग्यं दीर्घमायुरुपैति सः ॥ ३० ॥  
 समराशिगताः सर्वे पूर्णचंद्रसमन्विताः ॥ स्त्रीयास्तु जननं युग्म-  
 लग्ने भाग्यमुपैति सा ॥ ३१ ॥ भाग्ययोगेषु दीर्घायुर्वदन्ति यव-  
 नादयः ॥ तत्पृथक् पृथगेवाहुर्वराहमिहिरादयः ॥ ३२ ॥

लग्ने वा अन्यकिसी केन्द्रमें बुधहो ५ । ९ भावमें चंद्रमा दशममें शनि होवै तो मनुष्य  
 ४० वर्षपर्यंत क्लेशो उपरांत सुखी रहे ॥ २९ ॥ पूर्णचंद्रमा सहित सभी ग्रह विषम राशियोंमें  
 होवै लग्नेभी विषमराशि होवै तो परम ऐश्वर्य तथा दीर्घायु मिलतीहै ॥ ३० ॥ समस्त ग्रह  
 पूर्ण चंद्रमासहित समराशियोंमें होवैं समराशिही लग्नेमें होवै तो ऐसे योगमें स्त्रियोंका जन्म  
 भाग्य एवं आयु देनेवाला होताहै ॥ ३१ ॥ भाग्ययोगोंमें दीर्घायुभी होनी यवनादि कहतेहैं परंतु  
 वराहमिहिरादि उनको अलग २ कहतेहैं क्योंकि कोई धनहीनभी दीर्घायु होतेहैं ॥ ३२ ॥

यत्र तत्र तयोर्योगस्तदिष्टं मम संमतम् ॥ कदाचित् कांतयोर्योगः  
 सर्वथा न भवेत्तदा ॥ ३३ ॥

ग्रंथकर्ताकी संमति है कि जहां कहीं भाग्य और दीर्घायु योग मिलतेहैं तहां ऐश्वर्य और  
 दीर्घायुभी होतेहैं परंतु ऐसे योग कदाचित् मिलतेहैं सर्वथा नहीं होते राजयोग जुदेहें दीर्घायु  
 जुदेहें जहां धनैश्वर्य सहित दीर्घायु कहीहै तहांही दोनोंकी प्राप्ति है और राजयोग एककाही फल  
 होताहै इसीलिये पहिले और आधीमें वैसे योग पृथक् इस ग्रंथमें लिखेहैं ॥ ३३ ॥

जीवे सचंद्रे केन्द्रस्थे सौम्यदृष्टे परे ग्रहाः ॥ दशमात्परतो युक्ता-  
 स्त्वशीत्या निधनं भवेत् ॥ ३४ ॥ चतुष्टयगताः सौम्याः पापा-  
 श्चाष्टभर्जिताः ॥ चंद्रो विलग्नत्षष्ठस्थः पडशीत्या यमं व्रजेत्  
 ॥ ३५ ॥ पापास्त्रिंशत्षष्ठस्थाश्चंद्रः पष्ठाष्टमं गतः ॥ केन्द्रे गुरौ  
 त्रिसाहस्रग्रामनाथाश्चिरायुषः ॥ ३६ ॥

गुरु चंद्रमासहित केन्द्रमें शुभदृष्ट होवै और सभी ग्रह दशमभावसे ऊपर ११ । १२ में  
 चंद्रे विलग्न रूमृत्यु होवै ॥ ३४ ॥ शुभग्रह केन्द्रमें होवै पापग्रह अष्टमभावमें न होवै  
 जातो मानुषो ॥ ३५ ॥ १६ वर्षमें यमपुर आवै ॥ ३५ ॥ पापग्रह ३ । ११ । ६

तो ८६ वर्षमें केन्द्र में और गुरु केन्द्रमें होवै तो तीनहजार ग्रामके अधिपति और दीर्घायु  
 लग्नेमें उठे भ  
 चंद्रमा ६ ।  
 ॥ ३६ ॥ का लग्नेमें  
 ६५ वर्ष

निधनायकेन्द्रे ग्रहास्त्रयः पंच पयोधिसंख्याः ॥ जातः  
 ततोद्वियस्तु जीवेत्स यत्नानृपतिः परे हि ॥ ३७ ॥



जीवे लग्नेश्वरात्केन्द्रे केन्द्रकोणविवर्जिताः ॥ पापाः सुखानि  
सत्वात्तु जीवेद्र्पशतं नरः ॥ ३८ ॥ जीवे लग्नेश्वरात्केन्द्रे नियतिः  
सप्ततिः परा ॥ ३९ ॥

लग्नेसे ५ । ९ । ८ । १ । ४ । ७ । १० भावमेंसे किसीमें तीन चार वा पांच ग्रह होवें  
तो मनुष्य स्त्री पायकेभी जितेंद्रिय होवै दीर्घजीवीभी होवै कोई आचार्य ऐसे योगमें रा ।  
होना भी कहतेंहैं ॥ ३७ ॥ गुरु लग्नेशसे केन्द्रमें होवै, पापग्रह केन्द्रकोणमें न होवें तो सुखस  
पुष्टिसहित सौवर्ष जीवै ॥ ३८ ॥ केवल गुरु लग्नेशसे केन्द्रमें ७० वर्ष जिजाताहै ॥ ३९ ॥

केन्द्रे गुरौ लग्नगते दिनशे भूसूनुयुक्ते यदि वा मृतिस्थे ॥  
जातः श्रियं प्राप्य गुणाधिकारी शतं तु जीवेच्छरदां विशेषात् ॥  
॥ ४० ॥ मीनांत्यलग्ने खचरैश्चतुर्भिः केन्द्रस्थितैर्नांगशतं स  
जीवेत् ॥ निशाकरे लग्नगते स्वभागे मीनस्थिते वा यदि वा  
कुलीरे ॥ ४१ ॥ ग्रहैर्विहीने खचरैश्चतुर्भिः केन्द्रस्थितैर्नांगशतं स  
जीवेत् ॥ सिंहे विलग्ने खचरैश्चतुर्भिस्त्रिकोणगैर्जीवतितावदेव ॥ ४२ ॥

गुरु केन्द्रमें सूर्य लग्नमें मंगलसहित अथवा सूर्य मंगल अष्टममें होवें तो मनुष्य लक्ष्मी  
पायके गुणोंका अधिकारी होवै विशेषतः ८ सौ वर्षपर्यंत जीवै ॥ ४० ॥ लग्नमें मीन  
राशि अंत्यांश होवै और केन्द्रमें चार ग्रह होवें तो सौ वर्ष बचे, चंद्रमा लग्नमें कर्कशकी मीन  
वा कर्कका होवै ॥ ४१ ॥ उसके साथ कोई ग्रह न होवै और केन्द्रमें चार ग्रह होवें तो  
सौ वर्ष बचे, अथवा सिंहलग्नसे ४ ग्रह त्रिकोण ५।९ में होवें तोभी वही फल होगा ॥ ४२ ॥

त्रिभिर्ग्रहैः स्वोच्चगतैर्विलग्ने वृषे कुलीरे सगुरौ तथैव ॥ मृगे कुजे  
कर्किणि देवपूज्ये केन्द्रेषु शेषाः परमायुस्त्र ॥ ४३ ॥ भृगौ चतुर्थे  
सगुरौ विलग्ने सेन्दौ शनौ कर्मणि पापहीने ॥ जातो नरोस्मिन्  
समुपैति दीर्घमायुश्च विद्यां यशसा समेताम् ॥ ४४ ॥

लग्नमें वृष वा कर्क राशि गुरुसहित होवै और तीन ग्रह उच्चके हों अथवा मकरका  
मंगल कर्कका गुरु होवै अन्यग्रह केन्द्रोंमें होवें तो यहां भी परमायु होती है ॥ ४३ ॥ शुक्र  
चतुर्थ होवै, लग्न गुरुसहित होवै और चंद्रमासहित शनि दशम भावमें पापरहित होवै ऐसे  
योगमें उत्पन्नभया मनुष्य विद्या तथा यशसहित दीर्घायु होताहै ॥ ४४ ॥

लग्ने मृगापराद्धे तु पूर्वाद्धे भौमसंयुते ॥ लग्ने शशांकसहिते गुरौ  
केन्द्रे परं वयः ॥ ४५ ॥ नृयुग्मपूर्वाद्धगते भौमे लग्ने पराद्धके ॥

चापपूर्वाङ्घ्रिगे जीवे लग्ने त्वपरभागगे ॥ ४६ ॥ सौरौ केन्द्रे भृगाः  
पुत्रे सचन्द्रे त्वपरं वयः ॥ कन्यापूर्वाङ्घ्रिगे सौम्ये पराङ्घ्रे लग्नमा-  
गते ॥ ४७ ॥ ग्रहैस्त्रिभिर्वा स्वोच्चस्थैः शतवर्षात्परं वयः ॥  
पापास्त्रिपटलाभस्थाः सौम्ये लग्नांत्यभागके ॥ ४८ ॥ लग्ने सौरौ  
गुरौ केन्द्रे भृगौ वा त्वपरं वयः ॥ ४९ ॥

लग्न मकरका परार्द्ध १५ अंशसे ऊपर होवे उसीके पूर्वाङ्घ्रि १५ अंशसे भीतर मंगल  
लग्नमे होवे और चंद्रमासहित गुरु केंद्रमें होवे तो परम आयु १२० वर्षकी होवे ॥ ४५ ॥  
मंगल मिथुनलग्नके पूर्वाङ्घ्रिमें हो, लग्न मिथुनका उत्तरार्द्ध हो, यद्वा धनके पूर्वाङ्घ्रिमें गुरु उत्तरार्द्धमें  
लग्न होव ॥ ४६ ॥ शनि केंद्रमें शुक्र चंद्रमासहित होवे तो परमायु होवे कन्याका उत्तरार्द्ध  
लग्न पूर्वाङ्घ्रिमें बुध होवे ॥ ४७ ॥ अथवा तीन ग्रह उच्चमें होवें तो सोसे अधिक आयु होवे  
पापग्रह ३ । ६ । ११ भावोंमें हों बुध लग्नके अंत्यभागमें हो ॥ ४८ ॥ लग्नमें शनि केंद्रमें  
गुरु अथवा शुक्र होवे तो परमायु भोगे ॥ ४९ ॥

नृयुग्मपूर्वाङ्घ्रिगते धरात्मजे लग्ने पराङ्घ्रे सगुरौ विशेषात् ॥ केंद्रे-  
च्छविद्भ्यां सहितेत्र जातः शतात्परं जीवति पुण्यभाक् च ॥ ५० ॥  
अनिमिपपरमांशके विलग्नै शशितनये रात्रि पंचवर्गलिप्ते ॥ भवति  
हि परमायुपः प्रमाणं यदि सहिताः सकलाः स्वतुंगभेषु ॥ ५१ ॥

मिथुनके पूर्वाङ्घ्रिमें मंगल उत्तरार्द्धमें लग्न गुरुसहित होवे विशेषतः केन्द्रमें शुक्र बुध होंवें  
तो मनुष्य सौवर्षसे ऊपर जीवे पुण्यवान् भी होवे ॥ ५० ॥ मीन मीनांशकलग्नमें हो वृषका  
चंद्रमा पांचवर्ग होरा द्रेष्काणादियोंमें अपने वर्गका हो अन्य सभीग्रह उच्चराशियोंमें होंवें  
तब परमायु १२० का प्रमाण दशागणितसे होताहै ॥ ५१ ॥

अथाऽमितायुर्योगः ।

गुरुशशिसहिते कुलीरलग्ने शशितनये भृगुजे च केंद्रयाते ॥ भव-  
रिपुसहजोपगैश्च शेषैरमितमिहायुरनुक्रमाद्भिना स्यात् ॥ ५२ ॥

जिस योगमें आयु प्रमाणसेभी अधिक होजातीहै उसे कहतेहै कि गुरु चंद्रमा सहित कर्क-  
ष्ठग्रह हो बुध शुक्र केंद्रमें हों अन्य ग्रह सूर्य मंगल शनि ३ । ६ । ११ । मेंसे किसीमें हों  
तो आयुप्रमाण जो केवल गणितके क्रिये १२० वर्ष कहाहै उससेभी अधिक आयु मिलेगी  
आयुका न्यूनताधिक करना मनुष्यके हातमें है यदि आचारवान् समयी योगाभ्यासी पुण्यवान्  
भी रहे तो गणितागत आयुसेभी अधिक जी सकताहै यदि अनाचारी व्यभिचारी असयमी दुष्टकर्मा  
पापीरहे तो गणितागत आयुको भी नहीं भोग सकता“परदारानायुष्यन्त” यह श्रुतिहै कि परस्त्री-  
गमन करनेवाले पूरी आयु नहीं भोगते इत्यादि अनेक प्रमाण ग्रंथांतरोंमें है ॥ ५२ ॥

लग्ने घटे देवगुरौ झपस्थे व्यये भृगौ वासरपे विलग्नै ॥ जातः परं  
ब्रह्मपरं प्रयाति रसायनाद्यैर्दशवर्धितं तत् ॥ ५३ ॥ सिंहे विलग्नै  
सगुरौ भृगौ तु कुलीरगे सोमसुते धनस्थे ॥ पापग्रहैः पटत्रिद-  
शायगैश्च सहस्रवर्षं समुपैति जातः ॥ ५४ ॥

लघु कुंभ बृहस्पति मीनका शुक्र व्ययभावमें और सूर्य लग्नमें होंवे तो रसायन सेवन आदिसे  
गणिगागत आयुसे दशगुणो आयु होतीहै ॥ ५३ ॥ सिंहलग्नमे बृहस्पति कर्कका शुक्र चंद्रमा  
धनःस्थानमें और पापग्रह ६ । ३ । ११ में होंवे तो मनुष्य एकहजार वर्ष जीवेगा ॥ ५४ ॥

दिनेशभौमौ हिवुके विलग्नै मंदान्विते भोगिपतौ व्ययस्थे ॥  
शेषग्रहैर्मृत्युगृहोपपन्नैः सहस्रवर्षद्वयमत्र जातः ॥ ५५ ॥ अजे  
विलग्नै च रवौ सुखस्थे माने यमे भूमिसुते कलत्रे ॥ रिष्फे शशांके  
परिपूर्णवीर्ये रसायनाद्यैर्द्रिसहस्रमायुः ॥ ५६ ॥ वृषे शशांके तनु-  
गे विशेषात्समन्विते सौम्यसुरासुरेज्यैः ॥ जातस्तु देवेन्द्रपदं  
प्रयाति शेषग्रहैरर्थसमन्वितैर्वा ॥ ५७ ॥

सूर्य मंगल चौथे शनि लग्नमें राहु व्ययभावमें हो शेष ग्रह अष्टमस्थानमें होंवे तो मनुष्य  
दो सहस्रवर्ष जीवे ॥ ५५ ॥ मेष लग्न चौथा सूर्य दशम शनि सप्तममंगल चारहवां चंद्रमा पूर्ण-  
बली होवे तो रसायन तथा आदिपदसे संयम योगाभ्यास सत्यव्रतादिसे दो हजारवर्ष आयु  
होवे ॥ ५६ ॥ चंद्रमा वृषका विशेषतः लग्नमें होवे वृष गुरुशुक्रसे युक्त होवे शेषग्रह धनभावमें  
होंवे तो मनुष्य इंद्रपदको प्राप्त होवे ॥ ५७ ॥

जीवे विलग्नै स्वगृहं प्रपन्ने शून्ये नृद्युग्मे भृगुजे च केन्द्रे ॥  
रसायनाद्यैर्वहुवर्षजीवी जातस्तु देवेन्द्रपदं प्रयाति ॥ ५८ ॥ एक-  
क्षैगव्योमचरैरशेषैस्त्रिकोणगैः केंद्रचतुष्टयस्थैः ॥ जातः शिशुर्न-  
श्यति जातमात्रो जीवेद्युगांतं यदि मंत्रसिद्ध्या ॥ ५९ ॥

बृहस्पति अपने घरका लग्न वा दशमभावमें हो तथा मिथुनका शुक्र केन्द्रमे होंवे तो मनुष्य  
रसायनादिपयोगसे बहुत वर्ष बचे और इंद्रपदकोभी प्राप्त होताहै ॥ ५८ ॥ समस्त ग्रह  
एकही राशिमें केंद्र वा त्रिकोणमें होंवे तो बालक जन्मतेही मरे, यदि मंत्रसिद्धिसे न मरे तो  
युगांतायु होवे ॥ ५९ ॥

त्रिकोणे पापनिर्मुक्ते केंद्रे सौम्यविवर्जिते ॥ निधने पापरहिते जा-  
तस्तत्रमरसन्निभः ॥ ६० ॥ लग्नै वृषे शुक्रयुते गुरौ तु केन्द्रान्विते

पद्मिदशायसंस्थैः ॥ रसायनाद्यैरिह मंत्रसिद्ध्या जातस्तु देवेन्द्र-  
पदं प्रयाति ॥ ६१ ॥ शनौ तुलायां मकरे गुरौ च लग्ने कुलीरे  
वृषभे शशांके ॥ जातः सुखी ब्रह्मपदं प्रयाति प्रसाधनाद्यैरिह  
मंत्रसिद्ध्या ॥ ६२ ॥

त्रिकोण ५।९ में पापग्रह न हों केंद्रोंमें शुभग्रह न हों अष्टम भावमेंभी पापग्रह न होवे  
तो मनुष्य देवताके तुल्य होगा ॥ ६० ॥ वृषलग्नमें शुक्र हो गुरु केन्द्रमें तथा अन्यग्रह ६।  
३।१०।११ भावोंमें होवे तो मनुष्य रसायनादिसं अथवा मंत्रसिद्धिसे इन्द्रपदको प्राप्त  
होवे ॥ ६१ ॥ शनि तुलाका गुरु मकरका चंद्रमा वृषका और लग्न कर्कट होवे तो मनुष्य  
योगादिसाधन एवं मंत्रसिद्धिसे ब्रह्मपदको प्राप्त होताहै ॥ ६२ ॥

वर्गोत्तमे लग्नगते कुलीरे केन्द्रे गुरौ भूमिसुते कलत्रे ॥ सिंहास-  
नांशे भृगुजे विशेषाद्रसायनाद्यैरमितायुरेति ॥ ६३ ॥ कन्यांत्य-  
लग्ने सवुधे कलत्रे जीवे यदा गोपुरभाग्ययुक्ते ॥ मृदंशके वा दि-  
ननाथपुत्रे जातस्त्वसंख्यायुरुपैति सतुः ॥ ६४ ॥

लग्न कर्क कर्कांशक होवे गुरु केन्द्रमें मंगल सप्तममें होवे विशेषकारिके शुक्र सिंहासनांशकमें  
होवे तो रसायन आदिसे अमित आयु होतीहै ॥ ६३ ॥ कन्यालग्न ( अंत्यांशक ) वर्गोत्तममें  
बुध होवे सप्तम गुरु गोपुरांशकमें अथवा शनि मृदंशकमें होवे तो मनुष्य असंख्य आयु  
भोगताहै ॥ ६४ ॥

देवलोकांशगे शुक्रे केन्द्रस्थे धरणीसुते ॥ सिंहासनांशके जीवे  
केन्द्रे जातस्त्वसंख्यकः ॥ ६५ ॥ उत्तमांशे बुधे केन्द्रे शुक्रे पा-  
रावतांशके ॥ स्वर्गलोके गुरौ केन्द्रे त्वौपधाद्यैरसंख्यकः ॥ ६६ ॥  
गोपुरेशे भृगौ केन्द्रे गुरौ पारावतांशके ॥ त्रिकोणे कर्किलग्न्ये तु यु-  
गांतं सतु जीवति ॥ ६७ ॥

शुक्र देवलोकांशकमें मंगल केन्द्रमें गुरु सिंहासनांशमें केन्द्रगत होवे तो असंख्य आयु  
होवे ॥ ६५ ॥ उत्तमांशगत बुध केन्द्रमें हो शुक्र पारावतांशकमें हो गुरु स्वर्गलोकांशकमें  
होवे तो रसायन औषधादिसे असंख्यायु होवे ॥ ६६ ॥ शुक्र गोपुरांशगत केन्द्रमें होवे गुरु  
पारावतांशकमें त्रिकोणगत हो लग्न कर्क होवे तो युगांत आयु होवे ॥ ६७ ॥

चापांशे कर्किलग्न्ये च तस्मिन्देवेन्द्रपूजिते ॥ त्रिचतुर्भिर्भ्रहैः केन्द्रे  
जातो ब्रह्मपदं लभेत् ॥ ६८ ॥ तृतीयैकादशे शुक्रे गोपुराद्यंशका-  
न्विते ॥ वृषे वर्गोत्तमे लग्ने ब्रह्मणः परमं पदम् ॥ ६९ ॥ लग्ने

शुक्रे गुरौ कामे कन्यायासुडुनायके ॥ चापे मेषांशके लग्ने जातो  
याति परं पदम् ॥ ७० ॥ पंचमे बुधसंयुक्ते गोपुराद्यंशका-  
न्विते ॥ गुरौ घटे विलग्नेस्मिन् जातो ब्रह्मपदं लभेत् ॥ ७१ ॥

कर्कलममें धनुःशक हो तहां गुरु बैठाहो और ३ । ४ ग्रह केन्द्रमें होवें तो मनुष्य ब्रह्म-  
पद पावै ॥ ६८ ॥ तीसरा वा ग्यारहवां शुक्र गोपुरादि शुभांशकमें होवै वर्गोत्तम वृषलग्न  
होवै तो मनुष्य ब्रह्मके परमपदको प्राप्त होवै ॥ ६९ ॥ लग्नमें शुक्र गुरु सप्तम कन्यामें चंद्रमा  
हो धन लग्नमें मेषांशका होवै तो मनुष्य परमपदको प्राप्त होवै ॥ ७० ॥ पंचम बुध गोपुरादि  
अंशकमें होवै गुरु कुंभका लग्नमें होवै तो मनुष्य ब्रह्मपदको प्राप्त होवै ॥ ७१ ॥

केन्द्रे गुरौ लाभगतेर्कपुत्रे धने रवौ मांदियुते कलत्रे ॥ भाग्ये धरा-  
सूनुयुतेत्र जातो युगांतकालं समुपैति मंत्रैः ॥ ७२ ॥ त्रिकोणगौ  
जीवबुधौ विशेषाल्लग्न्ये वृषे तत्र युते धराजे ॥ निशाकरे गोपुरभा-  
गयुक्ते जातः सहस्रद्रव्यवर्षमेति ॥ ७३ ॥ पक्षे सिते जन्म यदा-  
ह्निकाले केन्द्रे गुरौ वा शशिभे विलग्ने ॥ दारे कुजे भानुसुते सु-  
खस्थे जातस्तु जीवेद्युताब्दसंख्यम् ॥ ७४ ॥

गुरु केन्द्रमें शनि लाभस्थानमें सूर्य धनस्थानमें केतु सप्तममें मंगल नवमस्थानमें होवै तो  
मंत्रबलसे युगांत पर्यंत आयु होवै ॥ ७२ ॥ गुरु बुध त्रिकोणमें होवें वृषलग्न हो उसमें  
मंगल होवै और चंद्रमा गोपुरांशमें होवै तो दो सहस्रवर्षको आयु होवै ॥ ७३ ॥ शुक्रा-  
क्षमें दिनका जन्म हो गुरु केन्द्रमें अथवा कर्कका लग्नमें होवै सप्तम मंगल चौथा सूर्य होवै  
तो दसहजार वर्ष बचे ॥ ७४ ॥

जीवमंदारशुक्राणामन्योन्यं केन्द्रसंभवे ॥ त्रिकोणे वा यदा याते  
जातस्तत्रयुतवत्सरः ॥ ७५ ॥ शुभैर्युक्ते चतुष्केन्द्रे पापैः पट्त्रि-  
भवान्वितैः ॥ सिंहे लग्ने यदा जातो जीवेत्पडयुतानि सः ॥ ७६ ॥

गुरु शनि शुक्रका अन्योन्य केन्द्रस्थिति संघं होवै अथवा त्रिकोणमें होवै तो एक अयुत-  
प जीवै ॥ ७५ ॥ चारों केन्द्रोंमें शुभग्रह होवें पापग्रह ६ । ३ । ११ भावोंमें हों लग्न सिंह  
होवै तो छ' अयुतवर्ष आयु होवै ॥ ७६ ॥

अथ मुनियोगः ।

कर्क्यादिस्थेग्रहैः सर्वैर्गुरुचंद्रादिभिर्यदा ॥ शून्यं तैः परमोच्चस्थै-  
र्मुनितुल्यो भवेन्नरः ॥ ७७ ॥ शन्यादिभौमपर्यते लग्नादौ खेचराः  
शुभाः ॥ वैशेषिकांशकयुता जातास्त्वमरसन्निभाः ॥ ७८ ॥

कर्कसे मकरपर्यंत सभी ग्रह गुरु चंद्रादि होंवें इस बीच जिनके उच्च हैं वे उच्चराशियोंमें होंवें तो मनुष्य मुनितुल्य होवै ॥ ७७ ॥ लग्नसे लेकर क्रमसे शनि सूर्य चंद्रमा मंगल होंवें वैशेषिकांशकमें भी होंवें तो मनुष्य देवताओंके तुल्य होवै ॥ ७८ ॥

आकल्पं जीवति नरो मृगे लग्ने कुजादिकाः ॥ रव्यन्ताः खेचराः  
सर्वे सोत्थे जीवेहि जन्मनि ॥ ७९ ॥ मेषांत्यलग्ने सगुरौ भृगौ  
वा निशाकरे गोधनुमध्यमांशे ॥ सिंहासनांशे यदि वा धराजे  
जातस्त्वसंख्याब्दमुपैति मंत्रैः ॥ ८० ॥ स्थिरे रवौ सोमसुतेन  
युक्ते चंद्रे वृषस्थे मिथुने च शुके ॥ गुरौ कुलीरे यदि वा विलग्नै  
शनौ तुलायां मुनिसाम्यमेति ॥ ८१ ॥

मंगलसे लेकर सूर्यपर्यंत ग्रह मकर लग्नमें होंवें तीसरे बृहस्पति और दिनका जन्म होवै तो मनुष्य कल्पपर्यंत वचता है ॥ ७९ ॥ मेषके अंत्यांश लग्नमें गुरु अथवा शुक्र होंवें चंद्रमा वृषके वा धनके मध्यमांशमें होवै अथवा मंगल सिंहासनांशमें होवै तो मनुष्य मंत्रबलसे असंख्य वर्षपर्यंत वचता है ॥ ८० ॥ सूर्य बुधसहित स्थिरराशियोंमें चंद्रमा वृषका शुक्र मिथुनका गुरु कर्कटका लग्नमें शनि तुलाका होवै तो मुनितुल्य होवै ॥ ८१ ॥

देवलोकांशके चंद्रे भौमे पारावतांशके ॥ सिंहासने रवौ लग्ने  
जातो मुनिसमो भवेत् ॥ ८२ ॥ मेषलग्ने रवौ माने जीवे स्वोच्च-  
समन्विते ॥ त्रिषंडायगते पापे जातो मुनिसमो भवेत् ॥ ८३ ॥  
चिन्तामणौ मया प्रोक्तं संख्यायुश्च मनीषिणाम् ॥ यदुक्तं पूर्वकैः  
सर्वं तत्तदेव मयाधुना ॥ ८४ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणावायुस्संख्यानिरूपणो नाम

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

चंद्रमा देवलोकांशकमें मंगल पारावतांशमें सूर्यसिंहासनांशमें लग्नगत होवै तो मनुष्य मुनि तुल्य होवै ॥ ८२ ॥ मेष लग्न सूर्य दशम बृहस्पति उच्चका और ३ । ६ । ११ । भावोंमें पापग्रह होंवें तो मनुष्य मुनितुल्य होवै ॥ ८३ ॥ जो यहां आयुसंख्या कही है यह विद्वानोंके तुष्ट्यर्थ जो पूर्वाचार्योंने कही है वही समस्त में यहाँ कही है ॥ ८४ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभापाटीकायामायुस्संख्यानि-

रूपणाध्यायो द्वादशः ॥ १२ ॥

## त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

अथ दीप्ताद्यवस्थाफलंविचाराध्यायः ।

दशानुरोधेन फलं वदन्ति मुनीश्वरा जातशुभाशुभं तत् ॥ सारं  
समुद्धृत्य तदेव वक्ष्ये भेदं यथा विस्तरतो दशानाम् ॥ १ ॥ दीप्तः  
स्वस्थस्तु मुदितः शांतो हीनोतिदुःखितः ॥ विकलश्च खलः  
कोपी नवधा खेचरो भवेत् ॥ २ ॥ उच्चस्थः खेचरो दीप्तः स्वस्थः  
स्वक्षेत्रमित्रभे ॥ मुदितो मित्रभे शांतस्त्वपरो हीन उच्यते ॥ ३ ॥  
शत्रुभे दुःखसंयुक्तो विकलः पापसंयुतः ॥ खलः पराजितो ज्ञेयः  
कोपी स्यादर्कसंयुतः ॥ ४ ॥ पृथक्पृथक् फलं तेषां दशाकाल-  
विशेषतः ॥ तत्र नामानुरोधेन परिपाके वदन्ति हि ॥ ५ ॥

अब दशाफलके लिये दीप्तादि अवस्था कहतेहैं कि मुनीश्वर दशाके अनुरोधसे शुभाशुभ  
फल कहतेहैं उनमें सार लेकर विस्तारसे यहां वही विचार कहताहूं ॥ १ ॥ दीप्त १,  
स्वस्थ २, मुदित ३, शांत ४, हीन ५, अतिदुःखित ६, विकल ७, खल ८, कोपी ९,  
ऐसे नौ मकार यह होते हैं ॥ २ ॥ अब इनके लक्षण कहते हैं ॥ उच्चस्थित ग्रह दीप्त १,  
अपनी राशिमें स्वस्थ २, मुदित ३, शुभराशिगत शुभयुत शांत ४, नीच राशिमें हीन ५,  
॥ ३ ॥ शत्रुराशिमें दुःखी ६, पापयुक्त विकल ७, युद्धमें पराजित खल ८, सूर्ययुक्त  
अस्तंगत कोपी ९ ॥ ४ ॥ इनके पृथक् फल विशेषकरके दशासमयमें नामके गुणानुसार  
परिणाममें कहते हैं ॥ ५ ॥

पाके प्रदीप्तस्य धराधिपत्यमुत्साहशौर्यं धनवाहनं च ॥ स्त्रीपुत्र-  
लाभं सुखबंधुपूजे क्षितीश्वरान्मानमुपैति विद्याम् ॥ ६ ॥ स्वस्थस्य  
खेटस्य दशाविपाके स्वास्थ्यं नृपाल्लब्धधनादिसौख्यम् ॥ विद्या-  
यशः प्रीतिमहत्त्वतां च दारार्थभूम्यात्मजधर्ममेति ॥ ७ ॥ मुदा-  
न्वितस्यापि दशाविपाके वस्त्रादिभूगंधसुतार्थधैर्यम् ॥ पुराणधर्म-  
श्रवणादिगानदानादियानांवरभूषणात्तिम् ॥ ८ ॥

दीप्तादियोंके पृथक् फल कहतेहैं प्रदीप्त ग्रहके दशामें राजत्व, उत्साह, शौर्य ( वीरता ),  
धन, वाहन, स्त्रीपुत्र लाभ, सुख, बंधु वर्गमें सम्मान, विद्या और राजासे सम्मान मिलतेहैं

॥ ६ ॥ स्वस्थ ग्रहकी दशममें आराम मिले, राजासे मिले धनादिका मुख, विद्या, यश, मसनता, बढप्पन, स्त्री, धन, भूमि, पुत्र और धर्म मिलतेहै ॥ ७ ॥ मुदितावस्थावाले ग्रहकी दशममें वल्लादि, भूमि, सुगंधि वस्तु, पुत्र, धन, धैर्य, पुराणधर्म सुनना आदि, गायन, दान, सवारी, वस्त्र, भूषणादि मिलतेहै ॥ ८ ॥

दशाविपाके सुखधैर्यमेति शांतस्य भूपुत्रकलत्रयानम् ॥ विद्या-  
विनोदान्वितधर्मशास्त्रं बह्वर्थदेशाधिपपूज्यतां च ॥ ९ ॥ स्थान-  
च्युतिं बंधुविरोधितां च हीनस्य खेटस्य दशाविपाके ॥ जीवत्यसौ  
कुत्सितहीनवृत्त्या त्यक्तो जनै रोगनिपीडितः स्यात् ॥ १० ॥  
दुःखान्वितस्यापि दशाविपाके नानाविधं दुःखमुपैति नित्यम् ॥  
विदेशगो बंधुजनैर्विहीनश्चौरादिभूपैर्भयमाभिशस्तः ॥ ११ ॥

आत ग्रहकी दशममें सुख, धैर्य, भूमि, पुत्र, स्त्री, वाहन, विद्या, चर्चायुक्त, धर्मशास्त्र-  
बाध, बहुत मकार प्रयोजनसिद्धि, और राजासे पूज्यता मिलती है ॥ ९ ॥ हीनग्रहकी दशममें  
स्थानहानि, बंधुविरोध होते हैं तथा निध और हीन वृत्तिसे आजीवन मिलताहै अपने मनु-  
ष्योसे त्यक्त और रोगपीडित रहताहै ॥ १० ॥ दुःखयुक्तकी दशममें अनेक प्रकारके दुःख  
नित्य मिलते हैं विदेशगमन बंधुजनसे हीन नर रहे चौर आदि वा राजासे भय एवं अप-  
वाद पावे ॥ ११ ॥

वैकल्यखेटस्य दशाविपाके वैकल्यमायाति मनोविकारम् ॥  
पित्रादिकानां मरणं विशेषात्स्त्रीपुत्रयानांबरचोरपीडाम् ॥ १२ ॥  
दशाविपाके कलहं वियोगं खलस्य खेटस्य पितुर्वियोगम् ॥  
शत्रुं जनानां धनभूमिनाशमुपैति नित्यं स्वजनैश्च रनिंदाम् ॥ १३ ॥  
कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पापं समायाति बहुप्रकारैः ॥  
विद्यायशःस्त्रीधनभूमिनाशं राज्ञां च वित्तं हरतेऽत्र योगी ॥ १४ ॥

विकल ग्रहकी दशममें विकलता मनमें विकार पिता आदिशोका मरण स्त्री पुत्र वाहन  
हानि चोरसे पीडा मिले ॥ १२ ॥ खलग्रहकी दशममें कलह, अपने मनुष्योका वियोग  
पिताका वियोग अनेक शत्रु, धन भूमिका नाश और अपने मनुष्योसे निन्दा मिले ॥ १३ ॥  
कोपयुक्तकी दशममें बहुत प्रकारसे पाप आताहै विद्या यश स्त्री धन भूमिका नाश राजासे वित्त-  
हरण यदा राजाओंकाभी धन योगी हरण करे ॥ १४ ॥ इति दीप्तादिग्रहकलत्रविचारः ॥



अथ दशाफलानि ।

भानोर्दशायां परमोच्चगस्य भूम्यर्थदारात्मजकीर्तिसौख्यम् ॥  
समाननं भूमिपतेः सकाशादुपैति संचारविनोदगोष्ठीम् ॥ १ ॥  
उच्चान्वितस्यापि रवेर्दशायां गोवृद्धिधान्यार्थपरिभ्रमं च ॥ संचा-  
र्युग्बंधुजनैर्विरोधं देशाद्विदेशं चरति प्रकोपात् ॥ २ ॥ प्रच-  
ण्डवेश्यागमनं क्षितीशादुपैति वृत्तिरतिकेलिमानम् ॥ मृदंगभेरी-  
रवयुक्तयानमन्योन्यवैरं लभते मनुष्यः ॥ ३ ॥ आरौहिणी  
वासरनायकस्य दशा महत्त्वं कुरुतेतिसौख्यम् ॥ परोपकारं सुत-  
दारभूमिगोवाजिमातंगकृपिक्रियादीन् ॥ ४ ॥

उच्चराशिके परमांश १० अंशपर सूर्य होवै तो उसकी दशमें भूमि, धन, स्त्री, कीर्ति, शौर्य राजासे सम्मान और टहलने घूमने आदि शुभ संचार (सगल) मंत्रणाकी गोष्ठी (सभा) मवेश इतने मिलतेहैं ॥ १ ॥ केवल उच्चराशिमात्रमें होवै तो उसकी दशमें गौकी वृद्धि-अन्नधन भ्रम गमागमादि होवै इधर उधर फिरना पड़े बंधु जनोंसे विरोध होवै कोपसे एकदेशसे दूसरे देशको चला जाताहै ॥ २ ॥ दुष्ट वेदयाका गमन होवै राजासे आजीवन मिले कामक्रीडा तथा मान मिले, मृदंग तुरही आदि बाने जिसके आगे बजते हों ऐसी सवारी मिले आपुसमें परस्पर वैरभी मनुष्य पाताहै ॥ ३ ॥ यदि सूर्य (आरोही) उच्चमें चढ़रहा होवै तो उसकी दशमें बडप्पन मिलताहै सुख बहुत करताहै दूसरेका उपकार होताहै पुत्र स्त्री भूमि गौ घोडा हाती और कृषि कर्म-दुर्लभ्यिको बुद्धि ॥ ४ ॥

दशावरोहादिननायकस्य कृपिक्रिया वित्तगृहेष्टनाशम् ॥ चोरा-  
ग्निपीडां कलहं विरोधं नरेशकोपं कुरुते विदेशम् ॥ ५ ॥  
नीचस्थितस्यापि रवेर्विपाके मानार्थनाशं क्षितिपालकोपात् ॥  
स्वबंधुनाशं सुतामित्रदारैः पित्रादिकानामपकीर्तिमेति ॥ ६ ॥  
अत्यंतनीचान्वितसूर्यदाये विपत्तिमाप्नोति गृहच्युतिं च ॥  
विदेशयानं मरणं गुरुणां स्त्रीपुत्रगोभूमिकृपेर्विनाशम् ॥ ७ ॥

सूर्यकी दशा (अवरोही) उच्चसे उतरकर नीचमें जानेवालीमें कृषिकर्म अन्न, धन, धर, मियवस्तुका नाश करतीह चोरकी अग्निकी पीडा कलह वैर राजकोप और विदेशगमन करतीहै ॥ ५ ॥ नीच राशिगत सूर्यकी दशमें राजकोपसे मान एवं धनका न बंधु-

का नाश, पुत्र, मित्र, स्त्रीसे हानि, पिता आदियोंकी अपकीर्ति पाताहै ॥ ६ ॥ अत्यंत नीच तुल्यके १० अंश पर स्थित सूर्यकी दशममें विपत्ति पाताहै घरबार छूट जाताहै विदेश गमन पिताआदि गुरुजनोंका मरण और स्त्री, पुत्र, गौ, भूमि, कृषिका नाश होताहै ॥ ७ ॥

मूलत्रिकोणस्थरवेर्विपाके क्षेत्रार्थद्वारात्मजबंधुसौख्यम् ॥ राजा-  
श्रयं गोभनमित्रलाभं स्वस्थानयानादिकमेति राज्यम् ॥ ८ ॥  
स्वक्षेत्रगस्यापि रवेर्दशायां स्वबंधुसौख्यं कृपिवित्तकीर्तिम् ॥  
विद्यायशःप्रार्थितराजपूजां स्वभूमिलाभं समुपैति विद्याम् ॥ ९ ॥

अपने मूलत्रिकोणमें स्थित सूर्यकी दशममें खेतों, धन स्त्री, पुत्र, बंधुसे सुख राजाका आश्रय गौ, धन, मित्र, अपनास्थान वाहनादि और स्वकुलानुमान राज्य पाताहै ॥ ८ ॥ अपने अंग्रगत सूर्यकी दशममें अपने बंधुजनोंसे सौख्य कृषि, धन, कीर्ति, विद्या, यश, मागी हुई गजासे पूजा अपनी भूमि एवं विद्याको पाताहै ॥ ९ ॥

दशाविपाके ह्यधिशत्रुगस्य रवेः प्रनष्टार्थकलत्रपुत्रः ॥ गोमित्र-  
पित्रादिशरीरकष्टं शत्रुत्वमायाति जनैः समंतात् ॥ १० ॥ सप्त-  
त्तराशिस्थितसूर्यदाये दुःखी परिभ्रष्टसुतार्थदारः ॥ नृपाग्निचौरे-  
र्विपदं विवादं पित्रोर्विरोधं च दशांतमेति ॥ ११ ॥

अधिशत्रु राशिगतं सूर्यकी दशममें धन, स्त्री, पुत्र नष्ट होवै गौ, मित्र, पिता आदिके शरीरमें कष्ट होवै सभी ओरसे मनुष्योंके साथ शत्रुता होवै ॥ १० ॥ शत्रु राशिगत सूर्यकी दशममें दुःखी रहे पुत्र, धन, स्त्री नष्ट होवै राजा, अल्प, भ्रष्ट सुतार्थदार विवाद होवै इस दशममें माता पितासे विरोध पावै ॥ ११ ॥

स्वमित्रराशिस्थितसूर्यदाये स्वभृत्यपित्रात्मजराजपूजाम् ॥ स्वगो-  
हवासं स्वजनस्य संगं यानादिभूषांबरताम्रलाभम् ॥ १२ ॥  
अत्यंतमित्रक्षंगतस्य भानोर्दशाविपाके ह्यतिसौख्यमेति ॥ स्त्री-  
पुत्रधान्यार्थमनोविलासरथादियानांवरभूषणानि ॥ १३ ॥

मित्रराशिगत सूर्यदशा

का संग ।

सूर्यकी द

श्री मित्र

पिता पुत्र राजासे सम्मान पूजा मिले अपने घरमें दि तथा भूषण तांबेका लाभ होवै ॥ १२ ॥

स्त्री

धन, मनका विलास रथ आदि

समक्षगस्यापि रवेर्दशायां समंजनैः स्यात्कृषिभूमिधान्यम् ॥  
 गोवाजियानांवरदेहसौख्यं स्त्रीपुत्रदोषं रणपीडितः स्यात् ॥१४॥  
 नीचान्वितस्यापि रवेर्दशायां नीचानुवृत्त्या कुनखी कुशीलः ॥  
 स्त्रीपुत्रधान्यार्थपशुक्रियादिमनोविकारं समुपैति हेयम् ॥ १५ ॥  
 उच्चान्वितस्यापि रवेर्दशायां मनोभिलापं लभते स्ववृत्त्या ॥  
 तीर्थाभिषेकं हरिकीर्तनं च प्राकारकूपादिपुराणशास्त्रम् ॥ १६ ॥

सम ग्रहके राशिगत सूर्यकी दशामें मनुष्योंके साथ समता रहे कृषि, भूमि, अन्न, गौ, घोडे, सवारी, वस्त्र मिलें शरीर सुख मिले स्त्रीपुत्रोको दोष उत्पन्न होवै रणसे पीडित रहे ॥ १४ ॥ नीचगत ग्रहसे युक्त सूर्यकी दशामें नीचवृत्तिसे आनीवन होवै कुनखी होवै दुष्टस्वभाव रहे स्त्री, पुत्र, अन्न, धन पशुक्रिया आदिमें मनोविकार रहे इनका त्याग होवै ॥ १५ ॥ उच्चगत ग्रह-युक्त सूर्यका दशामें अपनी वृत्तिसे मनोभिलाप पावै तीर्थस्नान मिले हरिका कीर्तनभी होवै परिखा कूप आदिका बनाना पुराण शास्त्रकी चर्चा मिलै ॥ १६ ॥

पापान्वितस्य द्युमणेर्दशायां नित्यं मनः क्लिश्यति देयबुद्ध्या ॥  
 कुभोजनं कुत्सितवस्त्रपाने कुशीलवृत्त्या त्वधनं कृशत्वम् ॥१७॥  
 दिनाधिनाथस्य शुभान्वितस्य पाके सुखं भूमिधनादिवस्त्रम् ॥  
 इष्टैर्विलासं स्वजनैः समाजं कल्याणवाग्जालविनोदगोष्ठीम् ॥१८॥

पापयुक्त सूर्यकी दशामे बहुत व्ययकी बुद्धि यद्वा त्यागबुद्धीसे सर्वदा मनमें क्लेश रहै कुभो-जन कदन्न आदि कुवस्त्र आदि निषिद्धपान मिलें दुष्टशील दुष्टवृत्तिसे निर्दमता और कृशत्व होवै ॥ १७ ॥ शुभयुक्त सूर्यकी दशामें सुख मिले भूमि धन वस्त्रादि मिलें मनोनुकूल मनुष्योंसे विलास अपने मनुष्योंका समाज भंगल वाणीवाणीके जालके विनोद और सम्भत्त्व मिले ॥ १८ ॥

करोति भानुः शुभवीक्षितश्चेद्विद्यायशःस्त्रीसुतवाग्बिलासम् ॥  
 कांतिप्रतापं रतिकेलिसौख्यं पित्रोः सुखं भूपतिमाननं च ॥१९॥  
 पापेक्षितस्यापि सहस्रभानोर्दशाविपाके परमं तु दुःखम् ॥ पित्रो-  
 र्विनाशं सुतदारकष्टं चौराग्निभूपालकृतं कृशत्वम् ॥ २० ॥

शुभ ग्रहदृष्ट सूर्यकी दशामें विद्या, यश, स्त्री, पुत्र मिले बातचीतमें विलास होवै कांतिबडे मताप बडे कामकीडाका सुख मिले ॥ १९ ॥ पापदृष्ट सूर्यकी दशामें परमदुःख मिले मातापिताका विनाश स्त्री पुत्र कष्ट चोरसे अग्निसे भय रानासे भय मिले और शरीरमें कृशता आवै ॥ २० ॥

केन्द्रान्वितस्यापि दिवाकरस्य दशाविपाके नृपदंडमुग्रम् ॥  
स्थानच्युतिं बंधुवियोगमेति भंगः कृपेर्वित्तपरिभ्रमं च ॥ २१ ॥  
त्रिकोणसंयुक्तरवेर्दशायां बुद्धिभ्रमं राजविमाननं च ॥ सौख्या-  
दिहानिं निधनं पितुश्च कर्मादिवैकल्यमुपैति काले ॥ २२ ॥

केन्द्रगत सूर्यकी दशामें राजासे दण्ड पावै दुःख मिले स्थान छूटे बंधुका वियोग होवै कृपि भंग होवै धनमें गडबडी होवै ॥ २१ ॥ त्रिकोणमें स्थित सूर्यकी दशामे बुद्धिभ्रम होवै राजासे अपमान मिले सुखादिकी हानि पिताका मरण कार्यादियोगमें विकलता रहै ॥ २२ ॥

उच्चांशकस्य च दशा विदधाति वृत्तिं नित्यं प्रतापजनितां महतीं  
श्रियं च ॥ नानाविनोदललितं रतिकेलिसौख्यं स्त्री वस्त्रलाभ-  
मनिशं पितृवर्गनाशम् ॥ २३ ॥ नीचांशयुक्तस्य रवेर्दशायां भा-  
र्याथभूहानिविदेशयानम् ॥ त्यक्तो जनैर्बधुविकृत्सितस्तु मनो-  
विकारं ज्वरमेहरोगम् ॥ २४ ॥

उच्चांशगत सूर्यकी दशा नित्य अपने प्रताप ( पराक्रम ) से जीतीहुई वृत्ति बडी शोभा वा लक्ष्मीभी देतीहै नानाप्रकारके रमणीय खेल काम क्रीडाका सुख स्त्रीलाभ वस्त्रलाभ नित्य होवै पितृवर्ग ( पितृ पितृव्यादिक ) का नाश होवै ॥ २३ ॥ नीचांशगत सूर्यकी दशामे स्त्री, धन भूमि की हानि विदेशगमन होवै अपने मनुष्योंसे त्यक्त रहे बंधुजनोसे निंदा पावै मनमें विकार रहे ज्वर प्रमेह रोग रहै ॥ २४ ॥

आदौ सूर्यदशायां दुःखं पितुरोगकृत्क्षयश्चाधिः ॥ मध्ये पशु-  
धनहानिश्चकृते विद्यां महत्त्वञ्च ॥ २५ ॥ दशाविपाके धनहानि-  
मेति पृष्ठस्थभानोरतिदुःखजालम् ॥ गुल्मक्षयोद्भूतपवित्ररोगं  
मूत्रादिकृच्छं त्वथ वा प्रमेहम् ॥ २६ ॥ रन्ध्रस्थभानोरपि वा द-  
शायां देहस्य कष्टं त्वथ वाग्निभीतिम् ॥ चातुर्थिके नेत्रविकारकासं  
ज्वरातिसारं स्वपदच्युतिं च ॥ २७ ॥

समुच्चय फल है कि सूर्यकी दशाके आदिमें दुःख पिताको रोगसे उत्पन्न क्षय एव मानसी व्यथा होतीहै मध्यमें पशुधन हानि और अंत्यमें विद्या तथा बडप्पन मिलतीहै ॥ २५ ॥ छठें भावमें स्थित सूर्यकी दशामें धनहानि अति दुःखोंका जाल गुल्म क्षय से उत्पन्न अतिसार रोग मूत्रकृच्छ आदि अथवा प्रमेहरोग होताहै ॥ २६ ॥ अष्टमभावगत सूर्यकी दशामें शरीरका कष्ट अथवा अग्निभय चौथिया ज्वरनेत्रविकार कामज्वरसहित अतिसार और अपने पदकी हानि भी पाताहै ॥ २७ ॥

भानोर्द्वादशगस्य चेद्यदि दशा क्लेशार्थहानिं कृशं स्त्रीबंध्वात्मज-  
भूमिनाशमथ वा पित्रोर्विनाशं कलिम् ॥ स्थानात्स्थानपरिभ्रमं  
विपकृतं राज्ञो भयं पादरुग्विद्यावादविनोदगोष्ठिकलहं गोवाजि-  
संपीडनम् ॥ २८ ॥

द्वादशगत सूर्यकी दशामें क्लेश धनहानि, कृशता, स्त्री, बंधु, पुत्र, भूमिका नाश अथवा  
माता पिताकी हानि कलह एकजगहसे दूसरे जगह भ्रमण जहरसे भय राजासे भय पैरोमें रोग  
विद्याके शास्त्रार्थकी विनोदसभामें कलह गौ हाथीसे पीडा मिले ॥ २८ ॥

पुत्रोत्पत्तिविपत्तिमत्र कुरुते भानोर्धनस्थस्य वा क्लेशं बंधुवियोग-  
दुःखकलहं वाग्दूषणं क्रोधनम् ॥ स्त्रीनाशं धननाशनं नृपभयं  
भूपुत्रयांनावंरं सर्वं नाशमुपैति तत्र शुभयुग्वाच्यं न चैतत्फलम्  
॥ २९ ॥ भानोर्विक्रमयुक्तस्य दशा धैर्यं महत्सुखम् ॥ नृपमानन-  
मर्थाप्तिं भ्रातृवैरविपत्तया ॥ ३० ॥

द्वितीयस्थानगत सूर्यकी दशामें पुत्रकी उत्पत्ति और पुत्रहानिभी होतीहै क्लेश बंधुजनवियोग  
दुःख कलह वाणीका दूषण क्रोध पाँव स्त्रीनाश धननाश राजासे भय भूमि, पुत्र, सवारी,  
वस्त्र सब नष्ट होतेहैं यदि तहां शुभयुक्त होवै तो यह फल न कहना पूर्वोक्त शुभयुक्तका ही  
फल मंचल रहताहै ॥ २९ ॥ तीसरे सूर्यकी दशामें धैर्य बड़ा सुख राजमान धनागम  
होतेहैं तथा भाईयोंसे वैर और उनकी विपत्तिभी होतीहै ॥ ३० ॥

सुखस्थितस्यापि रवेर्दशायां भोगार्थभूभृत्यकलत्रहानिम् ॥  
क्षेत्रादिनाशं स्वपदच्युतिं वा यानच्युतिं चोरविपाप्तिभीतिम्  
॥ ३१ ॥ दारान्वितस्यापि रवेर्दशायां कलत्ररोगं त्वथ वा मृतिं च ॥  
कुभोजनं कुत्सितपाकजातं क्षीरादिदध्याज्यविहीनमन्नम् ॥ ३२ ॥  
कर्मस्थितस्यापि रवेर्दशायां राज्यार्थलाभं समुपैति धैर्यम् ॥  
उद्योगसिद्धिं यशसा समेतं जयं विवादे नृपमाननं च ॥ ३३ ॥

चतुर्थस्थित सूर्यकी दशामें भोगपदार्थ भूमि, धन, भृत्य, स्त्रीकी हानि खेती आदिका नाश  
अग्ने अग्ने अधिकारसे गिरना अथवा सवारीसे गिरना चोर विप अग्निकी भय इतने फल  
होतेहैं ॥ ३१ ॥ सनमगत सूर्यकी दशामें स्त्रीको रोग अथवा मरणभी मारक दारहा यह  
संबंधमें होताहै तथा कुभोजन(निकरुम्मे पत्राये स्वाद राहित और दही घृतसे हीन)मिट्टे ॥ ३२ ॥

दशम सूर्यकी दशमें राज्यलाभ धनलाभ होवै धैर्य मिले उद्यम सफल यशसहित होवै  
विवादाने जय राजासे मान मिले ॥ ३३ ॥

आयस्थितस्यापि दशाविपाके भानोर्धनातिं शुभकर्मलाभम् ॥

उद्योगसिद्धिं सुतदारसौख्यं यानादिभूपांबरदेहसौख्यम् ॥ ३४ ॥

संज्ञाध्याये यस्य यद्भव्यमुक्तं कर्माजीवे यस्य यच्चोपदिष्टम् ॥

भावस्थानालोकयोगोद्भवं च तत्तत्सर्वं तस्य योज्यं दशायाम् ॥ ३५ ॥

ग्यारहवें सूर्यकी दशमें धनप्राप्ति अच्छे कार्यका लाभ उद्यम सफल खी पुत्र सुख वाहन  
आदि तथा भूषण वस्त्र लाभ शरीर सुख मिळतेहैं ॥ ३४ ॥ अन्य फलके लिये कहतेहैं कि  
संज्ञाध्यायमे जिसग्रहका जो द्रव्य कहाहै तथा कर्माजीवोमें जिस ग्रहकी जिस प्रकार आजी-  
विका कहाहै उन्ही फलोंको भावमें स्थान दीर्य दृष्टि योगके कारणसे उसी प्रकार सब फल  
उसकी दशमें लगाना ॥ ३५ ॥

सूर्ये स्थानबलाधिके कृषिधनं गोभूमियानांबरं सौख्यं राजसु-

माननं परधनैः संयुज्यते कांतिमान् ॥ तत्पाके शयनांबरादि ल-

भते सर्वोपकारं महाकीर्तिं भूषणमिष्टबंधुसहितं तीर्थाभिषेकं

महत् ॥ ३६ ॥ रवौ यदा स्थानबलेन हीने तत्पाककाले बल-

मर्थनाशम् ॥ स्थानच्युतिं बंधुविरोधतापं देशाद्विदेशं समुपैति

दुःखम् ॥ ३७ ॥

स्थानबलाधिक सूर्यकी दशमें खेती बारी धन, गौ, भूमि सवारी, वस्त्रोंका सुख मिले  
राजासे सन्मान मिले पराया धन मिले कांति बडे शय्या वस्त्रादि मिलें सबका उपकार होवै  
बडी कीर्ति होवै भूषण मिले इष्ट मित्र सहित चडे तीर्थोंका स्नान मिले ॥ ३६ ॥ स्थान  
बलसे रहित सूर्य होवै तो उसकी दशमें बल एवं धनका नाश होवै स्थानहानि बंधुजन  
विरोध संताप देशसे विदेश गमन और दुःख पाताहै ॥ ३७ ॥

दिग्धीर्ययुक्ते दिवसेश्वरे तु दिगंतराकांतधनोपि सौख्यम् ॥ तत्त-

द्दिशः प्राप्तयशोर्थभूमिनोचेत्तथा तादृशमत्र नास्ति ॥ ३८ ॥

तत्कालमानात्तनुते वलिष्टे रवौ विपाके कृषिभूमिवित्ते ॥ उद्यो-

गसिद्धिं नृपमाननं च हीने रवौ कालबलेन नाशम् ॥ ३९ ॥

दिग्बलयुक्त सूर्यकी दशमें इतना धनवान् होवै कि धनसे दिगंतभी दबनावै सुखभी  
होवै उन्ही उन्ही दिशाओंसे प्राप्त यश, धन, भूमि मिलें यदि दिग्बली न होवै तो अन्य

बड़ी होनेमें ऐसा फल नहीं मिलता ॥ ३८ ॥ सूर्यकाळ बलीके दशमें खतीके कृत्यमें लाभ भूमि धन लाभ उद्यम सफल रानासे मान मिळे सूर्यकाळ बलरहित होवै तो उक्त वस्तुओंका नाश होवै ॥ ३९ ॥

निसर्गतः सर्वमुपैति काले रवौ तु नैसर्गिकवीर्ययुक्ते ॥ यानार्थ-  
भूषांवरदेहसौख्यं हीने रवौ चोरनृपाग्निभीतिम् ॥ ४० ॥ रवौ तु  
चेष्टाधिकवीर्ययुक्ते स्वचेष्टितार्थागममेति सौख्यम् ॥ नृपस्य  
मानं सुतदारसौख्यं कृष्यादियानं न च हीनचेष्टे ॥ ४१ ॥ रवौ  
खगानां बलदृष्टियुक्ते त्वंचितयित्वा सकलं च सौख्यम् ॥ तज्जा-  
यते तत्परिपाककाले तेनैव हीने सकलं विनाशम् ॥ ४२ ॥

नैसर्गिक बली सूर्यकी दशमें वाहन, धन, भूषण, वस्त्र, देहसौख्य समयपर स्वाभा-  
विकहो मिल जातेहैं इस बलसे हीन होवै तो चोर राना और अग्निकी भय होवै ॥ ४० ॥  
चेष्टा बली सूर्यकी दशमें अपनी चेष्टा ( क्रियाविशेष ) से धन आवै सुख मिळे रानासे मान मिळे  
पुत्र कलत्र कृषि आदि तथा वाहन लाभ होवै, चेष्टा बलहीन होवैतो ऐसे फल न होंगे बलके  
विपरीत होंगे ॥ ४१ ॥ सूर्य दृष्टि बलसे युक्त होवै तो विना विचार हुये भी समस्त सुख मिळें  
दृष्टि बलहीन होवै तो सब सुख नष्ट होवै ॥ ४२ ॥

क्रूरादिपष्ट्यंशरवेर्दशायां स्थानच्युतिं वा नृपचौरभीतिम् ॥ कोपा-  
धिकं तत्र शिरोरुजं च पित्रादिनाशं त्वथ वा तदीयम् ॥ ४३ ॥  
मृदंशपष्ट्यंशरवेर्दशायां मृदंशपादत्ररभूषणातिम् ॥ नामद्वयं  
राजसुपूज्यतां च वेदांतशास्त्रागमधर्मशास्त्रम् ॥ ४४ ॥ पारावता-  
द्यंशयुतस्य भानोर्दशाविपाके महतीं च कीर्तिम् ॥ वंध्वर्थदेशा-  
धिपमाननं च पुत्रादिसन्मित्रकलत्रलाभम् ॥ ४५ ॥

क्रूर पष्ट्यंशगत सूर्यकी दशमें स्थानहानि वा राभा अथवा चौरकी भय होवै गुस्सा अधिक  
होवै शिरमें रोग होवै अथवा उसके पिता आदिका नाश होवै ॥ ४३ ॥ मृदंश पष्ट्यंशगत  
सूर्यकी दशमें मृदंशेश महानुरूप वस्त्र भूषण मिळें दो नाम अर्थात् दूसरा उपाधिनाम यद्वा  
अधिकारी नाम मिळे रानासे पूज्यता मिळे वेदांत वेद धर्मशास्त्रका ज्ञान मिळै ॥ ४४ ॥ सूर्य  
पारावतादि अंशकमें होवै तो उसकी दशमें बड़ी किर्ति मिळे बंधुशुद्धि धनागम रानासे मान  
पुत्रादिलाभ अच्छे मित्र अच्छी स्त्रीका लाभ होवै ॥ ४५ ॥

स्वोच्चादिजन्यं फलमाहुरादौ पश्चात्फलं खेचरदृष्टिजन्यम् ॥ मध्ये  
फलं स्थानभवं तथैव पापग्रहाणामिह योजयन्ति ॥ ४६ ॥ भु-

जंगमत्र्यंशयुतस्य भानोर्दशाविपाके हि भयं विपाद्रा ॥ नृपाग्निपा-  
तित्यमनेकदुःखं पाशादिभृत्यंशयुतस्य चैवम् ॥ ४७ ॥ स्वोच्च-  
स्थोपि दिनेशो नीचांशे चेत्कलत्रधनहानिः ॥ स्वकुलजबंधुविरो-  
धः पित्रादीनां तथैव मुनिवाक्यम् ॥ ४८ ॥ उच्चांशकयुतो भानु-  
नीचस्थोपि महत्सुखम् ॥ करोति राज्यभारं च दशाति विपदं  
कृशाम् ॥ ४९ ॥ इति रविदशाफलानि ॥

जहां दशेश सूर्य या कोई ग्रह उच्चादिभे हो तथा ग्रहदृष्टि बलयुक्त भी हो तो प्रथम उच्चादिफल मचल होगा तब दृष्टि आदिका होगा बीचमे स्थानफल होगा ऐसे प्रकारसे पापग्रहोंके फलकी विधि लगातेहैं ॥ ४६ ॥ सर्वद्रेष्काणगत सूर्यकी दशामे विपसे अथवा राजसे आग्निसे पतित होनेसे अनेक दुःख मिलतेहैं, पाशभृत् द्रेष्काणगत सूर्यकी दशामें भी ऐसेही फल होतेहैं ॥ ४७ ॥ सूर्य उच्चराशिका भी नीचांशकमें होवै तो स्त्रीकी तथा धनकी हानि करताहै तथा अपने कुलोत्पन्न बंधुजनसे विरोध तथा पिता आदियोंकी भी विरुद्धता होवै ऐसा मुनिवाक्य है ॥ ४८ ॥ जो सूर्य उच्चांशकमें नीचराशिका भी होवै तो बड़ा सुख मिले और राजभार भी करताहै परंतु दशाके अतमें थोड़ी विपत्तिभी करताहै ॥ ४९ ॥ इति सूर्यदशाफलानि ॥

अथ चंद्रदशाफलानि ।

अत्युच्चगस्यापि निशाकरस्य दशाविपाके कुसुमांबरं च ॥ महत्त्व-  
माप्नोति कलत्रलाभं धनायतिं पुत्रमनोविलासम् ॥ १ ॥ उच्चस्थिता-  
स्यापि निशाकरस्य प्रातौ दशार्या सुतदारवित्तम् ॥ मिष्टान्नपा-  
नांबरभूषणातिं विदेशयानं स्वजनैर्विरोधम् ॥ २ ॥

परमोच्चगत चंद्रमाकी दशामें उत्तम पुष्प वस्त्र और बडप्पन स्त्री धनसंचय पुत्रमाप्ति मनके विलास मिलते है ॥ १ ॥ उच्चगत चंद्रमाकी दशामें पुत्र, स्त्री, धन, मिष्टान्न, पान, वस्त्र, भूषणोंका लाभ तथा विदेशगमन अपने मनुष्योंसे विरोध होताहै ॥ २ ॥

आरोहिणी चन्द्रदशा प्रपन्ना स्त्रीपुत्रवित्तांबरकीर्तिसौख्यम् ॥ क-  
रोति राज्यं सुखभोजनं च देवार्चनं भूसुरतर्पणं च ॥ ३ ॥ निशा-  
करस्याप्यवरोहकाले स्त्रीपुत्रमित्रांबरसौख्यहानिम् ॥ मनोविकारं  
स्वजनैर्विरोधं चौराग्निभूषैः पतनं तडागे ॥ ४ ॥ नीचांशगस्यापि



निशाकरस्य प्रातौ दशायां विविधार्थहानिम् ॥ कुभोजनं कु-  
त्सितराजसेवां मनोविकारं समुपैति निद्राम् ॥ ५ ॥

आरोही ( उच्चाभिगामी ) चन्द्रमाकी दशा स्त्री, पुत्र, धन, वस्त्र, कीर्ति, सुख, राज्य, सुखपूर्वक भोजन देतीहै देवताका पूजन ब्राह्मणोकी तृप्ति करातीहै ॥ ३ ॥ अवरोही ( उच्चसे उतरके नीचाभिगामी ) चन्द्रमाकी दशामें स्त्री, पुत्र, मित्र, वस्त्र और सुखकी हानि होती है मनमें विकार अपने मनुष्योंसे विरोध चोर अग्नि राजासे भय ताळावमें गिरना ऐसे फेळ होतेहै ॥ ४ ॥ नीचांशकगत चंद्रमाकी दशाम अनेकप्रकार अर्थहानि कुभोजन कुरानाकी सेवा मनका विकार और निद्रा पाताहै ॥ ५ ॥

मूलत्रिकोणस्थितचन्द्रदाये नृपाद्धनं भूमिसुतार्थदारान् ॥ प्रा-  
प्नोति भूषांवरमानलाभं सुखं जनन्या रतिकेलिलोलम् ॥ ६ ॥  
स्वक्षेत्रगस्यापि निशाकरस्य नृपाद्धनप्राप्तिमुपैति सौख्यम् ॥ प्र-  
चण्डवेश्यागमनं क्षितीशात्समाननं स्त्रीसुतबंधुसौख्यम् ॥ ७ ॥

मूलत्रिकोणस्थ चंद्रमाकी दशामें राजासे धन मिले भूमि, पुत्र, धन स्त्री, भूषण, वस्त्र मिल-  
तेहै माताका सुख मिलताहै तथा पूर्वोक्त दाराओंसे चंचळरति क्रीडा मिलती है ॥ ६ ॥  
अपनी राशिगत चंद्रमाकी दशामें राजासे धन मिले सुखमिले प्रचंड वेश्याका गमन होवै रा-  
जासे सन्मान मिले स्त्री पुत्र बंधुजन सुख मिले ॥ ७ ॥

निशाकरस्याप्यतिशत्रुराशिं गतस्य दाये कलहार्थनाशम् ॥ कुव-  
स्त्रतां कुत्सितभोजनं च क्षेत्रार्थदारात्मजतापमेति ॥ ८ ॥ यानां व-  
रालंकरणादिहानिं विदेशयानं परिचारकत्वम् ॥ देशांतरे गच्छति  
बन्धुहीनो दुःखी परिक्रिश्यति शत्रुदाये ॥ ९ ॥

अतिशत्रु राशिगत चंद्रमाकी दशामें कलह धनहानि कुवस्त्र निंद्य अन्न खानेको मिलतेहैं  
खेती, धन, स्त्री, पुत्रपक्षसे संताप मिलताहै ॥ ८ ॥ शत्रुराशिगत चंद्रदशामें सवारी वस्त्र  
भूषणोंकी हानि विदेशगमन परायी सेवा मिलतीहै देशांतर जाताहै बंधुसे हीन होताहै दुःखी  
होकर सब ओरसे क्लेशित रहताहै ॥ ९ ॥

मित्रक्षेत्रगस्यापि निशाकरस्य पाकेर्थलाभं क्षितिपालमैत्रीम् ॥ उ-  
द्योगसिद्धिं जलवस्तुलाभं चित्रांवराभूषणवाग्बिलासम् ॥ १० ॥ सु-  
धाकरस्याप्यतिमित्रराशिं गतस्य दाये त्वतिसौख्यमेति ॥ विद्या-  
विनोदांकितराजपूजां क्षेत्रार्थदारात्मजकामलाभम् ॥ ११ ॥

मित्रराशिगत चंद्रमाकी दशामें धनलाभ राजासे मैत्री उद्यम सफल जलोत्पन्न वस्तुका लाभ रंगविरंगे वस्त्र भूषण और वाणीका हास विलास मिलताहै ॥ १० ॥ अतिमित्र राशिगत चंद्रमाकी दशामें बड़ा सुख विद्याविनोदसे राजपूजा, सेती, धन, स्त्री, पुत्र और इच्छापूर्ति मिलतीहै ॥ ११ ॥

दशाविपाके समराशिगस्य कलानिधेः कांचनभूमिलाभम् ॥  
किंचित्सुखं बांधवरोगपीडां विदेशयानं लभते मनुष्यः ॥ १२ ॥  
नीचस्थितस्य दशया विपदं महार्तिं क्लेशार्थदुःखवनवासमुपैति  
काले ॥ कारागृहं निगडपादकृशान्नहीनो चौराग्निभूपतिभयं  
सुतदारशेषम् ॥ १३ ॥ क्षीणेन्दुपाके सुकलाविहीनो राजार्थभूपु-  
त्रकलत्रमित्रम् ॥ उन्मादचित्तं स्वजनैर्विरोधमृणत्वमायाति कु-  
शालवृत्त्या ॥ १४ ॥

समराशिगत चंद्रमाकी दशामें सुवर्णभूमि लाभ थोड़ा सुख बांधवोंको रोगपीडा विदेशगमन मनुष्य पावताहै ॥ १२ ॥ नीच राशिगत चंद्रमाकी दशामें विपत्ति बड़ी पीडा क्लेश वनका दुःख और किसी समयमें वनवासभी पावताहै कैद बेडी कृशता मिलतीहै अन्नहीनता चौर अग्नि राजासे भय स्त्री पुत्रकी समाप्ति होतीहै ॥ १३ ॥ क्षीण चंद्रमाकी दशामें उत्तमकलासे हीनता राज्य, धन, भूमि, पुत्र, स्त्री, मित्रोंसे हीनता चित्तमें उन्माद अपने मनुष्योंसे विरोध होतेहैं दुष्टस्वभाव दुष्टवृत्तिसे ऋण होजाताहै ॥ १४ ॥

पूर्णेन्दुपाके परिपूर्णमेति विद्याविनोदांकितराजपूजाम् ॥ स्त्रीपुत्र-  
भृत्यार्थमनोविलासं विशेषतः शोभनकर्मलाभम् ॥ १५ ॥ के-  
नापि स्वोच्चस्थवियच्चरेण युक्तस्य चंद्रस्य दशाविपाके ॥ मनः-  
प्रसादं मदनाभिरामं स्त्रीपुत्रभृत्यादिविनोदगोष्ठीम् ॥ १६ ॥

पूर्ण चंद्रमाके दशामें विद्याविनोदसे भूषित राजपूजा मिले, स्त्री, पुत्र, भृत्य, धन और मनके हासविलास मिलें शुभ कर्मोंका लाभ होवै ॥ १५ ॥ किसी उच्चराशिगत ग्रहके साथ रहते चंद्रमाकी दशामें मन मसन्न रहे कामदेवजन्य सुख मिले स्त्री पुत्र नौकर आदियोंके साथ खुसी हंसीसे बैठक होवै ॥ १६ ॥

चापान्वितस्यापि निशाकरस्य पाकेऽग्निचौरांक्षितिपालकोपैः ॥  
दुःखं सुतस्त्रीसुखबंधुहानिं विदेशयानं त्वशुभादिकर्म ॥ १७ ॥

चंद्रस्य सौम्यग्रहसंयुतस्य प्रातौ दशायां शुभकर्मलाभम् ॥ गोभू-  
हिरण्यांवरभूषणानि तीर्थाभिषेकं परदारसौख्यम् ॥ १८ ॥ पा-  
पेक्षितस्यापि निशाकरस्य दशाविपाके विफलं सुकर्म ॥ कोपा-  
धिकं कुत्सितभोजनं च मातुर्वियोगं त्वथ वा तदीयम् ॥ १९ ॥

पापयुक्त चन्द्रमाकी दशामें अग्नि चौर रात्राके कोपसे दुःख मिले पुत्र स्त्री सुख  
और बंधुजनकी हानि होवै, विदेशगमन अशुभ आदि कर्म होवै ॥ १७ ॥ शुभग्रह युक्त चन्द्र-  
माकी दशामें शुभकर्म मिले गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, भूषण मिले तीर्थस्नान मिले और परस्त्रीसे  
सुख मिले ॥ १८ ॥ पापदृष्ट चन्द्रमाकी दशामें शुभकर्म निष्फल होवै कोप अधिक रहै  
निकम्मा भोजन मिले माताका वियोग होवै ॥ १९ ॥

निशाकरस्यापि शुभेक्षितस्य परोपकारं महतीं च कीर्तिम् ॥ इ-  
ष्टार्थबंध्वागमभूपमानं जलक्रियावस्त्रमनोविलासम् ॥ २० ॥  
मूलत्रिकोणभेन्दोर्दशां प्रपन्नो नरः सुबहुकोशः ॥ बहुपुत्रवान् वि-  
नीतो बंधुविरोधं प्रधानतां याति ॥ २१ ॥ सुखस्थितस्यापि  
निशाकरस्य मातुर्वियोगं सुखयानभूमिम् ॥ कृपेर्धनातिं ग्रहकर्म-  
लाभं कीर्तिस्वनामांकितपद्यलाभम् ॥ २२ ॥

शुभग्रहदृष्ट चंद्रमाकी दशामें पराया उपकार बड़ाकीर्ति मनोवाञ्छित वस्तुलाभ बंधुजनका  
आगम राजमान और जलकर्मसे लाभ मनका विलास मिले ॥ २० ॥ मूलत्रिकोणगत चंद्र-  
माकी दशामें मनुष्य बहुत खनाना बहुत पुत्र वाला होताहै, नन्नता मिलतीहै, और बंधुविरोध  
होताहै प्रधान ( मुख्य ) ता मिलतीहै ॥ २१ ॥ चतुर्थभाषगत चंद्रमाकी दशामें माताका  
वियोग होवै सुख मिले वाहन भूमि मिले कृपिसे धन आवै घरके काममे लाभ होवै कीर्ति एवं  
अपने नामसहित पद ( खिताब ) मिले ॥ २२ ॥

दारान्वितस्यापि निशाकरस्य पाके कलत्रातिमुदाहरंति ॥ सुपु-  
त्रसौख्यं शयनांवरं च प्रमेहमूत्रादिकृशं तथाधिम् ॥ २३ ॥ क-  
र्मस्थितस्यापि दशाप्रपन्ना चंद्रस्य कीर्तिं लभते सुविद्याम् ॥  
यज्ञादिकर्मातिमनेकसौख्यं भूपुत्रयानांवरबंधुपूज्यम् ॥ २४ ॥

सप्तमचंद्रमाकी दशामें स्त्री प्राप्ति कहतेहैं सुपुत्रका सुख शय्या वस्त्र मिले प्रमेह मूत्रकृ-  
श आदि रोग तथा मानसी रोग होवै ॥ २३ ॥ दशमगत चंद्रमाकी दशामें कीर्ति उत्तमविद्या मिले  
यज्ञादि काम मिले अनेक प्रकारके सुख भूमि पुत्र वाहन वस्त्र और बंधुजन पूज्यता मिले ॥ २४ ॥

नीचांशगतस्यापि ददाति रोगं महत्तरं चेन्दोः ॥ पादाक्षिरोगपीडां युद्धेषु पराजयं गतोत्साहम् ॥ २५ ॥ उच्चांशगस्यापि दशा ददाति सौख्यं महत्तरं चेन्दोः ॥ नानाविधधनलाभं भूपतिसन्मानतां सु-  
 पुष्टिं च ॥ २६ ॥ चंद्रदशायां मादौ नरपतिसन्मानकीर्तिसौख्यं च ॥  
 मध्ये स्त्रीसुतनाशं गृहधनसौख्यांवरं चांते ॥ २७ ॥ पृष्ठस्य चं-  
 द्रस्य दशा प्रपन्ना करोति दुःखं कलहं वियोगम् ॥ चोराग्निभूपाल-  
 भयं जलेन मूत्रादिकृच्छ्रं धननाशमाहुः ॥ २८ ॥

नीचांशकगत चंद्रमाकी दशामें बड़ा रोग होता है पैर नेत्रोंमें पीडा लडाइयोंमें हार उत्साह भंग होता है ॥ २५ ॥ उच्चांशक चंद्रमाकी दशामें बड़ा सुख अनेक प्रकारके लाभ राजसन्मान शरीर पुष्टि होती है ॥ २६ ॥ चंद्रदशाके आदिमें राजसन्मान कीर्ति सुख तथा मध्यमें स्त्री पुत्र हानि अंत्यमें घर तथा धनका सुख होता है ॥ २७ ॥ छेदे चंद्रमाकी दशामें दुःख कलह वियोग चोर अग्नि रानासे भय जलसे हानि मूत्रकृच्छ्र आदि रोग और धननाश कहते हैं ॥ २८ ॥

रंध्रस्थितस्यापि दशा प्रपन्ना देहस्य काश्यं जलभीतिदुःखम् ॥  
 विदेशयानं सकलैर्विरोधं कुभोजनं मातृजनेषु कष्टम् ॥ २९ ॥  
 रिप्फगचंद्रदशायां संप्राप्तो भृतिनाशनं कुरुते ॥ राज्ञोनृतधन-  
 भाग्यं स्थानविनाशं महत्परं दुःखम् ॥ ३० ॥ चंद्रस्य वित्तस्थि-  
 तपाककाले वित्तात्मजस्त्रीसुखभोगभाग्यम् ॥ मिष्टान्नपानांवरके-  
 लिसौख्यं धनागमं पुण्यजलाभिषेकम् ॥ ३१ ॥ तृतीयराशि-  
 स्थनिशाकरस्य दशा महत्सौख्यमनेकवित्तम् ॥ मनोदृढं भ्रातृ-  
 जनादिसौख्यं कृष्यन्नपानांवरभूषणातिम् ॥ ३२ ॥

अष्टम चंद्रमाकी दशा शरीरमें कृशता जलकी भय दुःख विदेश गमन सबके साथ विरोध कुभोजन मातृजनोंको कष्ट देती है ॥ २९ ॥ अष्टम चंद्रमाकी दशा आभिवनका नाश राज-  
 दारमें झूठापन घन तथा ऐश्वर्यका नाश बड़ा और परम दुःख देती है ॥ ३० ॥ धनस्थानगत चंद्रमाकी दशामें धन, पुत्र, स्त्री सुख, भोग ऐश्वर्य तथा उत्तम अन्न, जल, वस्त्र, मिळते हैं कामकेलि सुख होता है धनका आगम पुण्यजला स्नान मिळता है ॥ ३१ ॥ तीसरे चंद्र-  
 माकी दशा बड़ा सौख्य बहुत धन मनकी दृढता भाई आदियोंका सुख कृषिकर्म अन्न, जल, भूषण, वस्त्रकी प्राप्ति करती है ॥ ३२ ॥

लाभस्थितस्यापि निशाकरस्य प्रातौ दशायां विविधार्थलाभम् ॥  
 मृद्रन्नपानांबरकेलिलोलं स्त्रीपुत्रलाभं च मनोविलासम् ॥ ३३ ॥  
 दिनेश्वरस्याहतचंद्रदाये प्राप्नोति दुःखं स्वजनैर्विरोधम् ॥  
 भार्याक्षयं भीतिनृपाग्निचैरैर्मातुर्वियोगं कृषिधान्यनाशम् ॥ ३४ ॥

लाभगत चंद्रमाकी दशमे अनेक प्रकार धनलाभ कोमल अन्न पान वस्त्र कामकेलिकी चपलता स्त्री पुत्र लाभ होवै मनमें विलास हासादि प्रसन्नता रहे ॥ ३३ ॥ सूर्यके साथ अस्तंगत चंद्रमाकी दशमे दुःख अपने मनुष्योंसे विरोध स्त्रीका क्षय राजा अग्नि चोरसे भय माताका वियोग और कृषिकर्म अन्नका नाश होवै ॥ ३४ ॥

चंद्रे स्थानबलाधिके धनसुखं कीर्तिं च विद्यागमं देवब्राह्मणत-  
 र्पणं नृपधनान्याप्नोति भूमिं धनम् ॥ स्त्रीरत्नांबरभूषणं कृषि-  
 धनं गोविक्रयं सेवनं मिष्टान्नादिरसायनं फलयुतं दध्याज्यमाल्यां  
 वरम् ॥ ३५ ॥ निशाकरे स्थानबलेन हीने स्थानार्थनाशं स्वप-  
 दच्युतिं च ॥ स्ववन्धुनाशं त्वथ वा वियोगं कृपेर्विनाशं समुपैति  
 काले ॥ ३६ ॥

चंद्रमा स्थानबलमें अधिक होवै तो उसकी दशमें कीर्ति होतीहै विद्याका आगमन देवता-  
 ओका पूजन ब्राह्मणोंकी तृप्ति राजद्वारसे धन प्राप्त होतेहैं भूमि धन स्त्री रत्न वस्त्र भूषण कृषि अन्न  
 मिलतेहैं गौका व्यापार गौकी सेवा मिष्टान्नादि रसाले पदार्थ मीठे फलैसहित तथा दही, घृत,  
 पुष्प, वस्त्र मिलतेहै ॥ ३५ ॥ स्थान बलहीन चंद्रमाकी दशमें स्थान धनका नाश अपने पदसे उतरना  
 अपने बंधुननोंका नाश अथवा उनका वियोग होताहै समयपर खेतीकाभी नाश होताहै ॥ ३६ ॥

निशाकरे दिग्बलसंयुतेस्मिन्दिगंतरादागतवस्तुचित्रम् ॥ विद्यागमं  
 भूपतिमित्रतां च स्ववन्धुपूज्यं गजवाजिसौख्यम् ॥ ३७ ॥ चन्द्रे  
 तथा कालबलान्वितेस्मिन् तुरंगयानं कृषिगोमहीश्च ॥ विद्या-  
 दिघोषं नखकेशदंतचर्मांबरालंकृतवाहनं च ॥ ३८ ॥ विसर्ग-  
 वीर्यान्वितचंद्रदाये निसर्गतश्चापि करोति सौख्यम् ॥ अयत्नतो  
 वाहनदेशलाभं नृपालपूज्यं बहुवाहनं च ॥ ३९ ॥

चंद्रमा दिग्बलयुक्त होवै तो उसकी दशमें देशदेशान्तरोसे अनेक प्रकारकी वस्तु आवै विद्या  
 आवै राजासे मित्रता होवै बंधुवर्गमें पूज्यता मित्रे हाथी घोडेका सुख मिले ॥ ३७ ॥  
 काष्ठबलयुक्त चंद्रमाकी दशमें घोडेकी सवारी कृषि गौ भैस मिले, विद्या आदिका प्रचार रहे,

नख, केश, दांत और चमड़ेके बने उत्तम कारीगरके वस्तुनात-वस्त्रादि और अलंकारयुक्त वाहन मिलें ॥ ३८ ॥ निसर्ग बलयुत चंद्रमाकी दशममें स्वभावहीसे सुख मिले, विनाही प्रयत्नकिये वाहन मिले देश मिले रामासे पूज्यता और बहुत वाहन मिलें ॥ ३९ ॥

चन्द्रो यदा दिग्बलवीर्ययुक्तः कृपाकटाक्षेण नरेश्वरस्य ॥ सम-  
स्तभाग्यं समुपैति सौख्यं परोपकारं च मनोभिलापम् ॥ ४० ॥

ऋरादिषष्ट्यंशसमन्वितस्य दाये शशांकस्य बहुत्वदुःखम् ॥ स्त्री-  
पुत्रनाशं क्षितिपालकोपं विद्याविवादं कलहं जनैश्च ॥ ४१ ॥

दिग्बली चंद्रमाकी दशममें राजाकी कृपादृष्टिसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिले सुख तथा पराया उपकार अपने हाथसे होवै मनोभिलाष पूर्ण होवै ॥ ४० ॥ ऋर आदि षष्ट्यंशगत चंद्रमाकी दशममें दुःख बहुतायतसे होवै स्त्री पुत्र हानि राजाका कोप विद्याका विवाद ( शास्त्रार्थ ) और लोगोंके साथ कलहभी होवै ॥ ४१ ॥

मृदंशषष्ट्यंशसमन्वितस्य चन्द्रस्य दाये बहुपुत्रलाभम् ॥ भृत्यार्थ-  
लाभं विजयं सुखं च कीर्तिं च विद्यां लभते विशेषात् ॥ ४२ ॥ पारा-  
वताद्यंशसमन्वितस्य चन्द्रस्य दाये महतीं च कीर्तिम् ॥ विद्या-  
विनोदं लभते च सौख्यं देवार्चनं पुण्यजलाभिषेकम् ॥ ४३ ॥  
ऋरद्रेष्काणसंयुक्तश्चन्द्रो दिशति रोगिताम् ॥ कार्ये पापसमायुक्तं  
गोब्राह्मणनिपीडनम् ॥ ४४ ॥ आदौ भावफलं प्रोक्तं स्थानजन्यं  
ततः परम् ॥ अंशोद्भवफलं पश्चाद्भवजातफलं तथा ॥ ४५ ॥  
इति चंद्रदशाफलम् ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ ग्रहदीप्ताद्यवस्था-सूर्यचन्द्रदशाफल-  
निरूपणो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

षष्ट्यंशमें मृदंशगत चंद्रमाकी दशममें बहुत पुत्रोंका लाभ होवै नीकर, धन, विजय, सुख, कीर्ति, विद्या विशेषसे मिलें ॥ ४२ ॥ पारावतादि अंशकगत चन्द्रमाकी दशममें बड़ी कीर्ति होवै विद्याका विनोद रहे सुख पावै देवताका पूजन पुण्यजल स्नान मिले ॥ ४३ ॥ ऋर द्रेष्काणगत चंद्रमाकी दशममें रोग होताहै, पापयुक्त कार्ये गौ ब्राह्मणको पीडा करे ॥ ४४ ॥ प्रथम भावफल तब स्थानका तब अंशका तब ग्रहयोगका फल कहै यही क्रम फल कहनेका आनना ॥ ४५ ॥ इति चंद्रदशाफलविचारः ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषाटीकायां ग्रहदीप्ताद्यवस्था-सूर्यचन्द्रदशा-  
फलनिरूपणाध्यायसप्तयोदशः ॥ १३ ॥

## चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

अथ भौमादिदशाफलविचाराध्यायः ।

अत्युच्चभूनंदनदायकाले क्षेत्रार्थलाभं समरे जयं च ॥ आधिक्य-  
मन्वेति नरेशमानं सहोदरस्त्रीसुतवाग्विलासम् ॥ १ ॥ उच्चंग-  
तस्य च दशासमये कुजस्य प्राप्नोति राज्यमथवा क्षितिपाच्चवि-  
त्तम् ॥ भूमध्यदारसुतबंधुसमागमं च यानादिरोहणविशेषविदे-  
शयानम् ॥ २ ॥ आरोहिणी भूमिसुतस्य सौख्यं दशा तनोत्यत्र  
नरेन्द्रपूज्यम् ॥ प्रधानतां धैर्यमनोभिलाषं भाग्योत्तरं गोगजवा-  
जिसंधम् ॥ ३ ॥

मंगल

उच्चराशिके पूरे उच्चांशकगत चंद्रमाकी दशामें सेती धनका लाभ युद्धमें विजय बहुत मनु-  
ष्योमें अधिकता राजासे मान मिले, भाई स्त्री पुत्रोंसे वाणीका विलास अर्थात् हंसी रुशीकी  
बातचीत होवै ॥ १ ॥ उच्चराशिगत मंगलकी दशामें राज्य अथवा राजासे धन मिले भूमि  
स्त्री, पुत्र, मित्रोंका समागम स्वारीमें चढ़ना मिले विशेषतः परदेशगमन भी होवै ॥ २ ॥  
उच्चमें चढ़तेहुये मंगलकी दशामें सुख राजपूज्यता श्रेष्ठता, धैर्य, मनोभिलाषसिद्धि, भाग्य-  
वृद्धि और गौ हाथी घोडाओंका समूह मिलेहैं ॥ ३ ॥

धरासुतस्याप्यवरोहकाले स्थानार्थनाशं कलिकोपदुःखम् ॥ वि-  
देशवासं स्वजनैर्विरोधं चौराग्निभूपैर्भयमेति कष्टम् ॥ ४ ॥  
नीचस्थितस्यापि धरासुतस्य दाये कुवृत्त्या स्वजनादिरक्षा ॥  
कुभोजनं गोगजवाजिनाशं स्वबन्धुनाशं नृपवाह्निचौरैः ॥ ५ ॥

अवरोही ( उच्चसे उतरकर नीचाभिमुख ) मंगलकी दशामें स्थान एवं धनका नाश, कलह,  
क्रोध, दुःख, परदेशवास, अपने मनुष्योंसे विरोध चोर अग्नि राजासे भय और कष्ट पाताहै  
॥ ४ ॥ नीचराशिगत भौमदशामें कुवृत्तिसे अपने कुटुंब आदिकी रक्षा करे कुत्सित भोजन  
मिले गौ, हाथी, घोडाओंकी हानि होवै अपने बंधुनोंकी हानि तथा राजा अग्नि चोरोंसे  
हानि होतीहै ॥ ५ ॥

मूलत्रिकोणस्थित भौमदाये मिष्टान्नपानांवरभूषणात्तिम् ॥ पुराण-  
धर्मश्रवणं मनोज्ञं भ्रात्रादिसौख्यं कृपिलाभमेति ॥ ६ ॥ स्वक्षे-

त्रगस्यापि धरासुतस्य दशाविपाके लभतेर्थभूमिम् ॥ स्थानाधि-  
पत्यं सुखवाहनं च नामद्वयं भ्रातृसुखं सुखातिम् ॥ ७ ॥ धरा-  
सुतस्याप्यतिशत्रुराशिं गतस्य दाये कलहादिदुःखम् ॥ नरेशकोपं  
स्वजनैर्विरोधं भूम्यर्थदारात्मजमित्ररोगम् ॥ ८ ॥

मूलत्रिकोणगत भौमकी दशमं मीठे अन्नपान वस्त्र भूषण मिलें पुराण धर्म आदि सुननेमें  
आर्वे भाई आदियोंका सुख खेतोका लाभ पावताहै ॥ ६ ॥ अपनी राशिगत भौमदशमं  
धन भूमि लाभ स्थानका आधिपत्य सुख वाहन मिले, २ नाम अर्थात् दूसरा उपाधिनाम मिले  
भाइयोंका सुख तथा अनेको सुख मिले ॥ ७ ॥ अतिशत्रुराशिगत मंगलकी दशमं कलह  
आदि दुःख मिलें राजाका कोपहोवै अपने मनुष्योंसे विरोध होवै भूमि, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र  
संबंधी क्रेश तथा कष्ट होवै ॥ ८ ॥

भूनंदनस्याप्यरिराशिस्य दशाविपाके समरे च पीडाम् ॥  
शोकाग्निभूपालविपैः प्रमादं पीडातिकृच्छ्रादिगुदाक्षिरोगम् ॥ ९ ॥  
मित्रक्षंजस्यापि कुजस्य दाये मित्रत्वमायाति सपत्नसंवैः ॥ चौरा-  
ग्निमांद्याक्षिविपादभूमिं कृपेर्विनाशं कलिकोपदुःखम् ॥ १० ॥  
कुजस्य दाये त्वतिमित्रराशिं गतस्य भूपालकृतार्थभूमिम् ॥  
वस्त्रादियज्ञादिविवाहदीक्षासुपैति देशांतरलब्धभाग्यम् ॥ ११ ॥

शत्रुराशिगत मंगलकी दशमं संग्राममें पीडा शोक, अग्नि, राना, विपसे पीडा प्रमाद अति-  
कृच्छ्रादि गुदारोग नेत्ररोग होवै ॥ ९ ॥ मित्रराशित चंद्रमाकी दशमं शत्रुसमूहसे मित्रता  
होनावै चोरभय अग्निभय दृष्टि मंदता भूमि कृपिका नाश कलह क्रोध और दुःख होवै ॥ १० ॥  
अतिमित्र राशिगत मंगलकी दशमं राजाकी कृपासे धन एवं भूमि मिले वस्त्रादि मिलें यज्ञा-  
दिकर्म होवै विवाहदीक्षा पावै देशांतरमें ऐश्वर्य मिले ॥ ११ ॥

धरासुतस्यापि समक्षंगस्य गृहोपकार्यं त्वधनप्रमाणात् ॥ स्त्री-  
पुत्रभृत्यात्मसहोदराणां शत्रुत्वमाप्नोति नृपान्निपीडाम् ॥ १२ ॥  
नीचग्रहेणापि समन्वितस्य धरासुतस्यातिमनोविकारम् ॥ प्रेष्य-  
त्ववृत्तिं परकीयमंत्रं स्त्रीपुत्रनाशं नृपवह्निचौरैः ॥ १३ ॥ किंचि-  
त्सुखं भोजनवस्त्रपानं कृच्छ्रेण वृत्तिं नृपपूजनं च ॥ उच्चांन्विते-  
नापि समन्वितस्य भौमस्य दाये सुतदारपीडा ॥ १४ ॥



सप्त राशिगत मंगलकी दशामें निर्धनताके कारण घरका उपकरण ( मरम्मत ) आदिभी न होसके, स्त्री, पुत्र, नौकर, अपने भाईयोंसे शत्रुता होवै राजा तथा अग्निसे पीडा मिले ॥ १२ ॥ नीचगत ग्रहसे युक्त भौमकी दशामें मनका विकार बहुत होवै ( प्रेष्य ) दूसरेकी चाकरोसे आजीवन होवै पराया अन्न खाना मिले स्त्रीपुत्रनाश राजा अग्नि चोरसे भय होवै ॥ १३ ॥ उच्चवर्ती ग्रहसे युक्त मंगलकी दशामें अल्पसुख भोजन वस्त्र पानमें तथा बडी कठिनतासे आजीविका होवै राजासे पूजा मिले स्त्री पुत्रोंको पीडा होवै ॥ १४ ॥

पापान्वितस्यापि कुजस्य दाये पापानि कर्माणि करोति नित्यम् ॥ देवद्विजानां च सहोदराणां कुमार्गवृत्त्या ह्यपकारणं च ॥ १५ ॥ शुभान्वितस्यापि कुजस्य दाये किञ्चित्सुखं देहकृशांगरोगम् ॥ भूपैर्विवादं समरे जयं च विद्या विवादं परदेशवासम् ॥ १६ ॥ शुभेक्षितधरासूनोर्दाये भूम्यर्थनाशनम् ॥ तस्मिन् गोचरसंयुक्ते त्वत्यंतं शोभनं भवेत् ॥ १७ ॥

पापयुक्त मंगलकी दशामें नित्य पापकर्मोंको करताहै देवता ब्राह्मण तथा भाईयोंका कुमार्गवृत्तिसे अपकार करता है ॥ १५ ॥ शुभयुक्त भौमकी दशामें अल्पसुख शरीर कृशता अंगोंमें रोग राजाओंसे फलह संग्राममें विजय विद्या संबंधी विवाद और परदेशवास होने ॥ १६ ॥ शुभग्रह दृष्ट मंगलकी दशामें भूमि धनका नाश होवै यदि उषी अवसरमें गोचरसे भी राशिमें आवै तो अतिशुभ फल होवै ॥ १७ ॥

आरस्य पापग्रहवीक्षितस्य प्राप्तौ दशायां बहुदुःखकष्टे ॥ जनः परित्यक्तकलत्रमित्रो देशांतरस्थः क्षितिपालकोपात् ॥ १८ ॥ केंद्रगतभौमदाये चोरविपाभ्यामुपैति दुःखानि ॥ कलहो वा स विरोधं लभते देशांतरं याति ॥ १९ ॥ चतुर्थराशिस्थितभौमदाये स्थानच्युतिं बंधुविरोधतां च ॥ चोराग्निपीडां नृपतेः सकाशाद्भीतिं परे दुर्गपदे प्रयाति ॥ २० ॥ कलत्रयुक्तस्य कुजस्य दाये कलत्रहानिर्गुदमूत्रकृच्छ्रम् ॥ अगोचरस्थस्य च तादृशैव तदन्यथा चेत्फलमन्यथैव ॥ २१ ॥

पापदृष्ट कुनकी दशामें अतिदुःख हो, राजकोपसे स्त्री मित्र छोड विदेशमें रहे ॥ १८ ॥ केंद्रगत भौमकी दशामें चोर तथा जहरसे दुःख पावे फलह वैरसाहित होवै विदेश गमन करे ॥ १९ ॥ चौथे भौमकी दशामें स्थानहानि बंधुविरोधता और चोर अग्नि राजासे भय परमकठिन पदमें पहुंचे ॥ २० ॥ सप्त मंगलकी दशामें स्त्रीहानि गुदामें रोग मत्रकृच्छ्र यह फल अगोचरमें है यदि गोचरमें आवै तो फलभी अन्य होतेहैं ॥ २१ ॥

कर्मस्थितस्यापि कुजस्य पाके कर्मादिवैकल्यमुपैति दुःखम् ॥  
 उद्योगभंगं त्वपकीर्तिमेति विद्यासुतस्त्रीधनमानहानिम् ॥ २२ ॥  
 अर्कगभौमदशार्या दधाति शोकं स्त्रिया विरोधं च ॥ राज्या-  
 च्युतिं विपशादेशांदेशांतरं याति ॥ २३ ॥ वित्तगभौमदशार्या  
 संप्राप्तौ तस्य वृद्धिमुपयाति ॥ स्वकुलाढ्यत्वं लभते नृपहतचित्तं  
 मुखाक्षिरोगं च ॥ २४ ॥

दशमगत मंगलकी दशामें कर्म आदिमें विकलता, दुःख, उद्यमभंग, अपयश, विद्या,  
 पुत्र, स्त्री, धन और मानकी हानि पाताहै ॥ २२ ॥ सूर्ययुक्त मंगलकी दशा शोक  
 मरण करतीहै स्त्रीसे विरोध राज्यसे परिभ्रष्ट शत्रुसे देशसे देशांतर चला जावै ॥ २३ ॥  
 धनस्थानगत चन्द्रमाकी दशामें धन वृद्धिको प्राप्त होवै अपने कुलमें संपन्नताको प्राप्त होताहै  
 राजा मनहरण करे मुख नेत्रमें रोगभी होवै ॥ २४ ॥

भ्रातृस्थानगतश्च सौख्यफलदो भूनंदनोऽरातिहा धैर्यं वित्तसुता-  
 र्थदारसहजैः संगं नृपात्पूज्यताम् ॥ पुत्रस्थानगतस्य पुत्रमरणं  
 बुद्धिभ्रमं जाड्यतां शत्रुक्षेत्रगतस्य भूमिसहजैर्दुःखं महारोगभाक्  
 ॥ २५ ॥ पंचमस्थधरासूनोर्दायः कीर्तिविवेकताम् ॥ नेत्ररोगं त्वर्थ-  
 नाशं दद्यात्कलहमेव वा ॥ २६ ॥ मरणपदस्थो भौमः करोति दुःखं  
 सहद्भयं पाके ॥ स्फोटकमन्नविरोधं स्थानविनाशं विदेशयानं च  
 ॥ २७ ॥ नवमस्थधरासूनोर्दशापाकः पदच्युतिम् ॥ गुरूणां च  
 तथा कष्टं तपोविघ्नं महद्भयम् ॥ २८ ॥

३ भाईसरी मंगल अपनी दशामें सुखफल देताहै तथा शत्रुहंता होताहै धैर्य पुत्र, धन, स्त्री,  
 भाईयोसे संग राजासे पूज्यता देताहै पंचम मंगल पुत्रमरण बुद्धिभ्रम जडता देताहै शत्रु-  
 भावगत भूमि भाईपक्षसे दुःख देताहै महारोगवाळा करताहै ॥ २५ ॥ पंचम मंगलकी  
 दशाका फल औरभी है कि कीर्ति विवेक ( समझ ) नेत्ररोग धननाश अथवा कलह देताहै  
 ॥ २६ ॥ अष्टम मंगल अपनी दशामें दुःख बडीभय विस्फोटक रोग अन्नकी अरुचि स्थान  
 हानि विदेशगमन करताहै ॥ २७ ॥ नवमगत मंगलकी दशामें पदकी हानि गुरु ( अष्ट )  
 जनोको कष्ट तप आदिमें विघ्न और बडीभय होतीहै ॥ २८ ॥

आयस्थभौमदायः करोति राज्यार्थभूपसन्मानम् ॥ समरे जय-  
 प्रतापं वागुपकारं मनोजवं कीर्तिम् ॥ २९ ॥ व्ययगतभौमद-

शायं प्रातौ धनहतिं नृपाद्गीतिम् ॥ स्थानसुतदारनाशं भ्रातृणा-  
मन्यदेशवासं च ॥ ३० ॥ उच्चांशसंयुक्तधराजकाले मनोभिला-  
षं विजयं सुखं च ॥ प्रचण्डदासीगमनं नृपस्य प्रधानतां याति  
सुधर्मकीर्तिम् ॥ ३१ ॥

ग्यारहवें मंगलकी दशामें राज्यधन राजासे सन्मान संग्राममें विजय वाणीसे दूसरेका  
उपकार बहुत फलनेवाली कीर्ति मिले ॥ २९ ॥ बारहवें मंगलकी दशामें धनहरण राजासे  
भय स्थान, पुत्र, स्त्रीका नाश और भाइयोका परदेशवास होवै ॥ ३० ॥ उच्चांशगत मंगल  
की दशामें मनोभिळापसिद्धि विजय सुख मिलतेहैं ॥ तथा प्रचण्ड स्वभाववाली दासीका  
गमन राजाके प्रधानताको मात होताहै धर्म और कीर्तिभी होती है ॥ ३१ ॥

नीचांशभौमदाये नीचयुते कर्मवैकल्यम् ॥ धनहानिभूपदण्डः  
शिश्नोदरपरायणोऽशीलः ॥ ३२ ॥ भौमदशायामादौ लभते  
विविधार्थमानहानिं च ॥ मध्येग्निभूपचौरैर्भीतिं तत्र विनिर्दिशे-  
न्मतिमान् ॥ ३३ ॥ अंत्ये भ्रातृवियोगं सुतदारान्निगुल्ममूत्रादिम् ॥  
भौमेप्येवं न भवेद्गोचरयुक्ते विशेषतः कथयेत् ॥ ३४ ॥

नीचराशि नीचांशगत भौमदशामें कार्योंमें विकलता होवै धनहानि होवै राजासे दंड  
मिले पेटभरनेमें तथा मैथुनसुखमें तत्पर रहे शीलसे वर्जित रहे ॥ ३२ ॥ भौमकी दशामें  
प्रथम अनेकप्रकारधन तथा मानहानि मध्यमें राजा चोरकी भय बुद्धिमानने कहनी ॥ ३३ ॥  
अंत्यदशामें भाइयोको वियोग पुत्र धन स्त्री आदियोंको कष्ट गुल्मरोग मूत्ररोगादि रोग होतेहै  
यदि गोचरमें भी भौम उसी अवस्थामें आवै तो उक्त फलविशेषतासे होतेहैं अन्यथा पूरे  
नहीं होते ॥ ३४ ॥

भौमस्य संस्थानबलान्वितस्य दशाविपाकेर्थकलत्रसौख्यम् ॥  
स्थानादिलाभं सुखकीर्तिशौर्यमुद्योगसिद्धिं त्वनयादुपैति ॥ ३५ ॥  
स्थानवीर्यविहीनस्तु कुरुते स्वपदच्युतिम् ॥ कुजः कुसीदवृत्त्या  
च करोति ध्रुवजीवनम् ॥ ३६ ॥

स्थानबलयुत भौमदशामें धन तथा स्त्रीका सुख स्थानादिका लाभ सुख, कीर्ति, शौर्य  
उद्यमसफलता न्यायसे पाताहै ॥ ३५ ॥ स्थानबलहीन भौमदशामें अपने पदकी हानि कुसीद  
( शूद्र ) आदिभृत्तिसे निश्चल आजीविका होवै ॥ ३६ ॥

दिग्वीर्ययुक्तस्य कुजस्य दाये नृपात्सुलब्धार्थरणप्रतापम् ॥  
 गोभूहिण्यांवरयानलाभं दिगंतराक्रांतयशःप्रतापम् ॥ ३७ ॥  
 कालवीर्ययुतभौमदशायां काम्यलब्धिरतिसौख्यमुपैति ॥ पट्टव-  
 स्त्रमणिमौक्तिकलाभं चित्रवस्त्रकृपिगोगजलाभम् ॥ ३८ ॥ निस-  
 र्गवीर्यान्वितभौमदाये कृपाकटाक्षेण महीपतीनाम् ॥ समस्तभा-  
 ग्यात्मजमित्रबंधुगोभूमिभूपांबरदेहसौख्यम् ॥ ३९ ॥

दिग्बली भौमकी दशममें राजासे धन रणमें प्रताप गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, सवारी मिलें  
 यश एवं प्रतापसे दिगंत दवे रहें ॥ ३७ ॥ कालवली मंगलकी दशममें मनोभिलाषमाप्ति अति-  
 सुख, रेशमोवस्त्र, मणि, मोती मिलतेहैं तथा रंगविरंगे वस्त्र, कृपि, गौ, हाथीका लाभ होताहै  
 ॥ ३८ ॥ निसर्गबली मंगलकी दशममें राजाओंके कृपादृष्टिसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलतेहैं तथा पुत्र  
 मित्र, बंधु, गौ, भूमि, भूषण, वस्त्र और देहसुख मिलतेहैं ॥ ३९ ॥

निसर्गतः स्थानधनाक्षिनाशं पित्ताधिकं कुत्सितभाजनं च ॥  
 कुजस्य दाये कुनखी पितृघ्नः सहोदराणामपि देहपीडा ॥ ४० ॥  
 वक्रान्वितस्य भौमस्य दशाकाले महद्भयम् ॥ चौराग्निसर्पपीडां  
 च वनवासं पदच्युतिम् ॥ ४१ ॥ दिग्वीर्ययुक्तस्य कुजस्य दाये  
 कृपाकटाक्षेण महीपतीनाम् ॥ समस्तभाग्यात्मजमित्रबंधुगोभू-  
 मिभूपांबरदेहसौख्यम् ॥ ४२ ॥

निसर्गबलियुत भौमकी दशममें स्थान धनका नाश नेत्रविकार पित्तधातुकी अधिकता निन्द्य  
 भोजन मिले कुनखित होवै पितृपक्षघात करे भाइयोंके देहपीडा होवै ॥ ४० ॥ वकी भौमकी  
 दशममें बड़ीभय चोर अग्नि राजासे पीडा वनवास और पदसे च्युति ( गिरना ) होवै ॥ ४१ ॥  
 दिग्वीर्ययुक्त भौमकी दशममें राजाओंके कृपादृष्टिसे संपूर्ण ऐश्वर्य, पुत्र, मित्र, बंधुजन, भूमि,  
 भूषण, वस्त्र और देहसौख्य बढतेहैं ॥ ४२ ॥

क्रूरपट्टचंशसंयुक्तभौमदायोतिपीडनम् ॥ कारागृहप्रवेशं च समस्त-  
 विभवक्षयम् ॥ ४३ ॥ सौम्यपट्टचंशसंयुक्तभौमदाये महत्सुख-  
 म् ॥ भूम्यर्थदारसंपत्तिधनवाहनभोजनम् ॥ ४४ ॥ पारावतादि-  
 संयुक्तभौमदाये शुभं भवेत् ॥ विवाहदीक्षायज्ञं च सर्वेषामुपका-  
 रकम् ॥ ४५ ॥ क्रूरद्रेष्काणसंयुक्तकुजदाये मनोव्यथा ॥ निगडं  
 विपभीतिं च पाशबंधनमेव च ॥ ४६ ॥

कूरषट्चंशगत मंगलकी दशामें अतिपीडन कैदखानेमें निवास संपूर्ण ऐश्वर्यका क्षय होताहै ॥ ४३ ॥ सौम्य षट्चंशगत भौमदशामें बढासुख, भूमि, धन स्त्री, संपत्ति, कार्यासिद्धि, चाहन और उत्तम भोजन मिलतेहैं ॥ ४४ ॥ पारावतादि अंशगत भौमदशामें शुभफल मिल-  
तेहैं विवाहदीक्षा यज्ञदीक्षा और सबका उकार करना मिलताहै ॥ ४५ ॥ कूर द्रेष्काणगत भौमकी दशामें मनमें व्यथा कैद आदि बंधन विपत्ती भय अथवा मुस्के बंधे ॥ ४६ ॥

उच्चस्थोपि धरासूनूर्नाचांशकसमन्वितः ॥ तत्पाके भ्रातृमरणं  
नृपवाह्निविपाद्भयम् ॥ ४७ ॥ भूमिपुत्रोऽपि नीचस्थः स्वोच्चभाग-  
समन्वितः ॥ तत्पाके भूमिदारार्थपुत्रमित्रविवर्द्धनम् ॥ ४८ ॥  
इति कुजदशाफलम् ॥

उच्चराशिगत मंगल यदि नीचांशकमें होवे तो उसको दशामें भाइयोंका मरण राना  
अग्नि और विपत्ते भय होवै ॥ ४७ ॥ यदि मंगल नीचराशिमें उच्चांशका होवे तो उसकी  
दशामें भूमि, स्त्री, धन, पुत्र और मित्रोंकी वृद्धि होतीहै ॥ ४८ ॥ इति भौमदशाफलम् ॥

अथ बुधदशाफलम् ।

अत्युच्चसोमात्मजदायकाले धनान्वितः ख्यातिमुपैति सौख्यम् ॥  
ज्ञानं च कीर्तिं जननायकत्वं स्त्रीपुत्रभूम्यर्थमहोत्सवं च ॥ १ ॥  
उच्चस्थितस्यापि शशांकसूनोर्दशा महत्त्वं कुरुतेर्थसौख्यम् ॥  
देहस्य पुष्टिं धनधान्यपुत्रगोवाजिमत्तेभमृदंगनादम् ॥ २ ॥  
आरोहिणी सौम्यदशा प्रपन्ना यज्ञोत्सवं गोवृषवाजिसंधम् ॥  
भृद्भ्रूपांवरयानलाभं वाणिज्यभूम्यर्थपरोपकारम् ॥ ३ ॥

परमोच्चगत बुधकी दशामें धर्मयुक्त रपाति मिलतीहै सुख ज्ञान कीर्ति बहुत मनुष्योंमें  
आधिपत्य स्त्री, पुत्र, भूमि, धन और बडे उत्सव होतेहैं ॥ १ ॥ उच्चराशिगत बुधदशामें  
वदपन, धनसुख, शरीरपुष्टि, धन, धन, पुत्र, गौ, घोडे, उन्मत्तहाती मिठेतेहैं नित्य सुशीमें  
मृदंगना शब्द सुनेनेमें आताहै ॥ २ ॥ उच्चमें जानेराडे बुधकी दशा यज्ञका उत्सव गौ बैल  
घोडाभैंसा समूह कोमल अन्न भूषण बख सवारीका तथा भूमि एव धनका लाभ देतीहै, अपनेमें  
पराया उपकार होताहै ॥ ३ ॥

शशांकसूनोस्त्ववरोहिणी या दशामहत्कष्टतरं च दुःखम् ॥  
विज्ञानहीनं परदारसंगं नृपाग्निचैरिर्भयमत्र कष्टम् ॥ ४ ॥ नीच-

स्थचन्द्रात्मजदायकाले ज्ञानेन हीनं स्वजनैर्वियुक्तम् ॥ पदच्यु-  
तिं बंधुविरोधतां च विदेशयानं वनवासदुःखम् ॥ ५ ॥

अवरोहिणी ( उच्चसे वतरके नीचेमें जानेवाले ) बुधकी दशा महत्कष्ट दुःख विज्ञानहीनता परस्त्रीसंग राजा अग्नि चौरसे भय और कष्ट देतीहै ॥ ४ ॥ नीचगत चंद्रमाके पुत्रकी दशमें ज्ञानसे हीन अपने मनुष्योंसे वियोग पदहानि बंधुजनसे विरोध विदेशगमन वनमें वास और दुःख देतीहै ॥ ५ ॥

मूलत्रिकोणान्वितसौम्यदाये राज्यं महत्सौख्यकरं च कीर्तिम् ॥  
विद्याविलासं निगमार्तिशीलं पुराणधर्मश्रवणादिपूतः ॥ ६ ॥  
स्वक्षेत्रगस्यापि शशांकसूनोः प्राप्तौ दशायां धनधान्यसंपत् ॥  
वाणिज्यगोभूमिसुतार्थदारमृद्भ्रत्रपानांबरभूषणाप्तिः ॥ ७ ॥

मूलत्रिकोणगत बुधदशमें राज्य बडासौख्य कीर्ति विद्याविलास वेदाभ्यास पुराणधर्म आदि सुननेसे पवित्रताभी मिलतीहै ॥ ६ ॥ अपनी राशिगत बुधकी दशमें अन्नधनकी संपत्ति व्यापारमें लाभ गौ, भूमि, पुत्र, धन, स्त्री, कोमल अन्न; पान, वस्त्र, भूषणोका लाभ होताहै ॥ ७ ॥

शशांकसूनोस्त्वरिराशिगस्य शत्रोर्भयं भूपतिकोपजातम् ॥ वि-  
द्याविहीनं कुलहीनसेवां कुभोजनं दारसुतार्थनाशम् ॥ ८ ॥ शशां-  
कसूनोरतिशत्रुराशिं गतस्य पाके विपदं च दुःखम् ॥ उद्योगभंगं  
स्वजनैर्विरोधं यज्ञादिविघ्नं शुभकर्मनाशम् ॥ ९ ॥

शत्रुराशिगत बुधकी दशमें शत्रुसे भय राजकोपसे भय विद्याका विस्मरण हीन कुलवाले-  
की सेवा कुभोजन स्त्री पुत्र धन नाश होतेहैं ॥ ८ ॥ अतिशत्रुराशिगत बुधकी दशमें उद्य-  
मभंग अपने मनुष्योंसे विरोध यज्ञादिकर्ममें विघ्न और शुभकर्मका नाश होताहै ॥ ९ ॥

मित्रक्षेत्रदशायां शशांकसूनोर्धनायतिः सौख्यम् ॥ नामद्वयसम्प्रा-  
प्तिःस्वनामांकितगद्यपद्यानि ॥ १० ॥ अतिमित्रराशिगस्य दशां प्रप-  
न्नोमहत्त्वतां याति ॥ भूपतिमैत्रं सौख्यं धनसुतदारांश्च बंधुसन्मानम्  
॥ ११ ॥ समक्षेत्रगस्यापि शशांकसूनोर्दशा सुखं धान्ययुतांबरराणि ॥  
करोति राज्यच्युतिमत्र विघ्नं विज्ञानहीनं पिडकादिरोगम् ॥ १२ ॥

मित्रराशिगत बुधकी दशमें धनकी वृद्धि सुख उपाधि नामकी प्राप्ति अपने नामयुक्त क-  
विताके गद्य और अपनेनामके पद्य ( श्लोकछदादि ) होवे ॥ १० ॥ अतिमित्रराशिगत बुधकी  
दशमें वदम्पनको प्राप्त होताहै राजाके मित्रता सुख, धन, पुत्र, स्त्री और बंधुवर्गसे सन्मान

मिळ ॥ ११ ॥ समराशिगत बुधकी दशमें सुख अन्न वन्न मिळतेहे तथा राज्यहानि विन्न विज्ञानहानि कुनसी फोडे शीतळा आदि रोगभी होतेहें ॥ १२ ॥

नीचखेचरसंयुक्तसौम्यदायेतिकष्टताम् ॥ पदभ्रमं बंधुनाशं कर्म-  
नाशं मनोरुजम् ॥ १३ ॥ उच्चखेचरसंयुक्तसौम्यदाये महत्सु-  
खम् ॥ भाग्योत्तरं सुविद्यां च वाणिज्यं गोकृषिक्रियाः ॥ १४ ॥ विदः  
पापान्वितस्यापि दाये पापमुपैति च ॥ क्षेत्रार्थदारपुत्रादिकृषि-  
गोभूमिनाशनम् ॥ १५ ॥ विदः सौम्ययुतस्यापि परिपाके महत्सु-  
खम् ॥ राज्ययोगं सुखं कीर्तिं दारपुत्रनृपात्सुखम् ॥ १६ ॥

नीचगत ग्रह युक्त बुधकी दशमें अतिकष्टता पदमें संदेह बंधुनाश कर्मनाश और मनमें रोग होताहे ॥ १३ ॥ उच्चराशिगत ग्रहसे युक्त बुधकी दशामे बहुत सुख ऐश्वर्यवृद्धि उत्तमविद्या व्यापारसे लाभ गौ तथा कृषिकर्ममे लाभदि होतेहे ॥ १४ ॥ पापयुक्त बुधकी दशमें पाप मिळताहे खेती धन स्त्री पुत्रादि तथा कृषि गौ भूमिका नाश होताहे ॥ १५ ॥ शुभग्रहयुक्त बुधकी दशमें बडासुख राज्यसवधी सुख कीर्ति और स्त्री पुत्र एवं राजासे मिळताहे ॥ १६ ॥

सौम्येक्षितस्यापि शशांकसूनोर्दशाविपाके महतीं च कीर्तिम् ॥  
विद्याविलासोद्भवाजपूजां कांतिप्रतापं यशसा समेतम् ॥ १७ ॥  
पापेक्षितस्यापि शशांकसूनोर्धान्यक्षयं बंधुजनैर्वियुक्तिम् ॥ विदे-  
शयानं स्वपदच्युतिं च प्रेष्यानुवृत्त्या कलहोत्र कृच्छ्रम् ॥ १८ ॥  
केंद्रोपगस्य हि दशा शशिनंदनस्य भूपालमित्रधनधान्यकलत्र-  
पुत्रान् ॥ यज्ञादिकर्मनृपमानयशःप्रलब्धि मृद्रन्नपानशयनां व-  
रभूषणानि ॥ १९ ॥

शुभग्रहदृष्ट बुधकी दशमें बडीकीर्ति स्त्री, पुत्र, सुख, विद्यासंबंधी हर्ष राजासे पूज्यता कांति और यशसहित मनाप मिळताहे ॥ १७ ॥ पापदृष्ट बुधकी दशामे अन्नक्षय बंधुजनसे अलगहोना, विदेशगमन अपने पदकी हानि, पराये मेप्यतासे आजीवन पटह और कृद्दरोग होतेहें ॥ १८ ॥ केंद्रगत बुधदशा राजासे मित्रता, धन, अन्न, स्त्री पुत्र यज्ञादि कर्म राजमान यश कीमळ अन्न, पान, शय्या, वस्त्र, भूषण देतीहे ॥ १९ ॥

लग्नं गतस्य च दशा शशिनंदनस्य भूपालमानकृषिवाहनलब्ध-  
भाग्यम् ॥ भेरीरवादिपरिवोपितयानमार्गं तीर्थाभिपेकमथ वा

जगति प्रसिद्धिम् ॥ २० ॥ वित्तगसौम्यदशायां विद्याप्राप्तिं मह-  
त्प्रकीर्तिं च ॥ भूपतिभाग्यसमानां राजस्थाने प्रधानतां याति ॥  
॥ २१ ॥ तृतीराशिस्थितचंद्रसूनोर्दशाविपाके जडतां समेति ॥  
उद्गानमाजीवनगुल्मरोगमन्नार्तियोगे नृपमाननं च ॥ २२ ॥

लग्नस्थित बुधकी दशामें राजमान कृषि वाहनसे ऐश्वर्य मिले, भेरीशब्दआदिसे युक्त सवारीमें मार्ग चलना होवै अपवा तीर्थ फिरना होवै संसारमें प्रख्याति मिले ॥ २० ॥ धनस्थानगत बुधकी दशामें विद्याप्राप्ति बडी कीर्ति राजासे ऐश्वर्य मिले राजद्वारमें श्रेष्ठता मिले ॥ २१ ॥ तीसरे बुधकी दशामें जडता पाताहै गायनसे आजीवन हंवाँ गुल्मरोग अन्नसे पीडा और राज-मान होवै ॥ २२ ॥

शशांकसूनोर्हिबुकस्थितस्य दशा प्रपन्ना गृहधान्यनाशम् ॥  
सौख्यादिहानिं हिबुके समृत्युमुद्योगभंगं च पदच्युतिं वा ॥ २३ ॥  
पंचमस्थशशिनंदनस्य वा क्रूरबुद्धिरतिकष्टता भवेत् ॥ हीनवृत्ति-  
रपि राजसेवया कृच्छ्रलब्धधनमेति संपदम् ॥ २४ ॥ पष्ठाष्टमांत्य-  
स्थितसौम्यदाये त्वग्दोषजातं बहुरोगमेति ॥ विचर्चिका पैरिक-  
पांडुरोगं नृपाग्निचौरैर्मरणं कृशत्वम् ॥ २५ ॥

चतुर्थगत बुधकी दशामें गृह और अन्नकी हानि सुखादिसे हीनता मातृकष्ट वा मृत्यु उद्य-  
मभंग अपवा पदसे उतरना होवै ॥ २३ ॥ पंचम बुधकी दशामें क्रूरबुद्धि तथा अतिकष्टता  
होवै निन्दकर्मसे आजीवन तथा राजसेवामें बडी कठिनाईसे धन एवं संपत्ति मिले ॥ २४ ॥  
छठे आठवें बारहवें बुधकी दशामें त्वचा ( चमड़े ) में बहुतप्रकारके रोग मिलतेहैं वमन  
विरिक पित्तजन्य पांडुरोग और राना अग्नि चोरसे भय कृशता वा मृत्यु होतीहै ॥ २५ ॥

देहांगवैकल्यकलत्रबंधुविद्वेषणं भूपतिदत्तकोपम् ॥ आकस्मिकं  
मृत्युभयं प्रसादं रिप्फस्थितस्यापि शशांकसूनोः ॥ २६ ॥ दार-  
स्थितस्यापि शशांकसूनोर्दशाविपाके सुतदारवित्तम् ॥ विद्यावि-  
नोदं विमलांबरं च नामद्वयं भूपतिमित्रतां च ॥ २७ ॥

बारहवें बुधकी दशाका रिप्फपत्र कहतेहैं कि शरीर तथा अंगोंमें विकृष्टता अर्थात् अंग  
अपने २ कामोंसे विकृष्ट होवै वी तथा संपुननसे वैर राजासे कोय अकरमात् मृत्युभय प्रसाद



होतेहैं ॥ २६ ॥ सप्तम बुधकी दशमें पुत्र स्त्री धन विद्याका विनोद निर्मलवस्त्र अधिकारी दूसरा नाम और राजाकी मित्रता मिले ॥ २७ ॥

भाग्यस्थितस्यापि शशांकसूनोर्भाग्योत्तरं दारसुतार्थलाभम् ॥

तीर्थाभिषेकं जपहोमदानं यज्ञादिकर्माणि लभेन्मनुष्यः ॥ २८ ॥

कर्मस्थितस्यापि शशांकसूनोर्दशाविपाके नृपतौल्यमेति ॥ सौख्यं

कितगद्यपद्यं नामद्वयं दारसुतार्थलाभम् ॥ २९ ॥

२१ मङ्गलबुधकी दशमें ऐश्वर्यवृद्धि स्त्री पुत्र धनलाभ तीर्थस्नान जप हवन दान यज्ञ-  
२३ अतिमश्राही ॥ २८ ॥ दशमभावगत बुधकी दशमें राजाके तुल्य अपने कुलानु-

गत्युदाहरण पयुक्त कविता श्लोकादि उपाधिनाम और स्त्री पुत्र धनलाभ होतेहैं २९ ॥

वक्रमार्ग अस्त उदय गां साम्राज्यलाभं जननायकत्वम् ॥ कवित्व-

सूर्यादिस्पष्टग्रहगतिसाहित पञ्जादिदीक्षां स्वजनैर्विशेषात् ॥ ३० ॥ उ-

लंकोदयसे स्वदेशका उदय दाये त्वनेकधा वित्तमुपैति काले ॥ दानेन

लग्नवनावनेकी रीति वाणिज्यविचारतो वा ॥ ३१ ॥ उच्चां-

लग्नसे अभीष्ट काल, वरनेकी शेषे सुतभूणपातिम् ॥ मनोविलासं

नतोन्नतपूर्वकदशमचतुर्थभाव उलाभिषेकम् ॥ ३२ ॥

ष आठभाव साधन साथे ८८ राजाधिराजता मनुष्योंमें आधिपत्य, कविताकी

र क्षयचय फल साधन... ९० देनेसे अथवा राजाके माननेसे कृषिसे व्यापारसे

सहितद्वादशभावचक्र ३१ ॥ उच्चांशगत बुधकी दशमें पुत्रलाभ भूषणलाभ

द्रभभावोद्धारचक्र ३२ ॥ उल्साह धैर्य तीर्थस्नान मिलतेहैं ॥ ३२ ॥

फलचक्र ३२ नीचवृत्त्यानुजीवनम् ॥ प्रेष्यत्वं परिहारं

सारणीप्रवेश ३३ तत् ॥ ३३ ॥ सौम्यदशायामादौ लभते

शुक्रदृष्टिसारणी ३४ धनधान्यसंपदं पुंशः ॥ अंत्ये स्वजनविरोधं मध्ये दाये नरेशस-

रणी ३४ न्मानम् ॥ ३४ ॥ अर्कगसौम्यदशायां लभते विविधापदं मनो-

गी ३५ दुःखम् ॥ स्वकुलजनविरोधं निंदाभीर्वाक्षिकर्णरोगं च ॥ ३५ ॥

गी ३५ नीचांशकगत बुधकी दशमें नीचवृत्तिसे आजीवन (गुजारा) होवै पराये चाकरीमें जानापड़े

नेंदा छाचारीभी करताहै ॥ ३३ ॥ बुधकी दशाकेआदिमें पुरुष धन धान्यकी संपत्ति पाताहै

अंत्यमें अपने मनुष्योंसे वैर मध्यमें राजसन्मान मिलताहै ॥ ३४ ॥ सूर्ययुक्त विशेषतः अस्तं गतकी दशमें नानापकारकी आपत्ति मानसी दुःख अपने कुलवाले मनुष्योंसे विरोध निंदा भय अथवा नेत्र कानके रोग पाताहै ॥ ३५ ॥

स्थानवीर्ययुते सौम्ये तत्पाकः कीर्तिराज्यदः ॥ मनोधैर्यं मनो-  
त्साहं यज्ञदीक्षाशुभप्रदः ॥ ३६ ॥ तद्विहीनबुधे स्थानदारपुत्र-  
महद्भयम् ॥ विदेशवासं दुःखं च नानापरिभवक्रियाः ॥ ३७ ॥  
दिग्वीर्यसहिते सौम्ये दिगंताद्धनिकः सुधीः ॥ सामंतराजमित्रत्वं  
गंधमाल्यस्य लेपनम् ॥ ३८ ॥

स्थानबलयुत बुधकी दशमें कीर्तिबढे राज्यमिले मनमें धैर्य उत्साह होवै यज्ञ करनेकी दीक्षा मिले शुभकर्म होवै ॥ ३६ ॥ स्थानबल हीन बुधकी दशमें स्त्रीपुत्रोंकी बड़ीभय होवै विदेशमें निवास होवै दुःख मिले नानापकार अपमानके काम होंवै ॥ ३७ ॥ दिग्बलयुत बुधकी दशमें देशदेशांतरोंसे धनवान् होवै सुंदर बुद्धिहोवै छोटे राजासे मित्रता होवै सुगंध द्रव्य पुष्पादि लेपनादि होंवै ॥ ३८ ॥

कालवीर्ययुतसौम्यदशायां देहसौख्यमतुलं रिपुहानिः ॥ दारपुत्र-  
नृपमाननमेति गांगतोयपरिपूततनुः स्यात् ॥ ३९ ॥ निसर्गवी-  
र्यांन्वितसौम्यदाये निसर्गतश्चापि शुभादिकर्म ॥ विद्याविवादं  
स्वजनैर्विरोधं मातुर्वियोगं त्वथ वा च कष्टम् ॥ ४० ॥

कालबलीबुधकी दशमें बहूतसा शरीरसुख शत्रुहानि स्त्रीपुत्रवृद्धि राजमान मिलताहै गंगा- नलसे शरीर पवित्र होवै ॥ ३९ ॥ निसर्गबली बुधकी दशमें स्वभावहीसे शुभकार्य होंवै तथा विद्याका विवाद (शास्त्रार्थ) अपने मनुष्योंसे विरोधमाताका वियोग वा कष्ट मिले ॥ ४० ॥

वक्रचेष्टान्विते सौम्ये भाग्यदारसुतार्थभाक् ॥ तथा पुराणदा-  
नादिसमुद्रस्नानमाचरेत् ॥ ४१ ॥ दिग्बलेन युते सौम्ये सर्वभूतेषु  
सौम्यताम् ॥ करोति रतिकेलिं च राज्यभाग्यसमन्विताम् ॥ ४२ ॥  
ऋरपष्टचंशसौम्यस्य दशापाके महद्भयम् ॥ चौराग्निभूषेर्भीतिः  
स्याच्छुभद्भ्योगवर्जिते ॥ ४३ ॥

बुध वकी चेष्टाव्ययुक्त होवै तो उसकी दशमें ऐश्वर्य , स्त्री, पुत्र, धन बढे, पुराणश्रवण दान और समुद्रस्नान करे ॥ ४१ ॥ दिग्बलयुत बुधकी दशमें सब प्राणियोंमें सौम्यता कर-

ताहै कामक्रीडा सुख राज्य ऐश्वर्यसे युक्त रहताहै ॥ ४२ ॥ क्रूरपृच्छंशगत बुधकी दशामें बड़ीभय चौर अग्नि राजासे भय होतीहै यदि बुध शुभग्रहसे युक्त वा दृष्ट न हो ॥ ४३ ॥

मृदंशादियुते सौम्ये राज्यलाभं महत्सुखम् ॥ मार्दवं सर्वभूतेषु  
कृषिपुत्रार्थसंपदम् ॥ ४४ ॥ सौम्ये वैशेषिकांशस्थे विशेषाद्राज-  
पूज्यताम् ॥ सुगंधांवरमाल्यं च विद्यागोष्ठीरहस्यताम् ॥ ४५ ॥  
क्रूरद्रेष्काणसंयुक्तश्चंद्रसूनुर्यदा तदा ॥ चौराग्निभूपतिभयं स्थान-  
नाशं महद्भयम् ॥ ४६ ॥

मृदशादियुत बुधकी दशामें राज्यलाभ बडासुख सब जीवोंमें दयाभाव श्रुति पुत्र धनकी सपत्ति होतीहै ॥ ४४ ॥ वैशेषिकांशगत बुधदशामे विशेषकरके राजपूज्यता मिलतीहै सुगंध वस्त्र पुष्प विद्या कौन्सिल् गुप्तमंत्रणा होतीहै ॥ ४५ ॥ बुध क्रूर द्रेष्काणमें होवै तो उसकी दशामे चोर अग्नि राजासे भय स्थाननाश बड़ी भय होवै ॥ ४६ ॥


उच्चराशिगतः सौम्यो नीचभागगतो यदि ॥ राज्यं सुखं च कीर्तिं  
च विनाशयति तत्क्षणात् ॥ ४७ ॥ चंद्रात्मजोपि नीचस्थः  
स्वोच्चभागसमन्वितः ॥ अशुभं फलमादौ तु शुभमंते प्रयच्छति ॥  
॥ ४८ ॥ इति बुधदशाफलानि ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ भौमबुधदशाफलनिरूपणो  
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

उच्चराशिका बुध यदि नीचांशकमें होवै तो उसकी दशा राज्य सुख कीर्तिका तत्काल नाश करती है ॥ ४७ ॥ बुध नीचराशिगत उच्चांशकमें होवै तो मयम अशुभफल पीछे शुभफल देताहै ॥ ४८ ॥ इति बुधदशाफलानि ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरभाषाटीकायां भौमबुधदशाफल-  
निरूपणाध्यायश्चतुर्दशः ॥ १४ ॥

## पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥



अथ गुर्वादिदशाफलविचाराध्यायः ।

गुरोर्दशायां परमोच्चगस्य राज्यं महत्सौख्यमुपैति कीर्तिम् ॥

मनोविलासं गजवाजिसंघनृपाभिपेकं स्वकुलाधिपत्यम् ॥ १ ॥

कुलीरगस्यापि गुरोर्दशायां भाग्योत्तरं भूपतिमाननाद्रा ॥

विदेशयानं महदाधिपत्यं दुःखैः परिक्रिन्नतनुर्मनुष्यः ॥ २ ॥

परमोच्चगत गुरुकी दशामें राज्य, बडासुख और कीर्तिको प्राप्त होताहै, मनके विलास साथी घोडाओंकी बहुतायत, राजाभिषेकानंद, अपने कुलमें आधिपत्य मिलताहै ॥ १ ॥ कर्क ( उच्चराशि ) गत गुरुदशामें ऐश्वर्यवृद्धि राजमानसे होवै, अधिकारी काममें विदेशगमन बडा अधिकार होवै और मनुष्य दुःखोंसे सिन्नमन भी रहै ॥ २ ॥

आरोहिणी देवगुरोर्महत्त्वं दशा प्रपन्ना कुरुतेर्थभूमिम् ॥ गानक्रि-

या स्त्रीसुतराजपूज्यं स्ववीर्यतः प्राप्तयशः प्रतापम् ॥ ३ ॥ जीव-

दशायामारोहिण्यामीशो मण्डलादिनाथो वा ॥ द्विजभूपालल-

ब्धघनो मेधावी कांतिमान् विनीतिज्ञः ॥ ४ ॥

आरोहिणी ( उच्चमें जानेवाले ) गुरुकी दशामें बद्धपन, धन, भूमि, गायनक्रिया, स्त्री, पुत्र राजपूज्यता मिलतीहै, और अपने बलसे यश एवं प्रताप होताहै ॥ ३ ॥ औरभी फल आरोहिणी गुरुदशाके हैं कि रामा वा माण्डलिक ( कुछेक गांवका रामा ) होताहै ब्राह्मण राजासे धन मिले, बुद्धिमान् कांतिमान् नीतिज्ञ होताहै ॥ ४ ॥

देवेन्द्रपूज्यस्य देशावरोही करोति सौख्यं सकृदेव नाशम् ॥ सकृ-

द्यशः कांतिविशेषजालं नरेश्वरत्वं सकृदेव याति ॥ ५ ॥ अति-

नीचभागभाजो गुरोर्दशायां प्रभन्नगृहपुंजः ॥ अन्योन्यहृदयवैरं

कृपिनाशं याति परभृत्यः ॥ ६ ॥

अवरोही ( उच्चसे उतरके नीचगाभी ) गुरुकी दशा कभी मुरख कभी मुरखना नाश कभी यश कभी विशेष कांति कभी रामा कभी अरामा करतीहै ॥ ५ ॥ नीच नीचांशरगत गुरुदशामें पर पट्टे टूटें आपसमें मनोमें वैर रहे वृषिका नाश होवै पराई नौकरी करनीपडे ॥ ६ ॥

मूलत्रिकोणनिलयस्य गुरोर्दशायां राज्यार्थभूमिसुतदारविशेष-  
सौख्यम् ॥ यानाधिरोहणमपि स्वबलात्तवित्तं यज्ञादिकर्मजन-  
पूजितपादपीठम् ॥ ७ ॥ गुरोर्दशायां स्वगृहं गतस्य राज्ञोर्थभू-  
धान्यसुखांबरं च ॥ मिष्टान्नदोवाजिमनोविलासं काव्यादिपुण्या-  
गमवेदशास्त्रम् ॥ ८ ॥

मूलत्रिकोणगत गुरुकी दशामे राज्य, धन, स्त्री, पुत्रोंका विशेष सुख मिले सवारीमें भी  
चढ़े अपने बलसे धनादिक पावे यज्ञादिकर्म करे बहुत मनुष्योंसे उसके पैर पूजेनावे ॥ ७ ॥  
स्वगृहगत गुरुदशामें राजासे धन, भूमि, अन्न, सुख, वस्त्र मिलें, मीठे भोजन घोड़े मनका  
विलास काव्यादि विलास पुण्यागम वेदशास्त्र ज्ञान देतीहै ॥ ८ ॥

गुरोर्दशायामतिशत्रुराशिं गतस्य दुःखं समुपैति शोकम् ॥ विषा-  
दभूम्यर्थकलत्रनाशं नृपाग्निचौरैर्वहुदुःखपीडाम् ॥ ९ ॥ गुरोर्द-  
शायामरिराशिगस्य क्षेत्रादिवित्तं शयनांबरं च ॥ नरेशसन्मा-  
नमुपैति नित्यं स्त्रीपुत्रभृत्यात्मसहोदरार्तिम् ॥ १० ॥

अतिशत्रुराशिगत गुरुदशामें दुःख शोक विषाद मिलते हैं भूमि, धन, स्त्रीनाश, राजा,  
अग्नि, चोरसे बहुत दुःख तथा पीडा मिलतीहै ॥ ९ ॥ शत्रुराशिगत गुरुदशामें खेती आदि  
धन शय्या वस्त्र और राजासे सन्मान नित्य मिलतेहै, स्त्री पुत्र नौकर और भाइयोंको पीडा  
होतीहै ॥ १० ॥

प्राप्तौ दशायामतिमित्रराशिं गतस्य जीवस्य नरेन्द्रपूज्यम् ॥  
मृदंगभेरीरवयानचोपं दिगंतराक्रांतसमस्तभाग्यम् ॥ ११ ॥ मित्र-  
क्षेत्रयापि गुरोर्दशायां नरेशमैत्रीं समुपैति कीर्तिम् ॥ विद्यावि-  
वादे जयमन्नसौख्यं सुमंधमृद्वस्त्रपरोपकारम् ॥ १२ ॥ समर्क्ष-  
स्यापि गुरोर्दशायां सामान्यतो भूपतिदत्तभाग्यम् ॥ कृष्यर्थगो-  
भूमिमनोविलासं मित्रांबरालंकृतिभूषणातिम् ॥ १३ ॥

अतिमित्रराशिगत गुरुकी दशामें रानपूज्यतः मिल मृदंग भेरी आदिके शब्द युक्त सवारी  
में चले ऐश्वर्यसे दिगतपर्यंत आक्रांत करे सपूर्ण ऐश्वर्य होवे ॥ ११ ॥ मित्रराशिगत गुरुकी  
दशामें राजासे मैत्री कीर्ति विद्यासबधि विवादमें विजय अन्नसुख सुगंधिद्रव्य मृत्तिकाके पदार्थ  
वस्त्र और परोपकार करना मिले ॥ १२ ॥ समराशिगत गुरुदशामें सामान्यतासे राजाका  
दिया ऐश्वर्य कृषि, धन, गौ भूमि, मनकी मसन्नता विलासादि मित्र, वस्त्र, अलंकार, भूष-  
णोंकी प्राप्ति होवे ॥ १३ ॥

## पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

अथ गुर्वादिदशाफलविचाराध्यायः ।

गुरोर्दशायां परमोच्चगस्य राज्यं महत्सौख्यमुपैति कीर्तिम् ॥

मनोविलासं गजवाजिसंचनृपाभिपेकं स्वकुलाधिपत्यम् ॥ १ ॥

कुलीरगस्यापि गुरोर्दशायां भाग्योत्तरं भूपतिमाननाद्वा ॥

विदेशंयानं महदाधिपत्यं दुःखैः परिक्लिन्नतनुर्मनुष्यः ॥ २ ॥

परमोच्चगत गुरुकी दशामें राज्य, बडासुख और कीर्तिको प्राप्त होताहै, मनके विलास हाथी घोडाओंकी बहुतायत, राजाभिषेकानंद, अपने कुलमें आधिपत्य मिलताहै ॥ १ ॥ कर्क ( उच्चराशि ) गत गुरुदशामें ऐश्वर्यवृद्धि राजमानसे होवै, अधिकारी काममें विदेशगमन बडा अधिकार होवै और मनुष्य दुःखोंसे खिन्नमन भी रहै ॥ २ ॥

आरोहिणी देवगुरोर्महत्त्वं दशा प्रपन्ना कुरुतेर्थभूमिम् ॥ गानक्रि-

या स्त्रीसुतराजपूज्यं स्ववीर्यतः प्राप्तयशः प्रतापम् ॥ ३ ॥ जीव-

दशायामारोहिण्यामीशो मण्डलादिनाथो वा ॥ द्विजभूपालल-

क्ष्मणधरोः पुत्र्याविदातंतीख्य कीर्त्तिनि नारासिपात चात ॥ ४ ॥

शुभेक्षितस्यापि गुरोर्दशायां देशांतरे वित्तमुपैति भूपात् ॥

देवार्चनं भूसुरतर्पणं च तीर्थाभिपेकं गुरुपूज्यतां च ॥ १९ ॥

केन्द्रगतजीवदाये राज्यं भूदारराजसन्मानम् ॥ विविधसुखान-

न्दकरं बहुजनरक्षां प्रधानतां याति ॥ २० ॥

पापदष्ट गुरुकी दशामें थोडा सुर धैर्य कभी यश कभी सुख मिले अंत्यमें घननाशभी होवै ॥ १८ ॥ शुभमह दष्ट गुरुकी दशामें देशांतरमें राजासे धन पावे देवताका पूजन ब्राह्मणोंको दानि तीर्थस्नान और गुरुका पूजन होवै ॥ १९ ॥ केन्द्रगत चूहस्पतिकी दशामें राज्य, भूमि, खों और राजसन्मान मिले अनेक प्रकार सुर आनंद करताहै बहुत मनुष्यों की रक्षा अपनेसे होतीहै प्रधानताको प्राप्त होताहै ॥ २० ॥

लग्नं गतस्य हि दशा पुरुषे करोति जीवस्य सौख्यममलांबर-

भृषणाप्तिम् ॥ यानाधिरोहणमृदंगपणारवैश्च मत्तेभवाजिभटसं-

मूलत्रिकोणनिलयस्य गुरोर्दशायां राज्यार्थभूमिसुतदारविशेष-  
सौख्यम् ॥ यानाधिरोहणमपि स्वबलात्तवित्तं यज्ञादिकर्मजन-  
पूजितपादपीठम् ॥ ७ ॥ गुरोर्दशायां स्वगृहं गतस्य राज्ञोर्थभू-  
धान्यसुखांबरं च ॥ मिष्टान्नदोवाजिमनोविलासं काव्यादिपुण्या-  
गमवेदशास्त्रम् ॥ ८ ॥

मूलत्रिकोणगत गुरुकी दशामे राज्य, धन, स्त्री, पुत्रोंका विशेष सुख मिले सवारीमें भी  
चढ़े अपने बलसे धनादिक पावे यज्ञादिकर्म करे बहुत मनुष्योंसे उसके पैर पूजेनाथे ॥ ७ ॥  
स्वगृहगत गुरुदशामें राजासे धन, भूमि, अन्न, सुख, वस्त्र मिलें, मीठे भोजन घोड़े मनका  
विलास काव्यादि विद्यास पुण्यागम वेदशास्त्र ज्ञान देतीहै ॥ ८ ॥

गुरोर्दशायामतिशत्रुराशिं गतस्य दुःखं समुपैति शोकम् ॥ विपा-  
दभूम्यर्थकलत्रनाशं नृपाग्निचौरैर्वहुदुःखपीडाम् ॥ ९ ॥ गुरोर्द-  
शायामरिराशिगस्य क्षेत्रादिवित्तं शयनांबरं च ॥ नरेशसन्मा-  
नमुपैति नित्यं स्त्रीपुत्रभृत्यात्मसहोदरार्तिम् ॥ १० ॥

अतिशत्रुराशिगत गुरुदशामें दुःख शोक विपाद मिलते हैं भूमि, धन, स्त्रीनाश, राजा,  
अग्नि, चोरसे बहुत दुःख तथा पीडा मिलतीहै ॥ ९ ॥ शत्रुराशिगत गुरुदशामें स्वेती आदि  
धन शय्या वस्त्र और राजासे सन्मान नित्य मिलतेहैं, स्त्री पुत्र नौकर और भाइयोंको पीडा  
होतीहै ॥ १० ॥

राजसमानमेति ॥ प्रवालमुक्तामणिरत्नलाभं सर्वेषु सख्यं समुपैति  
सौख्यम् ॥ २७ ॥

दशमगत गुरुदशामें मुनिलोग राज्यमाप्ति कहतेहैं यदि राजयोगभी होवे तब यह फल है अथवा  
धन पुत्र स्त्रीलाभ सत्कर्म राजमसाद तो बिना राजयोगभी होतेहीहैं ॥ २४ ॥ पंचम गुरुकी  
दशामें भद्रकी उपासना बड़ासुख पुत्रभक्ति राजासे पूजा और वेदांतश्रवण आदि उत्तम  
काम होवें ॥ २५ ॥ त्रिकोणगत गुरुकी दशामें स्त्री, पुत्र, अन्न, धन, विवेक बुद्धि, कोमल  
अन्न, पान, वस्त्र, रेदमीवस्त्र, सवारी आदिका लाभ गृहपतिसे सुख मिलतेहैं ॥ २६ ॥  
उर्ध्वासकगत गुरुकी दशामें ऐश्वर्यबुद्धि राजासे सन्मानता, मूंगा, मोती, मणि, रत्नोंका लाभ  
सबके साथ मित्रता और सुख होतेहैं ॥ २७ ॥

नीचांशसंयुक्तगुरोर्विपाके भूपाद्भयं गुल्मविचर्चिकादीन् ॥ स्था-  
नच्युतिं बंधुविरोधितां च नृपाग्निचौरैः स्वकुलोद्भवैश्च ॥ २८ ॥  
अर्कगजीवदशायां सहसा ज्वरपीडितो भवेत् क्षीणः ॥ ऊर्ध्वा-

गरोगतप्तो दुःशीलत्वं प्रभङ्गसंसारः ॥ २९ ॥ आदौ गुरुदशा-  
काले नृपपूजां महत्सुखम् ॥ मध्ये स्त्रीपुत्रलाभादि चांते कष्टं  
विनिर्दिशेत् ॥ ३० ॥ धनस्थितस्यापि गुरोर्विपाके धनायति  
भूपतिमाननं च ॥ विद्याविवादांकितराजगोष्ठीं सर्वोपकारं विजयं  
सुखं च ॥ ३१ ॥

नीचांशगत गुरुकी दशामें राजासे भय गुल्म अरुचि आदि रोग होवैं, स्थान छूट जावै,  
बंधुजनमें विरोध होवै, राजा अग्नि चोर और अपने कुलवालोसे भी भय होवै ॥ २८ ॥ अस्तंगत  
गुरुकी दशामें एकाएकी ज्वरसे पीडित तथा क्षीण होजावै, ऊपरके अंगमें रोग होनेसे संतप्त  
रहे, शील नष्ट होजावै, सारा संसार निरर्थक मालूम पड़े ॥ २९ ॥ गुरुकी दशामें पहिले  
तो राजपूज्यता तथा सुख मिलता है बीचमें पुत्रादिलाभ और अंतमें वष्टफल कहना ॥ ३० ॥  
दूसरे भागगत गुरुकी दशामे धनकी वृद्धि राजासे मान विद्याकी चर्चावाली राजसभामे प्रवेश  
अपनेसे सबका उपकार विजय और सुख इतने फल होते हैं ॥ ३१ ॥

नृपकृतबहुमानं भ्रातृभिर्भूमिलाभं परयुतविजनैर्वा दत्तगोभामि-  
वित्तम् ॥ अशनवसनभूपागंधमाल्यांवराणि परकृतमुपकारं विज्ञ-  
तामेति शौर्यम् ॥ ३२ ॥ तृतीयस्थगुरोर्दाये भ्रातृणां च सुखं  
भवेत् ॥ नृपदत्तं धनं सौख्यं गंधमाल्यांवरादिकम् ॥ ३३ ॥ नीरो-  
गता पुत्रकलत्रलाभं लग्नाद्रिपुस्थस्य गुरोर्दशायाम् ॥ आदौ भवे-  
देवमथांत्यपाके दारार्थचौरादिभयं सरोगम् ॥ ३४ ॥ जीवो मर-  
णपदस्थः करोति सौख्यं स्वबंधुजनहानिम् ॥ स्थानच्युतिं विदेशं  
प्राप्तिं स्त्रीराजपुत्रसन्मानम् ॥ ३५ ॥

धनस्थानगत गुरुकी दशाका फल औरभी कहतेहैं कि राजाका किया बहुत मान, भाइयोंसे  
भूमिका लाभ, शत्रुसे वा अन्य किसी मनुष्योंके दिये गौ भूमि धन मिले, भोजन, वस्त्र,  
भूषण, चदन, पुष्प, उत्तमस्त्र मिलें, दूसरेसे अपना उपकार उत्तम बुद्धिमत्त्व और सामर्थ्य  
मिले ॥ ३२ ॥ तीसरे गुरुकी दशामें भाइयोंका सुख राजाका दिया धन सुख और चदन  
सुगंधित पुष्प वस्त्रादि मिलते हैं ॥ ३३ ॥ छठे गुरुकी दशामें मध्यम निरोगता पुत्र स्त्री  
लाभ अंतमें स्त्री धनहानि चोर आदिकी भय होतीहै ॥ ३४ ॥ अष्टमस्थ गुरुकी दशा सुख  
तथा अपने बंधुजनोंकी हानि परतीहै स्थानहानि विदेशगमन परती है अंतमें स्त्री राजसन्मान  
पुत्रादिलाभ यद्वा राजपुत्रसे सन्मान दिटातीहै ॥ ३५ ॥



लाभगजीवदशायां संप्राप्तौ राज्यलाभमुपयाति ॥ बह्वर्थदारपु-  
त्रान् भूपविरोधं स्वबंधुविद्वेषम् ॥ ३६ ॥ व्ययगतजीवदशायां  
प्राप्तौ वाहनादि समुपयाति ॥ लभते विदेशयानं नानाक्लेशैश्च  
परिभूतः ॥ ३७ ॥

ग्यारहवें गुरुकी दशामें राज्यलाभको प्राप्त होताहै धन स्त्री पुत्र बहुत होतेहै, राजा तथा  
अपने बंधुजनोंमें द्वेष होताहै ॥ ३६ ॥ बारहवें गुरुकी दशामें वाहन आदि मिलतेहै तथा अनेक  
प्रकारके क्लेशोंसे दबकर विदेशगमन मिलताहै ॥ ३७ ॥

पाके स्थानवलान्वितस्य च गुरोः क्षेत्रार्थदारात्मजान्संप्राप्नोति  
गजांश्च वस्त्रकनकं चित्रांबरं भूषणम् ॥ दिग्वीर्यान्वितदेवनायक-  
गुरौ लोके प्रसिद्धिं तथा जीवे कालबलाधिके नृपवधूसन्मानतां  
याति सः ॥ ३८ ॥ निसर्गवीर्यान्वितजीवदाये निसर्गतश्चाति-  
सुखं महत्त्वम् ॥ विद्याविलासं रतिकेलिसौख्यं भागीरथीतोय-  
कृताभिषेकम् ॥ ३९ ॥ वक्रं गतस्यापि गुरोर्दशायां महार्थतां  
याति सुतार्थदारान् ॥ युद्धे जयं भूपतिमित्रतां च सुगंधजातां-  
वरवाग्विलासम् ॥ ४० ॥

स्थानबली गुरुकी दशामे खेती, धन, स्त्री, पुत्र मिलतेहै हाथी, घोड़े, वस्त्र, सुवर्ण, अनेक  
रगके वस्त्र भूषणोंका लाभ होताहै दिग्वीर्ययुक्त गुरुकी दशामें लोकमें ख्याति, कालबलयुक्त गुरु-  
की दशामें राजरानियोंसे सन्मानताको प्राप्त होताहै ॥ ३८ ॥ निसर्गबलयुक्त गुरुकी दशामें  
सुख वडपन्न विद्याका विलास कामक्रीडाका सुख और गंगाका स्नान मिलताहै ॥ ३९ ॥  
वक्रगति गुरुकी दशामें धनसंपन्नता स्त्री पुत्र धनलाभ संग्राममें विजय रामासे मित्रता सुगंध  
द्रव्य उत्तम वस्त्र और वाणीका विलास मिलतेहै ॥ ४० ॥

दृग्वीर्ययुक्तस्य गुरोर्विपाके कृपाकटाक्षेण महीपतीनाम् ॥  
समस्तभाग्यं समुपैति नित्यं देशान्तरे भ्राम्यति किञ्चिदेव ॥ ४१ ॥  
क्रूरपट्टचंशसंयुक्तगुरोर्दायेतिकष्टताम् ॥ राजकोपावमानादीन्  
लभते नात्र संशयः ॥ ४२ ॥

दृग्बली गुरुकी दशामें राजाओंकी कृपासे संपूर्ण ऐश्वर्य नित्य पावे तथा थोडा, देशांतर  
भ्रमणभी करे ॥ ४१ ॥ क्रूरपट्टचंशयुक्त गुरुकी दशामें अतिकष्ट राजाका कोप अपमान आदि  
नित्संदेह पाताहै ॥ ४२ ॥

गरोगततो दुःशीलत्वं प्रभद्रसंसारः ॥ २९ ॥ आदौ गुरुदशा-  
काले नृपपूजां महत्सुखम् ॥ मध्ये स्त्रीपुत्रलाभादि चांते कष्टं  
विनिर्दिशेत् ॥ ३० ॥ धनस्थितस्यापि गुरोर्विपाके धनार्यति  
भूपतिमाननं च ॥ विद्याविवादांकितराजगोष्ठीं सर्वोपकारं विजयं  
सुखं च ॥ ३१ ॥

नीचांशगत गुरुकी दशमें राजासे भय गुल्म अरुचि आदि रोग होवै, स्थान छूट जावै,  
बधुजनोंमें विरोध होवै, राजा अग्नि चोर और अपने कुलवालोंसे भी भय होवै ॥ २८ ॥ अस्तगत  
गुरुकी दशमें एकाएकी ज्वरसे पीडित तथा क्षीण होजावै, ऊपरके अंगमें रोग होनेसे संतप्त  
रहे, शील नष्ट होजावै, सारा संसार निरर्थक मालूम पड़े ॥ २९ ॥ गुरुकी दशमें पहिले  
तो राजपूज्यता तथा सुख मिलता है बीचमें पुत्रादिलाभ और अंतमें बटफल कटना ॥ ३० ॥  
दूसरे भावगत गुरुकी दशमे धनकी वृद्धि राजासे मान विद्याकी चर्चावाली राजसभामे प्रवेश  
अपनेसे सबका उपकार विजय और सुख इतने फल होते हैं ॥ ३१ ॥

नृपकृतबहुमानं भ्रातृभिर्भूमिलाभं परयुतविजनैर्वा दत्तगोभमि-  
वित्तम् ॥ अशनवसनभूपागंधमाल्यांवराणि परकृतमुपकारं विज्ञ-  
तामेति शौर्यम् ॥ ३२ ॥ तृतीयस्थगुरोर्दाये भ्रातृणां च सुखं  
भवेत् ॥ नृपदत्तं धनं सौख्यं गंधमाल्यांवरादिकम् ॥ ३३ ॥ नीरो-  
गता पुत्रकलत्रलाभं लग्नादिस्थस्य गुरोर्दशायाम् ॥ आदौ भवे-  
ज्जनशयनस्त्रीपुत्रधनयुक्तः ॥ ३४ ॥ सारोगम् ॥ ३४ ॥ जीवो मर-  
णां स्त्रीसंगनष्टार्थविरुद्धधर्मम् ॥ ३५ ॥ नहानिम् ॥ स्थानच्युतिं विदेशं  
रोरुजं भूपतिमाननं च ॥ २ ॥

शके फल कहतेहैं परम उत्तम गुरुकी दशमें प्री-  
ला होवै सुगंधित पुष्प, वस्त्र, भोजन, शय्या, स्त्री, के राजाका किया बहुत मान, भाइयोंसे  
उचरानिगत गुरुकी दशमें स्त्रीसंगसे धन नष्टहो वी भूमि धन मिले, भोजन, वस्त्र,  
दुःख शिरमें रोग और राजासे मानभी पावे ॥ २ ॥ पर उत्तम बुद्धिमत्त और सामर्थ्य  
णी गुरुदशा प्रपन्ना धान्यांवरालंकृतिकी दिया धन सुख और चदन  
सेद्धि स्वजनैर्विरोधं मा परदारसंगम् मध्य गुरुकी दशा गुप्त  
सुतस्याप्यत्रोद्दकाले

लाभगजीवदशायां संप्राप्तौ राज्यलाभमुपयाति ॥ बह्वर्थदारपु-  
त्रान् भूपविरोधं स्वबंधुविद्वेषम् ॥ ३६ ॥ व्ययगतजीवदशायां  
प्राप्तौ वाहनादि समुपयाति ॥ लभते विदेशयानं नानाक्लेशैश्च  
परिभूतः ॥ ३७ ॥

ग्यारहवें गुरुकी दशमें राज्यलाभको प्राप्त होताहै धन स्त्री पुत्र बहुत होतेहैं, राजा तथा अपने बंधुजनोंमें द्वेष होताहै ॥ ३६ ॥ बारहवें गुरुकी दशमें वाहन आदि मिलतेहैं तथा अनेक प्रकारके क्लेशोंसे दबकर विदेशगमन मिलताहै ॥ ३७ ॥

पाके स्थानवलान्वितस्य च गुरोः क्षेत्रार्थदारात्मजान्संप्राप्नोति  
गजांश्च वस्त्रकनकं चित्रांबरं भूषणम् ॥ दिग्वीर्यान्वितदेवनायक-  
गुरौ लोके प्रसिद्धिं तथा जीवे कालबलाधिके नृपवधूसन्मानतां  
याति सः ॥ ३८ ॥ निसर्गवीर्यान्वितजीवदाये निसर्गतश्चाति-  
सुखं महत्त्वम् ॥ विद्याविलासं रतिकेलिसौख्यं भागीरथीतोय-  
कृताभिषेकम् ॥ ३९ ॥ वक्रं गतस्यापि गुरोर्दशायां महार्थतां  
याति सुतार्थदारान् ॥ युद्धे जयं भूपतिमित्रतां च सुगंधजातां-  
वरवाग्विलासम् ॥ ४० ॥

स्थानबली गुरुकी दशमें-खेत्री, धन, स्त्री, पुत्र मिलतेहैं हाथी, घोड़े, वस्त्र, सुवर्ण, अनेक रंगके वस्त्र भूषणोंका लाभ होत भी मिलताहै ॥ ७ ॥ अतिशुभराशिगत शुक्रकी दशमें की दशमें राजरानियोंसे सम्बन्ध शरीर शिथिल गुल्मरोग नेत्ररोग और संग्रहणी रोगका सुख वङ्गपन विद्याका विल

वक्रगति गुरुकी दशमें धन भोरपत्न्यार्थदारहानिः स्यात् ॥ भूपतिरोषं कु-  
व्य उत्तम वस्त्र और वा पापकर्माणि ॥ ९ ॥ मित्रक्षेत्रदशायां परोप-  
दृग्वीर्ययुक्तस्य शत्रुश्च ॥ पूगारामकृपिः स्याद्देवमनुष्यैश्चवोद्धृता-  
समस्तभाग्यं शत्रुश्च ॥ अतिमित्रशुक्रदाये भूपतिसन्मानसौख्यं च ॥  
क्रूरपट्यंशरं अतिमित्रशुक्रदाये भूपतिसन्मानसौख्यं च ॥  
लभते न समतं गजपतिसंघैर्निरस्तदोषैश्च ॥ ११ ॥

दृग्वीर्य / शुक्रकी दशमें पुत्र, धन, स्त्रीकी हानि होवे, बड़े विलासादिकी हानि और भ्रमणभी ॥ ९ ॥ मित्रराशिगत शुक्रदशमें पराया उपकार करे, ६४ कला जाने, विधि निस्संदेह जाने, सुपारो आदिका भाग खेती देवता एवं मनुष्योंके का धन आवै

॥ १० ॥ अतिमित्रराशिगत शुक्रकी दशामें राजासे सन्मान हावै, सुखमिले, गौ आदि पशु-  
धन घोड़े तथा निर्दोष श्रेष्ठ हाथियोसे युक्त रहे ॥ ११ ॥

समर्क्षगस्यापि भृगोर्विपाके प्रमेहगुल्माक्षिगुदप्ररोगः ॥ किंचि-  
त्सुखं भूपतिवह्निचौरैर्भयं स्वनामांकितगद्यपद्यम् ॥ १२ ॥ नीच-  
खेचरसंयुक्तभृगोर्दाये महद्भयम् ॥ अपवादकृतं दोषं लभते पाप-  
कर्मभिः ॥ १३ ॥ स्वोच्चस्थितेन सहितस्य भृगोर्विपाके राज्यं  
महत्त्वसमराधिपतित्वमेव ॥ हेमांवरादिमणिभूषणयानलाभं भेरी-  
मृदंगपणवारववाद्यघोषैः ॥ १४ ॥

समराशिगत शुक्रकी दशामें प्रमेह गुल्मरोग नेत्ररोग गुदद्वारमे रोग होवैं, सुख थोडा मिले  
राजा अग्नि चोरसे भय होवै, अपने नामसे चिह्नित गद्य पद्य होवैं ॥ १२ ॥ नीचगत ग्रहसे  
युक्त शुक्रकी दशामे बड़ी भय होवै, झूठा कलंक पाप कर्मसे मिले ॥ १३ ॥ उच्चगत  
ग्रहसे युक्त शुक्रकी दशामें राज्य बढप्पन युद्धमें नायकता सुवर्णवस्त्रादि तथा मणियों सहित  
भूषण मिले, भेरी मृदंग नकारे अगदि बाजाओंके शब्दसहित गमन करे ॥ १४ ॥

पापान्वितस्यापि भृगोर्दशायां स्थानच्युतिं बंधुजनैर्विरोधम् ॥

आचारहर्नि कलहप्रियत्वं कृष्यर्थभूम्यात्मजदारनाशम् ॥ १५ ॥

शुभान्वितस्यापि भृगोर्दशायां सौभाग्यमित्रात्मजधान्यलाभम् ॥

नरेशपूजां गजवाजिसंघं प्रवालमुक्तामणियानंलाभम् ॥ १६ ॥

पापयुक्त शुक्रदशामें स्थानहानि, बंधुजनोंसे विरोध, आचारहीनता, झगडामें प्रेम, खेती,  
धन, भूमि, पुत्र, स्त्रीकी हानि होवै ॥ १५ ॥ शुभग्रहयुक्त शुक्रदशामें ( सौभाग्य ) उत्तम  
ऐश्वर्य, मित्र, पुत्र, अन्न, धनका लाभ, राजपूज्यता, हाथी घोडाओंके समूह, मूंगा, मोती,  
मणि, वाहन मिले ॥ १६ ॥

पापेक्षितस्यापि भृगोर्दशायां मानार्थहानिं समुपैति दुःखम् ॥

स्त्रिया विरोधं स्वपदच्युतिं च विदेशवासं निजकर्महीनम् ॥ १७ ॥

शुभेक्षितस्यापि भृगोर्विपाके धनांबरं भूपतिपूजनं च ॥ जना-

धिपत्यं स्वशरीरकांतिं कलत्रमित्रात्मजसौख्यमेति ॥ १८ ॥

पापदृष्ट शुक्रकी दशामें मान धन हानि और दुःख पाताहै, स्त्रीसे विरोध अपने पदकी हानि  
विदेशमें निवास और अपने कर्मसे हीनता मिलतीहै ॥ १७ ॥ शुभग्रहदृष्ट शुक्रदशामें धन  
पत्र राजासे पूजा बहुत मनुष्योंमें नायकता अपने शरीरमें उत्तमजाति स्त्री मित्र पुत्रोंका  
सुख मिलताहै ॥ १८ ॥

केन्द्रे गतस्य हि दशा भृगुनन्दनस्य यानां वरादिमणिभूषित-  
देहकांतिम् ॥ राज्यार्थं भूमिकृपिवाहनवस्त्रशस्त्रदुर्गाधियानवनवा-  
सजलाभिषेकम् ॥ १९ ॥ लग्नगशुक्रदशायां संप्राप्तो राजमाननं  
लभते ॥ मणिगोधनकृषिलाभं परापवादं महोत्साहम् ॥ २० ॥  
चतुर्थराशिस्थितशुक्रदाये राज्यं महत्सौख्यमुपैति यानम् ॥ कृ-  
षिक्रियावित्तपशुप्रजानां वृद्धिं प्रतापान्वितकीर्तिजालम् ॥ २१ ॥

केन्द्रगत शुक्रकी दशामें सवारी वस्त्रादि मिले, मणियोंसे भूषितशरीरकी कांति बढे, राज्य,  
धन, भूमि, कृषिकर्म, वाहन, वस्त्र, शस्त्र मिलें, किलामें गमन वनवास वन्यजल स्नान मिलें  
॥ १९ ॥ लग्नगत शुक्रकी दशामें राजमान पाताहै, मणि, गौ, धन, कृषिका लाभ, बडा  
उत्साह और अपवाद मिलतेहैं ॥ २० ॥ चौथे शुक्रकी दशामें राज्य बडासौख्य वाहन पावै  
कृषिकर्म धन पशु सन्तानकी वृद्धि होती है प्रतापसे युक्त कीर्तिजाल फैलताहै ॥ २१ ॥

कलत्रराशिस्थितशुक्रदाये कलत्रनाशं त्वथ वा विदेशम् ॥ प्रमे-  
हगुल्मादिशरीररोगं प्रभग्नवित्तात्मजबंधुराज्यम् ॥ २२ ॥ कर्म-  
स्थशुक्रस्य दशाविपाके विद्याधनप्राप्तिनरेशपूजा ॥ भाग्योत्तरं  
पालितदेहकांतिं दिगंतरप्राप्तयशःप्रतापम् ॥ २३ ॥ त्रिकोण-  
गतः शुक्रः करोति नपपूज्यताम् ॥ यज्ञकर्मादिलाभं च गुरुपित्रोः  
सुखं यशः ॥ २४ ॥ पञ्चमस्थभृगोर्दाये पुत्रावाप्तिं विनिर्दिशेत् ॥  
कीर्तिं च राजपूजां च सर्वेषामुपकारकम् ॥ २५ ॥

सप्तमगत शुक्रदशामें खीनाश अथवा विदेशगमन होवै, प्रमेह गुल्म आदि रोग शरीरमें  
होवै, धन पुत्र बंधुजन और राज्य भग्न होवै ॥ २२ ॥ दशम शुक्रकी दशामें विद्याधनकी  
प्राप्ति रागासे पूजा ऐश्वर्यवृद्धि शरीरमें शृंगारादि कांति बढे और यश प्रताप दिगंतरमें फैले  
॥ २३ ॥ नवमगत शुक्रकी दशा राजपूज्यता यज्ञकर्मादि लाभ गुरु एवं पिताका सुख तथा  
यश देतीहै ॥ २४ ॥ पंचम शुक्रकी दशामें पुत्रप्राप्ति कहनी तथा कीर्ति राजपूज्यता और  
अपने हाथसे सबका उपकार करना मिले ॥ २५ ॥

वित्तगशुक्रदशायां धनहानिमाहुर्धनार्थं चापि ॥ अन्नसुखं वा-  
ग्विलासं परोपकारं नरेशसन्मानम् ॥ २६ ॥ तृतीयराशिस्थित-  
शुक्रदाये धैर्यं महोत्साहमदीनसत्त्वम् ॥ चित्रां वरात्कृतवाहनाप्तिं

सहोदराणां बहुभाग्यलाभम् ॥ २७ ॥ भृगोर्विपाकेऽरिगतस्य नाशं  
धान्यार्थबह्वात्मजसोदराणाम् ॥ रोगं महत्कार्यविनाशनं च शत्रो-  
र्भयं भूपतिवह्निचौरैः ॥ २८ ॥

धनस्थानगत शुक्रकी दशमें प्रथम धनहानि तब वृद्धिभी होती है, अन्नका सुख वाणीका विद्यास  
पराया उपकार तथा राजासे सन्मान मिलता है ॥ २६ ॥ तीसरे शुक्रकी दशमें धैर्य मनका  
उत्साह बड़ा जहीन वा प्रताप विचित्र वस्त्रोंसे शोभित वाहनकी प्राप्ति और भाइयोंका भी  
बहुत ऐश्वर्य लाभ होवै ॥ २७ ॥ छठे शुक्रकी दशमें अन्न, धन, पुत्र, भाईयोका नाश होवै  
बड़ारोग उत्पन्न होवै कार्यहानि और शत्रु, राजा, अग्नि, चोरसे भय होवै ॥ २८ ॥

रंघ्रे स्थितस्यापि भृगोर्विपाके शस्त्राग्निचौरक्षतमित्रविघ्नम् ॥ क्वचि-  
त्सुखं किञ्चिदुपैति वित्तं क्वचिन्नरेशात्तयशः प्रतापम् ॥ २९ ॥  
लाभस्थितस्यापि भृगोर्विपाके सुगंधमाल्यांबरराजपूजांम् ॥  
पुत्रार्थसौख्यं कृपिविक्रयं च दानं स्वनामांकितपद्यजालम् ॥ ३० ॥  
व्ययगतशुक्रदशायां लभते धान्यार्थराजसन्मानम् ॥ स्थानच्युतिं  
प्रवासं मातृवियोगं मनोविलासं च ॥ ३१ ॥

अष्टमगत शुक्रकी दशमें शस्त्र अग्नि चोरसे भय होवै, चोट लगे, विघ्न होवै, कभी सुखभी  
होवै, कभी धन पावै, कभी राजासे यश मिले, कभी प्रताप बडे ॥ २९ ॥ लाभगत शुक्रकी  
दशमें सुगंध पुष्प वस्त्र राजासे पूजा मिले, पुत्र तथा धनका सुख कृषिकर्ममें लाभ दानादि  
देना और अपने नामसे युक्त श्लोकादियोंके समूह होवै ॥ ३० ॥ बारहवें शुक्रकी दशमें  
अन्न धन राजासे सन्मान मिले, तथा स्थानहानि परदेशगमन माताका वियोग होवै और  
मनका विद्यास भी होवै ॥ ३१ ॥

जीवर्क्षगतस्य भृगोः स्त्रीपुत्रभूमिनाशनं कुरुते ॥ कर्मसु नित्योद्धि-  
शो जननीकेशान्वितो मनोदुःखी ॥ ३२ ॥ अर्कगतशुक्रदशायां जी-  
र्णगृहौकाः शुभावरोधश्च ॥ लभते दारविनाशं भ्रातृवियोगं च क-  
लहं च ॥ ३३ ॥ सिंहगतशुक्रदशायां लभते विविधापदं मनो-  
दुःखम् ॥ उद्योगरोगतप्तः कर्मसु विफलेषु सर्वदाभिरतः ॥ ३४ ॥

गुरुराशित शुक्रदशा स्त्री पुत्र भूमिका नाश करती है, काममें सर्वदा उद्विग्न रहता है, माताको  
केश मिलता है मनमें दुःखी रहता है ॥ ३२ ॥ अस्तगत शुक्रकी दशमें पुराने घरमें निवास

मिलताहै, भलेकाम रुकनातेहैं, खीहानि भाइयोंका वियोग और कलहभी होताहै ॥ ३३ ॥  
सिहराशिंगत शुक्रकी दशामें अनेकमकार आपत्ति पाताहै मनमें दुःख उद्यमसे तथा रोगसे  
संतत और निष्फल होनेवाले कामोंमें सर्वदा तप्त रहे ॥ ३४ ॥

शुक्रे स्थानबलाधिके नरपतेः सन्माननं भूषणं विद्यावादविवाद-  
गोष्ठिरसिकं नामद्वयं संध्रमम् ॥ तस्मिन् दिक्प्रबलान्विते बहु-  
यशः पुत्रार्थदारांबरं शुक्रे कालबलान्विते सुखधनं कीर्तिः स्व-  
नामांकिता ॥ ३५ ॥ निसर्गवीर्ययुक्तस्य भृगोर्दाये महत्सुखम् ॥  
कृषिगोभूमिवित्तादिभ्रातृमातृसुखं भवेत् ॥ ३६ ॥

स्थानबली शुक्रकी दशामें राजासे सन्मान भूषण मिले, विद्याके विवादवाली सभामें प्रवेश  
रसिकता बड़े उत्साहसे दो नाम अर्थात् दूसरा अधिकारी नाम मिले, दिग्बली शुक्रकी दशामें  
बहुत यशबड़े पुत्र, धन, स्त्री, वस्त्र मिलतेहैं कालबलयुक्त शुक्रदशामें सुख धन और अपने  
नामयुक्त कीर्ति मिलतीहै ॥ ३५ ॥ निसर्गबली शुक्रदशामें बड़ा सुख मिलताहै, कृषि भूमि  
धनादि बढ़तेहैं, तथा भाई एवं माताका सुख होताहै ॥ ३६ ॥

वक्रंगतस्यापि भृगोः सुतस्य दशाविपाके त्वतिराजपूज्यम् ॥  
मृदंगभेरीरवयुक्त्यानं विचित्रवस्त्राभरणानि राज्यम् ॥ ३७ ॥  
दृग्वीर्ययुक्तस्य भृगोर्विपाके यज्ञादिकर्माणि करोति काले ॥ विद्या-  
विलासं शयनाम्बरं च नृपाभिपेकं कलहं विरोधम् ॥ ३८ ॥ क्रूरष-  
ष्ट्यंशयुक्तस्य भृगोर्दाये विषद्भयम् ॥ चौराग्निराजभीतिश्च कृषि-  
गोभूमिनाशनम् ॥ ३९ ॥ सौम्यषष्ट्यंशयुक्तस्य भृगोर्दाये महत्सु-  
खम् ॥ कूपारामतडागानां निर्माणं देवपूजनम् ॥ ४० ॥

वक्रंगतशुक्रकी दशामें बहुतसी राजपूज्यता मिले, मृदंग भेरी आदियोंके शब्दसहित उसकी  
सवारी निकले, अनेक प्रकारके वस्त्र भूषण और राज्यमिले ॥ ३७ ॥ दृग्बली शुक्रकी दशामें  
समयपर यज्ञादिकर्म करताहै, विद्याका विलास मिले, शय्या वस्त्र मिलें, राजाका अभिपेक देखे  
और कलह विरोधभी होवै ॥ ३८ ॥ क्रूरषष्ट्यंशगत शुक्रकी दशामें विपत्ति भय चौर अग्नि  
रानासे भय कृषि गौ भूमिका नाश होवै ॥ ३९ ॥ शुभषष्ट्यंशगत शुक्रदशामें बड़ा सुख मिले  
कुंवा बगीचा तालाव बनावे, देवपूजन करे ॥ ४० ॥

वैशेषिकांशयुक्तस्य भृगोर्दाये महत्सुखम् ॥ वाहनं भूपसन्मानं  
भ्रातृस्त्रीधनसंपदः ॥ ४१ ॥ क्रूरद्रेष्काणसंयुक्तभृगोर्दायेऽरिभीतयः ॥  
कारागारमहत्कष्टमनलं चौरपीडनम् ॥ ४२ ॥

वैशेषिकांशगत शुक्रकी दशमें बहुत सुख मिले, वाहन राजसन्मान भाई स्त्री धनकी संपत्ति होवै ॥ ४१ ॥ क्रूरदेष्काणगत शुक्रकी दशमें शत्रुसे भय कैदमें रहनेसे बड़ा कष्ट और अग्नि चोरसे पीडा मिले ॥ ४२ ॥

उच्चक्षेत्रेपि नीचांशयुक्तः शुक्रोतिकष्टदः ॥ करोति राज्यनाशं च स्थाननाशमथापि वा ॥ ४३ ॥ उच्चांशयुक्तशुक्रोपि नीचराशिसमन्वितः ॥ कृपिगोभूमिवाणिज्यं धनधान्यविवर्द्धनम् ॥ ४४ ॥ इति शुक्रदशाफलम् ॥

उच्चराशिगतभी शुक्र नीचांशमें होवै तो उसकी दशा अतिकष्ट देतीहै राज्यनाश अथवा स्थाननाश करतीहै ॥ ४३ ॥ यदि नीचराशिमेंभी उच्चांशकी होवै तो कृषि, गो, भूमि व्यापार, धन, अन्नको बढ़ातीहै ॥ ४४ ॥ इति शुक्रदशाफलम् ॥

अथ शनिदशाफलविचारः ।

मन्दोत्थुच्चदशायां ग्रामसभामण्डलाधिपत्यं स्यात् ॥ लभते विनोदशीलं पितृनाशं बंधुकलहं च ॥ १ ॥ स्वोच्चदशायां कुरुते देशभ्रंशं मनोरुजं दुःखम् ॥ वाणिज्यसत्त्वहानिं कृपिहानिं नृपविरोधं च ॥ २ ॥

अथ शनिकी दशाका फल कहतेहै परमोच्चगत शनिकी दशामे गांवसभा ( मण्डल ) परगनाका आधिपत्य मिले, खुशीकी वार्तालाप और पिताका नाश बंधुजनसे कलहभी होताहै ॥ १ ॥ उच्चगत शनिकी दशा दांत गिरातीहै, मनका रोग दुःख व्यापारमें हानि, तेजकी हानि कृषिहानि और राजासे विरोधभी करातीहै ॥ २ ॥

आरोहिणी वासरनाथसूनोर्दशाविपाके नृपलब्धभाग्यम् ॥ वाणिज्यलाभं कृपिभूमिलाभं गोवाजियानं सुतदारलाभम् ॥ ३ ॥ दिनेशसूनोस्त्वरोहकाले राज्यच्युतिं दारसुतार्थनाशम् ॥ भाग्यक्षयं भूपतिकोपयुक्तं प्रेष्यत्वमायाति गुदाक्षिरोगम् ॥ ४ ॥ नीचस्थितस्यापि दिनेशसूनोर्दाये कलत्रात्मजसोदराणाम् ॥ नाशं महत्कष्टतरां कृपिं च नीचानुवृत्त्या समुपैति वृत्तिम् ॥ ५ ॥

उच्चराशिमें जानेवाले शनिकी दशामें राजासे ऐश्वर्य मिले, व्यापारमें लाभ गौ घोड़े सवारी पुत्र स्त्रीका लाभ होवै ॥ ३ ॥ नीचराशिमें जानेवाले शनिकी दशामें राज्यहानि स्त्री पुत्र धनका नाश ऐश्वर्यका क्षय राजाके कोपसहित तथा पराया प्रेष्यत्व ( दूतकर्म ) और गुदा



एवं नेत्रमें रोग होवै ॥ ४ ॥ नीचराशिगत शनिकी दशामें स्त्री पुत्र भौंडियोंका नाश कृषि बडे कष्टसे और आजीवन नीच वृत्तिसे होवै ॥ ५ ॥

मूलत्रिकोणनिलयस्य शनेर्दशायां देशान्तरादिवनवासमुपैति काले ॥ नामद्वयं यदि सभानगराधिपत्यं विद्वेषणं सुतकलत्रधनादिभिर्वा ॥ ६ ॥ स्वक्षेत्रगस्य च दशा दिवसेशसूनोर्द्वेषं करोति बलपौरुषकीर्तिजालम् ॥ राजाश्रयं कनकभूषणभूमिलाभं धैर्यं स्वनामसदृशानुगुणं च सौख्यम् ॥ ७ ॥

मूलत्रिकोण ११ राशिगत शनिकी दशामें देशांतरगमन वनमें वास पावै तथा उपाधिनाम सभा एवं नगरका आधिपत्य पावै और पुत्र स्त्री अथवा धनसे विद्वेतिता पावै ॥ ६ ॥ अपनी राशिगत शनिकी दशा द्वेष करतीहै तथा बल पुरुषार्थ कीर्तिजाल राजाका आश्रय सुवर्णके भूषणभूमि धैर्यता मिलतेहै अपने नाम गुणोंके सदृश सुखभी मिलताहै ॥ ७ ॥

शनेर्दशायामतिशत्रुगस्य स्थानच्युतिं बंधुविरोधतां च ॥ चौरादिभूपैर्भयमत्रविघ्नो भृत्यार्थदारोत्तमजकोपमेति ॥ ८ ॥ दिनेशसूनोस्त्वरिराशिगस्य वैश्याद्धनं प्राप्यति भूमिनाशम् ॥ कृषेर्विनाशं स्वपदच्युतिं च वैरं समायाति शरीरकृच्छ्रम् ॥ ९ ॥

अतिशत्रुराशिगत शनिकी दशामें स्थानहानि बंधुजनमें वैर चौरादिभय राजाओंसे भय कार्यमें विघ्न नौकर धन स्त्री पुत्रोंका कोप पावै ॥ ८ ॥ शत्रुराशिगत शनिकी दशामें वगियेंसे धन पावै, भूमिका नाश कृषिका नाश पदकी हानि वैर शरीर कष्ट पावै ॥ ९ ॥

मित्रक्षेत्रदशायां मंदस्य तु शिल्पकर्मगुणवेत्ता ॥ ज्ञानबलं च प्रतापं ददाति दुःखं महत्त्वं च ॥ १० ॥ अधिमित्रमंददाये ददाति सौख्यं नरेशसन्मानम् ॥ सुतधनदारविशेषात् पशुकृषिमहिपादित्राणिज्यम् ॥ ११ ॥ समर्शगस्यापि शनेर्दशायां समानबुद्धिः सुतदारमित्रे ॥ भृत्यापदं बंधुजनेषु वैरं देहस्य कष्टं क्षयवातपित्तैः ॥ १२ ॥

मित्रराशिगत शनिकी दशा शिल्पकर्म कारीगरीके गुण जाने, ज्ञान बल प्रताप तथा दुःख और बढपनभी देतीहै ॥ १० ॥ अधिमित्रराशिगत शनिकी दशा सुख राजासे सन्मान पुत्र धन स्त्रियोंसे विशेषतः कृषि महिष आदिके व्यापारसे धन देतीहै ॥ ११ ॥ समराशिगत शनिकी दशामें पुत्र स्त्री मित्रोंमें समान बुद्धि रहती है, सेवकको आपत्ति बंधुजनोंमें वैर तथा क्षय वात पित्तसे देहकष्ट होताहै ॥ १२ ॥

नीचखेचरसंयुक्तशनेर्दाये महद्भयम् ॥ विप्रलंभोपवासश्च नीच-  
वृत्त्यानुजीवनम् ॥ १३ ॥ स्वोच्चखेचरसंयुक्तशनेर्दाये महत्सुखम्  
किञ्चिद्राज्यं कृपेर्लाभं भृत्यवर्गार्थनाशनम् ॥ १४ ॥

नीचराशिगत ग्रहयुक्त शनिकी दशामें बड़ी भय होतीहै, कोई बात अंगीकार करके उसका  
संपादन न करना होवै निराहार रहना पड़े, नीचवृत्तिसे आजीवन होवै ॥ १३ ॥ उच्चराशि-  
गत ग्रहसे युक्त शनिकी दशामें बड़ा सुख मिले, थोड़ा राज्य कृषिसे लाभ होवै और सेवक  
तथा धनका नाशभी होवै ॥ १४ ॥

पापान्वितस्यापि शनेर्दशायां पापानि गूढानि करोति काले ॥  
नीचस्त्रिया संगमनं विशेषाच्चौरादिनीचैः कलहं विदारम् ॥ १५ ॥  
शुभान्वितस्यापि शनेर्दशायां विशेषतो ज्ञानमुपैति काले ॥  
परोपकारं नृपलब्धभाग्यं कृष्णानि धान्यान्ययशश्च लाभम् ॥ १६ ॥

पापयुक्त शनिकी दशामें गुप्तपाप करताहै विशेषतः नीचस्त्रीका संगम करे चौरादि नीचोंसे  
कलह तथा खोहानि होवै ॥ १५ ॥ शुभग्रहयुक्त शनिकी दशामें विशेषकारिके ज्ञानपावै  
पराया उपकार करे रामासे ऐश्वर्य मिले कृष्णरगके अन्न और लोहेका लाभ होवै ॥ १६ ॥

पापेक्षितस्यापि शनेर्दशायां भृत्यार्थदारात्मजसोदराणाम् ॥ नाशं  
समायाति परापवादं कुभोजनं कुत्सितगंधमाह्वयम् ॥ १७ ॥  
शुभेक्षितस्यापि शनेर्दशायां स्त्रीपुत्रभृत्यार्थमुपैति काले ॥ पश्चा-  
दुपैत्यत्र महत्त्वकष्टं गोभूमिवाणिज्यकृपेर्विनाशम् ॥ १८ ॥

पापदृष्ट शनिकी दशामें सेवक, धन, स्त्री, पुत्र और भाइयोंका नाश होवै, झूठाकलक लगे  
कुभोजन निंद्य चंदन पुष्पआदि मिलें ॥ १७ ॥ शुभग्रहदृष्ट शनिकी दशामें स्त्री पुत्र सेव-  
कोंकी वृद्धि मिलतीहै, पीछे बढपन एव कष्ट और गौ, भूमि, व्यापार, कृषिका नाश होताहै ॥ १८ ॥

केन्द्रान्वितशनेर्दाये कलहायासपीडनम् ॥ पुत्रमित्रार्थदारादि-  
बंधूनां मरणं ध्रुवम् ॥ १९ ॥ लग्नस्थितशनेर्दाये देहकृच्छ्रमु-  
पैति च ॥ स्थानच्युतिं प्रवासं च राजकोपं शिरोरुजम् ॥ २० ॥  
चतुर्थस्थशनेर्दाये मातृतद्दर्गनाशनम् ॥ गृहदाहं पदभ्रंशं चौरातिं  
नृपपीडनम् ॥ २१ ॥

केन्द्रगत शनिकी दशामें कलह श्रम पीडा तथा पुत्र मित्र धनादिहानि बहुजनमरण निश्चय  
होताहै ॥ १९ ॥ लग्नगत शनिकी दशामें देहमें कष्ट पावै, स्थानहानि विदेशवास रानाका

कोप और शिरमें रोग होताहै ॥ २० ॥ चौथे भावगत शनिकी दशामें माता तथा मातृवर्ग  
मांवासी ताई चाची दादी आदिका नाश, घरका जलना, पदसे भ्रष्ट होना और चोरसे राजासे  
पीडन मिलताहै ॥ २१ ॥

दारराशिगतस्यापि शनेर्दायेऽरिपीडनम् ॥ मूत्रकृच्छ्रं महाद्वेषं  
स्त्रीहेतोर्मरणं च वा ॥ २२ ॥ दशमस्थशनेर्दाये कर्मनाशमुपैति  
च ॥ देशांतरं पदभ्रंशं निगडं राजपीडनम् ॥ २३ ॥ द्वितीयस्थ-  
शनेर्दाये वित्तनाशमथाक्षिरुक् ॥ राजकोपं मनस्तापमन्नद्वेषं  
मनोरुजम् ॥ २४ ॥ तृतीयस्थशनेर्दाये कृपिगोधनसंपदः ॥  
मनोजाड्यं मनोत्साहं भ्रातृतद्गर्गनाशनम् ॥ २५ ॥

सप्तमगत शनिकी दशामें शत्रुसे पीडन मूत्रकृच्छ्र रोग बढावैर अथवा स्त्रीके कारण मरण  
होवै ॥ २२ ॥ दशमगत शनिकी दशामें कर्मका नाश पावै, देशांतरगमन पदसे भ्रष्टता कैद  
राजासे पीडन इतने फल होतेहैं ॥ २३ ॥ दूसरे शनिकी दशामें धननाश तथा नेत्ररोग  
राजाका कोप मनमें संताप अन्नमें अरुचि मनमें रोग होतेहैं ॥ २४ ॥ तीसरे भावगत  
शनिकी दशामें कृषि गौ धनकी संपत्ति मनकी जडता ( कुन्द ) ता तथा मनका उत्साह  
और भाई भ्रातृवर्गका नाश होवै ॥ २५ ॥

पंचमस्थशनेर्दाये पुत्रनाशं मनोरुजम् ॥ राजकोपं भृत्यनाशं  
बंधुस्त्रीवित्तविभ्रमम् ॥ २६ ॥ षष्ठस्थरविसूनोस्तु दशाकालेऽरि-  
पीडनम् ॥ व्याधिचौरविषैर्वाधां गृहक्षेत्रविनाशनम् ॥ २७ ॥  
मरणपदस्थो मंदः करोति नित्यं सुतार्थदाराणाम् ॥ नाशं  
भृत्यजनानां गोमहिपभूमिदारनाशं च ॥ २८ ॥ नवमगतमंदः  
दाये पित्रोर्नाशं गुरोस्तथैवापि ॥ लभते विदेशयानं स्वकुलजा-  
तैर्विनाशमुपयाति ॥ २९ ॥ लाभगतमंददशायां लभते विविधार्थं  
सौख्यसन्मानम् ॥ सुतदारभृत्यसौख्यं मनोविलासं कृपेश्च  
धनलाभः ॥ ३० ॥

पंचमगत शनिकी दशामें पुत्रनाश मानसी रोग राजाका कोप सेवकका नाश बंधुजन स्त्री  
धनका विभ्रम होवै ॥ २६ ॥ छठे शनिकी दशामें शत्रुपीडा रोग चोर और विपसे पीडा  
मिले घर खेतिका नाश होवै ॥ २७ ॥ अष्टमस्थानस्थित शनिकी दशा पुत्र, धन, स्त्रियोंका  
नाश, भृत्यहानि, गौ, भैंस, भूमि, स्त्रीनाश करताहै ॥ २८ ॥ नवम शनिकी दशामें मातापि-

तिका नाश तथा गुरुका नाश परदेशगमन और अपने कुलवालोंसे नाशको प्राप्त होवै ॥  
॥ २९ ॥ ग्यारहवें शनिकी दशमे नानामकार धन, सुख, सन्मान, पुत्र, स्त्री, सेवकोंका  
सुख, मनकी विलासता ( खुसी खेळ हंसीआदि ) और कृषिसे धनलाभ होवै ॥ ३० ॥

व्ययगतमंददशायां भीतिं चौराग्निभूपसधैश्च ॥ विविधापदं च  
दुःखं विदेशयानं स्वबंधुनाशश्च ॥ ३१ ॥ अर्कगमंददशायां  
स्वजनद्वेषं परस्त्रियं लभते ॥ भृत्यापत्यविरोधं महोद्यमं दोषपरि-  
भूतम् ॥ ३२ ॥

व्ययभावगत शनिकी दशामें चोर अग्नि राजाओंसे भय नानामकारकी आपत्ति दुःख  
परदेशगमन बंधुविनाश होताहै ॥ ३१ ॥ अस्तंगत शनिकी दशामें अपने मनुष्योंसे देव  
पंरस्त्रीसंग सेवक तथा पुत्रोंसे विरोध होवै, बड़े उद्यम होवै परंतु दोषपूरित ॥ ३२ ॥

नीचांशमंददाये नीचाचारेण जीवनं लभते ॥ सर्वेषां प्रेष्यत्वं  
धनसुतदारैश्च विग्रहं दुःखम् ॥ ३३ ॥ उच्चांशमंददाये विविधसु-  
खानन्दभोगभाग्यादीन् ॥ कुरुते विदेशयानं ग्रामसभामण्डला-  
धिपत्यं वा ॥ ३४ ॥ आदौ मंददशायामतिदुःखं मातृनाशनं  
कुरुते ॥ मध्ये विदेशयानं परगृहवासं परान्नभुक् चाति ॥ ३५ ॥

नीचांशगत शनिदशामें नीचकर्माचरणसे आजीवन मिश्रताहै, सबका प्रेष्य ( दूतत्व )  
धन पुत्र स्त्रीसे कलह तथा दुःख मिलतेहैं ॥ ३३ ॥ उच्चांशगत शनिकी दशामें अनेकमकार  
सुख आनन्द भोग ऐश्वर्यआदि होतेहैं, वह परदेशगमन वा ग्राम. (सभा) कचहरी पण्ड्याका  
मालिक बनाने है ॥ ३४ ॥ शनिकी दशा मध्यम अतिदुःख माताका नाश मध्यमें विदेश-  
गमन अंतमें पराय घरमें निवास पराया अन्न भोजन करातीहै ॥ ३५ ॥

स्थानत्रीर्ययुतमंददशायां दारपुत्रधनकीर्तिमुपैति ॥ चोरशत्रुनृप-  
वह्निभयं वा धान्यभूमिकृपिवाहनलाभम् ॥ ३६ ॥ मंदस्य  
दिग्नीर्ययुतस्य दाये दिगंतरादाप्तसुतार्थकीर्तिम् ॥ भूगृहदारात्म-  
जसोदराणां विनाशनं बंधुजनैर्विरोधम् ॥ ३७ ॥ कालत्रीर्ययु-  
तमंददशायां कालकूटविपभीतिमुपैति ॥ दारपुत्रनृपचौरभयं  
वा धान्यभूमिकृपिवाहनलाभम् ॥ ३८ ॥

स्थानवर्द्धा शनिकी दशामें स्त्री पुत्र धन और धर्मि पानाहै अथवा चोर, शत्रु, राजा,  
अग्निसे भय तथा भय, भूमि, कृषि, वाहनका लाभ होताहै ॥ ३६ ॥ दिग्नीर्ययुत शनिकी

दशामें दिगतरसे कीर्ति आवै पुत्र धन मिले भूमि गुप्तस्त्री पुत्र भाईयोंकी हानि बंधुजनसे विरोध होवै ॥ ३७ ॥ कालबली शनिकी दशामें कालकूट विषकी भय अथवा स्त्री पुत्र भय राज चौर भय मिलती है, अन्न, भूमि, कृषि और वाहन लाभ होताहै ॥ ३८ ॥

वक्रचारयुतो मन्दः करोति विफलां क्रियाम् ॥ उद्योगभंगं दुःखं  
च सोदराणां च नाशनम् ॥ ३९ ॥ क्रूरपष्टयंशयुक्तस्य शनिदाये  
महद्भयम् ॥ नृपकोपं पदभ्रंशं कारागृहनिवेशनम् ॥ ४० ॥  
सौम्यपष्टयंशसंयुक्तशनिदाये महत्सुखम् ॥ दारपुत्रार्थसंपत्तिं लभते  
बन्धुविग्रहम् ॥ ४१ ॥

वक्रगत मंगलकी दशा कार्यविफल उद्योगभंग दुःख और भाईयोंका नाश करतीहै ॥ ३९ ॥ क्रूरपष्टयगत शनिकी दशामें बड़ीभय राजकोप पदहानि और कैदघरमें निवास होताहै ॥ ४० ॥ शुभपष्टयगत शनिकी दशामें बडासुख स्त्री पुत्र धनकी संपत्ति मिले और बधुवर्गमें कलह होवै ॥ ४१ ॥

वैशेषिकांशसंयुक्तः शनिः सौख्यं करोति च ॥ विशेषाद्राजस-  
न्मानं विचित्रांबरभूषणम् ॥ ४२ ॥ क्रूरद्रेष्काणसंयुक्तशनिदाये  
महद्भयम् ॥ उद्ध्वंशनं विषाद्रीतिं नृपचौराग्निजं भयम् ॥ ४३ ॥  
नीचराशिगतो मंदः स्वोच्चांशकसमन्वितः ॥ दशादौ दुःखमापाद्य  
दशांते सुखदो भवेत् ॥ ४४ ॥ उच्चराशिगतो मंदो नीचांशकसम-  
न्वितः ॥ दशादौ सुखमापाद्य दशान्ते कष्टदो भवेत् ॥ ४५ ॥ इति  
श्रीसर्वार्थचिंतामणौ गुर्वादिशन्यन्तदशाफलनिरूपणो नाम पंच-  
दशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

वैशेषिकांशगत शनिकी दशा सुख करतीहै, विशेषतः राजासे सन्मान अनेकप्रकारके वस्त्र भूषण देतीहै ॥ ४२ ॥ क्रूरद्रेष्काणगत शनिकी दशामें बहुत भय फांसी लटकना विषसे भय राजा चौर अग्निसे भय होतीहै ॥ ४३ ॥ नीचराशिगत शनि यदि उच्चांशकमें होवै तो दशाके आदिमें दुःख देकर अंतमें सुख देनेवाला होताहै ॥ ४४ ॥ उच्चराशिगत शनि यदि नीचांशकमें होवै तो दशाके आदिमें सुख देकर अंतमें कष्ट देनेवाला होताहै ॥ ४५ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिंतामणौ माहीधरीभाषाटीकायां गुर्वादिशन्यन्तदशाफल-

निरूपणाऽध्यायः पञ्चदशः ॥ १५ ॥

## षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

अथ राहुकेतुदशाफलविचाराध्यायः ।

राहोस्तु वृषभं केतोर्वृश्चिकं तुंगसंज्ञितम् ॥ मूलत्रिकोणं कुम्भं  
च प्रियं मित्रममुच्यते ॥ १ ॥ एषां सप्तमराशिस्तु केतोर्मूलत्रि-  
कोणभम् ॥ पष्ठाष्टरिष्फगो राहुः स्वदाये कष्टदो भवेत् ॥ २ ॥ उच्च-  
स्थः सैहिकेयस्तु तत्पाके सुखदो भवेत् ॥ राज्यं करोति मित्राप्तिं  
धनधान्यविवर्द्धनम् ॥ ३ ॥

राहुका वृष, केतुका वृश्चिक उच्चसंज्ञक है, कुम्भ मूलत्रिकोण भेष मित्रराशि है ॥ १ ॥ इनकी  
सातवीं राशि केतुका मूलत्रिकोण है, राहु ६ । ८ । १२ भावोंमें अपनी दशामें कष्ट देताहै  
॥ २ ॥ उच्चगत राहु अपनी दशामें सुख देनेवाला होताहै, राज्य मित्रमाप्ति और अन्न धनकी  
वृद्धि करताहै ॥ ३ ॥

राहुर्नीचस्थितो दाये चौराग्निनृपभीतिदः ॥ उद्धंघनं विपाद्भीतिं  
कुरुते सिंहिकासुतः ॥ ४ ॥ राहोर्दशायां संप्राप्तौ नृपचौराग्निपी-  
डनम् ॥ विदेशयानं दुःखार्तिं वनवासाद्भयं ध्रुवम् ॥ ५ ॥ लग्नग-  
तराहुदाये बुद्धिविहीनं विपाग्निशस्त्राद्यैः ॥ वंधुविनाशं लभते दुः-  
खार्तिं च पराजयं समरे ॥ ६ ॥

नीचगत राहुदशामें चौर अग्नि राजासे भय देताहै, फांसी छटकना विपसे भय करताहै  
॥ ४ ॥ राहुकी दशामें राजा चौर अग्निसे पीडन विदेशगमन दुःख पीडा और वनवाससे  
निश्चय भय होताहै ॥ ५ ॥ लग्नस्थित राहुकी दशामें बुद्धिहीनता विप अग्नि शस्त्रादिसे भय  
बंधुविनाश दुःख पीडा मिळतीहै, युद्धमें हारभी मिळतीहै ॥ ६ ॥

राहोर्दशायां धनराशिगस्य राज्यं च वित्तं हरते विशेषात् ॥ कु-  
भोजनं कुत्सितराजसेवा मनोविकारं त्वनृतं प्रकोपम् ॥ ७ ॥  
तृतीयराशिस्थितराहुदाये पुत्रार्थदारात्मसहोदराणाम् ॥ सुखं कृषे-  
र्बंधनमाधिपत्यं विदेशयानं नरपालपूज्यम् ॥ ८ ॥

दूसरे राहुकी दशामें राहु विशेषतः राज्य तथा वित्तभी हरण करताहै, कुभोजन मिळे  
निन्द्य राजाकी सेवा मनमें विकार घृष्ट और मोष होवे ॥ ७ ॥ तीसरे राहुकी दशामें पुत्र  
धन अपने भाइयोंका मुक्त कृषिकर्मसे बंधन आधिपत्यता विदेशगमन और राजासे  
पूज्यता मिळे ॥ ८ ॥

चतुर्थराशिस्थितराहुदाये मातुर्विनाशं त्वथवा तदीयम् ॥ क्षेत्रार्थं  
नाशं नृपतेः प्रकोपं भार्यादिपातित्यमनेकदुःखम् ॥ ९ ॥ चौरा-  
ग्निबंधार्तिमनोविकारं दारात्मजानामपि रोगपीडा ॥ चतुर्थराशि-  
स्थितराहुदाये प्रभन्नसंसारकलत्रपुत्रम् ॥ १० ॥ बुद्धिभ्रमं भोजन-  
सौख्यनाशं विद्याविवादं कलहं च दुःखम् ॥ कोपं नरेन्द्रस्य सु-  
तस्य नाशं राहोः सुतस्थस्य दशाविपाके ॥ ११ ॥

चौथे राहुकी दशामें माताका विनाश अथवा अपना विनाश होवै, खेती धनका नाश  
राजाका कोप स्त्री आदिको पतितता अनेक दुःख होतेहैं ॥ ९ ॥ औरभी फलहै कि चोर  
अग्निभय बंधन पीडन मनका विकार स्त्रीपुत्रको भी रोग पीडा होवै, स्त्री पुत्र और संसारसे  
मन विविक रहे ॥ १० ॥ पंचमराहुकी दशामें बुद्धिका भ्रम भोजनका सुख नाश होवै, विद्यामें  
विवाद कलह दुःख राजकोप पुत्रनाश होताहै ॥ ११ ॥

दशाविपाके त्वरिराशिगस्य चौराग्निभूपैर्भयमातनाशम् ॥ प्रमेह-  
गुल्मक्षयपित्तरोगं त्वग्दोषरोगं त्वथवा मृतिं च ॥ १२ ॥ कलत्र-  
राशिस्थितराहुदाये कलत्रनाशं समुपैति शीघ्रम् ॥ विदेशयानं  
कृपिभाग्यहानिं सर्पाद्रयं मृत्युसुतार्थनाशम् ॥ १३ ॥ राहोर्दशायां  
निभ्रनस्थितस्य यमालयं याति सुतार्थनाशम् ॥ चौराग्निभूपैः  
स्वकुलोद्भवैश्च भयं भृगोर्वा वनवासदुःखम् ॥ १४ ॥

छठे राहुकी दशामें चोर अग्नि राजासे भय, लाभका नाश, अपने हितैषीका नाश, प्रमेह, गुल्म  
क्षय, पित्तरोग, त्वचाके दोषका रोग होवै अथवा मृत्यु होवै ॥ १२ ॥ सप्तमगत राहुकी  
दशामें स्त्रीनाश शीघ्र होताहै, परदेशगमन कृपि तथा वैश्वदेवकी हानि सर्पसे भय मृत्यु पुत्र धन  
नाश होवै ॥ १३ ॥ अष्टमगत राहुदशामें यमालय जाताहै, पुत्र धन हानि होतीहै, चोर अग्नि  
राजासे तथा अपने कुलवालोंसे भय होवै ( भृग ) सिंह भेडियाआदिकी भय होवै ॥ १४ ॥

राहोर्दशायां नवमस्थितस्य पित्रोर्विनाशं लभते मनुष्यः ॥ विदे-  
शयानं गुरुबंधुनाशं स्नानं समुद्रस्य सुतार्थनाशम् ॥ १५ ॥ मा-  
नस्थितस्यापि दशाविपाके राहोः प्रवृत्तिं लभते मनुष्यः ॥ पुरा-  
णधर्मश्रवणादिभिश्च गांगेयतोयेरपि शुद्धदेहः ॥ १६ ॥ सौम्य-  
क्षगश्चेत्फलमेवमेव पापक्षगश्चेन्न तथाभवेद्धि ॥ प्रोक्तं फलं यत्स-  
कलं तदेव सौम्यक्षगश्चेत्फलमन्यथा स्यात् ॥ १७ ॥

नवमगत राहुकी दशामें मनुष्य माता पिताका नाश विदेशगमन गुरुजन बंधुजनका नाश पुत्र धननाश होवै तथा समुद्रस्नान मिले ॥ १५ ॥ दशमराहुकी दशामें मनुष्य कर्ममें प्रवृत्ति पावै पुराण धर्म श्रवणआदि करके धर्ममें प्रवृत्ति होवै गंगाजलसे देह शुद्ध होवै ॥ १६ ॥ राहु शुभराशिमें होवै तब ऐसा फल होताहै पापराशिमें होवै तो वैसा फल न होगा पापराशिमें होनेसे उक्तफल विपरीत होताहै ॥ १७ ॥

पापक्षेत्रगतो राहुः कर्मस्थः पापसंयुतः ॥ अभिशस्तस्तदा काले पुत्रदारान्निपीडनम् ॥ १८ ॥ आयराशिगतो राहुस्तत्पाके नृपमाननम् ॥ धनाग्निं दारलाभं च गृहक्षेत्रादिसंपदः ॥ १९ ॥ व्ययगतराहुदशायां देशभ्रंशं मनोरुजं कुरुते ॥ विच्छिन्नदारपुत्रं कृपिपशुधनधान्यसंपदां नाशम् ॥ २० ॥

दशमराहु पापराशिमें होवै तथा पापयुक्त होवै तो झूठा कलंक लगे पुत्र स्त्री अग्निसे पीडन मिले ॥ १८ ॥ लाभगत राहुकी दशामें राजमान धनमाप्ति स्त्रीलाभ मकान खेती आदिसंपत्ति होवै ॥ १९ ॥ बारहवें राहुकी दशामें देश छोटे मनमें रोग करताहै स्त्री पुत्र उच्छिन्न होवै कृषि धन अन्न संपत्तियोंका नाश होवै ॥ २० ॥

कुलीरगोमेपयुतस्य राहोर्दशाविपाके धनलाभमेति ॥ विद्यावि नोदं नृपमाननं च कलत्रभृत्यात्मसुखं प्रयाति ॥ २१ ॥ पाथो नमीनाश्वयुतस्य राहोर्दशाविपाके सुतदारलाभम् ॥ देशाधिपत्यं नरवाहनं च दशावसाने सकलं विनाशम् ॥ २२ ॥ पापक्षसंयुक्त- फणीन्द्रदाये देहस्य कार्श्यं स्वकुलस्य नाशम् ॥ भूपद्भ्यं वञ्चनतोऽरिभीतिः प्रमेहकासक्षयमृत्रकृच्छ्रम् ॥ २३ ॥

कर्कशुपमेवगत राहुकी दशामें धनलाभ विद्याविनोद राजासे सम्मान मिलताहै स्त्री सेवक तथा शरीर सुखको प्राप्त होताहै ॥ २१ ॥ कन्यावीनधनके राहुकी दशामें पुत्र स्त्रीलाभ देशमें अधिपतिता नरवाहन मिलतेहैं परंतु दशाके अंतमें सब उक्तवस्तुका नाश होताहै ॥ २२ ॥ पापराशिगत राहुकी दशामें देहदृश अपने कुलका नाश राजासे भय ठीसै शत्रुसे भय प्रमेह, सांघी, क्षय, मूत्रकृच्छ्र रोग होते हैं ॥ २३ ॥

शुभदृष्टियुतो राहुः कर्गेति सफलक्रियाम् ॥ राजमाननम र्थाग्निं वंधूनां मरणं ध्रुवम् ॥ २४ ॥ पापदृष्टियुतो राहुः कर्मनाशं करोति च ॥ उद्योगभंगं देहाग्निं चौराग्निनृपपीडनम् ॥ २५ ॥



उच्चग्रहयुतो राहूराज्यलाभं करोति च ॥ स्त्रीपुत्रधनसंपत्तिवस्त्राभ-  
रणलेपनम् ॥ २६ ॥ नीचग्रहयुतो राहुर्नीचवृत्त्यानुजीवनम् ॥  
कुभोजनं कुदारं च कुपुत्रं लभते तदा ॥ २७ ॥ दशादौ दुःख-  
माप्नोति दशामध्ये सुखं यशः ॥ दशांते स्थाननाशं च गुरुपुत्रा-  
दिनाशनम् ॥ २८ ॥ इति राहुदशाफलविचारः ॥

शुभग्रहसे दृष्ट राहुकी दशा कार्यसफल राजमान धनागम और बंधुजनका मरण निश्चय  
करतीहै ॥ २४ ॥ पापग्रहसे दृष्ट राहुकी दशा कार्यका नाश उद्यम भंग शरीरपीडा और  
चोर अग्नि राजासे पीडन करतीहै ॥ २५ ॥ उच्चग्रहयुत राहुकी दशा राज्यलाभ स्त्री पुत्र  
धनकी संपत्ति वस्त्र भूषण चंदनादि लेपनद्रव्यकी प्राप्ति करतीहै ॥ २६ ॥ नीचराशिगत ग्रहकी  
दशामें नीचवृत्तिसे आजीवन कुभोजन कुस्त्रीकी प्राप्ति और कुपुत्र मिलताहै ॥ २७ ॥ राहुकी  
दशाके अदिमें दुःख मध्यमें सुख तथा यश और अंतमें स्थानहानि गुरु पुत्र आदियोंको पीडा  
होवै ॥ २८ ॥ इति राहुदशाफलविचारः

अथ केतुदशाफलम् ।

भार्यापुत्रविनाशनं नरपतेर्भ्रातिर्महत्कष्टतां विद्याबन्धुधनात्ति-  
मित्ररहितं रोगाग्निमित्रैर्भयम् ॥ यानारोहणपातनं विपजलैः  
शस्त्रादिभिर्वा भयं देशादेशविवासनं कलिरुचिं देहादिभिर्वा  
भयम् ॥ १ ॥ केतोर्देशायां संप्राप्तौ दारपुत्रविनाशनम् ॥ राज-  
कोपं मनस्तापं चौराग्निकृपिनाशनम् ॥ २ ॥

केतुदशाके फलहैं कि स्त्री पुत्र नाश राजासे भ्राति बडा कष्ट विद्या बंधु धनागमन और  
मित्रोंसे रहितता रोग अग्नि मित्रोंसे भय सवारीसे गिरना विप जल शस्त्रादिसे भय एकदेशसे  
दूसरेदेश निकलना कष्टहमें रुचि अथवा रोगादिभय होताहै ॥ १ ॥ केतुकी दशा मातृदुषेमें  
स्त्री पुत्र नाश राजाका कोप मनमें संताप चोर अग्निसे भय कृपिका नाश होताहै ॥ २ ॥

केन्द्रस्थस्य दशाकेतोः करोति विफलाक्रियाम् ॥ राज्यार्थसुत-  
दाराणां नाशनं विपदं तथा ॥ ३ ॥ लग्नकेंद्रगतस्यापि केतोर्दाये  
महद्भयम् ॥ ज्वरातिसारमेहं च स्फोटकादिविषचिकाः ॥ ४ ॥  
धनराशिगतस्यापि केतोर्दाये धनक्षयम् ॥ वाक्पारुष्यं मनो-  
दुःखं कुत्सितान्नं मनोरुजम् ॥ ५ ॥ तृतीयराशिगस्यापि

केतोर्दाये महत्सुखम् ॥ मनोवैकल्यमायाति भ्रातृभिर्द्वेषणं परम्  
॥ ६ ॥ चतुर्थराशिगस्यापि केतोर्दाये सुखक्षयम् ॥ प्रभग्नदार-  
पुत्रादिगृहे धान्यप्रहर्षितः ॥ ७ ॥

केन्द्रगत केतुदशा कार्य व्यर्थ करतीहै राज्य, धन, पुत्र, स्त्रीका नाश तथा विपत्ति करती-  
है ॥ ३ ॥ लग्नगत केतुदशामें बड़ीभय ज्वर अतिसार प्रमेह विस्फोटकादि रोग विषूचिका  
( हैजा ) करतीहै ॥ ४ ॥ दूसरे भावस्थ केतुकी दशामें धनका क्षय कठोरवाणी मनमें दुःख  
और निन्द्य अन्न भोजन मनमें रोग होतेहैं ॥ ५ ॥ तीसरे केतुकी दशामें बडासुख मिलताहै  
मन विकल होताहै भाइयोंसे परमवैर होताहै ॥ ६ ॥ चौथे केतुकी दशामें सुखहानि स्त्री पुत्रा  
दिसे अलग होवै घरमें अन्नसे हर्षित रहे ॥ ७ ॥

पंचमस्थस्य केतोस्तु दशाकाले सुतक्षयम् ॥ बुद्धिभ्रमं विशेषेण  
राजकोपं धनक्षयम् ॥ ८ ॥ केतोस्त्वरिगतस्यापि दशाकाले  
महद्भयम् ॥ चौराग्निविपभीतिश्च दशार्तिं समुपैति च ॥ ९ ॥ क-  
लत्रराशिसंयुक्तकेतोर्दाये महद्भयम् ॥ दारपुत्रार्थनाशं च मूत्रकृच्छ्रं  
मनोरुजम् ॥ १० ॥ केतोरष्टमयुक्तस्य दशाकाले महद्भयम् ॥  
पितृमृत्युश्वासकासग्रहण्यादिक्षयान्वितः ॥ ११ ॥ नवमस्थस्य  
केतोस्तु दशापाके पितुर्विपत् ॥ गुरोर्वा विपदं दुःखं शुभकर्मवि-  
नाशनम् ॥ १२ ॥

पंचम केतुकी दशामें पुत्रक्षय बुद्धिभ्रम विशेषतः राजाका कोप और धनका क्षय होताहै  
॥ ८ ॥ छठे केतुकी दशामें बड़ीभय चोर अग्नि विपसे भय और फटे वस्त्रोंके किनारे पहरने-  
को मिठें ॥ ९ ॥ सप्तम केतुकी दशामें भी बहुतभय स्त्री पुत्र धननाश मूत्रकृच्छ्र रोग तथा  
मानसी रोग होताहै ॥ १० ॥ अष्टमभावगत केतुकी दशामें बड़ीभय पिताकी मृत्यु श्वास  
कास संग्रहिणीआदि तथा क्षयरोगसे युक्त होवै ॥ ११ ॥ नवम केतुकी दशामें पिताकी वि-  
पत्ति अथवा गुरुकी विपत्ति दुःख शुभकर्मका नाश होताहै ॥ १२ ॥

कर्मस्थकेतोः संप्राप्तौ दशायां सुखमेति च ॥ मानहानिं मनोजा-  
ड्यमपकीर्तिं मनोरुजम् ॥ १३ ॥ लाभस्थकेतोः संप्राप्तौ दाये  
सौख्यं करोति च ॥ भ्रातृवर्गादिसौख्यं च यज्ञदानादिवर्द्धनम्  
॥ १४ ॥ रिपुस्थकेतोः संप्राप्तौ दाये कष्टतरं भवेत् ॥ स्थानच्युतिं

प्रवासं च राजपीडाक्षिनाशनम् ॥ १५ ॥ दशादौ सुखमाप्नोति  
दशामध्ये महद्भयम् ॥ दर्शाते राजभीतिश्च देहजाव्यम-  
थापि वा ॥ १६ ॥

दशमगत केतुकी दशा प्राप्तहुयमें सुख पाताहै और मानहानि मनकी जडता अपयश मानसीरोगभो मिलतेहैं ॥ १३ ॥ लाभगत केतुकी दशामें सौख्य करताहै भ्रातृवर्गादिसे भी सुख मिलताहै यज्ञ दानादि पुण्य बढ़तेहैं ॥ १४ ॥ बारहवे केतुकी दशामें विशेषतर कष्ट होताहै स्थानहानि परदेशवास राजासे पीडा और नेत्रनाश होताहै ॥ १५ ॥ केतुकी दशाके आदिमें सुख, मध्यमे बड़ीभय और अंत्यदशामें राजासे भय अथवा शरीरमें जडता (शरीर जकडना) मिलता है ॥ १६ ॥

शुभवीक्षणसंयुक्तः केतुः सौख्यं करोति च ॥ राज्यार्थं गृहशांतिं  
च राजपूजां महादृढम् ॥ १७ ॥ पापेक्षितयुतो वापि केतुर्दुःखं  
करोति च ॥ ज्वरातिसारमेहौश्च त्वग्दोषं राजपीडनम् ॥ १८ ॥

शुभग्रहदृष्ट केतु अपनी दशामें सुख करताहै राज्य धन घरमें शांति राजपूजा और दृढता देताहै ॥ १७ ॥ पापग्रहयुक्त वा दृष्ट केतु स्वदशामें दुःख करताहै ज्वर अतिसार ममेह तथा त्वचामें रोग और राजासे पीडनभी करताहै ॥ १८ ॥ इति केतुदशाफलानि ॥

अथान्तर्दशाफलानि ।

तेजस्विनमतिसुखिनं सुस्थिरविभवं नृपाच्च लब्धधनम् ॥ स्वनवां  
शकवल्युक्तः पुरुषं कुर्याद्भिनान्वितं ख्यातम् ॥ १ ॥ शुभदर्शन  
फल्युक्तः करोति विख्यातिकं सधनम् ॥ सुभगप्रयासममलं सुहृ-  
पदेहं सुसौम्यं च ॥ २ ॥

नवांशबलसे युक्त ग्रह पुरुषको तेजस्वी अतिसुखी स्थिर ऐश्वर्यमान् राजासे प्राप्तधन अन्यध-  
नसे युक्त और ख्यात करताहै ॥ १ ॥ शुभग्रहोंसे दृष्ट ग्रह ख्यातिवाला धनयुक्त उत्तम परि-  
श्रमा निर्मलतायुक्त सुरुपदेहयुक्त और मृदु करताहै ॥ २ ॥

अन्योन्यपष्ठाष्टमदायकाले नृपाद्भयं भृत्यजनैर्विरोधम् ॥ स्त्रिया  
विरोधं सुतदारनाशं चौराग्निबंध्वार्तिमनोविकारम् ॥ ३ ॥ पाके-  
श्वरादंत्यगतस्य भुक्तौ स्थानच्युतिं बंधुजनैर्विरोधम् ॥ विदेश-  
यानं स्वजनैर्विरोधं पादाक्षिहृद्रोगमुपैति काले ॥ ४ ॥

षष्ठेग अष्टमेगकी परस्परदशा अर्थात् एककी दशा दूसरेके अंतर्दशामें राजासे भय सेव-  
कजनोंसे विरोध स्त्रीसे विरोध पुत्र दार नाग चौर अग्नि बंधुजनोंसे पीडा मनमें विकार होता

है ॥ ३ ॥ दशेशसे बारहवें ग्रहकी अंतर्दशामें स्थानहानि बन्धुजनसे विरोध विदेशगमन अपने मनुष्योसे विरोध पैर नेत्र हृदयमें रोग मिलता है ॥ ४ ॥

दशाधिपेनापि युतस्य भुक्तौ स्त्रीपुत्रभृत्यार्थकृपेर्विनाशम् ॥ उद्योगभंगं स्वजनैर्विरोधमाकस्मिकं दूषणमेति काले ॥ ५ ॥ दशाधिपाद्वित्तगतस्य भुक्तौ मृदन्नपानांवरगंधमाल्यम् ॥ परोपकारं स्वजनस्य सख्यं स्त्रीपुत्रबंध्वात्ममनोविलासम् ॥ ६ ॥ दशाधिपात्सोदरराशिगस्य भुक्तौ नृपाद्वित्तमुपैति सख्यम् ॥ सुगंधमाल्यांवरभूषणं च सुहृद्भवं भोजनसौख्यपुष्टिम् ॥ ७ ॥

दशेशसे युक्त ग्रहकी अंतर्दशामें स्त्री, पुत्र, भृत्य, धन, कृषिका नाश, उद्यमभंग, अपने मनुष्योसे विरोध, अचानक दूषण पावै ॥ ५ ॥ दशेशसे दूसरे ग्रहके अंतरमें मृदु अन्न, पान, वस्त्र, चदन पुष्प मिलें, पराया उपकार होवै, अपने मनुष्योमें सख्य बढ़े, स्त्री, पुत्र, बंधुजन, सुख, मनके विलास ( खुशी ) मिलतैहै ॥ ६ ॥ दशेशसे तीसरे ग्रहके अंतरमें राजासे धन सख्यता सुगंधवस्तु, पुष्प, वस्त्र, भूषण, मित्रोंका दिया भोजन सुख और पुष्टि इतने फल होतैहै ॥ ७ ॥

दायेश्वरादंबुगतस्य भुक्तौ दारात्मजार्थगृहधर्मयानम् ॥ मिष्टान्नपानांवरभूषणं च शुभग्रहश्वेतफलमन्यथा तत् ॥ ८ ॥ ॥ पापग्रहोपि शुभदः खलु दायनाथाद्रन्धुस्थितस्वभवनोच्चबलादियुक्तः ॥ सौम्यग्रहोप्यशुभदः सुखराशियुक्तो दायेश्वरात्स्वभवनोच्चबलादिहीनः ॥ ९ ॥ दशानाथात्सुतस्थस्य भुक्तौ पुत्रादिमादिशेत् ॥ शुभग्रहस्य सौख्यं च पापभुक्तौ सुतक्षयम् ॥ १० ॥

दशेशसे चतुर्थगत ग्रहके अंतरमें स्त्री, पुत्र, धन, ग्रहके धर्म वाहन मीठे अन्नजलादि तथा वस्त्र भूषण मिलतेहैं यदि वह शुभग्रह होवै तो यहफल विपरीत होताहै ॥ ८ ॥ दशेशसे चतुर्थगत ग्रह यदि अपनी राशि उच्चबलादिसे युक्त होवै तो पापग्रहभी शुभफल देताहै यदि राशिजल उच्चबलादिहीन होवै तो दशेशसे चौथा शुभग्रहभी अशुभफल देताहै ॥ ९ ॥ दशेशसे पंचमगत ग्रहके अन्तरमें पुत्रादि होवें कहना यह शुभग्रहमें है पापग्रहमें पुत्रक्षय होताहै ॥ १० ॥

अन्तर्दशायां पापस्य पष्टस्थस्य दशेश्वरात् ॥ चौरादिऋणदेहातिं लभते पदविभ्रमम् ॥ ११ ॥ तस्मात्पष्टस्य सौम्यस्य दशेशात्सुखवर्द्धनम् ॥ लभते पुत्रमित्रातिं स्पोच्चमूलादिगस्य तु ॥ १२ ॥

दायेशात्सप्तमस्थस्य पापस्यापहतौ तथा ॥ दारार्थपुत्रबंधूनां  
नाशं भूमिपतेर्भयम् ॥ १३ ॥ सप्तमस्थशुभस्यापि हतौ सौख्यं  
दशाधिपात् ॥ नीचशत्रुविहीनस्य सद्रत्नांबरभूषणम् ॥ १४ ॥

दशेशसे छठे पापग्रहकी अंतर्दशमें चौरआदिकी भय ऋणकी भय देहपीडा और पदमें भ्रम  
पावै ॥ ११ ॥ दशेशसे छठा अंतरेश शुभग्रह होवै तो उक्तसे सुख बड़े पुत्र मित्र मिलें  
यदि उच्च मूलत्रिकोणादिमें होवै ॥ १२ ॥ दशेशसे सप्तमगत पापग्रहके अंतरमें स्त्री, धन,  
पुत्र, बंधुका नाश तथा राजासे भय होवै ॥ १३ ॥ वह सप्तमस्थ शुभ होवै तो सुख देताहै  
यदि नीच शत्रु आदिमें न होवै तो अच्छे रत्न, वस्त्र, भूषण मिलतेहैं ॥ १४ ॥

पाकेशादष्टमस्थस्य सौम्यस्यापहतौ सुखम् ॥ भुक्त्यादौ शो-  
भनं प्रोक्तमंते कष्टं विनिर्दिशेत् ॥ १५ ॥ पाकेशादष्टमस्थस्य  
पापस्यापहतौ भयम् ॥ निधनं कुत्सितान्नं च चौराग्निनृप-  
पीडनम् ॥ १६ ॥ दायेशात्रवमस्थस्य पापस्यापहतौ यदा ॥  
अशुभं लभते कर्मस्थानभ्रंशो मनोरुजम् ॥ १७ ॥ प्रधानतः  
शुभस्थस्य सौम्यस्यापहतौ यदा ॥ विवाहं यज्ञदीक्षां च दाना-  
दीन् लभते नरः ॥ १८ ॥

दशेशसे अष्टमगत पापग्रहके अंतरमें आदिमें शुभफल सुख और अंतमें कष्टफल कहना  
॥ १५ ॥ दशेशसे अष्टमगत पापग्रहके अंतरमें भय, मृत्यु, निन्द्य अन्न, चोर, अग्नि, राजासे  
भय मिले ॥ १६ ॥ दशेशसे नवमगत पापग्रहके अंतरमें अशुभकर्म पावै, स्थानहानि मानसी  
रोग होवै ॥ १७ ॥ यदि वह नवमस्थ शुभग्रह होवै, तो विवाह यज्ञ दानादि मनुष्य पाताहै ॥ १८ ॥

कर्मस्थपापखेटस्य हतौ पाकेश्वराद्यदा ॥ कर्मनाशमवाप्नोति  
दुष्कीर्तिं विविधापदम् ॥ १९ ॥ तस्मात्कर्मस्थसौम्यस्य हतौ  
सौख्यं विनिर्दिशेत् ॥ तडागगोपुरादीनां पुण्यकर्मादिसंग्रहः  
॥ २० ॥ लाभस्थस्य दशानाथात्पापस्यापहतौ धनम् ॥ लभते  
पुत्रमित्रार्थस्थानप्राप्तिं च शाश्वतीम् ॥ २१ ॥ पाकेशाच्छाभयु-  
क्तस्य सौम्यस्यापहतौ सुखम् ॥ भाग्योत्तरं नृपात्प्रीतिं दारपुत्रा-  
दिवर्द्धनम् ॥ २२ ॥ व्ययस्थस्य हतौ दुःखं पापस्य तु दशाधि-  
पात् ॥ अर्थनाशं नृपात्कोपं स्थाननाशं स्पृतिभ्रमम् ॥ २३ ॥

पाकेश्वराद्ययस्थस्य सौम्यस्यापहतौ यदा ॥ वाहनं भोगभाग्यं  
च वस्त्राभरणभूषणम् ॥ २४ ॥

दशेशसे दशमगत अंतरेश पापग्रहमें कर्मका नाश दुष्कीर्ति अनेक प्रकार आपत्ति पाताहै ॥ १९ ॥ दशेशसे दशमगत शुभग्रहके अंतरमे सौख्य तालाव नगर द्वार आदि पुण्य कर्मादि-  
योंका संग्रह कहना ॥ २० ॥ दशेशसे लाभगत पापग्रहकी अंतर्दशामें धन पुत्र मित्रसे अर्थ  
पाताहै और नित्य स्थायी स्थानकी प्राप्ति होतीहै ॥ २१ ॥ दशेशसे लाभगत शुभग्रहके  
अंतरमें सुख ऐश्वर्यवृद्धि राजासे प्रसन्नता और स्त्री पुत्रादियोंकी वृद्धि होवै ॥ २२ ॥ दशे-  
शसे व्ययगत पापग्रहके अंतरमें दुःख धननाश राजासे क्रोध स्थाननाश और यादगारीमें  
भ्रम ( भूल ) हो जातीहै ॥ २३ ॥ दशेशसे व्ययगत शुभग्रहके अंतरमें वाहन, भोग,  
ऐश्वर्य, वस्त्र, भूषण मिलतेहै ॥ २४ ॥

तत्तद्दशायां संयोज्यमेवमेवं विशेषतः ॥ स्वर्क्षोच्चवर्गमित्रादि विना  
सर्वत्र कल्पयेत् ॥ २५ ॥ लग्नार्थस्रोत्थगस्यापि पापस्यापहतौ  
तदा ॥ पाकेशाहुःखमाप्नोति सौम्यभुक्तौ शुभं भवेत् ॥ २६ ॥ अंत-  
र्दशायां क्रूरस्य क्रूरदाये महद्भयम् ॥ स्थानाक्षिवन्धुपुत्रार्थदार-  
नाशं नृपाद्भयम् ॥ २७ ॥

इसमकार पापदशा पापांतरमें सर्वत्र विना स्वराशि उच्चवर्ग मित्रराशिगतके वही पापफल  
कल्पना करने ॥ २५ ॥ लग्न द्वितीय तृतीयगत पापके अंतरमे दुःख शुभके अंतरमें शुभ  
होताहै ये फल दशेशसे लग्नादिगत अंतरेशके लिये हैं ॥ २६ ॥ क्रूरदशा क्रूरान्तरमें बड़ी  
भय, स्थान, नेत्र, बंधु, पुत्र, धन, स्त्रीका नाश, राजासे भय होतीहै ॥ २७ ॥

शुभयुक्तौ शुभे दाये स्थानवाहनभूषणम् ॥ सौम्यभुक्तौ पापदाये  
त्वादौ सौख्यं परं भयम् ॥ २८ ॥ सौम्यदाये पापभुक्तौ त्वादौ  
कष्टं ततः शुभम् ॥ शीर्षोदयर्क्षगाः खेटास्त्वादौ चान्ते नृक्रक्षगाः  
॥ २९ ॥ यत्र संपादवाहुल्यं योजयित्वा फलं वदेत् ॥ अपि  
संवादकार्येषु यथोक्तं फलमादिशेत् ॥ ३० ॥

शुभग्रहकी दशा शुभग्रहके अंतरमें स्थान, वाहन, भूषण मिलनेहैं, शुभग्रहकी दशा पाप-  
ग्रहके अंतरमें मयम सुख पीछे भय मिटतीहै ॥ २८ ॥ शुभग्रहकी दशा पापके अंतरमें  
मयम कष्ट पीछे सुख होताहै, शीर्षोदयराशिगत ग्रह मयम अन्यराशियोंके अंतरमें शुभ फल  
देतेहैं ॥ २९ ॥ जहाँ शुभफल देना छे तथा अशुभवालेभी बहुतहों तहाँ बड़ाबड़ा योजना  
परके फल कहना तुल्यतामें यथोक्त फल कहना ॥ ३० ॥ इति सामुदायिकान्तर्दशाफलम् ॥

अथ ग्रहाणां लग्नादिस्थितभेदेन पुनरर्घ्य-  
तर्दशाफलाविशेषमाह ।

लग्नगस्य रवेः पाके भौमार्किशिखिभोगिनाम् ॥ अंतर्दशायां  
दुःखं च राज्यार्थगृहनाशनम् ॥ १ ॥ तेषामगोचरस्थानां दिने-  
शात्फलमीदृशम् ॥ गोचरस्थे फलं सौख्यं सर्वस्मिन् पाकपाद्भवे  
॥ २ ॥ “गोचरत्वं नाम” स्वर्क्षतुंगत्रिकोणस्थः षडष्टांत्यविव-  
र्जितः ॥ अनस्तगो मित्रगस्तु गोचरस्थो भवेद्ब्रह्मः ॥ ३ ॥ अस्तगो  
नीचगो वापि स्वर्क्षमूलविवर्जितः ॥ षष्ठाष्टमव्ययस्थो वा यः खेटो  
यमगोचरः ॥ ४ ॥

लग्नगत सूर्यकी दशा मंगल, शनि, केतु, राहुकी अंतर्दशामें दुःख और राज्य, धन,  
घरका नाश होताहै ॥ १ ॥ यदि वे ग्रह सूर्यसे अगोचरमें हों, तब ऐसा फलहै, गोचरमें हों  
तो सौख्य फल देतेहैं यह सभी दशेशेषे सभी स्थानोंमें करना ॥ २ ॥ गोचर अगोचर संज्ञा  
कहतेहैं कि अपने राशि उच्च मूल त्रिकोणगत ग्रह ६।८।१२ भावोंसे अन्यमें हों मित्रराशियोंमें  
हों अस्तगत न हों वह गोचरस्थ कहातेहैं ॥ ३ ॥ अस्तगत नीचगत अथवा स्वराशि  
मूल त्रिकोण रहित ६।८।१२ भावस्थित जो ग्रह हों वह अगोचरस्थ कहातेहैं ॥ ४ ॥

लग्नस्थवासरेशस्य दशायामिज्यशुक्रयोः ॥ शशांकसौम्ययोर्भुक्तौ  
कृपिगोसुतदारभूः ॥ ५ ॥ धनस्थवासरेशस्य पापभुक्तौ धनक्ष-  
यम् ॥ वाक्पारुष्यं मनोदुःखं नेत्ररोगं महद्भयम् ॥ ६ ॥ सौम्य-  
भुक्तौ रवेः पाके धनस्थस्य महत्सुखम् ॥ विद्यालाभं नृपात्प्रीतिं  
वस्त्रवाहनभूषणम् ॥ ७ ॥ तृतीयस्थस्य तु रवेः पाके पापहतौ  
यदा ॥ गोचरस्थे महत्सौख्यं नोचेत्पापफलं वदेत् ॥ ८ ॥

लग्नगत सूर्यकी दशामें गुरुशुक्रकी तथा चंद्रमा बुधकी अंतर्दशामें कृपि, गौ, पुत्र,  
स्त्री, भूमि मिलते हैं ॥ ५ ॥ धनस्थानगत सूर्यकी दशामें पापांतरमें धनक्षय वाणीकी कठोरता  
मानसी दुःख नेत्ररोग बड़ी भय होतीहै ॥ ६ ॥ धनस्थ सूर्यदशा शुभग्रहके अंतरमें बड़ा सुख,  
विद्यालाभ, राजहत्या, वस्त्र, सवारी और भूषण मिलतेहैं ॥ ७ ॥ तीसरे सूर्यकी दशा  
पापांतरमें गोचरमें हाव तो शुभ अन्यथा अशुभ फल कहना ॥ ८ ॥

तत्रस्थभानुपाके च शुभयुक्तौ महत्सुखम् ॥ धैर्यं वित्तं सुतार्तिं  
च समरे जयमाप्नुयात् ॥ ९ ॥ दिनेशम्य सुखस्थस्य दशायां  
पापिनां हतौ ॥ मातृनाशं मनोदुःखं चौगाग्निनृपपीडनम् ॥ १० ॥

रवेः सुखास्थितस्यापि शुभभुक्तौ महत्सुखम् ॥ राज्यार्थपुत्रदारादि  
वस्त्रमाल्यानुलेपनम् ॥ ११ ॥ पंचमस्थरवेः पाके शन्यारशिखि  
भोगिनाम् ॥ अंतर्दशायां पुत्रार्तिं चौरभूपाग्निपीडनम् ॥ १२ ॥  
शुभग्रहाणां भुक्तौ च रवेः पंचमगस्य तु ॥ परिपाके सुतार्तिं च  
राज्यवाहनभूषणम् ॥ १३ ॥

चतुर्थीस्थ सूर्यकी दशा शुभग्रहोंके अंतरमें बडा सुख मिले धैर्यता, धन, पुत्रप्राप्ति और  
युद्धमें जय पावताहै ॥ ९ ॥ चतुर्थगत सूर्यकी दशा पापग्रहांतरमें माताका नाश मनमें दुःख  
चोर, अग्नि, राजासे पीडन मिलताहै ॥ १० ॥ चतुर्थगत सूर्यदशा शुभग्रहोंके अंतरमें राज्य  
धन, पुत्र, स्त्री आदि तथा वस्त्र, सुगंधितपुष्प, चंदनादि मिलतेहैं ॥ ११ ॥ पंचमगत  
सूर्यकी दशा शनि, मंगल राहु, केतुके अंतरमें पुत्रपीडा चोर, राजा, अग्निसे पीडां मिले  
॥ १२ ॥ पंचम रविदशा शुभग्रहांतरमें पुत्रप्राप्ति राज्य वाहन भूषणोंकी प्राप्ति होतीहै ॥ १३ ॥

पष्ठस्थसूर्यदायेऽस्मिन् पापदाहतिपापिनाम् ॥ ऋणचौराग्निभू-  
पैस्तु भीतिरावश्यकी तथा ॥ १४ ॥ सौम्यानामपहारे तु  
भास्करस्यारिगस्य च ॥ परिपाके सुखं पूर्वं पश्चाद्रिष्टं विनिर्दि-  
शेत् ॥ १५ ॥ सप्तमस्थरवेः पाके शुक्रेज्याब्जविदां हतौ ॥ दार-  
लाभं मनोत्साहं यानांबरविभूषणम् ॥ १६ ॥ तथाविधरवेः पाके  
दुःखं स्यात्पापिनां हतौ ॥ ज्वरातिसारं पित्तं च मेहकृच्छ्रारि  
पीडनम् ॥ १७ ॥

छठे सूर्यकी दशा पापग्रहोंके अंतरमें ऋण, चोर, अग्नि, राजासे भय, अवदय देतीहै तथा  
यह दशा पापभी देतीहै ॥ १४ ॥ ऐसे सूर्यमें शुभग्रहके अंतर पहिले सुख पीछे कष्ट देतेहै  
कहना ॥ १५ ॥ सप्तम सूर्यकी दशा शुक, गुरु, चंद्रमा, बुधके अंतरमें खोलाभ मनका  
वत्साह सवापे, वस्त्र भूषण मिलतेहैं ॥ १६ ॥ ऐसे सूर्यकी दशा पापग्रहोंके अंतरमें ज्वर,  
अतिसार, पित्तमेह, मूत्रकृच्छ्रादि पीडन मिलताहै ॥ १७ ॥

अष्टमस्थरवेः पाके शुभभुक्तौ शुभं वदेत् ॥ किंचिद्दुःखं शुभा-  
धिक्यं शयनांबरभूषणम् ॥ १८ ॥ तथाविधरवेर्दाये पापभुक्तौ  
महद्भयम् ॥ मरणं व्याधिपीडा वा ॥ परप्रेष्यत्वमेव वा ॥ १९ ॥  
शुभस्थानगतस्यापि रवेः पाके हतौ यदा ॥ सौम्यानां शुभक-  
र्मातिं दानयज्ञं महोत्सवम् ॥ २० ॥ नवमस्थरवेः पाके पाप-  
भुक्तौ यदा तदा ॥ करोति दुःखवाहुल्यं गुरुपित्रादिपीडनम् ॥ २१ ॥



अष्टमगत सूर्यकी दशा शुभग्रहोंके अंतरमें शुभफल कहना थोडा दुःख शुभफल अधिक तथा शय्या वस्त्र भूषण मिलतेहै ॥ १८ ॥ ऐसेही सूर्यकी दशा पापांतरमें बडी भय वा मरण यद्वा रोगपीडा और पराया दौत्यकाम मिठताहै ॥ १९ ॥ नवमगत सूर्यकी दशा शुभग्रहोंके अंतरमें शुभकर्मकी प्राप्ति दान यज्ञ बडे उत्सवादि करने मिलतेहैं ॥ २० ॥ नवम सूर्यदशा पापांतरमें दुःखकी बाहुल्यता गुरु पिता आदियोंको पीडन मिलताहै ॥ २१ ॥

कर्मस्तरविदाये तु पापभुक्तिर्यदा तदा ॥ करोति कर्मशोकार्तिं  
चोराग्निनृपपीडनम् ॥ २२ ॥ तथाविधरवेः पाके शुभभुक्तिर्यदा  
तदा ॥ करोति विपुलं राज्यं कीर्तिश्चाचंद्रतारकम् ॥ २३ ॥  
लाभराशिगतस्यापि रवेः पाके शुभेतरा ॥ भुक्तिर्यदा तदा दुःखं  
पश्चात्सौख्यं करोति च ॥ २४ ॥ तथाविधरवेः पाके शुभभुक्ति-  
र्यदा तदा ॥ धनातिं राजसंमानं दारपुत्रनृपात्प्रियम् ॥ २५ ॥  
द्वादशस्तरवेः पाके पापभुक्तौ महद्भयम् ॥ स्थानच्युतिं प्रवासं  
च नृपकोपाद्रिमानता ॥ २६ ॥ तथाविधरवेः पाके शुभभुक्तौ मह-  
त्सुखम् ॥ गोभूमिवस्त्रधान्यादिमणिविद्रुमभूषणम् ॥ २७ ॥  
इति रविपाकान्तर्दशाफलम् ॥

दशमगत सूर्यदशा पापांतर जब होवै तब शोकके कर्म करातीहै पीडा चोर अग्नि राजासे पीडन मिलताहै ॥ २२ ॥ ऐसेही सूर्यदशा शुभांतरमे बढाराज्य और जहांपर्यंत चद्रमा तारागणहै तहाछे कीर्ति बढातीहै ॥ २३ ॥ लाभगत सूर्यदशा अशुभग्रहोंके अंतरमें दुःख भोगके पीछे सुखभी करतीहै ॥ २४ ॥ ऐसेही सूर्यदशा शुभांतर जब आवै तब धनप्राप्ति राजासे संमान स्त्री पुत्र तथा राजासे शुभत्व होवै ॥ २५ ॥ बारहवें सूर्यकी दशा पापांतरमें बडी भय स्थानहानि परदेशगमन और राजकोपसे मानहानि होवै ॥ २६ ॥ ऐसेही सूर्यकी दशा शुभग्रहोंके अंतरमें बडासुख मिले गो, भूमि, वस्त्र, अन्नादि, मणि, मूंगायुक्त भूषण मिलते हैं ॥ २७ ॥ इति रविपाकान्तर्दशाफलम् ॥

अथ चंद्रदशायामन्तर्दशामाह ।

मूर्तिस्थचन्द्रदाये तु शुक्रेज्याब्जविदां हृतौ ॥ देहारोग्यं नृपा-  
त्प्रीतिं वाहनांबरभूषणम् ॥ १ ॥ तथाविधस्य चाब्जस्य परि-  
पाके शुभेतरा ॥ ह्यतिः करोति दुःखं च कृपिगोभूमिनाशनम्  
॥ २ ॥ द्वितीयस्थनिशानाथपरिपाके शुभेतरा ॥ कलत्रपुत्रबं-

धूनां नृपाद्भीतिं करोति च ॥ ३ ॥ सौम्याहतौ द्वितीयस्थचंद्र-  
दाये महत्सुखम् ॥ भोजनावरपानं च मनोत्साहं करोति च ॥४॥

लग्नगत चंद्रदशा शुक्र, गुरु, चंद्र, बुधके अंतरमें देहमें निरोगिता, राजासे प्रसन्नता तथा वाहन वस्त्र भूषण मिलतेहैं ॥ १ ॥ ऐसे चन्द्रमाकी दशा पापग्रहोंके अंतरमें दुःख, कृषि, गो, भूमिका नाश करतीहै ॥ २ ॥ दूसरे चंद्रमाकी दशा पापग्रहोंके अंतरमें स्त्री, पुत्र, वंधु-जनको, कष्ट, राजासे भय करतीहै ॥ ३ ॥ दूसरे चंद्रकी दशा शुभग्रहोंके अंतरमें बड़ासुख भोजन, वस्त्र, पान और मनका उत्साह करतीहै ॥ ४ ॥

तृतीयस्थनिशानाथपरिपाके महत्सुखम् ॥ शुभग्रहाणां भुक्तिस्तु  
करोति नृपमान्यताम् ॥ ५ ॥ तथाविधनिशानाथपरिपाके शुभे-  
तरा ॥ हतिः करोति वैकल्यं भ्रातृधैर्यविनाशनम् ॥ ६ ॥ चतुर्थ-  
स्थनिशानाथपरिपाके महत्सुखम् ॥ शुभभुक्तौ नृपात्प्रीतिर्जायते  
गृहजं सुखम् ॥ ७ ॥ पापभुक्तौ महत्कष्टं गृहदारार्थनाशनम् ॥  
चौराग्निनृपभीतिं च तादृग्बज्जदशांतरे ॥ ८ ॥

तीसरे चंद्रमाकी दशा शुभांतरमें बड़ासुख तथा राजमान करतीहै ॥ ५ ॥ पापांतरमें विकलता भाई तथा धैर्यका नाश करतीहै ॥ ६ ॥ चौथे चंद्रमाकी दशा शुभग्रहोंके अंतरमें बड़ासुख राजासे हर्ष घरका सुख देतीहै ॥ ७ ॥ चौथे चंद्रमाकी दशा पापग्रहोंके अंतरमें मकान स्त्री, धनका, नाश, चोर, अग्नि, राजासे भय देतीहै ॥ ८ ॥

पंचमस्थनिशानाथपरिपाके महत्सुखम् ॥ सौम्यभुक्तौ कलत्रार्थ-  
पुत्रमित्रावरणं च ॥ ९ ॥ तथाविधदशानाथदाये पापहतौ यदा ॥  
बुद्धिक्षोभं मनस्तापं पुत्रदारनृपाद्भयम् ॥ १० ॥ कृपिनाशमृण  
ग्रस्तं पृथस्थितनिशाकरात् ॥ स्यात्पापिनां हतौ दुःखं प्रमेहक्ष-  
यपाण्डुभिः ॥ ११ ॥ रिपुस्थितदशानाथे सौम्यानां तु यदा हतिः ॥  
करोति सर्वतो भैर्त्रां चौराग्निभयनाशनम् ॥ १२ ॥

पंचमचंद्रमाकी दशा शुभग्रहोंके अंतरमें बहुतसुख, स्त्री, धन, पुत्र, मित्र और वस्त्रभी देतीहै ॥ ९ ॥ ऐसे चंद्रदशा पापांतरमें बुद्धिमें क्षोभ ( भय ) मनमें संताप, पुत्र, स्त्री, राजासे भय देतीहै ॥ १० ॥ छठे चंद्रमाकी दशा पापांतरमें कृषिका नाश ऋणसे दबना, प्रमेह, क्षय, पाण्डुरोगसे दुःख देतीहै ॥ ११ ॥ पठस्यचंद्रदशा शुभांतरदशा सबसे भैत्री तथा चोर, अग्नि, राजभयनाश करती है ॥ १२ ॥

कलत्रस्थनिशानाथाद्यदा सौम्याहतिस्तदा ॥ कलत्रपुत्रसंपत्तिर्वा-  
हनांबरभूषणम् ॥ १३ ॥ तथाविधदशानाथात्पापिनां तु हति-  
र्यदा ॥ विदेशयानं पुत्रार्थदारबंधुविनाशनम् ॥ १४ ॥ अष्टमस्थ-  
निशानाथात्पापंभुक्तौ महद्भयम् ॥ मरणं दारपुत्राणां कुत्सितान्नं  
पराजयम् ॥ १५ ॥ रंध्रस्थितनिशानाथपरिपाके महत्सुखम् ॥  
सौम्यभुक्तौ महत्कीर्तिर्धैर्यवाहनभूषणम् ॥ १६ ॥

सप्तम चंद्रमासे जब शुभांतरआर्वे तब स्त्री, पुत्र, संपत्ति, वाहन, वस्त्र, भूषण मिळतेहें  
॥ १३ ॥ ऐसे चंद्रमासे जब पापांतरदशा होवै तब परदेशगमन, पुत्र, धन, स्त्री, बंधुजनका  
विनाश होवै ॥ १४ ॥ अष्टमचंद्रमासे पापांतरमें बडीभय, स्त्री, पुत्र, मरण, निन्द्य अन्नका  
भोजन और युद्धादिमें पराजय, (हार) पावै ॥ १५ ॥ अष्टम चंद्रदशा शुभांतरमें बडा-  
सुख, बडीकीर्ति होवै, धैर्यता तथा वाहन, भूषण मिलें ॥ १६ ॥

धर्मस्थितदशानाथाच्छुभभुक्तौ पितुः सुखम् ॥ धर्मं यज्ञं विवाहं  
च राज्यस्त्रीधनसंपदः ॥ १७ ॥ तथाविधदशानाथात्पापिनां तु  
हतिर्यदा ॥ धर्महानिर्मनोदुःखं राज्यार्थगृहनाशनम् ॥ १८ ॥ क-  
र्मस्थचन्द्रदाये च सौम्यभुक्तिः करोति हि ॥ स्वकर्मनिरतं शास्त्र  
धर्मदानपरायणम् ॥ १९ ॥ कर्मस्थितनिशानाथात्पापभुक्तिर्यदा  
तदा ॥ कर्मनाशं करोत्यत्र ह्यपकीर्तिं महद्भयम् ॥ २० ॥

नवमगत दशेश चंद्रमासे शुभांतरमें पिताका सुख, धर्म, यज्ञ, विवाहादि, तथा राज्य,  
स्त्री, धनकी संपत्ति होवै ॥ १७ ॥ ऐसे चंद्रमादशा पापांतर जब आवै तब धर्महानि, मन-  
में दुःख राज्य, धन, गृह, नाश होवें ॥ १८ ॥ दशमगत चंद्रमाकी दशामें शुभमहोकी  
अंतरदशा अपने कर्ममें तत्पर, धर्मशास्त्र, तथा दानमें तत्पर करतीहै ॥ १९ ॥ दशम  
चंद्रदशासे पापांतर जब आवै तब कर्मनाश, अपयश, औखेडीभय करतीहै ॥ २० ॥

लाभचन्द्रदशाभुक्तिर्धनधान्यांवराणि च ॥ वाहनं राज्यलाभं  
च करोति विविधं सुखम् ॥ २१ ॥ लाभचन्द्रे पापभुक्तौ धन-  
नाशमुपैति च ॥ कृषिधान्याक्षिदेहार्तिं नृपचौरादिपीडनम् ॥  
॥ २२ ॥ द्वादशस्थनिशानाथपरिपाकेऽर्थनाशनम् ॥ पापभुक्तौ-  
महत्कष्टं सर्वशत्रुत्वमेव च ॥ २३ ॥ शुभभुक्तौ व्ययस्थस्य वस्त्र-  
माल्यविभूषणम् ॥ दारार्थपुत्रमित्राणां वर्धनं वाहनं सुखम् ॥ २४ ॥  
इति चंद्रपाकान्तर्दशाफलम् ॥

लाभगत चंद्रदशमें शुभांतर धन, अन्न, वस्त्र, वाहन, राज्यलाभ और अनेकप्रकार सुख करता है ॥ २१ ॥ लाभगत चंद्रदशमें पापांतरदशा धननाश, कृषि, अन्न क्षय, नेत्र, तथा देहपीडा, राजा, चोर, अग्निसे पीडन देती है ॥ २२ ॥ द्वादशचंद्रमाकी दशा पापांतरमें बड़ा कष्ट मिलता है तथा सर्वत्र शत्रुता होती है ॥ २३ ॥ व्ययगत चंद्रदशा शुभांतरमें स्त्री, धन, पुत्र, मित्रोंकी वृद्धि, वाहनलाभ और सुख मिलते हैं ॥ २४ ॥ इति चंद्रपाकान्तर्दशाप्रलम् ॥

अथ भौमदशांतरफलानि ।

लग्नस्थितधरासूनोः परिपाके व्रणं क्षतम् ॥ पापभुक्तौ महत्कष्टम-  
जीर्णादिमहद्भयम् ॥ १ ॥ शुभभुक्तौ नृपात्प्रीतिं भ्रातृवर्गभवं सु-  
खम् ॥ तथाविधधरासूनोर्दशायां क्षेत्रवाहने ॥ २ ॥ धनस्थितध-  
रासूनोः शुभभुक्तिर्यदा तदा ॥ भ्रातृसौख्यं मनोत्साहं विद्यावाह-  
नभूषणम् ॥ ३ ॥ द्वितीयस्थधरासूनोः परिपाके शुभाहतिः ॥  
पूर्ववित्तविनाशं च राजकोपं ज्वराग्निभीः ॥ ४ ॥

लग्नगत भौमकी दशा पापग्रहोंके अंतरमें व्रण धावसे बड़ा कष्ट अनोर्ण आदिसे बड़े भय होवें ॥ १ ॥ ऐसे भौमदशा शुभांतरमें राजासे मसन्नता, भ्रातृवर्गसे सुख और सेती, तथा वाहन मिलते हैं ॥ २ ॥ दूसरे मंगलकी दशामें शुभग्रहोंका अंतर जब होवें तब भाइयोंका सुख, मनका उत्साह, विद्या, वाहन, भूषण मिलते हैं ॥ ३ ॥ द्वितीय मंगलकी दशा शुभांतरमें पाहिडेका संचित धन नाश, राजकोप, ज्वर, अग्निभय होवें ॥ ४ ॥

तृतीयस्थधरासूनोः पापभुक्तिर्यदा तदा ॥ मनोवैकल्यमायाति  
भ्रातृवर्गविनाशनम् ॥ ५ ॥ तृतीयस्थधरासूनोः पाके सौम्यह-  
तिर्यदा ॥ भोजनांवरसौख्यं च कृषिभूषणवाहनम् ॥ ६ ॥ हिबु-  
कस्थधरासूनोः क्रूरभुक्तौ महद्भयम् ॥ गृहक्षेत्रविनाशं च नृपचौ-  
राग्निपीडनम् ॥ ७ ॥ हिबुकस्थधरामृतोः पाके सौम्यहतिर्यदा ॥  
क्षेत्रांवरसुखावाप्तिं पशुवाहनभूषणम् ॥ ८ ॥

तीसरे मंगलकी दशा पापांतरमें मनकी विकृता होवें भ्रातृवर्गका विनाश होवें ॥ ५ ॥ तृतीय मंगलकी दशा शुभांतरमें भोजन, वस्त्र, सुख, कृषि, वाहन, भूषण, मित्रे ॥ ६ ॥ चौथे मंगलकी दशा पापांतरमें बड़ा भय, गृह, सेतीका विनाश, राजा, चोर, अग्निसे पीडन मित्रे ॥ ७ ॥ चौथे भौमकी दशामें शुभग्रहोंके अंतरमें सेती, वस्त्रके सुगंधकी प्राप्ति, पशु, वाहन और भूषणभी मिलते हैं ॥ ८ ॥

पंचमस्थधरामृतोः पाके पापहतिर्यदा ॥ कृषिगोधनधान्यार्थं  
सुतदारविनाशनम् ॥ ९ ॥ तथाविधकुजात्सौम्यभुक्तौ शोभन-

मादिशेत् ॥ राजपूज्यं सुताप्तिं च मंत्रावाप्तिमिहादिशेत् ॥ १० ॥  
षष्ठस्थितकुजात्पापभुक्ता कष्टं विनिर्दिशेत् ॥ चौराग्निनृपपीडां च  
स्फोटकक्षयमेहनम् ॥ ११ ॥ तथाविधकुजात्सौम्यभुक्तौ भूपा-  
लमित्रताम् ॥ बन्धुनाशं मनोदुःखं पश्चात्सौख्यं विनिर्दिशेत् ॥ १२ ॥

पंचम मंगल दशामें पापांतर जब होवै तब कृषि, गो, धन, अन्न, पुत्र, स्त्रीका विनाश  
होवै ॥ ९ ॥ ऐसे मंगलमें शुभांतर जब आवै तब शुभफल कहना राजासे पूज्यता, पुत्र-  
माप्ति और मंत्रमाप्ति कहनी ॥ १० ॥ छठे मंगलकी दशा पापांतरमें कष्ट कहना, चोर,  
अग्नि, राजासे पीडा, विस्फोटक, क्षय, मेह रोगभी होतेहैं ॥ ११ ॥ छठे मंगलदशा शुभां-  
तरमें राजासे मित्रता, बन्धुनाश, मनमें दुःख और पीछे सुखभी कहना ॥ १२ ॥

कलत्रस्थकुजात्पापभुक्तौ स्त्रीसुतराजभीः ॥ शुभभुक्तौ महत्सौख्यं  
नृपवाहनभूषणम् ॥ १३ ॥ अष्टमस्थकुजाद्भुक्तौ पापिनां मरणं  
कृशम् ॥ सौम्यभुक्तौ महत्सौख्यं कृषिगोनृपपूजनम् ॥ १४ ॥  
नवमस्थधरासूनोर्दाये पापहृतिर्यदा ॥ पित्रोर्नाशं गुरोर्नाशं  
धर्महानिं मनोरुजम् ॥ १५ ॥ तथाविधकुजात्सौम्यभुक्तौ गोध-  
नसंपदः ॥ विवाहं यज्ञदीक्षां च देवभूसुरतर्पणम् ॥ १६ ॥

सप्तम मंगलकी दशा पापांतरमें स्त्री, पुत्र, राजासे भय शुभान्तरमें बडा सुख राजासे  
वाहन, भूषण मिलें ॥ १३ ॥ अष्टम मंगलकी दशा पापांतरमें अल्पमृत्यु, कृशता और  
शुभग्रहोंके अंतरमें बडासुख, कृषि, गौ लाभ, राजासे पूजन, मिलतेहैं ॥ १४ ॥ नवम  
मंगलकी दशामें पापांतर जब होवै तबमातापिताका नाश, गुरुका नाश, धर्मकी हानि,  
मनमें रोग होतेहैं ॥ १५ ॥ ऐसे मंगलकी दशा शुभांतरमें गोधनकी संपत्ति, विवाह, यज्ञकी  
दीक्षा, देवता ब्राह्मणोंकी वृत्ति, करनी मिलें ॥ १६ ॥

कर्मस्थितधरासूनोर्दुःखं स्यात्पापिनां हतौ ॥ विदेशयानं  
दुष्कीर्तिं लभते हि पराजयम् ॥ १७ ॥ लाभस्थभूमिपुत्रस्य  
पाके पापहृतिर्यदा ॥ करोति विपुलं राज्यं गंधमाल्यादिभूषणम्  
॥ १८ ॥ शुक्रेज्याब्जविदां भुक्तौ लाभराशिगतस्य तु ॥ परि-  
पाके महत्सौख्यं दानधर्मादिसंग्रहम् ॥ १९ ॥ द्वादशस्थधरासूनोः  
पाके पापहृतिर्यदा ॥ करोति दुःखवाहुल्यं कारागृहनिवेशनम्  
॥ २० ॥ शुभापहारे सौख्यं च यानांवरविभूषणम् ॥ भुक्तयंते राज-  
कोपं च पदभ्रंशं मनोरुजम् ॥ २१ ॥ इति भौमपाकान्तर्दशाफलम् ॥

दशम मंगलकी दशमें जब पापांतर होवै तब विदेशगमन, अपकीर्ति, पराजय ( हार ) पावताहै ॥ १७ ॥ ङाभगत मंगलकी दशमें जब पापांतर आवै तब बहुतबडा राज्य, चंदन, पुष्प और भूषण मिलतेहैं ॥ १८ ॥ ङाभगत मंगलमें शुक्र, गुरु, चंद्र, बुधकी अंतरदशा जब आवै तब बडासुख, दान, धर्म आदिका संग्रह होताहै ॥ १९ ॥ व्ययस्थ मंगलकी दशमें जब पापांतर आवै तब बहुतदुःख और कैद घरमें प्रवेश करताहै ॥ २० ॥ शुभग्रहोंके अंतरमें सुख, सवारी, वस्त्र, भूषण मिलतेहैं, दशाके अंतमें राजाका कोप पदसे च्युति और मानसी रोग होतेहैं ॥ २१ ॥ इति भौमपाकान्तर्दशाफलम् ॥

अथ राहुदशांतरफलानि ।

लग्नस्थसैहिकेयस्य दाये पापहृतिर्यदा ॥ करोति दुःखबाहुल्यं  
नृपचौराग्निपीडनम् ॥ १ ॥ तत्रस्थभोगिनः पाके शुभभुक्तौ शुभं  
वेदेत् ॥ गृहक्षेत्रादिवृद्धिश्च भोजनांबरभूषणम् ॥ २ ॥ पडष्टान्त्य-  
गतस्याहेः परिपाके शुभेतरां ॥ हृतिः कलहरोगाग्निनृपचौरवि-  
पाहिभीः ॥ ३ ॥ श्वासक्षयप्रमेहादिशूलनिद्रादिभाग्भवेत् ॥ कुभो  
जनं कुवस्त्रं च स्थाननाशं नृपाद्रयम् ॥ ४ ॥

लग्नगत राहुकी दशमें पापांतर जब आवै तब बहुत दुःख तथा नृप, चौर, अग्निसे पीडन करतीहै ॥ १ ॥ लग्नगत राहुकी दशा शुभांतरमें शुभफल कहना घर, खेतोंकी वृद्धि, भोजन, वस्त्र, भूषणवृद्धि, होतीहै ॥ २ ॥ छटे, आठवें, बारहवें, भावगत राहुकी दशमें पापांतर जब हों तब कलह, रोग, अग्नि, राजा, चौर, विप, सर्पसे भय होतीहै ॥ ३ ॥ तथा श्वास, क्षय, प्रमेहादि शूल, निद्रा आदिवाला हैवै कुभोजन, कुवस्त्र मिलें, स्थानका नाश होवै राजासे भय होवै ॥ ४ ॥

दुःस्थस्य चाहिनाथस्य परिपाके शुभा हृतिः ॥ आदौ शुभं मह-  
त्सौख्यं नृपमानं धनागमम् ॥ ५ ॥ अंते तु राजभीतिः स्यात्स्था-  
ननाशं मनोरुजम् ॥ कृपिगोभूमिवस्त्रादिवंधुपुत्रार्थनाशनम् ॥ ६ ॥

दुष्टभावगत राहुकी दशामें जब शुभग्रहोंके अंतर आवै तब मयम शुभफल, बडासौख्य, राममान, धनागम होवै ॥ ५ ॥ अंतमें तो राजासे भय, स्थानका नाश, मनमें रोग, कृपि, गौ, भूमि, वस्त्रादि तथा बंधुजन, पुत्र, धनका नाश होवै ॥ ६ ॥

केन्द्रत्रयस्थितस्याहेः पापानां तु हृतिर्यदा ॥ गृहदाहाक्षिरोगा-  
दिदारपुत्रमहद्रयम् ॥ ७ ॥ स्थानच्युतिं मनोदुःखं निजाचारवि-  
वर्जितम् ॥ अकस्मात्कलहं चैव चौराग्निनृपपीडनम् ॥ ८ ॥ चतु-

पृथगतस्याहेः परिपाके शुभा हतिः ॥ क्वचित्सौख्यं क्वचित्कीर्तिं  
क्वचिद्धर्मं क्वचिन्न हि ॥ ९ ॥ एवमादौ तु भुक्त्यन्ते राजकोपाद्धन-  
क्षयम् ॥ युद्धे पराजयं चैव विद्यावादं महद्भयम् ॥ १० ॥

छत्रसे अतिरिक्त तीन केन्द्रोंमेंसे किसीमें स्थित राहुकी दशामें जब पापांतर आवै तब  
घर जले, नेत्ररोगादि होवै, स्त्रीपुत्रोंको बड़ी भय होवै ॥ ७ ॥ स्थानहानि, मनमें दुःख,  
अपने आचारसे वर्जितता अकस्मात्कलह, तथा चोर, अग्नि, राजासे पांडन मिले ॥ ८ ॥  
केन्द्रगत राहुदशामें शुभांतरका फल कभी सुख, कभी कीर्ति, कभी धर्म कभी न होवै ॥ ९ ॥  
ऐसे फल दशादिमें होतेहैं दशाके अंत्यमें राजाके कोपसे धनका क्षय, युद्धमें पराजय,  
विद्यासंबंधी वाद और बड़ी भय होतीहै ॥ १० ॥

त्रिकोणस्थफणीन्द्रस्य दशापाके महत्कृशम् ॥ पापभुक्तौ मह-  
त्कष्टं पापाचारसमन्वितम् ॥ ११ ॥ अपकीर्तिं कुभोज्यं च  
कृपिगोभूमिनाशनम् ॥ नृपभीतिं च शौर्यं च मौल्यादिपतनं  
भवेत् ॥ १२ ॥ तथाविधफणीन्द्रस्य शुभभुक्तौ शुभक्रिया ॥  
सुतदारधनाप्तिं च भुक्त्यन्ते फलमीदृशम् ॥ १३ ॥ किंचित्सुखं  
तदादौ तु विदेशगमनं तथा ॥ मंत्रोपास्तिं मनोत्साहं कलत्रात्म-  
जदूषणम् ॥ १४ ॥

त्रिकोणें ५१९ गत राहुकी दशा पापांतरमें बहुत कृशत्व, महाकष्ट, पापाचारसहित होवै  
॥ ११ ॥ अपकीर्ति, कुभोजन मिले कृपि गौ भूमिका नाश राजासे भय, तथा पराक्रम  
करना मिले परंतु मौल्य आदिका पतन होवै अर्थात् कीमत ( करामत ) घटजावै ॥ १२ ॥  
त्रिकोणगत राहुमें जब शुभांतर होवै तब शुभकाम होवै, पुत्र स्त्री धन प्राप्ति होवै, ऐसे फल  
दशाके अंतमें होतेहैं ॥ १३ ॥ दशादिमें तो थोडासुख तथा परदेश गमन मंत्रोपासना,  
मनका उत्साह, और स्त्रीपुत्रोंको दूषण मिले ॥ १४ ॥

तृतीयलाभगस्याहेः परिपाके महत्सुखम् ॥ पापभुक्तौ नृपप्रीतिं  
फलमीदृशमादितः ॥ १५ ॥ अंते कष्टं विनिर्देश्यं चौराग्निनृप-  
पीडनम् ॥ बन्धुद्रेपं मनोदुःखं भ्रातृवर्गविनाशनम् ॥ १६ ॥  
धनराशिगतस्याहेः पापानां तु हतिर्यदा ॥ धननाशं मनोदुःखं  
भार्यापुत्रविनाशनम् ॥ १७ ॥ क्रयविक्रयवित्ताप्तिं वाग्दूषणम-  
थापि वा ॥ तथाविधफणीन्द्रस्य शुभभुक्तौ तु भोजनम् ॥ १८ ॥

वस्त्रवाहनभूपाप्ति क्रयविक्रयदूषणम् ॥ उद्योगभंगं देहातिं गृहपापं  
लभेत्रः ॥ १९ ॥ इति राहुपाकान्तर्दशाफलम् ॥

तीसरे वा ग्यारहवें राहुकी दशा पापांतरमें बड़ा सुख मिले; राजाकी मसन्नता होवे, ऐसे फल प्रथम मिलें ॥ १५ ॥ दशाके अंतमें कष्ट कहना तथा चोर, अग्नि, राजासे भय, बंधु-जनसे वैर, मनमें दुःख भाइयोंका नाश होताहै ॥ १६ ॥ धनराशिगत राहुदशा पापांतरमें धननाश, मनमें दुःख, स्त्री पुत्र नाश ॥ १७ ॥ व्यापारमें धनहानि वा वाणीसे दूषण मिलतेहै धनके राहुदशा शुभांतरमें उत्तम भोजन ॥ १८ ॥ वस्त्र, वाहन, भूषणोंकी प्राप्ति, व्यापारमें दूषण, उद्योगभंग, देहपीडा, तथा गुप्तपाप मनुष्य पावे ॥ १९ ॥ इति राहुपाकान्तर्दशाफलम् ॥

अथ जीवान्तर्दशाफलम् ।

केन्द्रस्थितस्य जीवस्य दशायां देहपीडनम् ॥ पापाहतौ तथा  
दुःखं राजकोपं धनक्षयम् ॥ १ ॥ कृपिगोभूमिनाशं च विरोधं  
बंधुभिः सह ॥ उत्साहभंगं वैकल्यमादौ चांते शुभं वदेत् ॥ २ ॥  
भुक्तौ शुभानां तत्काले गुरोः केन्द्रगतस्य तु ॥ राज्यलाभं मनो-  
त्साहं वस्त्रवाहनभूषणम् ॥ ३ ॥ दानं होमं जपं धर्म्यं नृपलाल-  
नमानताम् ॥ सर्वोपकारं कल्याणं विचित्रावरकाञ्चनम् ॥ ४ ॥

अथ वृहस्पतिकी अन्तर्दशाका फल कहतेहै केन्द्रगतगुरुकी दशा पापांतर्दशमें देहपीडा, तथा दुःख राजाका कोप, धनक्षय ॥ १ ॥ कृपि, गौ, भूमिका नाश, बंधुजनसे विरोध, उत्साहभंग, विकलता, इतने फल प्रथम होनेहै दशांतमें शुभफल कहना ॥ २ ॥ केन्द्रगत गुरुदशा शुभग्रहोंके अंतरमें राज्यलाभ, मनका उत्साह, वस्त्र, वाहन, भूषण मिलतेहै ॥ ३ ॥ दान, हवन, जपादि धर्म होतेहै राजासे प्यार, एवं मान मिलताहै सबका उपकार होताहै मंगलकार्य होतेहै नानाप्रकारके वस्त्र एवं सुवर्ण मिलताहै ॥ ४ ॥

त्रिकोणस्थगुरोः पाके शुभभुक्तौ महत्सुखम् ॥ प्राकारगोपुरादीनां  
निर्माणं देवतर्पणम् ॥ ५ ॥ भाग्योत्तरं महाकीर्तिं दारपुत्रार्थसं-  
पदः ॥ विदेशयानादातार्थं यशो विद्यां जयं सुखम् ॥ ६ ॥ तत्रस्थि-  
तगुरोः पाके पापानां च हतिर्यदा ॥ दारपुत्रनृपकोपं बंधूनां  
मरणं तथा ॥ ७ ॥ बुद्धिभ्रंशं पदभ्रंशं कार्यविघ्नकरं तथा ॥ चौरा-  
ग्निदारपीडां च कुरुते नात्र संशयः ॥ ८ ॥

त्रिकोण ५१९ गत गुरुकी दशा शुभग्रहोंके अंतरमें बड़ा सुख होताहै सहरपताह नगरदार भादि इमारत बने देवताओंकी तृप्ति यज्ञ यजनादिसे करे ॥ ५ ॥ ऐश्वर्य बड़े बड़ी कीर्ति



होवे स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति होवे परदेशगमनसे धनप्राप्ति, यश, विद्या, विजय, और सुख मिले ॥ ६ ॥ त्रिकोणगत गुरुदशमें जब पापांतर आवै तब स्त्री, पुत्र, राजासे क्रोध, बधु-जन मरण ॥ ७ ॥ बुद्धिकी गलती, पदकी हानि, तथा कार्यमें विप्र, करे चौर, अग्नि, स्त्रीसे पीडा, मिले इसमें संदेह नहीं ॥ ८ ॥

स्वकुलाचारहीनं च परदाराभिमर्शनम् ॥ चांचल्यं मानहानिं च मणिविद्रुमनाशनम् ॥ ९ ॥ षष्ठाष्टमव्ययस्थस्य गुरोः पाके शुभेतरा ॥ करोति स्वकुलाचारहीनं राज्यार्थनाशनम् ॥ १० ॥ आत्मार्थबन्धुमरणं विदेशान्नृपलालनम् ॥ भूमिवादं मनोदुःखं व्याधीनां भयमेव च ॥ ११ ॥

अपने कुलाचारसे हीनता, परई स्त्रीको कुटाष्टिसे देखना, चंचलता, मानहानि, राज्य और धनका नाश मिलताहै ॥ ९ ॥ छटे, आठवें, बारहवें, भावगत गुरुकी दशा पापांतरमें अपने कुलाचारसे हीनता राज्य एवं धनका नाश ॥ १० ॥ अपने निमित्त बधुजनका मरण, विदेशसे राजाका प्रेम, भूमिसंबंधी विवाद, मनमें दुःख, रोगोकी भयभी होताहै ॥ ११ ॥

गुरोर्नाशं गतस्यापि परिपाके महत्सुखम् ॥ देशग्रामाधिपत्यं च शुभभुक्तौ महद्यशः ॥ १२ ॥ देहारोग्यकरं किंचिद्गजाश्वाद्यंबराणि च ॥ सुष्ठुभोजनमुल्लासं क्षीरदध्याज्यशर्कराः ॥ १३ ॥ तृतीयायगतस्यापि गुरोः पाके महद्यशः ॥ सौम्यानां भुक्तिकाले तु वस्त्रवाहनभूषणम् ॥ १४ ॥ मणिविद्रुममुक्तादिकांचनाद्यम्बराणि च ॥ देशाधिपत्यं मंत्रित्वं लभते नात्र संशयः ॥ १५ ॥ तादृशस्य गुरोर्दाये पापभुक्तौ महद्भयम् ॥ आचारहीनं कुरुते स्वकुलोद्भवनाशनम् ॥ १६ ॥ विदेशवासं कष्टं च नानादुःखपरिभ्रमम् ॥ एवमादौ दशांते तु सुखंवाहनभोजनम् ॥ १७ ॥

अष्टमगत गुरुकी दशा शुभांतरमें बडासुख देश गांवकी आधिपत्य ( माळकी ) और बडा यश मिले ॥ १२ ॥ तथा शरीरमें आरोग्यता, थोडी घोडे, हाथी आदि वस्त्र, उत्तम भोजन. हर्ष, दूध, दही, घृत, शर्कर मिले ॥ १३ ॥ तीसरे, ग्यारहवें, गुरुकी दशा शुभांतरमें बडायश वस्त्र, सवारी, भूषण ॥ १४ ॥ मणि, मूंगा, मोतीआदि रत्न, सुवर्णआदि धातु, वस्त्र, देशकी अधिकारिता, मंत्रित्व, निस्संदेह पावताहै ॥ १५ ॥ ऐसही गुरुकी दशा पापांतरमें बडाभय, आचारहीनता और अपने फुलवालेका नाश करताहै ॥ १६ ॥ तथा परदेश वास, कष्ट, अनेकमकार दुःख, भ्रम, इत्यादिकल दशाके आदिमें और अतमें सुख, वाहन, भोजन देतीहै ॥ १७ ॥

धर्मस्थितगुरोर्दाये शुभभुक्तौ धनागमम् ॥ विद्यालाभं जयं  
सौख्यं दारपुत्रनृपात्सुखम् ॥ १८ ॥ सर्वेषामुपकर्तृत्वं धनाधिक्यं म-  
हत्प्रियम् ॥ भोजनं पौष्टिकं चैव धर्मदारधनादिकम् ॥ १९ ॥  
द्वितीयस्थगुरोः पाके पापभुक्तौ यदा तदा ॥ करोति दुःखबा-  
हुल्यं राज्ञा हतधनं तथा ॥ २० ॥ बंधुद्वेषं मनोद्विग्नं वाचिक-  
न्दैन्यमेव च ॥ कुभोजनादिदुष्कर्मकुत्सितप्रेष्यभावताम् ॥ २१ ॥  
इति गुरुपाकान्तर्दशाफलम् ॥

नवमपात गुरुकी दशा शुभांतरमें धनकी आमद विद्याका लाभ, विनय, सुख, स्त्री, पुत्र,  
राजसे सुख मिले ॥ १८ ॥ सबका उपकार अपनेसे होवै, धन अधिक होवै, बड़ी मियता,  
पौष्टिक भोजन, और धर्म, स्त्री, धनादि मिलतेहैं ॥ १९ ॥ दूसरे गुरुकी दशा पापांतर जब  
आवै तब बहुत दुःख करतीहै राजा धन हरण करताहै ॥ २० ॥ बंधुजनोंमें वैर, मनमें  
उद्विग्नता, जबानीदीनता, कुभोजनआदि तथा दुष्कर्म, निंद्य, दूतताका भाव मिलतेहैं ॥ २१ ॥  
इति गुरुपाकान्तर्दशाफलम् ।

अथशनेरन्तर्दशाफलम् ।

केन्द्रस्थस्य शनेर्दाये यदा पापहृतिस्तदा ॥ स्थानच्युतिं प्रवासं  
च नृपचौराग्निपीडनम् ॥ १ ॥ तथाविधशनेर्दाये शुभभुक्तौ मह-  
त्सुखम् ॥ नृपाभिषेकमर्थातिं देशग्रामाधिपत्यताम् ॥ २ ॥ फल-  
मीदृशमादौ तु भुक्तयन्ते रोगपीडनम् ॥ परापवादं बंधूनां मरणं  
धननाशनम् ॥ ३ ॥

केन्द्रगत शनिकी दशामें जब पापग्रहोंका अंतर होवै तब स्थान हानि, परदेश यात्रा, राजा,  
चोर, अग्निसे पीडन मिले ॥ १ ॥ ऐसे शनिकी दशा शुभांतरमें बड़ा सुख, राजकार्यमें  
अभिषेक, ( अधिपतिता ) धनप्राप्ति, देश, ग्रामरा आधिपत्य ( मालकी ) मिले ॥ २ ॥ ऐसे  
क.३ दशाके आदिमें होतेहैं अंतमें रोग पीडा, झूठा चलक, बंधुजनोंका मरण, धननाश होताहै ॥ ३ ॥

त्रिकोणस्थशनेर्दाये पितृपुत्रविनाशनम् ॥ पापभुक्तौ महत्कष्टं  
कर्मनाशमथापि वा ॥ ४ ॥ वाताक्षिमूलरोगं च स्वबंधुकलहं तथा  
॥ उद्योगभंगं दुःखं च स्थलधान्यविनाशनम् ॥ ५ ॥ तथाविध-  
शनेर्दाये शुभभुक्तौ महत्सुखम् ॥ राजपूज्यं कृपेलाभं धनधान्यवि-  
वर्द्धनम् ॥ ६ ॥ स्वबन्धुदारपुत्राणामारोग्यं भूषणादिकम् ॥ भृत्य  
मित्रार्थसंपात्तिं लभते धर्मसंग्रहम् ॥ ७ ॥

त्रिकोण ५ । ९ स्थित शनिकी दशा पापांतरमें पिताका तथा पुत्रका नाश, बडाकष्ट अथवा कर्मका नाश होवै ॥ ४ ॥ वातविकार, नेत्ररोग, मूलाधारमें रोग, अपने बांधवोंमें कलह, उद्योगभंग, दुःख और स्थलोत्पन्न अन्नका नाश होवै ॥ ५ ॥ त्रिकोणगत शनिकी दशा शुभांतरमें बडासुख, राजासे पूज्यता, कृषिकर्ममें लाभ, धन अन्नकी वृद्धि ॥ ६ ॥ अपने बांधव, स्त्री, पुत्रोंकी आरोग्यता, भूषणआदि मिलतेहै तथा सेवक, मित्र, धनकी संपत्ति और धर्मका संग्रह मिलताहै ॥ ७ ॥

षष्ठाष्टमव्ययस्थस्य शनेर्दाये शुभेतरा ॥ हृतिर्दुःखं महत्कष्टं स्थाननाशं धनक्षयम् ॥ ८ ॥ गुह्यरोगं विपार्तिञ्च ज्वरवह्निनृपाद्भयम् ॥ अत्याप्तबन्धुमरणसुद्योगस्य विनाशनम् ॥ ९ ॥ षष्ठाष्टमव्ययस्थस्य शुभपाके महत्सुखम् ॥ आरोग्यं कान्तिवृद्धिं च देशग्रामाधिपत्यताम् ॥ १० ॥

छटे, आठवें, चारहवें, शनिकी दशा पापांतरमें दुःख, बडाकष्ट, स्थाननाश, धनका क्षय ॥ ८ ॥ गुह्यस्थानमें रोग, विषकी भय, ज्वर, अग्नि राजासे भय, अतिक्रपा करनेवाले बंधुका मरण और उद्योगका नाश होताहै ॥ ९ ॥ ऐसे ६ । ८ । १२ गत शनिदशा शुभांतरमें बडा सुख, निरोगिता, कान्तिकी वृद्धि और देश ग्रामकी मालकी मिलतीहै ॥ १० ॥

तृतीयलाभराशिस्थशनेः शुभहृतिर्यदा ॥ पाके शुभफलं प्रोक्तं नृपलालनभूषणम् ॥ ११ ॥ तृतीयलाभराशिस्थशनेः पापहृतिर्यदा ॥ पाके धनार्तिं दुःखं च भ्रातृवर्गविनाशनम् ॥ १२ ॥ विदेशयानं कलहं वैकल्यं भृत्यनाशनम् ॥ कुभोजनं परप्रेष्यं कुस्त्रीसंगमनं लभेत् ॥ १३ ॥

तीसरे, ग्यारहवें, शनिकी दशामें पापांतर जब होवै तब शुभफल कहाहै राजासे (लाड) प्रेम तथा भूषण मिलें ॥ ११ ॥ ३ । ११ भावगत शनिदशा पापांतर जब होवै तब धन-माप्ति और दुःख, भ्रातृवर्गका नाशभी होताहै ॥ १२ ॥ तथा विदेशगमन, कलह, विकलता, सेवकका नाश, कुभोजन, पराया दूतत्व, निंद्य स्त्रीका गमन मिले ॥ १३ ॥

धनस्थितशनेः पाके यदा पापहृतिर्भवेत् ॥ राजदण्डं महाविघ्नं कारागृहनिरोधनम् ॥ १४ ॥ उत्साहभंगं देहार्तिं ज्वरातीसारपीडनम् ॥ राज्यनाशं गवाश्वानां मरणं वाहनाद्भयम् ॥ १५ ॥ द्वितीयस्थशनेः पाके शुभभुक्तौ मनोदृढम् ॥ उपकर्तृत्वमन्येषां

द्यूतविद्याविनोदनम् ॥ १६ ॥ गानकेलिरहस्यं च भोजनावर-  
भूषणम् ॥ उद्योगसिद्धिं राज्याप्तिं मणिविद्रुमकांचनम् ॥ १७ ॥  
इति शनिपाकान्तर्दशाफलम् ॥

धनभावगत शनिकी दशमें जब पापांतर होवै तब रागासे दण्ड मिले, बडा विघ्न होवै,  
कैदमें रोका जावै ॥ १४ ॥ उत्साहभंग होवै, देहमें पीडा, ज्वर अतिसारकी पीडा होवै ॥ १५ ॥  
दूसरे शनिकी दशा शुभांतरमें मन दृढ रहे, औरोंका उपकार, अपनेसे होवै, जुवाकी विद्याका  
विनोद होवै ॥ १६ ॥ गायन क्रीडाका रहस्य भी मिले, भोजन, वस्त्र, भूषण, उत्तम मिले  
उद्यम सकल होवै, राज्य मिले, मणि, मूंगा, सुवर्णका लाभ होवै ॥ १७ ॥ इति शनिपा-  
कान्तर्दशाफलम् ॥

अथ बुधांतर्दशाफलम् ।

केन्द्रस्थितस्य सौम्यस्य दशायां पापिनां हतौ ॥ कर्मविघ्नं  
महादुःखं मनश्चांचल्यमेव च ॥ १ ॥ उत्साहभंगं गोभूमिहिर-  
ण्याम्बरनाशनम् ॥ स्थानच्युतिं महाद्वेषं विद्यानाशं लभेत्तदा  
॥ २ ॥ शुभभुक्तौ बुधस्याथ पापकेन्द्रगतस्य तु ॥ वैवाहिकं यज्ञकर्म  
दानधर्मजपादिकम् ॥ ३ ॥ ज्ञानाधिक्यं नृपात्प्रीतिं कृपिगोभूमि  
वर्धनम् ॥ मुक्तामणिप्रवालादिवाहनांवरभूषणम् ॥ ४ ॥

अब बुधदशांतरफल कहतेहैं केन्द्रगत बुधकी दशा पापग्रहोंके अंतरमें कर्ममें विघ्न,  
बडादुःख और मनचंचलभी होवै ॥ १ ॥ उत्साह भंग, गो, भूमि, सुवर्ण, वस्त्रका नाश  
स्थानसे च्युति महावैर और विद्याका नाशभी पावै ॥ २ ॥ केन्द्रगत निष्पाप बुधकी दशा  
शुभांतरमें विवाहकृत्य, यज्ञकर्म, दान, धर्म, जगदि होवै ॥ ३ ॥ ज्ञानकी अधिकता होवै,  
रागासे प्रसन्नता, कृपि, गो, भूमिकी वृद्धि तथा मोती, मणि, मूंगा आदि और वाहन, वस्त्र,  
भूषण मिले ॥ ४ ॥

ज्ञस्य त्रिकोणयुक्तस्य दशायां पापिनां हतौ ॥ दारपुत्रार्थनाशं  
च कर्मनाशं मनोरुजम् ॥ ५ ॥ कृपिवाणिज्यनाशं च बंधुनाश-  
मथापि वा ॥ पादभंगं महाद्वेषं बंधुद्वेषं लभेन्नरः ॥ ६ ॥ तथा  
विधज्ञस्य पाके शुभभुक्तौ नृपात्प्रियम् ॥ आरोग्यमतिसौख्यं  
च सोमपानादिकं सुखम् ॥ ७ ॥ स्वनामांकितपद्यानि नामद्व-  
यमथापि वा ॥ भोजनांवरभूषाप्तिं नरेशत्वं लभेन्नरः ॥ ८ ॥

त्रिकोणगत बुधदशा पापांतरमें, स्त्री, पुत्र, धननाश, कर्मनाश, मनमें रोग ॥ ५ ॥ कृषि व्यापारका नाश अथवा बंधुनाश, पैरोंका टूटना, बड़ा वैर मिलतेहैं ॥ ६ ॥ त्रिकोणगत बुधदशा शुभांतरमें राजासे भेम, आरोग्यता, अतिसौख्य, सोमपानादि सुख ॥ ७ ॥ अपने नामके श्लोक, कविता, अथवा उपाधि ( अधिकारी ) नाम भोजन, वस्त्र, भूषण और राजत्व, मनुष्य पाताहै ॥ ८ ॥

पष्ठाष्टमगतज्ञस्य परिपाके तु पापिनाम् ॥ इतौ चौरारिपीडां च ज्वरातीसारपीडनम् ॥ ९ ॥ स्वबंधुमरणं क्लेशं भृत्यस्त्रीपुत्रनाशनम् ॥ विवादं विग्रहं सर्वैर्वन्धुभिर्लभते नरः ॥ १० ॥ तथा विधाब्जपुत्रस्य शुभभुक्तौ महद्यशः ॥ आरोग्यं कांतिलाभं च देवभूसुरतर्पणम् ॥ ११ ॥ दशादौ फलमेवं स्याद्भुक्तयते सुखनाशनम् ॥ गोमहिष्यादिपीडां च वाक्पारुष्यं नृपाद्भयम् ॥ १२ ॥

छटे, आठवें, भागवत बुधकी दशा पापांतरमें चोरभय शत्रुभय, ज्वरातीसाररोग पीडन ॥ ९ ॥ अपने बंधुका मरण, क्लेश, सेवक, स्त्री पुत्रोंका नाश, कलह, युद्ध, सब बांधवोंके साथ मिलताहै ॥ १० ॥ छटे, आठवें, बुधकी दशा शुभांतरमें बड़ा यश, आरोग्यता, कान्तिलाभ, देवता, ब्राह्मणोंको तृप्त करना ॥ ११ ॥ ऐसे फल दशाके आदिमें होतेहैं अंतमें सुखका नाश, गो, भैस आदिकी पीडा, वाणीकी कठोरता और राजासे भय होतीहै ॥ १२ ॥

तृतीयायगतज्ञस्य शुभभुक्तौ शुभं भवेत् ॥ मनोधैर्यं मनोत्साहं विदेशाद्भव्यसंचयम् ॥ १३ ॥ विद्याजयं नृपात्प्रीतिं भोजनं पौष्टिकं तथा ॥ यज्ञवैवाहिकं कर्म पुराणश्रवणादिकम् ॥ १४ ॥ तथाविधज्ञस्य पाके पापभुक्तौ महद्भयम् ॥ भ्रातृवर्गविनाशं च वैकुण्ठं नृपपीडनम् ॥ १५ ॥ चौरारिदह्निभीतिश्च कुस्त्रीभूतादिसेवनम् ॥ कर्महीनं कृपेर्नाशं गजाश्वानां च पीडनम् ॥ १६ ॥

तीसरे, ग्यारहवें, बुधकी दशा शुभांतरमें शुभफल होताहै मनको धैर्य, मनमें उत्साह, परदेशसे धनसंचय ॥ १३ ॥ विद्यासे विजय, राजासे मसनता. पौष्टिक भोजन, यज्ञ, विवाह आदि कर्म और पुराण श्रवण आदि फल होतेहैं ॥ १४ ॥ तथा ३११ गत बुधदशापापान्तरमें बड़ीभय भ्रातृवर्गका विनाश नपुंसकता राजासे पीडा ॥ १५ ॥ चोर, शत्रु अग्नि भीति, निन्द्य स्त्री संग, भूत आदिका पूजन, कर्महीनता, कृषिका नाश, हाथी घोडाओंका पीडन, ऐसे फल होतेहैं ॥ १६ ॥

धनस्थिताब्जपुत्रस्य परिपाके शुभेतरा ॥ करोति राजदण्डं च बंधनं निगडं तथा ॥ १७ ॥ विपार्तिं बंधुविद्वेषं कृषिगोभूमिना-

शनम् ॥ शत्रुत्वं सकलैः सार्द्धं नित्याचारविवर्जनम् ॥ १८ ॥  
द्वितीयस्थस्य सौम्यस्य परिपाकेऽर्थलाभभाक् ॥ शुभभुक्तौ महा-  
प्रीतिं देवभूसुरतर्पणम् ॥ १९ ॥ अध्वरादिमहत्कर्म दानहोम-  
जपादिकम् ॥ वंधुपूज्यं महोत्साहं विद्यालाभं च विन्दति ॥२०॥

इति बुधपाकान्तर्दशाफलम् ।

द्वितीय भावगत बुधदशा पापांतरमें राजासे दंड वंधन कैद ॥ १७ ॥ विषसे पीडा,  
बंधुजनके साथ वैर, कृषि, गो, भूमिका नाश, सबके साथ शत्रुता, नित्याचारसे राहित्य मिले  
॥ १८ ॥ दूसरे बुधकी दशा शुभांतरमें धनलाभवाला होवै, बड़ा मसन्नता रहे. देवता ब्राह्म-  
णोंकी वृत्ति करे ॥ १९ ॥ यज्ञआदि बडे कर्म, दान, हवन, जप आदि होंवें, वंधुवर्गसे  
पूज्यता बडा उत्साह और विद्यालाभ, मनुष्य पाताहै ॥ २० ॥ इति बुधपाकान्तर्दशाफलम् ॥

अथ केतोरंतर्दशाफलम् ।

केतोश्चतुष्टयस्थस्य यदा पापहतिस्तदा ॥ मानभंगं महाद्वेषं नृप-  
चौराग्निपीडनम् ॥ १ ॥ मातृनाशं तदीयं वा दारपुत्रविनाश-  
नम् ॥ कर्मनाशं पदभ्रंशमकस्मात्कलहो भवेत् ॥ २ ॥ केतोस्त-  
थाविधस्यापि शुभभुक्तौ नृपात्प्रियम् ॥ देहारोग्यकरं सौख्यं  
बंधुभिश्च समागमम् ॥ ३ ॥ भोजनांवरभूपाप्तिमादौ चांते मनो-  
रुजम् ॥ उद्योगभंगं कामार्तिं स्वकुलोद्भवनाशनम् ॥ ४ ॥

अथ केतुके अंतर्दशाफल कहतेहैं केन्द्रगत केतुदशा पापांतरमें मानहानि, बडा वैर,  
राजा, चोर, अग्निसे पीडा, ॥ १ ॥ माताका नाश, अथवा उसीका नाश, स्त्रीपुत्र विनाश,  
कर्मका नाश पदसे गिरना और अकस्मात्कलह होवै ॥ २ ॥ केन्द्रगत केतुकी दशा शुभांतरमें  
राजासे प्रीति, देहमें नीरोगिता, सुरत, बंधुवर्गसे मेलन ॥ ३ ॥ भोजन, वस्त्र, भूषणप्राप्ति,  
इतने फल दशाके आदिमें होतेहैं अंतमें मानसीरोग, उद्यमहानि, कामदेवकी पीडा, और  
अपने कुटुम्बके किसीका नाश होवै ॥ ४ ॥

त्रिकोणराशियुक्तस्य केतोर्दाये शुभेतरा ॥ हतिस्तदा मनस्तापं  
करोति विविधापदम् ॥ ५ ॥ पुत्रवर्गादिमरणं पित्रोर्नाशमथापि  
वा ॥ स्थानार्थयोस्तथा नाशं भृत्यबंधुविरोधनम् ॥ ६ ॥ शुभग्र-  
हाणां केतोस्तु परिपाके हतिर्यदा ॥ कृपिगोभूमिलाभं च विद्या-  
बंधुसमागमम् ॥ ७ ॥ भोजनांवरसौख्यं च भुक्त्यादौ फलमी-  
दृशम् ॥ भुक्त्यंतं स्थानचलनमकस्मात्कलहं वदेत् ॥ ८ ॥

त्रिकोणगत केतुदशा पापांतर होनेसे मनमें संताप अनेक प्रकार आपत्ति करती है ॥ ५ ॥ पुत्रवर्गादिका मरण अथवा माता पिताका नाश, स्थान धनका नाश, तथा परिश्रमालस्य सेवक वर्गसे विरोध होवै ॥ ६ ॥ त्रिकोणगत केतुदशा शुभांतर जब होवै तब दशादिमें कृषि, गो, भूमिका लाभ, विद्या, एवं बंधुजनका समागम ॥७॥ भोजन, वस्त्र, सुख होतहैं, दशाके अंत्यमें स्थानसे विचलित होना और अकस्मात्कलह कहना ॥ ८ ॥

षष्ठाष्टमव्ययस्थस्य केतोर्दाये शुभेतरा ॥ हतिः करोति मरणं  
विदेशं वा पदभ्रमम् ॥ ९ ॥ प्रमेहमूत्रगुल्मादिराजचौराग्निपीड-  
नम् ॥ फलमादौ तदन्ते च यत्किंचित्सुखवर्द्धनम् ॥ १० ॥ भुक्तौ  
सौम्यग्रहाणां तु हतौ स्त्रीपुत्रवर्द्धनम् ॥ धान्यांबरविभूपातिं मणि-  
प्रवरकांचनम् ॥ ११ ॥ विप्रलभं च शौर्यं च मौल्यादिपतनं  
तथा ॥ स्वबंधुजनशत्रुत्वं शिरोक्षिगुदपीडनम् ॥ १२ ॥

छटे, आठवें, बारहवें, केतुकी दशा पापांतरमें मरण, परदेश निवास, पदका भ्रम ॥९॥ प्रमेह, मूत्र, गुल्मादिरोग, राजा, चोर, अग्निसे पीडन, इतने फल दशाके आदिमें मिलतेहैं अंत्यमें थोडा सुखभी बढताहै ॥ १० ॥ ऐसे केतुकी दशा शुभांतरमें स्त्री, पुत्रशुद्धि, अन्न, वस्त्र, भूषणोंकी प्राप्ति श्रेष्ठमणि, सुवर्णलाभ ॥ ११ ॥ अंगीकारका संपादन न करना शूरता, मूल्य आदि गिरना (बिकदरी) अपने बंधुजनोंमें शत्रुता और शिर, नेत्र, गुदामें, पीडन होवै ॥ १२ ॥

तृतीयलाभयुक्तस्य केतोः पाके परं सुखम् ॥ शुभभुक्तौ नृपा-  
त्प्रीतिं विचित्रांवरभूषणम् ॥ १३ ॥ वाहनं भूमिलाभं च गंधमा-  
ल्यानुलेपनम् ॥ दूरात्करागमं चैव स्वबंधुजनपूज्यताम् ॥ १४ ॥  
पापभुक्तौ तथा जंतोः पापकर्मसमाचरेत् ॥ सर्वेषां विघ्नकर्तृत्वं  
बंधुभिस्त्यक्तजीवनम् ॥ १५ ॥ परप्रेष्यं कुवस्त्रं च भुक्त्यादौ  
फलमीदृशम् ॥ भुक्त्यन्ते सुखमाप्नोति दारपुत्रधनागमम् ॥ १६ ॥

तीसरे ग्यारहवें भावगत केतुकी दशा शुभांतरमें परमसुख, राजाकी प्रसन्नता, अनेकपका-  
रके वस्त्र भूषण ॥ १३ ॥ वाहन, भूमिका लाभ, चंदन, पुष्पादि सुगंधिलेपन, दूरसे करकी  
आमद, अपने बंधुवर्गसे पूज्यता मिलतीहै ॥ १४ ॥ पापांतरमें जीवकी हिंसा आदि पाप-  
कर्म करे सबका विघ्न करनेवाला होवै बन्धुजनसे परित्यक्तता ॥ १५ ॥ पराई दूतता, कुवस्त्र,  
इतने फल दशाके आदिमें मिलतेहैं दशांतरमें सुख, स्त्री, पुत्र, धनका आगम होवै ॥ १६ ॥

धनस्थितध्वजस्यापि परिपाके शुभेतरा ॥ करोति विविधं दुःखं  
भैक्ष्यमन्नं मनोरुजम् ॥ १७ ॥ पुत्रमित्रकलत्राणां नाशनं महदा-

पदम् ॥ राज्ञा चौरैण वा वित्तं ह्वियते बंधुनाशनम् ॥ १८ ॥  
 शुभभुक्तौ धनाप्तिं च विद्यावादजयावहम् ॥ परोपकारं सर्वेषां  
 भोजनांबरभूषणम् ॥ १९ ॥ भुक्त्यादौ फलमेवं स्यादंते किंचि-  
 द्धनव्ययम् ॥ वाक्पारुष्यं मनोद्वेगं प्रवृत्तेर्भगमेव वा ॥ २० ॥  
 इति केतुपाकान्तर्दशाफलम् ॥

द्वितीयभावगत केतुदशा पापांतरमें अनेक प्रकार दुःख, भिक्षाका अन्त, मनमें रोग ॥ १७ ॥  
 पुत्र मित्र स्त्रियोका नाश, बडी आपत्ति मिले, राजासे चोरसे धन हरण होवै, बंधुनाशन होवै  
 ॥ १८ ॥ शुभांतरमें धनप्राप्ति, विद्या, विवादमें जयमिले सबका उपकार होवै, भोजन, वस्त्र,  
 भूषण मिलें ॥ १९ ॥ दशाके आदिमें ऐसे फल होतेहैं अंतमें थोडा धन व्यय होवै, वाणीकी  
 कठोरता, मन उद्विग्न और कार्यमयुक्तिका भंग होवै ॥ २० ॥ इति केतुपाकान्तर्दशाफलम् ॥

अथ शुक्रांतर्दशाफलम् ।

केन्द्रस्थितस्य शुक्रस्य सौम्यानां तु हतिर्यदा ॥ राज्याप्तिं राज-  
 सन्मानं यानांवरविभूषणम् ॥ १ ॥ उत्साहं कीर्तिसंपत्तिस्त्री-  
 पुत्रधनसंपदः ॥ भाग्योत्तरं मनोधैर्यं राजद्वाराधिपत्यताम् ॥ २ ॥  
 तथाविधस्य वाऽच्छस्य पापभुक्तौ धनक्षयम् ॥ कुभोजनं कुवस्त्रं  
 च शुभकर्मविनाशनम् ॥ ३ ॥ भुक्त्यादौ फलमेवं स्यादंते शोभ-  
 नमादिशेत् ॥ गृहगोभूमिलाभं च दूरदेशाद्धनागमम् ॥ ४ ॥

अथ शुक्रदशांतरफल फलतेहैं केन्द्रगत शुक्रदशा शुभग्रहोंके अंतर जब होवै तब राज्य,  
 राजसन्मान, सवारी, वस्त्र, भूषण ॥ १ ॥ उत्साह, कीर्ति, संपत्ति और स्त्री, पुत्र, धनकी  
 संपत्ति होवै ॥ २ ॥ केन्द्रगत शुक्र पापांतरमें धनहानि, कुभोजन, कुवस्त्र, शुभकर्मका नाश  
 होताहै ॥ ३ ॥ इतनेफल दशाके आदिमें होतेहैं अंतमें शुभफल कहना कृषि, गो, भूमिलाभ,  
 दूरदेशसे धनकी आमद होवै ॥ ४ ॥

त्रिकोणस्थस्य शुक्रस्य शुभभुक्तौ शुभक्रिया ॥ देवभूसुरभक्तिश्च  
 सुतदारविबर्द्धनम् ॥ ५ ॥ यज्ञादिकर्मलाभं च गोभूषणमथो ज-  
 यम् ॥ आरोग्यं देहकांतिं च चिंतितार्थमनोरथम् ॥ ६ ॥ तथा-  
 विधस्य शुक्रस्य पापभुक्तौ मनोरुजम् ॥ अनारोग्यममर्यादिं  
 नृपचौराग्निपीडनम् ॥ ७ ॥ कुस्त्रीसंगं कुवार्तां च बंधुद्वेषं मतिभ्र-  
 मम् ॥ दुःखत्रं मौलिपतनमपकीर्तिं लभेत्रः ॥ ८ ॥



त्रिकोणगतं शुक्रकी दशा शुभांतरमें शुभकार्य, देवता ब्राह्मणकी भक्ति, पुत्र, स्त्रीकी वृद्धि ॥ ५ ॥ यज्ञादिकार्यका लाभ गो, भूषण, सग्राममें विजय, निरोगिता, शरीरकी काति वृद्धि, मनकी अभिलाषा पूर्ण होतीहै ॥ ६ ॥ त्रिकोणगत शुकदशा पापांतरमें मानसीरोग, तथा अनेक रोग, अमर्यादाके काम, राजा चोर, अग्निसे पीडन ॥ ७ ॥ निन्द्य स्त्रीका सग, निषिद्ध-वार्त्तामें मृत्ति, बधुजनसे वैर, बुद्धिभ्रम, दुष्टस्वप्न देखने, शिरोगत श्रेष्ठ मनुष्यका गिरना और अपयश होवै ॥ ८ ॥

पाके शुक्रस्य दुःस्थस्य शुभभुक्तौ महद्यशः ॥ राजसन्मानमर्था  
तिं पुत्रस्त्रीधनसंपदः ॥ ९ ॥ वस्त्रवाहनभूपातिमादौ चान्ते मनो-  
रुजम् ॥ बन्धुद्वेषं गुरोर्नाशं स्वकुलोद्भवनाशनम् ॥ १० ॥  
शुभग्रहाणां भुक्तौ तु देहारोग्यं महत्सुखम् ॥ परान्नं पट्टवस्त्रातिं  
गंधमाल्यविभूषणम् ॥ ११ ॥ भुक्त्यादौ फलमेवं स्यादंते क्लेश-  
करं भवेत् ॥ चौरारिदेहपीडां च स्वबंधुजननाशनम् ॥ १२ ॥

दुष्टस्थान ६ । ८ । १२ गत शुक्रकी दशा शुभांतरमें बढापश, राजासे सन्मान, धन-  
प्राप्ति, पुत्र, स्त्री, धनकी संपत्ति ॥ ९ ॥ वस्त्र, वाहन, भूषणप्राप्ति, ऐसे फल दशादिमें होतेहैं  
अंत्यमें मानसीरोग, बधुजनसे वैर, गुरुजनका नाश, अपने कुलवालेका नाश होताहै ॥ १० ॥  
ऐसे शुकदशा शुभांतरमें देहमें निरोगिता, बढासुख, परान्न, रेश्मी वस्त्रोंकी प्राप्ति, चदन, पुष्प,  
भूषण, मिलतेहैं ऐसे फल दशाके आदिमें होतेहैं अंतमें क्लेश करनेवाली होतीहै चोर, अग्नि, भय,  
शरीरपीडा, और अपने बधुजनका नाश होताहै ॥ ११ ॥ १२ ॥

तृतीयायस्थशुक्रस्य परिपाके शुभेतरा ॥ हातिर्दुःखमवाप्नोति  
धनधान्यविनाशनम् ॥ १३ ॥ उद्योगभंगं क्लेशं च चौराग्निनृप  
पीडनम् ॥ भूमिवादं स्वबंधूनां नाशनं स्वपदस्य च ॥ १४ ॥  
तथाविधस्य शुक्रस्य शुभभुक्तौ महत्सुखम् ॥ नृषपूजां मनोवैर्यं  
देशग्रामाधिपत्यताम् ॥ १५ ॥ वाहनं भण्डार्तिं च पुत्रस्त्रीभृत्य-  
संपदः ॥ प्रपारामतडागानां निर्माणं धर्मसंग्रहम् ॥ १६ ॥

तीसरे ग्यारहवें शुक्रकी दशा पापांतरमें दुःख पाताहै धन अन्नका नाश ॥ १३ ॥  
उद्यमभंग, क्लेश, चोर, अग्नि, राजासे पीडन, भूमिविषय विवाद, बधुजनकी हानि और  
अपने पदकीभी हानि होतीहै ॥ १४ ॥ ऐसे ३ । ११ भाषगत शुक्रकी दशा शुभांतरमें  
बढासुख, राजासे पूज्यता, मनमें वैर्य, देश, एव गावका आधिपत्य ( मालकी ) ॥ १५ ॥  
वाहन, भूषणोंकी प्राप्ति, पुत्र, स्त्री, सेवकोंकी वृद्धि, प्याऊ बगीचा, तालाबका बनाना और  
धर्मका समग्र होताहै ॥ १६ ॥

धनस्थस्यापि शुक्रस्य शुभभुक्तौ महत्प्रियम् ॥ दारपुत्रार्थलाभं च  
स्ववंधुजनरक्षणम् ॥ १७ ॥ विद्याजयं मनोह्रासं देवभूसुरतर्पणम् ॥  
यज्ञादिकर्मलाभं च लभेन्नमद्वयं तथा ॥ १८ ॥ धनस्थितस्य शुक्र-  
स्य पापभुक्तौ भृशं वदेत् ॥ राजदण्डं मनोदुःखं तद्द्रोगाक्षिप्रपीड-  
नम् ॥ १९ ॥ विद्यावादं कृषेर्नाशं कर्महानिं पदभ्रमम् ॥ वह्निचौरारि-  
भीतिं च लभते नात्र संशयः ॥ २० ॥ इति शुक्रपाकान्तर्दशाफलम् ।

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ राहुकेत्वादिदशान्तर्दशाफल  
निरूपणोनाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

धनभावगत शुक्रकी दशा शुभांतरमे बडी मसन्नता होवै स्त्री, पुत्र, धनलाभ, अपने बं-  
जनोकी रक्षा ॥ १७ ॥ विद्यासे विजय, मनके दृष्टाद, देवता, ब्राह्मणोका पूजन, यज्ञ आ  
कर्मका लाभ, तथा दो नाम ( अधिकारी दूसरा नाम ) पावै ॥ १८ ॥ धनगत शुक्रद-  
पापांतरमे वारंवार राजदण्ड, मनमें दुःख, हृदय रोग, नेत्रपीडा ॥ १९ ॥ विद्यासम्बधि विवा-  
कृषिका नाश, कर्मकी हानि, पदमें भ्रम, अग्नि चोर शत्रुका भय निःस्संदेह पाताहै ॥ २० ॥  
इति शुक्रपाकान्तर्दशाफलम् ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरीभाषाया राहुकेत्वादिदशान्तर्दशाफलनिरूपणाध्यायः षोडशः १

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अथ प्रकीर्णाध्यायः ।

यद्यज्जन्मनि नक्षत्रे वृद्धिभावमुपेयुषि ॥ तस्य श्रीरायुरारोग्यं  
भवत्येवं विनिश्चयः ॥ १ ॥ तिथ्यादिषु तथा वान्यं क्षये तस्मिन्  
क्षयो भवेत् ॥ तिथिरकगुणा प्रोक्ता ऋक्षं दशगुणं भवेत् ॥ लग्नं  
लक्षगुणं प्रोक्तं तत्समूहे फलादिकम् ॥ २ ॥

निसर्के जन्ममें नक्षत्र वृद्धिगत, अर्थत् ६० घटा पूर्ण रहकर दूसरे दिनभी चलाजावै औ-  
गन्मसे पूर्वदिनमे उसका स्पश होनावै मकारान्तरसे घटिकाओमें बढता जो नक्षत्र है उसकोभ  
वृद्धिभाव कहसकतेहै ऐसेमें निसर्का जन्म हो उसकी श्री, ( शोभा ) आपु नरुण्यता, होती  
यह निश्चयहै ॥ १ ॥ तिथ्यादियोंमें भी ऐसाही फल कहना ऐसे क्षय तिथि नक्षत्रादियोंमें  
जन्मवालेके उन श्री आदिषु क्षय कहना, इसमें तिथिका फल एकगुण नक्षत्रका दशगुण  
एकषा दशगुण कहाहै इन सबके समूहसे फलादि कहना ॥ २ ॥

केन्द्रस्थिता जन्मनि यस्य कस्य पापाश्च सर्वे विफलप्रदाः स्युः ॥  
 कुर्वन्ति दारिद्र्यमनेकदुःखं श्वासक्षयप्लीहगुदोदरार्तिम् ॥ ३ ॥  
 पापग्रहे कर्मगतैति नीचे वक्रान्विते पापखगैः प्रदृष्टे ॥ नाशं  
 कलत्रस्य वदन्ति नूनं मुनीश्वरास्तद्बदनेकशास्त्रैः ॥ ४ ॥ दुःखी  
 मूढो लोकविद्वेषकारी काणः पंगुर्निर्धनो मानहीनः ॥ अल्पायुः  
 स्यात्केंद्रगाः पापखेटा ब्रह्मद्वेषी चापकीर्तिश्च सर्वे ॥ ५ ॥

जिस किसीके जन्ममें पापग्रह केंद्रोंमें होंवें तो सब पाप शुभफल नहीं देते, दरिद्रता, अने-  
 दुःख, श्वास, क्षय, प्लीहा, गुदरोग उदररोग, करतेहै ॥ ३ ॥ दशमस्थानमें अतिनीचगत  
 ग्रह वक्रगतिपुक्त ग्रहोंसे दृष्ट होवे तो मुनीश्वर अनेक शास्त्रोंसे निश्चय स्त्रीका नाश करतेहै  
 ४ ॥ समस्त पापग्रह केंद्रोंमें शुभरहित होनेमें दुःखी, मूर्ख लोगोंमें विद्वेष करनेवाळा, काणा,  
 ५ ( खोडा ) निर्धन, मानहीन, अल्पायु, ब्राह्मणोंका द्वेषी और अपकीर्तिवाळा होताहै ॥ ५ ॥  
 शंकराचार्यमते तु—लग्ने माने सप्तमे चाथ बंधौ पापाः खेटा ज-  
 न्मकाले तु सर्वे ॥ तिष्ठन्त्येते स्वल्पमायुष्प्रमाणं तेषामेको लग्न-  
 पो वा यदि स्यात् ॥ ६ ॥ तथापि तद्योगफलप्रमाणं तादृग्विधं  
 स्यान्मनयो वदन्ति ॥ स्वनीचभागादि महीपयोगेष्येवं फलं  
 दुःखितनिर्गतायुः ॥ ७ ॥ तथास्थिते जन्मनि यस्य कस्य बाल्ये  
 च पित्रोर्मरणं च कष्टम् ॥ भिक्षाशनेनाप्युदरस्य पूर्तिस्तदा भव-  
 त्येव तदंगहानिः ॥ ८ ॥

शंकर नामा आचार्यका मतहै कि, लग्न दशम सप्तम और चतुर्थमे पापग्रह सभी जन्मका-  
 र्ये होंवें तो आयुका प्रमाण थोडा होवै यदि उनमें एकग्रह लग्नशमी हो ॥ ६ ॥ तोभी उस  
 गका फलप्रमाण मुनिजन उसी प्रकार कहते है यदि राजयोगभी होवै किन्तु राजयोगकारक  
 ; अपने नीचाशादिकोंमें होंवें तोभी वही फल और दुःखित, गतायु होताहै ॥ ७ ॥ ऐसे  
 द्रगत समस्त पापयोगमें जिस किसीका जन्म होवै तो बाल्यावस्थामें माता पिताका मरण  
 र कष्टभी होवै भिक्षाका अन्न खाकरके पेटकी पूर्ति और उसकी अगकी हानि होतीहै ॥ ८ ॥  
 स्वनीचभागादिमहीपयोगे जातेपि यस्यापि नरस्य कस्य ॥  
 केन्द्रत्रिकोणेषु शुभो यदि स्यात्तद्राजयोगं सफलं वदन्ति ॥ ९ ॥  
 स्वांशेक्षिते लग्नगते क्रमांशे जीवेन दृष्टे धनराशिपेन ॥ स्वनी-  
 चभागादिमहीपयोगे जातोपि भूमेरधिपत्यमेति ॥ १० ॥ एवं

चिन्तामणौ प्रोक्तं वैकटेशेन धीमता ॥ नीचभागादियोगार्थः  
राजयोगादिजं फलम् ॥ ११ ॥

यदि किसीका नीचांशकादिगत ग्रहर्जन्य राजयोग हुयेमें यदि केन्द्र त्रिकोणमें शुभग्रहमें होवै तो राजयोगका फल सफल होना कहतेहैं ॥ ९ ॥ अपने नवांशकमें शुभग्रहसे दृष्ट लग्नमें स्थित, वह राजयोग कर्ता ग्रह गुरुदृष्ट, धनेश दृष्ट, होवै तो पूर्वोक्त स्वनीच भागा राजयोगमें केन्द्रस्थ पापग्रहोंमेंभी इनके फलको हटायके भूमिके आधिपत्यको प्राप्त होता ॥ १० ॥ इसप्रकार सर्वार्थचिन्तामणिमें धीमान् वैकटेशने नीचांशकादि योगार्थ सहित राज योगादिका फल कहाहै ॥ ११ ॥

अथ द्रेष्काणाः ॥ मेपद्वितीयो मिथुनः पूर्णः सिंहस्य प्रथमः  
खगद्रेष्काणः कर्कस्य द्वितीयतृतीयौ वृश्चिकस्य प्रथमतृतीयौ  
मीनतृतीयो व्यालः मकराद्यो निगडः ॥ १२ ॥

प्रथम फलोदेशमें खगादि द्रेष्काण कहेंहैं उनकी संज्ञा कहते हैं कि मेषका दूसरा मिथुनवै तीनों और सिंहका प्रथम खग द्रेष्काण कर्कके दूसरे तीसरे वृश्चिकका प्रथम तीसरा और मीन का तीसरा व्याल ( सर्प ) मकरका प्रथम निगट द्रेष्काण होतेहैं ॥ १२ ॥

रविभौमार्कजाः शुष्काः सजलौ चन्द्रभार्गवौ ॥ बुधवाचस्पती  
ज्ञेयौ सजलौ जलराशिगौ ॥ १३ ॥ कुम्भकर्कटकौ मीनमकरालि-  
तुलाधराः ॥ संजला राशयः प्रोक्ता निर्जलाः शेषराशयः ॥ १४ ॥

इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ प्रकीर्णभावफलनिरूपणो-  
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

सूर्य मंगल शनि शुष्क चंद्रमा शुक्र गोलहें बुध वृहस्पति जलराशियोंमें गोल अन्यराशियोंमें शुष्क हैं ॥ १३ ॥ कुंभ कर्क मीन मकर वृश्चिक तुला सजल अन्यानिर्जल राशिहैं ॥ १४ ॥ इति श्रीसर्वार्थचिन्तामणौ माहीधरीभाषायां प्रकीर्णभावफलनिरूपणाऽध्यायः सप्तदशः ॥ १७ ॥

अथ ग्रहफल-बाधककारकत्वम् ।

जन्मन्यको हिमकरसुतः सैहिकेयः सुरेज्यः केतुश्चंद्रो दिनकर  
सुतो भार्गवो भूमिपुत्रः ॥ तापं कान्तिं क्षतिधृतिलयं कीर्तिहानिं  
प्रमोदं मृत्युं तारावलमनुदिनं संचरन्ति क्रमेण ॥ १ ॥

जन्ममें तारा जन्म नक्षत्रसे ९ के स्वामि फलसहित ग्रह इस क्रमसेहैं कि सूर्यसे ताप बुधसे पाति राहुसे हानि गुरुसे धारण पेटुसे लय चंद्रमासे कीर्ति शनिसे हानि शुक्रसे स-  
मंगलसे मृत्यु इस क्रमसे ताराहें ॥ १ ॥

परबाधकत्वमाह ॥ क्रमाच्च रागद्विश-  
गास्तदीशाः ॥ स्वशशाङ्गिस्थितराशि-  
वेचराः स्युः ॥२॥ द्युमणिरमरमन्त्री भूसुतः  
तनयारौ भार्गवो भानुपुत्रः ॥ दिनकरदिविजे-  
दाः सुरगुरुरिनसूनुः कारकाख्याविलग्नात् ॥३॥

होका बाधकत्व कहतेहै क्रमसे चरराशिपोंके स्वामी ११ एकादशमें  
स्वभावोंके सप्तममें क्रमसे राहु केतुस्थित राशिस्वामी अतीव बाधाका-  
रक अव कारक कहतेहै. लग्नमें सूर्य दूसरा गुरु तीसरा मंगल पंच चंद्र बुध  
छ सप्तममें शुक्र अष्टममें शनि नवममें सूर्य गुरु दशममें गुरु सूर्य बुध शनि  
बारहवेंमें शनि कारक होतेहै ॥ ३ ॥ इति ग्रहपञ्चबाधकारकत्वनिरूपणम् ॥

अथ कारकसूत्राणि ।

तापारोग्यमनःशुचिरुचिज्ञानोदयकारकः सूर्यः ॥ १ ॥  
शमरयशोदयामोदकांतिमुखलावण्यमातृमनःप्रसादकारक-  
॥ २ ॥ पराक्रमविजयविख्यातिसंग्रामसाहससेनापत्य  
स्वखड्गपरश्वधकुंतकुठारशतश्रीभिदिपालधनुर्वाणनैपुण्य-  
तिगांभीर्यकामक्रोधशत्रुवृद्धि आग्रहावग्रहपरापवादस्वतं-  
तकारकः कुजः ॥ ३ ॥ संततिशांतिविनयभक्तिमातिमातु-  
ज्ञातिगोत्रसमृद्धिगणितप्रज्ञावेदांतविद्याकारको बुधः ॥  
वाग्धोरणीमंत्रराजतंत्रनैष्टिकगजतुरगयाननिगमावबोध-  
सपञ्जीवनोपायकर्मयोगसिंहासनकारको गुरुः ॥ ५ ॥  
साहित्यदास्यरसाद्भुतमदनयुवतिरतिकेलिविलासविचित्र-  
दिर्यराजवशीकरणराजमुखवशीकरणगारुडेन्द्रजालमा-  
द्यमहदणिमाद्यष्टैश्वर्यकाव्यकलासमभोगकलत्रकारकः  
॥ ६ ॥ लोभमोहविपमपरपीडानियतिनैपुण्यदुर्मतिदारि-  
मयवातवंचनमाहिपीयवागूकृष्णधान्यायुष्यजीवनोपा-  
यः शत्रुः ॥ ७ ॥ गुरुः पतिपालनकारको राहुः ॥ ८ ॥

पिता. प्रताप. आरोग्य. मनकी'

चामर. यश. दया. हर्ष. काति

क्रम. विजय. ख्याति. संग्राम.

तोष. भिदिपाठ. धनुष. बाण.

अवग्रह. कलंक. स्वातंत्र्य. धार्ड. भूमिका

बुद्धि. मामा. बांधव ( विरादर ) सगोत्र. समूह

बाणी. सवारी. मंत्र, राजतंत्रनिष्ठा, हाथी, वोडा,

जीवनका उपाय, कर्मयोग, सिंहासनकारक गुरु है ॥ ५ ॥

तरस, कामदेव, स्त्री, कामक्रीडा, विठास, चित्रकान्ति, सुंदरता,

गारुडविद्या, इंद्रजालवाला, चातुरी, बडा छंटा होना आदि अष्टेश्वर्य,

स्त्रीकारक शुक है ॥ ६ ॥ मोह लोभ, विषम, परपीडा, निर्धातशब्दादि, निगुरत.

द्रता, दुर्दशा, रोग, वातरोग, टगी, भैष, दलिया, कृष्णजत्र, आयु, जीवनका उप

है ॥ ७ ॥ यश प्रतिष्ठा और छत्र कारक राहु है ॥ ८ ॥ इति सर्वार्थचिन्तामणौका

श्रीवैक्रमे क्षितिरसांकुसम्मिते द्वे धर्माधिकारि पदधारि महोपरेण ॥

गूढार्थबोधनकरी विवृतिः स्वबुद्ध्या सद्भाषया व्यरचि टीहरिराशधान्याम

कृतार्थयन्तु विद्वांसो होरामर्मविशारदाः ॥ दृष्ट्वा भ्रमं स्वसौजन्यात्पूरयन्तु ॥

ये केचित्समदाः स्वीयाऽबोधेन विहसन्ति माम् ॥ ते छिद्धान्वेषणपरास्तुष्यन्तु ॥

ममाभीष्टन्तु सर्वेषामुपकारोत्र कारणम् ॥ श्रेष्ठिने खेमराजाय ग्रन्थोयं विनिवे

॥ शुभमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥



मुद्रक मिट्ठेका ठिकाना-

खेमराज श्रीकृष्णदास, "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम्-पन्नालय-वं